



# आदिब्रह्मपुराण भाषा का

अध्याय	विषय	पृष्ठ	तक
		३६६	३६८
१	आदिसर्ग वर्णन ॥	३६८	३७४
२	सृष्टिकथन ॥	३७४	३८६
३	देवता और असुरों की उत्पत्ति ॥	३७०	३८१
४	पृथु उपाख्यान वर्णन ॥	३७४	३६६
५	मन्वन्तरो का कीर्तन ॥	३७	४२
६	आदित्य की उत्पत्ति का कहना ॥	४०	४८
७	सूर्यवश का वर्णन ॥	४८	५८
८	आदित्य वंशका कीर्तन ॥	५८	६६
९	सोम की उत्पत्ति वर्णन ॥	६६	७१
१०	अमावस के वश का कीर्तन ॥	७१	७७
११	सोमवश के क्षत्रियो की उत्पत्ति ॥	७७	८८
१२	ययाति का चरित वर्णन ॥	८८	९२
१३	ययाति के वश का कीर्तन ॥	९०	१०८
१४	हृष्ण के वश का चरित ॥	१०८	११३
१५	वृष्णिवश का कीर्तन ॥	११४	११८
१६	स्यमन्तक का प्रत्यानयन ॥	११८	१२२
१७	स्यमन्तकमणि का उपाख्यान और सोमवंश वर्णन ॥	१२२	१२६
१८	भुवनकोष वर्णन ॥	१२६	१३१
१९	समुद्रों और द्वीपों का वर्णन ॥	१३१	१३७
२०	पाताल वर्णन ॥	१३०	१३९
२१	नरको का कीर्तन ॥	१४०	१४४
२२	भुः भुवः स्वरपदि कीर्तन ॥	१४४	१४७
२३	ध्रुव स्थिति वर्णन ॥	१४७	१४९
२४	तार्यों के माहात्म्य का वर्णन ॥	१४९	१५५
२५	मुनियो के प्रश्न का वर्णन ॥	१५६	१५९
२६	भारतगुण कीर्तन ॥	१५९	१६४
२७	कोणादित्य का माहात्म्य वर्णन ॥	१६४	१६९
२८	सूर्य की भक्ति और नियमसे पूजाकरनेका माहात्म्य ॥	१६९	१७५
२९	सूर्य की प्रधानता का वर्णन ॥	१७५	१८२
३०	सूर्य के चौबीस नामों का वर्णन ॥	१८०	१८५
३१	सूर्यके जन्म का कथन ॥	१८५	१९४
३२	सूर्य की माहात्म्य और १०८ नामों का वर्णन ॥	१९४	१९८
३३	सतीका पिताकी यज्ञमें देहत्याग व पार्वतीनामसे हिमा		

	विषय	पृष्ठ	पृष्ठ
	गद्दा उत्पत्ति और तपसे शिवजी भर्ता हो यह वरदान । वर्णन ॥	१८८	२०६
	। और शिवजीका सम्वाद वर्णन ॥	२०६	२११
	। से शिवजीका विवाह वर्णन ॥	२११	२२२
२६	।दि देवतां करके शिवजी की स्तुति वर्णन ॥	२२३	२२५
३०	पा. ॥ और शिव करके हिमवान् का परित्याग वर्णन ॥	२२५	२२८
३८	दक्षकी यज्ञ का विध्वंस वर्णन ॥	२२८	२३६
३९	दक्षका सहस्रनामसे स्तुति करना ॥	२३६	२४०
४०	एकाम्रकहेत्र का माहात्म्य वर्णन ॥	२४०	२५४
४१	उत्कलहेत्र का वर्णन ॥	२५४	२५८
४२	अग्रन्तिनापुरी वर्णन ॥	२५८	२६४
४३	त्रैलोक्यदर्शन वर्णन ॥	२६५	२८०
४४	पूर्वके वृत्तान्तों का वर्णन ॥	२८०	२८६
४५	पुनः त्रैलोक्यदर्शन वर्णन ॥	२८०	२८६
४६	इन्द्रद्युम्न राजा के प्रासाद करणका वर्णन ॥	२८९	२९५
४७	कारुण्यस्त्रव वर्णन ॥	२९५	२९९
४८	इन्द्रद्युम्न राजाका भगवान्की माया व भगवान्का दर्शनवर्णन ॥	२९९	३०६
४९	ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी मे भगवान्के दर्शनका माहात्म्य वर्णन ॥	३०६	३०९
५०	मार्कण्डेय दर्शन वर्णन ॥	३०९	३०९
५१	मार्कण्डेय जल भ्रमण वर्णन ॥	३०९	३०९
५२	मार्कण्डेयना विष्णु के उदर में परिवर्तन वर्णन ॥	३०९	३०६
५३	मार्कण्डेय करके भगवान्स्तत्र वर्णन ॥	३०६	३०९
५४	मार्कण्डेयका भगवान् दर्शन वर्णन ॥	३०९	३१६
५५	कृष्ण बलदेव और सुभद्रा के दर्शन का फल वर्णन ॥	३१६	३२१
५६	नारसिंह माहात्म्य वर्णन ॥	३२१	३२६
५७	श्वेतमाधव माहात्म्य वर्णन ॥	३२६	३३४
५८	समुद्र स्नान विधि वर्णन ॥	३३४	३३९
५९	गुणाविधि वर्णन ॥	३३९	३४३
६०	समुद्रस्नान माहात्म्य वर्णन ॥	३४३	३४५
६१	पंचतीर्थ माहात्म्य वर्णन ॥	३४५	३४७
६२	महाज्येष्ठी प्रशंसा वर्णन ॥	३४७	३४८
६३	दृग्गस्नान माहात्म्य वर्णन ॥	३४८	३५४
६४	गृहिकाहेत्र माहात्म्य वर्णन ॥	३५४	३५६
६५	यज्ञा फल माहात्म्य वर्णन ॥	३५६	३६१
६६	विष्णुलोक का कर्तन ॥	३६१	३६६

अध्याय	विषय	पृष्ठ	लक्ष
६०	क्षेत्रमाहात्म्य वर्णन ॥	३६६	३६८
६८	अनन्त वासुदेव माहात्म्य वर्णन ॥	३६८	३७४
६९	पुनः क्षेत्र माहात्म्य वर्णन ॥	३७४	३७६
७०	कडु उपाख्यान वर्णन ॥	३७७	३८१
७१	स्वयम्भू और ऋषिके सम्वाद में ऋषिप्रश्न कथन ॥	३८२	३८७
७२	धिष्णुका चतुर्थ्य हृत्य वर्णन ॥	३८७	४००
७३	व्यास और ऋषियो का सम्वाद वर्णन ॥	४००	४०१
७४	अंशावतारकरके योगनिद्राको आज्ञा देना वर्णन ॥	४०१	४०४
७५	श्रीकृष्ण जन्म कथन ॥	४०४	४०७
७६	कृष्ण बालचरित्र वर्णन ॥	४०७	४०८
७७	पुनः कृष्ण बालक्रीड़ा वर्णन ॥	४०८	४१२
७८	कालीनाग दमन ॥	४१२	४१६
७९	गोवर्द्धनगिरि माहात्म्य वर्णन ॥	४१६	४२२
८०	श्रीकृष्ण का इन्द्रके जनवृष्टि करने से गोवर्द्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियो की रक्षा करना वर्णन ॥	४२२	४२६
८१	कृष्ण बालचरित्र वर्णन ॥	४२६	४३१
८२	केशीदेत्य बध ॥	४३१	४३४
८३	अक्रूरका श्रीकृष्ण व बलरामकेलेनेकेलिये मथुरापुरीसेगमनकरना ॥	४३४	४३७
८४	श्रीकृष्ण का धोर्वा को बध माली को वरदान देना वर्णन ॥	४३७	४४३
८५	श्रीकृष्णका कुचडी को नवयुवा स्त्री बना धनुष तोड़ पुनः कु- बलयापोड हाथी व चाणूर मुष्टिकादि महादुष्ट दैत्यो को मार पश्चात् कस अपने मामा को मारना ॥	४४३	४४९
८६	श्रीकृष्ण का कसकी रानियोको अनेक प्रकारसे शान्तिकर अपने मातापिताकी बेड़ीकाटि उग्रसेनको राज्यासनदे पश्चात् सादीपनि अपने गुरुके पुत्रोको यमपुरीसेला जरासन्धसे युद्ध करना वर्णन ॥	४४९	४५२
८७	बलदेव सहित गोपियो का गावा ॥	४५२	४५९
८८	बलदेवका यमुनानदीको हलमूथल से निकटखीचलेना वर्णन ॥	४५९	४६०
८९	रुक्मिणीहरण प्रद्युम्न उत्पत्ति ॥	४६०	४६१
९०	बलदेव करके रुक्मी बध ॥	४६१	४६५
९१	कृष्ण करके नरकासुर बध ॥	४६५	४६७
९२	श्रीकृष्णका कल्पवृक्ष लाना वर्णन ॥	४६७	४७५
९३	ऊषा का स्वप्न में अनिरुद्ध को देख चित्ररेखा अपनी सखी से अनिरुद्ध के लाने की आज्ञा देना वर्णन ॥	४७५	४७७
९४	ऊषा और अनिरुद्ध का विवाह ॥	४७७	४८०
९५	श्रीकृष्ण करके पांडक वासुदेव बध ॥	४८१	४८४

अध्याय	विषय	अध्याय संख्या	पृष्ठ संख्या
८६	वलदेव माहात्म्य वर्णन ॥	४८४	४८०
८७	वलदेव करके द्विविद वानर वध ॥	४८७	४८६
८८	श्रीकृष्ण का परमधाम गमन ॥	४८८	४६४
८९	श्रीकृष्ण के परमधाम जाने पश्चात् वसुदेव देवकी रोहिणी और सुकिष्णी आदि आठो पटरानियों का श्रीकृष्ण को लाग के संग अग्निमें प्रवेश कर देह त्याग करना पुनः अर्जुन का शोक युक्त इन सबों को प्रेत क्रिया कर शेष रानियों को हस्तिनापुर लेजातेहुये बीचमें आभीरों करके सब रानियों का हरजाना वर्णन ॥	४९४	५०२
१००	यमराजके लोकका अग सहित स्वरूप वर्णन ॥	५०२	५१०
१०१	यमराजका पापीपुरुषोंको कियेकर्मका प्रथमदण्डदेनावर्णन ॥	५१०	५०१
१०२	धार्मिक पुरुषों का आनन्दपूर्वक यमलोक जाना वर्णन ॥	५२१	५०८
१०३	संसार चक्र वर्णन ॥	५२८	५३८
१०४	पुनः संसार चक्र वर्णन ॥	५३८	५४०
१०५	श्राद्ध विधि वर्णन ॥	५४०	५५०
१०६	पुनः श्राद्ध विधि वर्णन ॥	५५०	५६०
१०७	गृहस्थाश्रम में सत् आचरण करना वर्णन ॥	५६०	५८१
१०८	व्यासात्सायन्संवाद में वर्णाश्रम वर्णन ॥	५८१	५८५
१०९	उमा महेश्वर संवाद वर्णन ॥	५८६	५९१
११०	पुनः उमा महेश्वर संवाद वर्णन ॥	५९१	५९६
१११	पुनः उमा महेश्वर संवाद वर्णन ॥	५९६	६००
११२	शिवजीका मुनियोकेसंवादमें देवकीसुतभगवान्को पूजावतलाना ॥	६००	६०६
११३	विष्णु भक्तों की गति वर्णन ॥	६०६	६१०
११४	विष्णु के जागरण में गीतकाकी प्रशंसा वर्णन ॥	६१०	६२२
११५	विष्णु के धर्मोंका वर्णन ॥	६२२	६३०
११६	कलियुगके नियम वर्णन ॥	६३०	६३७
११७	कलियुग के होनेवाले धर्मों का वर्णन ॥	६३७	६४४
११८	ब्राह्मनैमित्तिक का वर्णन ॥	६४४	६४८
११९	भगवान्को प्राकृतलय का वर्णन ॥	६४८	६५१
१२०	आत्यन्तिक लयका वर्णन ॥	६५२	६५७
१२१	योगाध्याय का वर्णन ॥	६५७	६५८
१२२	सांख्ययोग वर्णन ॥	६६०	६६५
१२३	आत्मविद्या और कर्मोंका वर्णन ॥	६६५	६८२
१२४	सांख्य संवाद का वर्णन ॥	६७२	६७४
१२५	पुराण प्रशंसा वर्णन ॥	६८४	६८८

## आदिब्रह्मपुराण भाषा का विज्ञापन ॥

श्रीभगवान् वेदव्यासजीने संसारीजीवों को संसार सागर से उत्तीर्णहोनेकेलिये नौकारूपी अष्टादशपुराण व बहुत से उपपुराण विरचितकिये—उनमेंसे एक यह आदिब्रह्मपुराण भी है ॥

इसपुराण में ब्रह्मासे लेकर सम्पूर्ण सुर, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्गादि चौरासीयोनियों की उत्पत्ति व सम्पूर्ण अण्डकोशान्तर्गत नदी, नद, पर्वत, वन, उपवनादिकों का विस्तार वर्णनकियागया है जिसेपढ़कर मनुष्य इस विधाताकी अपरम्पार सृष्टि का वृत्त सहजमें समझने लगता है ॥

ऐसा लाभकारीग्रन्थ अबतक संस्कृतमें होनेके कारणसे भाषामात्रके पठन पाठनकर्त्ता पुरुष अच्छेप्रकार इसके अभ्यन्तर को न जानसक्ते थे इसलिये सम्पूर्ण भारततिहासाकाक्षि पुरुषोंके अवलोकनार्थ व बुद्धिबोधार्थ सन्तत धर्मधुरीण श्रीमान् मुन्शीनवलकिशोरजी ने बहुतसाधन व्ययकरके रोहतक प्रदेशान्तर्गत बेरी ग्रामनिवासि पण्डित रविदत्तजीकेद्वारा संस्कृतसे भाषा में प्रतिश्लोक का उल्थाकराकर स्वयंत्रालय में मुद्रित कराय प्रकाशितकिया—आशाहै कि जो महात्मा विद्वान् इसका अवलोकन करेंगे प्रसन्नता पर्वक ग्रहणकरेंगे ॥

इसके सिवाय इस छापेखानेमें और भी बहुत विषय की पुस्तकें संस्कृत से भाषामें उल्थाहोकर मुद्रित

६ आदिब्रह्मपुराण भाषा का विज्ञापन ।

हुई हैं वह निम्नलिखित हैं जिन महाशयों को उनके लेनेकी रुचि हो खत भेजकर कीमतका निर्णय करलें और मूल्य भेजकर मँगालें ॥

पुराणों में—श्रीमद्भागवत बारहोंस्कन्ध, श्रीमहाभारत अठारहोंपर्व—विष्णुपुराण, भविष्यपुराण, लिंगपुराण, नृसिंहपुराण, वामनपुराण, शिवपुराण, स्कन्दपुराण का सेतुबन्दखण्ड, मार्कण्डेयपुराण, गणेशपुराण, जैमिनि पुराणादि और कई एक पुराण उलथाहोरहे हैं वह भी शीघ्र ही मुद्रित होकर दृष्टिगोचर होंगे ॥

काव्यमें—रघुवंश, कुमारसम्भव संस्कृत मूल भाषा टीका और व्याकरण में सारस्वत पूर्वार्द्ध टिप्पणिका सहित ॥

वैद्यकमें—निघण्टरत्नाकर, भैषज्यरत्नावली, भावप्रकाश, रसरत्नाकर व सुश्रुतादि अदृश्य व अपूर्वग्रन्थ ब्रजभाषामें उलथाकरके मुद्रित किये गये हैं ॥

धर्मशास्त्रमें—श्रीमद्भगवद्गीता शङ्करभाष्य तिलकसहित मितक्षरा व मनुस्मृति आदि संस्कृतमूल व भाषा व्याख्या सहित मुद्रित हुये हैं आशा है कि जो विद्वज्जन देखेंगे अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करेंगे ॥



## अथ आदिब्रह्मपुराण भाषा ॥

### पहिला अध्याय ॥

नारायणजी और नरोमें उत्तम तरुजी और देवीजी और सरस्वतीजी और व्यासजी इन्होंको प्रणाम कर ग्रन्थका वर्णन करूं १ और जिन्होंसे प्रपञ्चरहित यह सम्पूर्ण मायारूपी जगत् उत्पन्न होता है और जिन्होंमें स्थित रहता है और जहां अन्तमें लीन होता है और जिन्होंके ध्यानसे मुनिजन प्रपञ्चरहित मोक्षको प्राप्त होते हैं और जो अमल अर्थात् मलोंसे रहित है और नित्य है और समर्थ है और निष्कल है ऐसे पुरुषोत्तम ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं २ और समाधि समयमें जिसको बुधजन शुद्ध और आकाश के सदृश और नित्यानन्द मय और प्रसन्न और अमल और सर्वेश्वर और निर्गुण और व्यक्ताव्यक्तोंसे परे और प्रपञ्चरहित और ध्यानैकगम्य अर्थात् ध्यानसे प्राप्त होनेके योग्य और प्रभु ऐसे नामोंसे ध्यावते हैं इस वास्ते संसार के विनाश



का हेतु और अजर और हरि और मुक्तिद अर्थात् मुक्तिका देनेवाला ऐसेईश्वरको प्रणामकरताहूँ ३ पुण्य रूप और पवित्र और मनोहर और नानाप्रकार के मुनियोंसे आकीर्ण और नानाप्रकारके पुष्पोंसे शोभित ४ और सरल, असलतास, पनस, धव, खैर, आव, जामुन, कैथ, बड़, देवदारु ५ पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, पाटला, सातला, पुत्राग, नागकेसर ६ शाल, ताल, तमाल, नालिकेर, अर्जुन और अन्य चम्पक आदि बहुतसे वृक्ष इन्होंकरके शोभित ७ और अनेक प्रकारके पक्षियोंसे शब्दित और मनोहर और नानाप्रकारके मृगसमूहों से युत और नानाप्रकारके जलाशय और बावलीआदि से अलंकृत ८ और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्यजाति इन्हों करके और वानप्रस्थ गृहस्थ यति ब्रह्मचारी ९ ऋद्धिसहित गोधन इन्होंकरके सब जगहसे अलंकृत और यव गेहूं चना उड़द मूंग तिल ईख इन्हों करके १० और चावल और मधु अर्थात् पवित्रपदार्थ और नानाप्रकारके अन्न इन्होंकरके शोभित ऐसे नैमिषारण्यक्षेत्रमें तहां प्रकाशित अग्निमें आहुति होतेहुये ११ नैमिषारण्य वासियोंके द्वादश वार्षिक अर्थात् बारहवर्षसे होतेहुये तिस महायज्ञमें मुनि और अन्यभी ब्राह्मण आगमन करते भये १२ तब नैमिषारण्य वासिजन तिन आयेहुये मुनि और ब्राह्मणों की यथायोग्य पूजा करते भये तब ऋत्विकों सहित सब आसनों पर स्थित

होगये १३ पीछे तहां मतिमान् और लोमहर्षिनाम  
 से विख्यात ऐसे सूतजीभी आते भये तिसको देख  
 कर आनन्दित हुये सब मुनि पूजनेलगे १४ तब  
 सूतजीभी सबोंको पूजाको ग्रहणकर उत्तम आसन  
 पे स्थित हुये तब वे मुनि सूतजीके सङ्ग आपस में  
 कथा कहनेलगे १५ पीछे कथाके अन्तमें ऋत्विक्  
 और सभापतियों सहित वे दीक्षितहुये मुनि आनन्द  
 से व्यासजीके शिष्य सूतजीसे संशय पूछनेलगे १६  
 मुनियोंने पूछा—हेसत्तम आपपुराण आगमशास्त्रइति-  
 हास और देवता दैत्यों के चरित जन्म कर्म इन्हों  
 को जानते हैं १७ और हे महामते विदशास्त्र भारत  
 पुराण मोक्षशास्त्र इन्होंमें आपको अविदित नहीं जाना  
 हुआ कुछभी नहींहै इसवास्ते आपि सर्वज्ञ हैं १८ सो  
 जैसे देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस इन् आदि  
 चराचर जगत् उत्पन्नहुआहै १९ तैसे हे सूतजी सुनने  
 की हम इच्छा करते हैं सो जैसे यह सबजगत् उपजा  
 है तैसे आपवर्णनकरो और हे महाभाग जो सह जगत्  
 होताभया और फिर होवेगा २० और जिससे यह सब  
 जगत् चराचर उत्पन्न हुआहै और जिसमें यह लीन  
 होताभया अथवा होगा सो सब आपकीहो २१ लोम-  
 हर्षणजी बोले हे मुनिजनों—विकारोंसे रहित और शुद्ध  
 और नित्य और परमात्मा और संदा एकरूप और  
 विष्णु और सर्वविष्णु अर्थात् सबोंमें व्याप्त होनेवाले  
 ऐसे देवको नमस्कारहै २२ और हिरण्यगर्भ और हरि

४ आदिब्रह्मपुराण भा० ।

और शंकर और वासुदेव और तार अर्थात् भक्तों को  
तारनेवाले और सृष्टिस्थिति अन्त इन्होंने कर्ता २३  
और एकानेक स्वरूप और स्थूल सूक्ष्म आत्मावाले  
ऐसे ईश्वरको नमस्कार है और अव्यक्त व्यक्तभूत और  
विष्णु और मुक्तिहेतु २४ और सृष्टिस्थिति विनाश  
इन्होंने हेतु और जगन्मय अर्थात् संसार में व्याप्त  
और मूलरूपी और परमात्मा ऐसे विष्णुको नमस्कार  
है २५ विश्वका आधारभूत और सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म  
और सर्वमूलोंमें स्थित और अच्युत और पुरुषोत्तम  
२६ और ज्ञानस्वरूप और अन्तसे रहित और पर-  
मार्थसे निर्मल और अर्थ स्वरूप और भ्रान्तिके दर्शन  
से स्थित २७ और विश्वको प्रसनेवाले और सृष्टि  
स्थिति करनेवाले और समर्थ आद्य और अतिसूक्ष्म  
और विश्वमें स्थित ऐसे विष्णुको और ब्रह्मा आदि  
देवों को प्रणामकर २८ और इतिहास पुराणको जान-  
नेवाले और वेद वेदाङ्ग के पारको गत हुये और सर्व  
शास्त्रार्थके तत्त्वको जाननेवाले और प्रभु पराशरके  
पुत्र २९ ऐसे गुरुको प्रणामकर वेद सम्मित पुराण  
को कहता हूँ जैसे पहले दक्ष आदि मुनि सत्तमों से ३०  
पूछे हुये ब्रह्माजी कहते मये तैसेही सो आप सुनो  
पापों से छुटानेवाली कथाको मैं कहता हूँ ३१ और  
मुझसे कथ्यमान और विचित्र और बहुत अर्थोंवाली  
और वेदमें संमत अर्थात् मानी हुई ऐसी इस कथाको  
जो नित्य प्रति धारेगा अथवा बारबार सुनेगा ३२ वह

अपने वंशको धारणकर स्वर्गलोकमें पूजाको प्राप्तहो-  
 वेगा और जो नित्य और सत् असत् आत्मक ३३  
 और प्रधान और पुरुष ऐसे ईश्वर इस जगत् को  
 रचतेभये तिस ईश्वरको हे मुनिजनो ब्रह्मजानो ३४  
 सो सब भूतों को रचनेवाला और पवित्र और परा-  
 यण ऐसा वह ब्रह्म है तिससे महानूतत्व उत्पन्नहुआ  
 और महत्त्वसे अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार  
 से पंचभूत उत्पन्न हुये ३५ और तिन पंचभूतोंसे भूत  
 भेद उत्पन्न हुये ऐसे सनातन सर्ग कहा है और मैंने  
 अपनी बुद्धिके अनुसार जैसे सुना है तैसे ३६ चिर-  
 कालतक कीर्तिवाले और पवित्र कर्मोंवाले ऐसों का  
 चरित कहदिया और पीछे नानाप्रकारकी प्रजाको रच-  
 नेकी इच्छा करनेवाले वे ईश्वर ३७ आदिमें जल को  
 रचतेभये और तिसमेंबीजकोरचतेभये और नार नाम  
 जलका है ३८ तिसमें प्रथम स्थान होनेसे ब्रह्मको ना-  
 रायण कहते हैं पीछे तिस ईश्वर की नाभिसे हिरण्य-  
 मय अंडा उपजा ३९ तहां स्वयंभूनाम से विख्यात  
 ब्रह्माजी उत्पन्नहुये ऐसे हमलोगोंनेसुनाहै तहां हिरण्य-  
 गर्भ भगवान् सौ वर्षांतक वासकर ४० पीछे तिस  
 अंडाके दो टुकड़े करतेभये तब एक स्वर्ग और एक  
 पृथिवी हुई ४१ और जलमें डूबीहुई पृथिवीको और  
 दशदिशाओंको धारणकरते भये पीछे काल मन वाणी  
 काम क्रोध रति ४२ और तद्रूप सृष्टि इन्हों को रचते  
 भये पीछे ब्रह्माजी प्रजापतियों के रचनेकी इच्छा करते

## ६ आदिव्रह्मपुराण भा०।

भये ४३ तब मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह,  
 क्रतु, वशिष्ठ इननामोंवाले सात ऋषियों को ब्रह्माजी  
 अपने मनसे रचते भये ४४ ऐसे सात ब्राह्मण पुराण  
 में निश्चयको प्राप्त हुये हैं ४५ परंतु इनसातों ब्रह्मर्षि-  
 योंसे पहले ब्रह्माजी अपने रोषयुक्त आत्मासे महादेव  
 को रचते भये ४६ और पूर्वजोंसे भी पूर्वज और विभु  
 ऐसे सनतकुमार को भी रचते भये पीछे तिन सप्तर्षियों  
 से प्रजा उपजती भई ४७ पीछे महादेव और सनतकु-  
 मार ये दोनों अपने २ तेजको विस्तृतकर स्थित हुये  
 तिन्होंके दिव्य और देवगणोंसे अन्वित ऐसेसात महा-  
 वंश होते भये ४८ पीछे क्रियावाले और प्रजावाले और  
 महर्षियोंसे अलंकृत ऐसे हुये अर्थात् विजली वज्र  
 इन्द्रका धनुष ये उत्पन्न हुये ४९ और आदि में ब्रह्मा  
 जी जल और मेघोंको रचकर पीछे ऋग्वेद सामवेद  
 यजुर्वेद निगम इन्होंको ज्ञानसिद्धिके लिये रचते भये  
 ५० पीछे स्वाध्याय देवता इन सबको रचते भये ऐसे  
 सुना है पीछे सबप्राणी तिन ब्रह्माजीके गोत्रोंसे जन्मते  
 भये ५१ पीछे प्रजा रचनेकी इच्छावाले ब्रह्माजी अ-  
 पनी देह के दो भागकर एकभाग से पुरुषवनाय ५२  
 पीछे एकभागसे नारी बनाकर नानाप्रकारकी प्रजाको  
 रचते भये पीछे आकाश और पृथिवीको अपनी महिमा  
 से व्याप्तहोके स्थित हुये ५३ और विष्णु विराट्को रचते  
 भये और विराट् पुरुषको रचते भये और तिसपुरुषको  
 अनुजानो जिसका यह मन्वन्तर कहा है ५४ और मान-

सरूपी मनुका यह दूसरा अन्तर कहा जाता है तब वह पुरुष इस प्रजाको रचता भया ५५ इस आदि सृष्टिको जानने से आयुवाला और कीर्तिवाला और पवित्ररूपी सन्तानवाला ऐसा मनुष्य होकर बांछितगतिको प्राप्त होता है ५६ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराणभाषायां आदिसर्गवर्णनं

नामप्रथमोऽध्यायः १ ॥

## दूसरा अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो—ऐसे वह आप व संज्ञक प्रजापति इस प्रजाको रचनेकी इच्छा करयोनि से नहीं उत्पन्न हुई शतरूपा नामसे विख्यात ऐसी भार्याको प्राप्त हुआ १ । २ सो आप व मनुकी महिमा स्वर्गको व्याप्त हो स्थित हुई और हे द्विजश्रेष्ठो शतरूपाभी धर्मसे उत्पन्न होती भई ३ पीछे दशहजार वर्षों तक अतिउग्र और परम ऐसे तपको तपकर पीछे दीप्त तपवाले तिसभर्ता को प्राप्त भई ४ हे विप्रों यह पुरुष स्वार्थ भुवमनु कहाता है सो एक सप्तति अर्थात् इकहत्तर युग पर्यन्त मन्वन्तर कहा जाता है ५ तिसे विराट्से शतरूपामें वीर उत्पन्न हुआ वीरसे काम्यास्त्रीमें प्रियव्रत, उत्तानपाद ऐसे दोपुत्र उपजे ६ और काम्यारानी कर्दम प्रजापतिकी पुत्री हुई और काम्यामें सप्तद कुक्षिराट् प्रियव्रत उत्तानपाद ऐसे ४ पुत्र हुये ७ उत्तानपादको अत्रि प्रजापति ग्रहण करता भया उत्तानपादसे सूनृता

४ पुत्र उत्पन्न हुये ८ और सूनूता रानी धर्मकीपुत्री  
 होतीभई यह अश्वमेध यज्ञसे उत्पन्नभईथी और यही  
 ध्रुवकी माता हुईहै ६ और उत्तानपाद प्रजापति ध्रुव  
 कीर्त्तमान् आयुष्मान् सतः इन नामोंवाले पुत्रोंको सू-  
 नतामें उपजाता भया १० हे द्विजो दिव्य तीनहजार  
 वर्षों तक अति यशकी प्रार्थना करनेवाला ध्रुव तप क-  
 रता भया ११ तब प्रसन्नहुये ब्रह्माजी ध्रुवकेलिये अप-  
 ने समान और अचल और सप्तर्षियों के आगे ऐसे  
 स्थानको देते भये १२ तब तिस ध्रुवके अभिमानकी  
 वृद्धि को और महिमा को देखकर देव और दैत्यों  
 का आचार्य शुक्राचार्य यह श्लोक गाता भया १३  
 आश्चर्य है ध्रुवके तपके वीर्यको और आश्चर्य है ध्रुव  
 के श्रुतको और आश्चर्य है ध्रुवके यशको और आश्च-  
 र्य है कि इस ध्रुवको अग्रभाग में कर सप्तर्षि स्थित  
 हो रहे हैं १४ और ध्रुवसे शिष्ट भव्य शंभु इन  
 नामोंवाले पुत्र उपजे शिष्ट शुद्धरूप पांच पुत्रों को  
 समुत्थारानी में उत्पन्न करताभया १५ अर्थात् रिपु,  
 रिपुंजय, विप्र, वृकल, वृकतेजा ऐसे तिन पांच पुत्रोंके  
 नामहुये रिपु महती में अति तेजवाले चाक्षुष पुत्रको  
 जन्माता भया १६ चाक्षुष से अतरण्य प्रजापतिकी  
 वैरिणीनामवाली पुत्री में मनु उत्पन्न हुआ १७ मनुसे  
 वैरांजप्रजापतिकी पुत्री और नड्वलीनामसे विख्यात  
 ऐसी भार्यामें अतिपराक्रमवाले १८ ऊरू पूरुशतद्युम्न  
 तपस्वी सत्यवाक् कवि अग्नि अतिरात्रि सुद्युम्न १९

अभिमन्यु इन नामोंवाले दशपुत्र उत्पन्न हुये ऊरू से उग्रा ङः पुत्रों को जनती भई २० अंग शुभ वय शांति क्रतु अंगिरस गय ऐसे नाम हुये पीछे अंग से सुनीथकी कन्या में वेनपुत्र हुआ मुनियों की हुंकारसे मरेहुये वेनके २१ दाहिने हाथको ऋषि मथने लगे तब महाऋषि उत्पन्नहुआ २२ तिसको देखकर सब मुनिबोले कि यह राजाहोगा और प्रजाको आनंदित करेगा २३ और अति तेजवाला और अति यशको प्राप्त होनेवाला और धनुषको धारण किये और कवच को पहनेहुये और अग्निके समान तेजवाला २४ ऐसा वेनका पुत्र पृथु राजाहुआ यह इस पृथिवी की अच्छी तरह रक्षा करताभया और राजसूय यज्ञ करनेवाले राजोंसे भी बलवानहुआ २५ और तिससे सूत और मागध ऐसे दोनों उत्पन्नहुये और तिसीने यह पृथिवी दुही है २६ और प्रजाकी वृत्ति के लिये तिस पृथुने देवता ऋषिगण पितर दानव गन्धर्व अप्सराओं के समूह २७ सर्प पुण्यजन लता पर्वत इन्हीं के संग अनेक प्रकारके पात्रों में दुहीहुई पृथिवी २८ यथा बांछित दूधको देतीभई तिसकरके प्रजा अपने प्राणों को धारण करती है २९ पृथुराजा के अन्तर्द्धान और पालि दो पुत्र हुये शिखण्डिनी स्त्री अन्तर्द्धानसे हविर्द्धान को जनती भई ३० हविर्द्धानसे अग्निकी पुत्री धिषणा ङः पुत्रों को जनती भई प्राचीनवर्हि शुक्ल गय कृष्ण ब्रज अजिन इन्हींको ३१ तिन्हींमें प्राचीन-



वहि भगवान् प्रजापतिहुये हे मुनिश्रेष्ठ जिस हविर्दान  
 से यह प्रजा बढ़ाई है ३२ इसने यज्ञों में पूर्वकी तरफ  
 अग्रभागवाली कुशा बिछाई है और यह प्राचीन-  
 वहि भगवान् पृथिवीतल चारीहुआ ३३ यह प्राचीन-  
 वहि समुद्र की पुत्री को विवाहताभया बहुत दिनों  
 में तिस सवर्णानागवाली भार्या में प्राचीनवहि ३४  
 प्रचेतानाम से विख्यात और धनुर्वेद के पारको  
 जाननेवाले ऐसे दशपुत्रों को उपजाताभया ३५ ये  
 दशों सहित धर्म के जल में दशहजार वर्षोंतक  
 घोरतप करतेभये ३६ इन्होंने तपकरतेहुये नहीं रक्षा  
 किये वृक्ष पृथिवीको दवातेभये तब प्रजाका क्षयहोता  
 भया ३७ और वृक्षोंसे आकाश आच्छादितहुआ तब  
 पवनभी चलनेको समर्थ नहींहुआ ३८ और दशह-  
 जार वर्षोंतक प्रजा चेष्टा करनेकोभी समर्थ नहीं हुई  
 तिनको तपसेयुक्त सब प्रचेता सुनकर ३९ क्रोधको  
 प्राप्तहो मुखोंसे वायु और अग्निको रचतेभये सो वायु  
 तिन वृक्षोंको जड़सहित उखाड़कर सुखानेलगा ४०  
 पीछे तिन वृक्षोंको अग्नि जलाने लगा ऐसे वृक्षों के  
 नाशको देख और कछुक वृक्ष शेषरहे तब ४१ सोम  
 राजा तिन प्रजापतियोंके पास जाकर कहनेलगा कि  
 आप सब प्राचीनवहिहो इसलिये क्रोधको त्यागो ४२  
 और वृक्षोंसे रहित पृथिवी होगई है इसवास्ते अग्नि  
 और पवनको शान्तकरो व वृक्षोंकी रत्नरूपी और  
 वरवाणिनी ४३ ऐसी कन्या भविष्यको जाननेवाले मैंने

गर्भमें धारणकरी है सो मारिषानाम से विख्यात यह कन्यावृक्षोंकी रचीहै ४४ सो सोमवंशको बढ़ानेवाली यह कन्या तुम्हारी भाय्या होगी और आपके आधेतेजसे और मेरे आधे तेजसे ४५ इस कन्यामें विद्वान् और दक्षनामसे विख्यात ऐसा प्रजापति उत्पन्न होवेगा सो आपके तेजसे दग्धहुई इसपृथिवीपर ४६ अग्नि सोम मय होकर फिर प्रजाको बढ़ावेगा इसतरह सोमकेवचन सुन तिस कन्याको वे प्रचेता ग्रहण करतेभये ४७ तब वृक्षोंसे कोपको हटाय मारिषानामवाली पत्नीमें धर्मसे प्रजापति संज्ञक ४८ और महातेजवाला दक्ष सोम के अंश से जन्मा पीछे चर और अचर द्विपद और चतुष्पद ४९ इन्हों को दक्ष मन से रचकर पीछे स्त्रियों को रचताभया तब दशकन्याओंको धर्मकेलिये देताभया और तेरह कन्याओं को कश्यपजी के लिये देताभया ५० और शेषरही नक्षत्ररूपी कन्याओं को चंद्रमा के लिये देता भया तिन सब कन्याओं में देवता पक्षी गाय दैत्य दानव ५१ गंधर्व अप्सरा इन आदि अन्य जातिभी उपजतीभई तब से लगायत यह प्रजा मैथुनसे संभव हुई है ५२ और प्रहिले दर्शन स्पर्शन संकल्प इन्हों से प्रजा उत्पन्न हुआ करतीथी ५३ मुनियों ने पूछा हे सूतजी—देवता दानव गंधर्व सर्प राक्षस इन्होंका संभव और महात्मादक्ष का सम्भव कही ५४ और यहभी सुना है कि ब्रह्मा के दाहिने अंगुष्ठसे दक्ष उपजा और बायें अंगुष्ठसे तिसकी पत्नी

उपजी ५५ और चन्द्रमाका दौहित्र दक्ष फिर कैसे श्वशुरभाव को प्राप्तहुआ और कैसे दक्षप्रजापति प्रचेताओंके पुत्रभावको प्राप्तहुआ ५६ सो हे सूतजी यह हमलोगों को अतिसंदेहहै इसके व्याख्यानकरने को आप समर्थ हैं ५७ लोमहर्षणजी बोले—हे द्विजो प्राणियोंमें उत्पत्ति और लय नित्यही होतीरहती है सो इसमें विद्वान् ऋषिजन मोहित नहीं होते ५८ क्योंकि युगयुगमें दक्षआदि राजा उपजतेहैं और लयहोजाते हैं इसवास्ते यहां विद्वानोंको मोहित नहीं होनाचाहिये ५९ और पहिले बड़ापन और छोटापन नहीं होता था किंतु तपही बड़ा होताथा क्योंकि प्रभावही कारण है ६० इस दक्षकी चराचर सृष्टिको जो मनुष्य जानेगा वह प्रजावाला और पूर्णआयुवाला होकर स्वर्गमें पूजित होवेगा ६१ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांष्टष्टिकथनं नामद्वितीयोऽध्यायः २॥

## तीसरा अध्याय ॥

मुनियोंने कहा हे सूतजी—देवता दानव गंधर्व सर्प राक्षस इन्होंकी उत्पत्तिको विस्तारसे वर्णनकरो १ लोम-हर्षणजी बोले—हे ब्राह्मणो ब्रह्माजी ने जैसे प्रजा को रचनेके लिये प्रेरित किया व दक्ष जैसे प्रजाको रचता भया तैसे सुनो २ प्रथम मनसे भूतोंको रचताभया पीछे ऋषि देव गन्धर्व असुर राक्षस ३ यक्ष भूत पिशाच पक्षी पशु सर्प इन्होंको मनसे रचताभया और

जब इसकी मानसी प्रजा नहीं बढ़ी ४ तब प्रजाके हेतु यह धर्मात्मा चिंताकरके मैथुन धर्मसे प्रजारचने की इच्छा करताभया ५ पश्चात् तपसेयुक्त सती लोकोंको धारनेवाली ऐसी वीरण प्रजापति की असिक्तीकन्या को विवाहकर ६ तिसविषे दक्षप्रजापति पांचहजारपुत्र उत्पन्न करताभया ७ प्रजारचनेकी इच्छाकरतेहुये तिस महाभागको देखकर देवर्षि नारदमुनि यह प्रिय संवाद कहतेभये ८ तिसके नाशके वास्ते और अपने शापके वास्ते जिस नारदको परमेष्ठीकश्यप उत्पन्नकरताभया ९ सो दक्षके शापसे पहिलेही ब्रह्माने दक्षकीपुत्री से नारदमुनिको उत्पन्नकरदिया १० और फिर ब्रह्मा असिक्तीमें तिसको उत्पन्न करताभया ११ तिस नारदने दक्षकेपुत्र हर्यश्व को नष्टकिया १२ पश्चात् दक्ष तिसके मारनेमें उद्यम करनेलगा और ब्रह्मा ब्रह्मर्षियों को लेकर याचना करनेलगा १३ जब ब्रह्माको शामिल करके दक्ष कहनेलगा कि महाराज इसमेरी कन्याविषे आपका पुत्रहो १४ ऐसे कह दक्षने अपनी पुत्री दई और दक्षके शापसे तिसके नारदमुनि होता भया १५ मुनियोंने पढ़ा—हे भगवन् प्रजापति के पुत्रोंको महर्षि नारदने कैसे नष्ट किया सो तत्त्वसे सुननेकीइच्छा हम लोग करते हैं १६ लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो—महावीर्यवाले और प्रजाको रचनेकी इच्छावाले और हर्यश्वनामसे विख्यात ऐसे दक्ष के पुत्रोंसे नारदमुनि कहता भया १७ हे दक्षके पुत्रो तुम मूर्ख होकर प्रजा

रचनेकी इच्छा करते हो और इस पृथिवी का प्रमाण जानते नहींहो १८ व ऊपर—नीचेका अन्तर जानते नहीं तो कैसे प्रजारचोगे वे संपूर्ण इन बचनोंको सुनकर दिशाओंको चलेंगये १९ और अबतकभी नहीं निवृत्त होते हैं जैसे समुद्रसे नदी जब ये हृद्यंश्व नष्टहोगये तब प्रचेताकापुत्र दक्षप्रजापति २० वैरिणी स्त्रीविषे हजार पुत्रोंको रचताभया वे शबलाश्व संज्ञक पुत्र प्रजावढानेकी इच्छा करते भये २१ पश्चात् नारदमुनि के प्रेरें हुये परस्परमें बचन कहने लगे कि नारद ठीककहता है इसवास्ते २२ आताओं की पदवी को जाना योग्य है इसमें सन्देह नहीं और पृथिवीका प्रमाण जानकर सुखपूर्वक प्रजारचेंगे २३ यह संपूर्ण एकाग्रचित्तकरके स्वस्थ मनसे यथावत् विचार वेभी संपूर्ण दिशाओंको गमन करतेभये २४ लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो—जब शबलाश्वभी नष्ट होगये तब दक्ष क्रोध करके बचन कहता भया २५ कि हे नारद तू नाशको प्राप्त होजाय और गर्भवास में बस—लोमहर्षणजी बोले—हे मुनिजनो तिस दिनसे लेके आता जोहै आताको ढूढ़ने नहीं जाय २६ और जाय तो नाशको प्राप्तहोजाता है ऐसे दक्ष तिन पुत्रोंको नष्ट जानकर २७ फिर वैरिणी स्त्रीके विषे साठ कन्याओंको उत्पन्न करता भया ऐसा सुनते हैं तिन्होंमें से कुछ भार्या धर्मसे समर्थ कश्यप-मुनि २८ और कुछ सोमधर्म से समर्थ महर्षि ग्रहण करतेभये दक्षप्रजापति दशकन्या धर्मको देताभया

और तेरहकश्यपको २९ सत्ताईस सोम अर्थात् चंद्रमा को और चार अरिष्टनेमिको और दो बहुपुत्र को दो अंगिराको ३० और दो बुद्धिमान् कृशाश्वको ऐसेदेता भया हे मुनिजनो तिन कन्याओंके नामसुनो अरुंधती वसु यामी लंबा भानु मरुत्वती ३१ संकल्पा मुहूर्त्ता साध्या विश्वा हे मुनिजनो ये दश धर्मकी पत्नी होती भई अब तिन्होंकी संततिको सुनो ३२ विश्वासे विश्वे- देवा और साध्यासे साध्य व मरुत्वतीसे मरुत्वान्, वसुसे वस व भानुसे मनुष्य, मुहूर्त्तासे मुहूर्त्त, लंबासे घोष, यामिसे नागबीथी ३३।३४ अरुंधतीसे पृथिवीके सब विषय उत्पन्न होतेभये और संकल्पासे सर्वसंकल्प होताभया ३५ और नागबीथी जामिनी इन्होंसे वृषल होताभया और हे मुनिजनो जो प्रचेताके पुत्र दक्षसोम को कन्यादेता भया ३६ सो संपूर्ण नक्षत्र नामवाली ज्यो- तिषमें कही हैं और संपूर्ण ज्योति पुरोगमासे आदि लेकर आप विख्यात हैं ३७ और वसु आठ कहे हैं अब तिन्होंका विस्तार कहते हैं आयु, ध्रुव, सोम, धर, वायु, अग्नि ३८ प्रत्यूष, प्रभास ये आठ वसु कहे हैं तिन्होंमें आयुके पुत्र वैतंड्य श्रम शांत मुनि ये होतेभये ३९ और ध्रुव का पुत्र लोकों के प्रेरनेवाला काल होताभया और सोमका पुत्र बर्चा जिससे मनुष्य बर्चस्वी अर्थात् तेजवाला होजाता है ४० सो होताभया और धरका पुत्र इविण और हुतहव्य वह हुये और मनोहरासे शिशिर प्राणरमण ये पुत्र होतेभये ४१ और अनिलकी भार्या

शिवा से मनोजव और अविज्ञातगति दो पुत्र होते  
 भये ४२ और अग्निके कुमार पुत्र होताभया सो  
 शोभा करके युक्त शरके भुण्डमें प्राप्तकिया है और  
 तिससे शाष और विशाष नैगमेय ये होते भये ४३  
 और कृत्तिकाओंकी संतान होनेसे कार्तिकेय कहाये  
 और स्कंद सनत्कुमार इन्होंको चौथेभागके तेज से  
 रचतेभये ४४ और प्रत्यूषके पुत्र देवलनाम ऋषिहोते  
 भये और देवलके क्षमावाले और तपस्वी दो पुत्रहोते  
 भये ४५ और श्रेष्ठ्णी ब्रह्मको जाननेवाली योग से  
 सिद्ध संपूर्ण जगत् में आसक्त बृहस्पतिजीकी भगिनी  
 ४६ यहआठयें वसुप्रभासकी भार्याहोतीभई तिसविषे  
 महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा हुआ ४७ जो विश्वक-  
 र्मा हजारहा शिल्पों को करनेवाले और देवताओं के  
 तक्षक अर्थात् मिस्त्री और संपूर्ण भूषणोंके करनेवाले  
 शिल्पकर्मवालोंमेंश्रेष्ठ ४८ और संपूर्ण विमानोंके रचने  
 वाले होतेभये और जिस विश्वकर्मा महात्माकी शिल्प  
 विद्या में मनुष्य आजीवन करते हैं ४९ और महादेव  
 जीकी प्रसन्नतासे तपसेसिद्धहुई सुरभी कश्यपसे एका-  
 दशरुद्रोंको रचतीभई ५० अजैकपाद अहिर्बुध्न त्वष्टा  
 रुद्र ये होतेभये और त्वष्टा से बड़े यशवाला श्रीमान्  
 विश्वरूप पुत्र होताभया ५१ और हरं बहुरूप त्र्यंबक  
 अपराजित वृषा कपि शंभु कपर्दी रैवत ५२ मृग व्याधा  
 सर्प कपाली हे राजन् ये त्रिभुवनों के ईश्वर एकादश  
 रुद्र कहे हैं ५३ हे मुनिश्रेष्ठो अमितहैं पराक्रम जिन्होंके

ऐसे १०० रुद्र पुराणों में कहे हैं जिन्होंकरके चराचर लोक व्याप्त होते भये ५४ अब कश्यपका बंशसुनो अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा ५५ सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु हे मुनिजनो ये कश्यपकी स्त्री होती भई अब इन्होंकी संततिसुनो ५६ और हे मुनिजनो पूर्व पूर्व मन्वन्तर वैवस्वत में तुषितनाम बारह देवता होते भये सो आपसमें कहते भये ५७ कि हे देवताओ यशवाले चाक्षुष मन्वन्तरमें संपूर्ण लोकोंके हितकेवास्ते ५८ शीघ्र आवो अदितिमें प्रवेश होकर जन्मलेवो जिससे हमारा कल्याण होवे. ५९ लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो वे संपूर्ण देवता ऐसे कहकर चाक्षुष मन्वन्तरमें मरीचि के पुत्र कश्यपजी करके दक्षकी कन्या अदितिसे उत्पन्न होते भये ६० और हे मुनिजनो तहां फिर इन्द्र और विष्णु जन्म लेते भये और अर्य्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा ६१ विवस्वान्, सविता, मित्र, वरुण अति तेजवाला अंश भग और बारह आदित्य ये भी संपूर्ण उत्पन्न होते भये ६२ और चाक्षुष मन्वन्तरमें जो पहले तुषित होते भये सो वैवस्वत मन्वन्तर में बारह आदित्य कहे हैं ६३ और जो पतिव्रता सत्ताईस सोमकी स्त्री होती भई तिन प्रकाशितोंके दीप्त संतान होती भई ६४ और अरिष्टनेमिकी स्त्रियोंके सोलह संतान होती भई और बहुपुत्र विद्वानके चार तड़ित होती भई ६५ और प्रत्यंगिरामें ऋषियोंसे सत्कार कीहुई श्रेष्ठ ऋचा होती भई व कृशाश्व देवर्षिसे देवप्रहरण पुत्र होते भये



६६ ये संपूर्ण युगसहस्रके अंतमें वारम्बार जन्मते हैं और तहां तैंतीस देवता कामसे उत्पन्न होते हैं ६७ और हे मुनिजनो तिन्होंकीभी यहांनिरोध और उत्पत्ति कहते हैं जैसे यहां आकाशमें सूर्यका उदय और अस्त होता है ६८ ऐसे देवसमूह युगयुगमें होते हैं और भी कश्यपसे दितिके दो पुत्रहोते भये ६९ हिरण्याक्ष और वीर्यवान् हिरण्यकशिपु और सिंहिकानाम कन्या होती भई सो विप्रचितिकी स्त्री होती भई ७० तिसके पुत्र बड़े बलवान् सैंहिकेय गणों करके सहित दश हजार कहे हैं ७१ और हे मुनिजनो तिन्होंकेपुत्र पौत्र सैंकड़ों और हजारों हुये हैं जिनकी गिन्ती नहीं हे महाबाहो अर्थात् लंबीभुजाओं वाले अब हिरण्यकशिपुका बंश सुनो ७२ विख्यात है वीर्य जिसका ऐसे हिरण्यकशिपु के चारपुत्र अनुह्राद, ह्राद, प्रह्राद, संह्राद ये होते भये ७३ और ह्रादके पुत्र ह्रद हुआ और संह्रादके सुंद, निसुंद दो पुत्र होते भये ७४ और ह्रदके पुत्र आयु, शिवि, काल ये होते भये और प्रह्रादके पुत्र विरोचन होता भया तिसके राजाबलि हुआ ७५ हे मुनिजनो बलिके सौ पुत्र होते भये तिन में बाणासुर बड़ा होता भया धृतराष्ट्र, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्रतापन ७६ कुंभनाभ, गर्दभाक्ष, कुक्षि इन्होंसे आदिलेकर होते भये और महाबलवाला इन्होंमें बड़ा बाणासुर महादेवजी को अतिप्रिय होता भया ७७ जो बाणासुर पहले कल्पमें महादेवजी को प्रसन्नकर यह वरदान मांग-

ता भया कि आप सम्पूर्ण कालमें मेरे समीप रहें ७८ और हे मुनिजनो तिस बाणासुर के लोहिनी भार्य्या से इन्द्रदमन पुत्र होताभया और सौ हजार राक्षसों से समूह होते भये ७९ और हिरण्याक्ष के बड़े बल-वाले पुत्र ऊर्जर, शकुनि, भूतसंतापन ८० महानाभ, विक्रांत, कालनाभ ये होतेभये और तपस्वी बहुतपरा-क्रमवाले महावीर्यवान् ऐसे सौ पुत्र दनुके होतेभये ८१ तिन्होंमें से प्रधानोंको कहते हैं सुनो द्विमूर्धा, श-कुनि, शंकुशिरा ८२ शंकुकर्ण, विरोधग, वेष्टी, दुंदुभि, अयोमुख, शंबर, कपिल, वामन ८३ मरीचि, मघवान्, इरा, गर्गशिरा, वृक, विक्षोभण, केतुवीर्य्य, शतहृद ८४ इन्द्रजित्, सर्वजित्, वज्रनाभ, महानाभ, विक्रीत, काल-नाभ ८५ एकचक्र, महाबाहु, नारक, वैश्वानर, पुलो-मा, विद्रावण, महाशिरा ८६ स्वर्भानु, वृषपर्वा, तुंग-गंड, सूक्ष्म, निचंद्र, ऊर्णनाभ, महागिरि ८७ असि-लोमा, केशी, शठ, वलक, मद, गगन, मूर्धा, कुंभनाभ ८८ प्रमद, मय, कुपथ, हयग्रीव, वैसृप, विरूपाक्ष, सुपथ, हराहर ८९ हिरण्यकशिपु, शतमाय, शंबर, शरभ शलभ, विप्रचिति ९० बड़े वीर्य्यवान् ये दनुके पुत्र संपूर्ण कश्यपसे उत्पन्न होते भये विप्रचिति है प्र-धान जिन्होंमें ऐसे महाबलवान् ये दानव होते भये ९१ और हे मुनिजनो जो इनकी संतान पुत्र पौत्र हैं तिनकी संख्या करने को मैं समर्थ नहीं ९२ और स्व-र्भानुके प्रभानाम कन्या होतीभई और पुलोमाके उप-

दानवी तीन कन्या हुई हयशिरा, शर्मिष्ठा, वर्षपर्वणी  
 ६३ और वैश्वानरके पुलोमा, कालिका दो पुत्री होती  
 भई इनदोनों को मरीचिकेपुत्र कश्यपजी विवाहतेभये  
 ६४ तिन दोनोंसे साठहजार दानवोंको उत्पन्न करते  
 भये और चौदहसौ दानवोंको कालीसे उत्पन्न करते  
 भये ६५ और पौलोम और कालकेय ये दानव हिरण्य-  
 पुरवासी बड़ेबलवान् ६६ ब्रह्माजीके तपकरके देवता-  
 ओं से अवध्य अर्थात् नहीं मरसकें ऐसे होते भये  
 और पश्चात् अर्जुन इन्हों को मारता भया ६७ और  
 हे मुनिजनो प्रभा से नहुष होताभया और शची से  
 संजय शर्मिष्ठा पुरुको जनती भई और उपदानवी  
 दुष्मंत को ६८ तिससे अनन्तर सिंहिकके पुत्र विप्र-  
 चिति से बड़े वीर्यवाले अति दारुण दैत्य दानव  
 संयोगसे बहुत पराक्रमवाले सिंहिकेय नामसे विख्या-  
 त ऐसे ये तेरह पुत्र होते भये ६९ त्र्यंशशल्य, वलि,  
 नभ, महाबल, वातापि, नमुचि, इल्वल, खसूम १००  
 आजिक, नरक, काल, नाभ, राहु इन्होंमेंबड़ा और शूर,  
 वीर चन्द्रसा सूर्यको मर्दनकरनेवाला ऐसा राहु होता  
 भया १०१ और शुक, पोतरण, वज्रनाभ होते भये  
 मूक, तुहुंड ये दोनों हृदके पुत्र और सुंदकापुत्र मारीच  
 ताड़काविषे होता भया ये संपूर्ण दानव दनुके वंशको  
 बंदातेभये १०२ और तिन्होंके पुत्रपौत्र सैकड़ों हजारों  
 होतेभये और संह्राद दैत्यके कुल में निवातकवच  
 संज्ञक १०३ बड़े तपस्वी तीनकिरोड़ पुत्र मणिमतीमें

होतेभये १०४ सोभी स्वर्ग निवासी देवताओंसे अब-  
 ध्य होतेभये पश्चात् ये सब अर्जुन को मारे हैं और  
 बड़े पराक्रमवाली छः कन्या १०५ काकी, इयेनी, भासी,  
 सुग्रीवी, शुचि, गृध्रिका ये ताम्बासे उत्पन्न होती भई  
 तिन्होंमें काकी काकोंको जनती भई और उलूकी उ-  
 ल्लुओं को १०६ इयेनी सिकरों को भासी भास पक्षि-  
 यों को गृध्रिका गृध्रोंको शुची जल जीव और पक्षियों  
 को और हे मुनिजनो सुग्रीवी १०७ अश्व और गर्द-  
 भों को उत्पन्न करती भई ऐसे ताम्बाका वंश कहाहै  
 और हे मुनिजनो विनताके अरुण और गरुड़ दोपुत्र  
 होते भये १०८ यह गरुड़ सुंदर पंखोंवाला पक्षियोंमें  
 श्रेष्ठ अपने कर्म करके दारुण होताभया और अपरि-  
 मित पराक्रम वाले एक हजार सर्प सुरसा के होतेभये  
 १०९ और हे मुनिजनो सर्प अनेक शिर वाले होते  
 भये और कद्रूके बड़े बलवाले हजार पुत्र होते भये  
 ११० और ये सम्पूर्ण अनेक शिरवाले नाग होतेभये  
 सो सम्पूर्ण गरुड़ के वंश होतेभये और शेष वासुकि  
 तक्षक ये इन्होंमें प्रधान होतेभये १११ ऐरावत, महा-  
 पद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, शंख, कर्कोटक, धनं-  
 जय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पु-  
 ष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख ११२ शंख, शंखपाल, कपिल,  
 वामन, नहुष, शंखरोमा, मणि, इन्हों से आदि लेकर  
 बहुत नाग होतेभये ११३ और तिन क्रूररूपी चौ-  
 दह हजार पुत्र पौत्रोंको गरुड़ मारता भया नहीं तो

बहुत बढ़जाते ११४ और हे मुनिजनो इन सर्पों का  
 गण क्रोधकेवश जानो और जल स्थलके जीव और  
 पक्षी धराके उत्पन्न होते भये ११५ और सुरभि गाय  
 भैंस को जनती भई और वृक्ष वेलि संपूर्ण स्थाणु जाति  
 इन्होंको इराजनती भई ११६ और यक्ष, रक्ष, मुनि, अप्स-  
 रा, इन्होंको श्वसा जनती भई और बड़े पराक्रम वाले  
 गंधर्वों को अरिष्ठा जनती भई ११७ हे मुनिजनो ये  
 स्थावर जंगम कश्यपके वंशमें कहे हैं और तिन्हों के  
 पुत्र पौत्र सैकड़ों हजारों होते भये ११८ यह सृष्टि  
 स्वारोचिषमन्वन्तर में कही है और वैवस्वत मन्वन्तरमें  
 विस्तृत वरुणके यज्ञमें ११९ आहुति देते हुये ब्रह्माकी  
 सृष्टिकही है पहिले जो सात ब्रह्मर्षि भये तिन्होंको मनसे  
 १२० ब्रह्मा पुत्रभाव कल्पना करता भया पश्चात् हे मुनि-  
 जनो देवता और, दैत्योका विरोध हुआ १२१ जिसमें  
 दितिके सम्पूर्ण पुत्र नष्ट करदिये गये तब दिति दुःखित  
 हुई और आराधनसे कश्यपजीको प्रसन्न करती भई  
 १२२ कश्यपजी इसको बरसे लुभाते भये तब इसने  
 कहा महाराज यह बर दीजिये कि बड़े पराक्रमवाला  
 समर्थ इन्द्रको मारै ऐसा पुत्र हो १२३ ये आराधित  
 किये तपस्वी यह बर देते भये पश्चात् बर देके और अ-  
 व्यग्रचित्त हुये कश्यपजी दितिसे कहने लगे १२४ कि  
 हे प्यारी जो इस व्रतको शुद्ध होकर धारण करेगी तो  
 इन्द्रको तेरा पुत्र मारेगा व सौ वर्ष गर्भ धारण करेगी  
 १२५ और महातपा कश्यपजी दितिसे कहने लगे

कि जो तू पवित्र होके व्रतको धारण करेगी तो निश्चय गर्भको धारेगी तब अंगीकारकर और पवित्र होके गर्भ धारण करती भई १२६ पश्चात् अमित पराक्रम-वाले कश्यपजी देवसमूह को प्रकाश करते हुये देवताओं से अबध्य १२७ दुर्द्धर्षतेजको दितिमें स्थापनकर तपकी इच्छा करके पर्वत में गमन करतेभये पश्चात् इन्द्र अवकाश देखता हुआ ठहरताभया १२८ जब सौ वर्षमें एक वर्ष रहा तब दिति भूलिकै बिनापैरधोये शयन करतीभई १२९ यह अवसर इन्द्र देखि सूक्ष्म शरीर धारणकर बज्रले दितिके गर्भमें प्रवेशकर गर्भ के सातटुकड़े बनाताभया १३० जबयह खंडित किया गर्भ रोताभया तब इन्द्र ने फिर बज्रसे एकएकके सात सात टुकड़े बनादिये हे मुनिजनो वे मरुत्नाम उच्चास देवता होतेभये १३१ तिनको प्राणी और देवताओं के समूह को प्रकाश करतेहुये हरि ब्रह्माको देतेभये १३२ हे मुनिजनो हरिही पुरुष है वीर है जिष्णु है प्रजापतिहै १३३ वही मेघरूपहै अग्निरूपहै और यह संपूर्ण जगत् तिसने रचा है १३४ और जो पुरुष मरुत्तों केजन्मको सुनते हैं तिन्होंको इसलोकमें और परलोकमें किसी प्रकारका भय नहीं रहता १३५ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांदेवासुराणामुत्पत्तिनाम  
तृतीयोऽध्यायः ३ ॥

## चौथा अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो ब्रह्माजी आदिमें  
 बेनके पुत्र पृथुका राज्याभिषेक करके और पश्चात्क्रम  
 से राज्याभिषेक करते भये १ ब्राह्मण बेलि नक्षत्र ग्रह  
 यज्ञ तप इन्हों का राजा चन्द्रमाको किया २ और जलों  
 का राजा वरुणको व राजाओंका प्रभु कुबेरको और  
 अंगिराके पुत्र बृहस्पतिजीको विश्वेदेवोंका राजा करते  
 भये ३ और भृगुओंका राजा शुक्रको किया और आ-  
 दित्योंका राजा विष्णुको किया और वसुओंका राजा  
 अग्निको ४ और प्रजापतियोंका राजा दक्षको व मा-  
 रुतोंका राजा वासव अर्थात् इन्द्रको और दैत्य दान-  
 वोंका राजा प्रह्लादको ५ व पितरोंका राजा धर्मराज  
 को किया और यक्ष राक्षस ६ संपूर्ण भूत और पिशा-  
 च इन्होंका राजा महादेवजीको और पर्वतोंका राजा  
 हिमाचल को व नदियों का राजा सागरको ७ और  
 साध्यों का राजा नारायणको व रुद्रोंका राजा वृषभध्वज  
 अर्थात् महादेवको दानवोंका राजा विप्रचित्तिको ८  
 और गंधमारुत भूत अशरीरी शब्द आकाश इन्हों  
 का राजा वायुको करते भये ९ और सागर नद मेघ  
 वर्षाहुआ जल गन्धर्व इन्होंका राजा चित्ररथको क-  
 रते भये १० और नागोंका राजा वासुकिको, सर्पोंका  
 राजा तक्षक को संपूर्ण जावड़ालोंका राजा शेष को  
 ११ और हस्तियों का राजा ऐरावतको घोड़ोंका राजा  
 उच्चैःश्रवा को, पक्षियोंका राजा गरुड़को, १२ मृगोंका

का राजाशार्दूलको गौत्रोंका राजावृषको बनस्पतियों  
 का राजापिलखनको १३ गंधर्व और अप्सराओंका  
 राजाकामदेवको और ऋतु, मास, दिन १४ पक्ष, रात्रि,  
 मुहूर्त, तिथि, पर्व, घटी, पल, प्रमाण, ऋतुओंका अ-  
 यन १५ गिन्ती, योग इन्होंकाराजा संवत्सरको करते  
 भये हे मुनिजनो ब्रह्मा क्रमसे ऐसे राज्य बांटकर १६  
 दिशापालोंको स्थापन करतेभये पूर्वदिशामें बैराज-  
 प्रजापतिकेपुत्र सुधन्वाको १७ दिशापाल करतेभये  
 और दक्षिण दिशा का राजा कर्दमप्रजापतिकेपुत्र १८  
 शंखपदको करतेभये और पश्चिमदिशामें रजसकेपुत्र  
 १९ महात्मा केतुमान्को राजा करतेभये तैसेही उत्तर  
 दिशामें पर्जन्यप्रजापतिकेपुत्र २० हिरण्यरोमाको राजा  
 करतेभये हे मुनिजनो वे संपूर्ण अब भी सप्तद्वीप और  
 पतन और देश इन्हों सहित पृथ्वीकी धर्मसे पालना  
 करते हैं २१ और ये संपूर्ण राजा राजसूय यज्ञकरके  
 और वेदविधिकरके पृथुको राजाओं का राजाकर २२  
 तिसकेपश्चात् बड़ातेजवाला चाक्षुषमन्वन्तर व्यतीत  
 होत संते २३ ब्रह्मा वैवस्वतमनुको राज्य देतेभये हे  
 मुनिजनो अब विस्तारसे वैवस्वतमनुको आपलोगोंके  
 आगे कहूंगा २४ आनुकूल्य होने से क्योंकि जिससे  
 आप सबको सुननेकी बांछा है सो यह चरित्र पुराणों  
 में मानाहुआहै २५ और धन, आयु, यश इन्होंको  
 बढ़ाताहै और स्वर्गमेंबासकराताहै शुभकादेनेवालाहै  
 २६ इतना सुन मुनिजनोंनेकहा कि हे भगवन् लौम-



हर्षणजी पृथुकाजन्म विस्तारसेकहो और तिस महा-  
 त्मासे जैसे पृथ्वीहुई सो चरित्रभी कहो २७ और हे  
 भगवन् लोमहर्षणजी जैसे पितर, देवता, ऋषि, दैत्य,  
 नाग, यक्ष, वृक्ष २८ पर्वत, पिशाच, गंधर्व, ब्राह्मण,  
 शूर, वीर, राक्षस ये संपूर्ण पृथ्वी को दुहतेभये २९  
 सोभी कहो और हे मुने इन्हों के पात्र और वत्स वि-  
 शेषकरके वर्णनकरो और क्रमसे दूध विशेष और  
 दुहनेवालेभी कहो ३० और हे लोमहर्षणजी जिस  
 कारण से क्रोधित महर्षियों ने बेनका हाथ मथा सो  
 कारणभी वर्णनकरो ३१ ऐसेसुन लोमहर्षणजीने कहा  
 कि हे मुनिजनो बड़ेआनन्दकीबार्ताहै बेनकेपुत्र पृथुके  
 चरित्र विस्तारसे आप सबोंकेआगे कहूंगा आपसाव-  
 धानहोके एकाग्र चित्तसे श्रवणकरो ३२ और हेमुनि-  
 जनो अपवित्र, तुच्छमनवाला, अशिष्य, अब्रत, कृतघ्न,  
 अहित इन्होंके आगे ३३ स्वर्ग, यश, आयु, धन इन्हों  
 के देनेवाले और ऋषियों के कहे हुये ये चरित्र नहीं  
 कहिये हे मुनिजनो तुम्हारेआगे यथावत् कहताहूँ ३४  
 जोपुरुष बेनकेपुत्र पृथुके चरित्र नित्य ब्राह्मणों को  
 नमस्कारकरके कहताहै तिसको किसी प्रकारका दुःख  
 नहीं होता ३५ लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो पहले  
 अत्रिके बंशमें उत्पन्नहुआ और अत्रिके समान प्रभु  
 धर्मकी रक्षाकरनेवाला ऐसा अंगनाम प्रजापति होता  
 भया ३६ और तिस मृत्युकी पुत्री सुनीथा के विषे  
 नहीं धर्मका जाननेवाला प्रजापतिबेन होताभया ३७

यह कालात्मजाकापुत्र नानाप्रकारके दोषोंकरके अपने धर्मोंको छोड़कर और काम लोभोंमें बर्त्तताभया ३८ और यह राजाबेन अधर्म युक्त मर्यादा स्थापन करता भया और वेद धर्मोंको छोड़कर अधर्ममें मग्न रहता भया ३९ और बेनके राज्य में वेदों का पढ़ना, देवताओंका पूजन नहीं होताभया और यज्ञों में होमाहुआ देवताओं को अमृतभी नहीं मिलता भया ४० क्योंकि तिस बेनका काल समीप आने से यह खोटी प्रतिज्ञा होतीभई कि कोई देवताओंका यज्ञ मतकरो हवन मतकरो ४१ हे मुनिजनो ऐसे बेन कहताभया कि मेराही यज्ञकरना उचित है और यज्ञ करनेवाला भी मैंहूँ और यज्ञरूपीभी मैंहींहूँ इसवास्ते मेरेही विषे यज्ञ हवन करना उचितहै ४२ ऐसी लंघित मर्यादा को ग्रहण करतेहुये बेन को बहुत दिनों में मरीचिसे आदिलेकर महर्षि कहतेभये ४३ हे बेन बहुत वर्षोंतक हम दीक्षा करेंगे इससे यह अधर्म मतकर और यह सनातनधर्मनहीं है ४४ और तू अत्रिके वंशमें जन्मा है प्रजाओंका पतिहै और तैने प्रतिज्ञाभी करलीहै कि मैं प्रजाओंको पालूंगा ४५ हे मुनिजनो ऐसे कहतेहुये सम्पूर्ण ऋषियोंके अर्थको अनर्थ जाननेवाला दुर्बुद्धि बेन हँसके वचन कहताभया ४६ कि हे ऋषियो तुम मूर्खहो और निश्चय करके मुझको जानते नहीं हो मुझ से अन्य धर्म का जाननेवाला कौन है और मैं किसका क्या सुनूँ क्योंकि श्रुत, वीर्य, तप,

सत्य इन्हों करके मेरे समान पृथ्वीपर कौन है ४७  
 सम्पूर्ण प्राणी और धर्म इन्होंको मैं उत्पन्न करनेवाला  
 हूँ ४८ और जो मैं इच्छाकरूं तो पृथ्वीको दग्ध करदूँ  
 और जलसे डुबोदूँ और पृथ्वी समुद्रको रोकदूँ इसमें  
 संदेह नहीं ४९ हे मुनिजनो जब राजावेन मोह और  
 गर्वसे नहीं नम्रहोताभया तब महात्मा महर्षि क्रोधकर  
 ५० और फुरतीसे इसमहाबलवान्कोपकड़ क्रोधयुक्त  
 ऋषि इसकी जंघाको मथने लगे ५१ तब मथतेहुये  
 राजाकी जंघासे बहुतछोटा दृढ़ अंगवाला बहुतकाला  
 ऐसा पुरुष होताभया ५२ हे मुनिजनो वह पुरुष डर  
 के और अंजलिबांधके स्थित होताभया तब अत्रिजी  
 इसको विकल देखकर रेनिषीद् अर्थात् ठहर ऐसे कहते  
 भये ५३ इसवास्ते वह पुरुष निषाद वंशका करने-  
 वाला होताभया और वेनके पांयसे उत्पन्नभये धीवरों  
 कोभी रचताभया ५४ और विन्ध्याचलमें रहनेवाले  
 जो अधर्म रुचि तुषार और तुंबुरु इन संपूर्णों को  
 बेनसे उत्पन्नहुये जानो ५५ पश्चात् महात्मा ऋषि  
 क्रोधकर और अरणी की तरह वेनके दहने हाथ को  
 मथतेभये ५६ तिसहाथसे जलताहुआ साक्षात् अग्नि  
 कीसी कान्तिवाला ५७ और धनुष कवच धारणकिये  
 बड़े यशवाला और बड़े शब्दवाला अजगव धनुष  
 धारणकिये ५८ और रक्षाकेवास्ते दिव्यशरोंको धारण  
 किये उत्तम कान्तिवाला कवच धारणकिये ऐसा पृथु  
 राजा उत्पन्न होताभया ५९ तिसके उत्पन्न होतेही

सम्पूर्ण भूत प्रसन्नहोकर आवतेभये ६० और हे मुनि-  
जनो तिस महात्मा सत्पुत्रके जन्मसे पुत्राय नरकं से  
रक्षाकियाहुआ बेन स्वर्गको प्राप्त होताभया ६१ और  
तिसके अभिषेकके वास्ते सम्पूर्ण समुद्र नदीरत्न और  
जललेकर चारोंतरफसे प्राप्तहोतेभये ६२ और संपूर्ण  
देवता और आंगिरसोंकरकेसहितभगवान्ब्रह्माजी ६३  
और सम्पूर्ण स्थावर जंगम प्राणी ये आकर बेन के  
पुत्रप्रजाको पालनेवाले उत्तम कान्तिवाले ऐसे पृथुको  
राज्य तिलकदेतेभये ६४ और धर्म के जाननेवाले रा-  
जाओंसे आदित्य राज्यविषे अभिषेक कियाहुआ और  
महातेजवाला प्रतापवान् ६५ ऐसा बेनका पुत्र पृथु  
राजा पितासे दुःखितकरी प्रजाको अनुरंजित अर्थात्  
सुखीकरता भया ६६ इस वास्ते अनुरागसे तिसका  
राजा नाम होताभया और तिसराजाके समुद्रकी तरफ  
जातेहुये जल थँभ गया ६७ और पर्वत इस पृथु  
राजाको मार्ग देते भये और इसकी ध्वजा कभी नहीं  
टूटतीभई और तिसकालमें बिना बोये अन्न उपजते  
भये और अन्य चिन्ताकरकेही सिद्धहोतेभये ६८ और  
गौ कामदुघाहोतीभई और पुटक में मधु होताभया  
और इसी कालमें शोभन ब्रह्माके यज्ञमें ६९ सौत्य  
दिनविषे बड़ी बुद्धिवाले सूतजी सूतिनाममाता से होते  
भये और तिसीमहायज्ञविषे बुद्धिमान् मागध भी  
उत्पन्नहोताभया ७० और इनदोनोंको सुरर्षियोंने पृथु  
राजाकी स्तुतिके वास्ते बुलाया और तिन्होंसे सम्पूर्ण

ऋषि कहते भये कि इसके कर्मोंके अनुरूप स्तुतिकरो ७१  
 ऐसे सुनकर सूत और मागध संपूर्ण ऋषियों से कहते  
 भये ७२ हे मुनिजनो हम तो अपने कर्मोंकरके देवता  
 और ऋषियोंको प्रसन्न करते हैं हे द्विजो इसतेजस्वी  
 राजाके कर्म लक्षण और यश हम नहीं जानते ७३  
 जिससे स्तुतिकरें ऐसे वचन सुन ऋषि कहनेलगे कि  
 भविष्य अर्थात् होनेवाले इसके कर्मोंकरके स्तुतिकरो  
 ७४ पश्चात् महाबल सत्य बोलनेवाला दानकरने के  
 स्वभाव वाला सत्यसंध नरों का ईश्वर ७५ श्रीमान्  
 शत्रुओंको जीतनेवाला क्षमा शील धर्मज्ञ कृतज्ञ दया-  
 चान् प्रियभाषण ७६ करनेवाला मान्यको माननेवाला  
 यज्ञोंका करनेवाला सत्यसंगर मनको रोकनेवाला शांत  
 रत व्यवहार में स्थित ७७ ऐसा राजा पृथु जो जो  
 कर्म करता भया तिससे आदिलेकर हे मुनिजनो सूत  
 मागधवंदिजनोंने तिन आशीर्वादोंकरके जानो कि स्तुति  
 करीहै ७८ और हे मुनिजनो स्तुतिके अन्तमें प्रजाके  
 ईश्वर राजा पृथु तिन्होंपर प्रसन्न होकर सूतको अनूप  
 देशदेते भये और मागधको मगधदेश देते भये ७९ और  
 हे मुनिजनो तिसराजापृथुको देखकर परम प्रसन्नहुये  
 ऋषिप्रजाओंसे कहनेलगे कि हे प्रजो तुम्हारीव्यक्तिका  
 देनेवाला यह राजा होवेगा ८० तिसके अनन्तर हे  
 मुनिजनो सम्पूर्णप्रजा पृथुसे प्राप्तहोकर कहती भई कि  
 हे राजन् आप हमारी व्यक्तियों ऐसे प्रजाके वचन को  
 सुन ८१ और महर्षियोंके वचनसे प्रजाके हित करने

की इच्छाकरके प्रार्थना किया राजा पृथु धनुष और वाणलेकर पृथ्वीको मर्दन करनेलगा ८२ तब पृथुके भयसे व्याकुलहुई पृथ्वी गमनकर भागतीभई राजा पृथुभी धनुषलेकर इसके पीछे दौड़ते भये ८३ यह पृथुके भयसे ब्रह्मलोक आदिलोकोंको दौड़ती भई परन्तुआगे धनुषलिये पृथुको देखतीभई ८४ पश्चात् जब यह अपनी शरणकहीं नहींदेखतीभई तब त्रिलोकपूज्या यह पृथ्वी अंजली बांधकर प्रकाशित तीक्ष्ण वाणों करके दीप्त तेजवाले और सावधान महा योग वाले महात्मा देवताओं से अजीत ८५ ऐसे पृथुकोही प्राप्तहोकर वचन कहतीभई ८६ कि हे राजन् स्त्री का वधयह अधर्म आपकरने के योग्य नहीं हो और हे राजन् मेरे बिना पृथ्वी को कैसे धारण करोगे ८७ क्योंकि मेरेही बिषे ये लोक स्थित हैं और यह जगत् भी मैंने धारण किया है सो हे राजन् जब मेरा नाश होजायगा तब प्रजाकाभी नाश होजायगा इसमेंसंदेह नहीं ८८ हे राजन् जो आपप्रजाके कल्याणकी इच्छा करते हो तो मुझको मारनेके योग्य नहीं हो और हे राजन् मेरे वचन सुनो ८९ उपायसे प्रारंभ कियेसंपूर्ण कार्यसिद्ध होतेहैं सो हेराजन् उपायको देख जिससे पृथ्वी को धारण करै ९० और मुझको मारकेभी हे राजन् प्रजाधारणकरने में समर्थ न होवेगा और हे महाराज कोपको त्याग मैं तुझको अनुभूत हूंगी ९१ और हे राजन् पशु आदि योनियोंमें भी प्राप्त हुई स्त्री

मारनी योग्य नहीं इसवास्ते धर्म त्याग करने के योग्य नहीं हो ६२ हे मुनिजनो उदारचित्त राजा पृथु ऐसे बहुत प्रकार के पृथ्वी के वचन सुन और धर्मात्मा राजा पृथु क्रोधको रोक पृथ्वीके प्रति यह वचन कहता भया ६३ कि हे भद्रे जो पुरुष एक अपने लिये अथवा दूसरे के लिये बहुत अथवा एक प्राणी को मारता है तिसको पाप लगता है ६४ और जिस एकके मारनेमें बहुत सुखीहोवें तिसके मारने में पातक नहीं और उपपातक भी नहीं ६५ और जहां एक खलके मारने से बहुतों को आनन्दहोवे सो बधपुण्य का देनेवाला होता है ६६ इसवास्ते जगत् का हित करनेवाला मेरा वचन नहीं करेगी तो प्रजाके निमित्त तुझको मारूंगा ६७ और हे पृथ्वी मेरी शिक्षाको नहीं मानेगी तो अब तुझको वाणसे मारके प्रजाधारण करनेवाला अपने आत्माको विख्यात करूंगा ६८ इसवास्ते धर्म जाननेवालों में श्रेष्ठ जो तू है सो मेरी शिक्षा मानके इस प्रजाको जिवा क्योंकि जिससे प्रजा धारण करनेमें तू समर्थ है ६९ और तेरेमें मैं पुत्रीभाव करूंगा और पश्चात् घोर दर्शन तेरे मारनेवास्ते जो यह वाण है तिसको त्याग दूंगा १०० हे मुनिजनो ऐसे पृथुराजाके वचन सुन पृथ्वीने कहा हे शूरवीर यह संपूर्ण मैं धारण करूंगी इसमें संदेह नहीं परंतु संपूर्ण कार्य उपायसे किये सिद्ध होते हैं १०१ हे राजन् ऐसे उपायको देख जिससे प्रजाओंको धारण करे मेरा ऐसा

बछड़ा देख तिससे मैं प्रसन्नहुई दुहीजाऊं १०२ और  
हे धर्मजाननेवालों मैं श्रेष्ठ सबजगह सुभक्तको एकसार  
करजिससे भराहुआमेरादूध संपूर्णको भिगोदेवै १०३  
लोमहर्षणजीने कहा हे मुनिजनो तब यहराजा धनुष  
करके सैकड़ों हजारों पर्वतोंको उखाड़ताभया १०४  
और पृथ्वीको बराबर करता भया और मन्वंतर व्य-  
तीतहोते यह विषमहोती भई १०५ क्योंकि स्वभाव  
सेही इसके सम विप्रमहै और पहले चाक्षुष मन्वंतर  
में समहोती भई १०६ और हे मुनिजनो पहले सर्गमें  
पृथ्वीके विषमहोनेसे पुर और ग्रामोंका विभागभी नहीं  
होताभया १०७ और खेती, गोरक्षा, वणिकपथ अर्थात्  
व्यवहार, सत्य, असत्य, लोभ, मत्सरता १०८ ये भी  
संपूर्ण वस्तु पृथुसेही आदिलेकर होते भये १०९ और  
जहां जहां पृथ्वी बराबर होती भई वहां वहां प्रजाको  
बसाताभया ११० और बड़े कष्टसे प्रजाओंका आहार  
मूल फलहोता भया ऐसाहमने सुना है १११ पश्चात्  
यह प्रतापवान् पृथुस्वायंभुव मनुको बछड़ाबना  
कर अपने हाथसे पृथ्वीको दुहताभया ११२ तिससेये  
संपूर्ण खेती उत्पन्न होती भई और तिसही अन्नसे अब  
भी संपूर्णमनुष्य जीतेहैं ११३ पश्चात् हे मुनिजनोंयह  
ऋषियोंकी दुहीहै तब चन्द्रमा बछड़ाकिया और अंगिरा  
केपुत्र बृहस्पतिजी दुहनेवालेहुये ११४ और देवपात्र  
बनाया और नित्य ब्रह्मरूपी दूधको दुहतेभये ११५  
पश्चात् इन्द्र आदिदेवता दुहतेभये तिन्होंने सुवर्णका



पात्र बनाया ११६ और इन्द्रबछड़ा और सविताप्रभु  
 दुहनेवाला किया और ऊर्जअर्थात् बलकोकरनेवाला  
 अमृत दुहतेभये ११७ पश्चात् यह पितरोंकी दुही है  
 तिन्होंनेचांदीका पात्रकिया ११८ और प्रतापवान् वैव-  
 स्वतयमं बछड़ाकिया और स्वधारूपीदूधको दुहतेभये  
 औरलोकोंका प्रेरणेवाला काल अंतक दुहनेवालाहोता  
 भया ११९ पश्चात् नाग दुहतेभये तिन्होंने तक्षक बछ-  
 ड़ाकिया और तूंबी पात्रकिया और विषदूध दुहतेभये  
 १२० और हे मुनिजनो नागोंमें और सर्पों में श्रेष्ठ प्र-  
 तापवान् ऐसे ऐरावत और धृतराष्ट्र दुहनेवालेहोतेभये  
 १२१ तिस विषसेही महाकाय और तीव्र विषवाले  
 ऐसे नाग और सर्पजीवते हैं और इन्होंनेकेलिसवीर्यका-  
 ही पराक्रम है और तिसीके आश्रय हैं १२२ पश्चात्  
 हे मुनिजनो यह असुरोंकी दुहीहै तिन्होंने लोहेका पात्र  
 किया १२३ और प्रह्लादजी के पुत्र विरोचनको बछड़ा  
 किया और शत्रुओंकेनाशकरनेवाली मायाको दुहतेभये  
 और दैत्योंमें श्रेष्ठ द्विमूर्धा और मधु ये बलवान् दुहने  
 वाले होतेभये १२४ हे मुनिजनो तिसीमायाकरके अ-  
 वभी मायावी असुरजीते हैं और तिसमायासेही बलि  
 बुद्धिमान् है १२५ पश्चात् यक्षोंने पृथ्वी दुहीहै तिन्हों  
 ने कच्चा पात्रकिया १२६ और कुबेर बछड़ाकिया और  
 तीन शिरोंवाला तपस्वी तेजस्वी ऐसामणिनका पिता  
 रजतनाम दुहनेवालाहोताभया १२७ और हे मुनिजनो  
 अन्तर्द्धान् अर्थात् छिपना विद्याको दुहते भये १२८

पश्चात् राक्षस और पिशाचोंने यह दुही है तिन्होंने मुरदे का कपाल पात्र किया १२६ और रजतनाम दुहनेवाला होता भया और सुमाली बछड़ा होता भया और रुधिर दूध दुहते भये १३० पश्चात् हे मुनिजनो गंधर्व और अप्सरा दुहती भई तिन्होंने कमल पात्र किया और चित्ररथ बछड़ा किया और सुन्दर गंधको दुहते भये १३१ और तहां सूर्यके समान महात्मा अतिबलवान् गंधर्वों के राजा ऐसे सुरुचि दुहनेवाले होते भये १३२ पश्चात् इसको पर्वत दुहते भये १३३ तिन्होंने हिमवान् बछड़ा किया और महागिरि सुमेरु दुहनेवाला और पर्वत ही पात्र किया १३४ और अनेक प्रकारके औषध और रत्नोंको दुहते भये तिसी करके हे मुनिजनो ये पर्वत स्थित हैं पश्चात् इसको वनस्पती दुहती भई १३५ तिन्होंने पत्तोंका पात्र किया पिलखन बछड़ा किया और भूलाहु आशाल दुहनेवाला किया और कटाहु आजला हुआ का फिर जामनाको दुहते भये १३६ हे मुनिजनो सो यह पृथ्वी धात्री और विधात्री चराचर जीवोंकी योनि जीवोंका स्थानरूपी संपूर्ण कामोंको दुहनेवाली और संपूर्ण खेतियोंको उत्पन्न करनेवाली १३७ समुद्रपर्यंत ऐसी पृथ्वी होती भई और मेदिनी ऐसी विख्यात भई और मधुकैटभके मेदसे व्याप्त होने से १३८ इसको ब्रह्मवादी मेदिनी कहते हैं और हैं मुनिजनो राजापृथुके योगसे यह पुत्रीभावको प्राप्त होती भई १३९ तबसे ही इसको देवी और पृथ्वी कहते हैं

औरहे मुनिजनो पृथुसे शोधीहुई और बांटी हुई १४०  
 इसपृथ्वीमें बहुतसी खेतियां और खानि होती भई  
 और बढ़ती भई और पुर शहर ग्राम बहुतसे वसते  
 भये हेमुनिजनो ऐसेप्रभाववाला और राजाओंमें श्रेष्ठ  
 पृथुराजा होताभया १४१ हे मुनिजनो जीव समूहों  
 से यहराजा पृथुही नमस्कारके योग्य है और पूजने  
 के योग्य है और वेदवेदांगके जाननेवाले महाभाग  
 ब्राह्मणोंसे भी यहीपूज्य है १४२ क्योंकि जिससेसना-  
 तन ब्रह्मयोनि है और राजापनाकी इच्छाकरते हुये  
 महाभाग १४३ राजाओंसेभी यह महा प्रतापवान्  
 आदिराजावेनका पुत्र ऐसा पृथुही पूजने के योग्य है  
 और युद्धमें जीतनेकी बांछावाले योद्धाओंसे भी यह  
 पृथुहीपूज्य है १४४ क्योंकि योद्धाओं में आदि योद्धा  
 होनेसे जो योद्धापृथुके गुणोंका कीर्तनकरके युद्ध में  
 जाता है १४५ सो घोर युद्धको तिरकै उत्तम कीर्तिको  
 प्राप्तहोता है और हे मुनिजनो दूकानकी बत्तियों वाले  
 द्रव्य युक्त बैश्यों को भीयह बत्तिका देनेवाला १४६  
 और बड़े यशवाला पृथुही पूज्यहै और हे मुनिजनो  
 त्रिवर्णकी शुश्रूषाकरनेवाले शूद्रोंसे भी उत्तम कीर्तिके  
 वास्तै यही सेव्य है १४७ हे मुनिजनो बड़डे और  
 दुहनेवाले और दूध और पात्रये संपूर्णमेंने आपसबों  
 के प्रतिकहे हैं और क्या कहूं १४८ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांपृथुपारख्यानं  
 नामचतुर्थोध्यायः ४ ॥

पांचवां अध्याय ॥

ऋषियों ने कहा, हे महामते सब मन्वन्तर और पूर्वसृष्टि इनको विस्तार से वर्णन करो १ और हे लोम हर्षणजी जितनेमनु और जितने काल और मन्वन्तर हुये हैं तिनको तत्त्वसे सुननेकी इच्छाकरताहूँ २ लोम-हर्षणजी बोले हे मुनिजनो विस्तारसे मन्वन्तरों का वर्णन सौ वर्ष में भी करने को मैं समर्थ नहीं परन्तु संक्षेपसे कहताहूँ श्रवण करो ३ स्वायंभुव स्वारोचिष औत्तमि तामस रैवत चाक्षुष ४ वैवस्वत यह मनु अब वर्तताहै सावर्णि सौत्य रौच्य ५ मेरु सावर्णि ऐसेचार मनुकहे हैं हे मुनिजनो ये व्यतीत हुये और वर्तमान और आनेवाले संपूर्ण मनु आपसबों से कहेहैं ६ अब इनके ऋषि और पुत्र और देव समूह इन्हेंको वर्णन करताहूँ श्रवण करो ७ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये सातब्रह्माके पुत्र ८ उत्तर दिशामें सप्तर्षि और पामानामदेवता ये संपूर्ण स्वायं-भुव-मनुमें होते भये ९ और आग्नीध्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्, द्युतिमान्, हव्य, सवन, युत्र १० ये स्वायम्भुव-मनु के बड़े पराक्रमी दश पुत्र होतेभये यह तुम्हारेप्रति प्रथम मन्वन्तर कहाहै ११ और वशिष्ठका पुत्र और्व, स्तंब, काश्यप, प्राण, लहस्पति, दक्ष, निश्च्यवन १२ ये महाव्रतमहर्षि और तुषितनास देवता स्वारोचिष मन्वन्तरमें होतेभये १३

१३ और हविष्, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अय-  
स्मय, प्रथित, नभस्य, नभ, ऊर्ज १४ ये महावीर्य्य  
पराक्रम वाले और महात्मा स्वारोचिषमनुके पुत्र कहे  
हैं १५ यह दूसरा मन्वन्तर कहा है अब तीसरा मन्व  
न्तर कहा जाता है तिसको सुनो और वशिष्ठजीके  
वाशिष्ठनाम से विख्यात सात पुत्र हुये और हिरण्य  
गर्भके ऊर्जनामसे विख्यात १६ ये औत्तमिके मनो-  
रम पुत्र हैं १७ ईष, ऊर्ज, तनूर्ज, मधु, माधव, शुचि,  
शुक्र, सह, नभस्य, नभ १८ भानव ये दशपुत्र हुये हैं अब  
चौथा मन्वन्तर कहते हैं सुनो १९ काव्य, पृथु, अग्नि,  
जन्यु, धामा, कपीवान्, ये सम्पूर्ण ऋषि २० और  
पुराणोंमें पुत्र पौत्र भी कहे हैं और सत्य देवगण ये ता-  
मस मन्वन्तरमें होते भये २१ अब इसके पुत्र कहते हैं  
द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोमूल, तपोशन २२ तपोरति,  
अकल्माष, धन्वी, तन्वी, परन्तप ये महाबलवान्  
तामसके दशपुत्र होते भये २३ पवन देवताने ये  
कहे हैं अब पांचवां मन्वन्तर कहते हैं देवबाहु, यदुध्र,  
वेदशिरा २४ हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमसे उत्पन्नहुआ  
ऊर्ध्वबाहु सत्यवादी आत्रेय ये सप्तर्षि २५ और अभूत  
रजस्वभाव, पारिप्लव, रैभ्य देवता पांचवें मन्वन्तर  
में होते भये २६ अब रैवतके पुत्र कहते हैं धृतिमान्,  
अव्यय, युक्त, तत्त्वदर्शी, निरुत्सक २७ अरण्य, प्र-  
काश, निर्माह, सत्यवान्, कृती ये रैवतके पुत्र हैं यह  
पांचवां मन्वन्तर कहा है २८ अब छठां मन्वन्तर कहते

हैं भृगु, नभ, विवस्वान्, सुधामा, विरजा २६ अतिना-  
 मा, सहिष्णु ये सप्तर्षि चाक्षुष मन्वंतरमें होतेभये ३०  
 और आप्य, प्रभूत, ऋभु, पृथु लेखा इन नामोंवाले  
 पांच देवताओं के समूह होतेभये ३१ और अंगिरा  
 ऋषिके पुत्र महात्मा महा तेजवाले नड्वला के पुत्र  
 ऊरुसे आदि लेकर दश होतेभये ३२ यहछठा मन्वं-  
 तर कहाहै और अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप ३३ गौतम,  
 भारद्वाज, विश्वामित्र, ऋचीकके पुत्र ३४ जमदग्नि ये  
 सप्तर्षि और साध्यरुद्र, विश्वेदेवा, वसु, मरुत ३५  
 आदित्य, अश्विनीकुमार ये देवता वैवस्वतमें अब व-  
 र्तते हैं ३६ और इक्ष्वाकुसे आदि लेकर दशपुत्र ये सं-  
 पूर्ण वैवस्वत मनुमें होतेभये ३७ इनसात महर्षियों के  
 पुत्र और पौत्र संपूर्ण मन्वंतरोंमें और संपूर्ण दिशाओं  
 में ३८ लोक व्यवस्थाके वास्ते और लोककी रक्षाके  
 वास्ते स्थितहोते हैं और जब मन्वंतर व्यतीत होजा-  
 ताहै ३९ तब ये कार्य करके स्वर्गमें चलेजाते हैं और  
 तिन्हों से अन्य तपकरके युक्त इन्हों के स्थानपर  
 आजाते हैं ४० ऐसे व्यतीत हुये और वर्तमान  
 सात मनुक्रमसे तुम्हारे आगेकहेहैं ४१ अब आनेवा-  
 ले छःमनु कहतेहैं तिन्होंमें पांच सावर्णि संज्ञक मनु  
 जानो ४२ और एक वैवस्वत तिन्होंमें चार ब्रह्मा के  
 पुत्र सावर्णि ताको प्राप्तहुयैहैं ४३ ये चारों दक्षके दौ-  
 हित्र और प्रियाके पुत्रहोते भयेये बड़े तेजवाले ऋषि  
 मेरु पर्वतमें तपकरते भये ४४ और रुचि प्रजापतिके

पुत्र रौच्यमनु होतेभये और भूतिनाम स्त्रीके विषेरु-  
 चिका पुत्र भौत्यमनु होताभया ४५ अब सावर्णि मनु  
 को कहतेहैं ४६ परशुराम, व्यास, अत्रिकापुत्र द्रोणा-  
 चार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कौशिक, गालव, ऊर्व,  
 कश्यप येसातों ब्रह्माकेसदृश और धन्य ४७। ४८ और  
 जातितप मंत्र व्याकरण इन्होंसे ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित  
 ४९ भूतभव्य भव इन्होंकोजानतपसेप्रसिद्ध और चिं-  
 तक ५० और इन्होंको ऐश्वर्यके द्वाराजानके गृहस्थी  
 प्रणाम करतेहैं ५१ और सात गुणों करके युक्त और  
 दीर्घ आयुवाले और दीर्घनेत्रोंवाले ५२ बुद्धि करके  
 प्रत्यक्ष धर्मोंवाले और कृतआदि युगोंमें ५३ गोत्रों  
 को प्रावृत्त करनेवाले और वर्णाश्रमको प्रवर्तनेवाले  
 और सत्यधर्ममें परायण ५४ और दूसरोंको वर देने-  
 वाले ऐसे भविष्य सप्तर्षि कहेहैं ५५ ऐसे सप्तर्षियोंका  
 आख्यानकहा अब सावर्णि मनुके भविष्य पुत्रोंको सु-  
 नो ५६ वरीयान्, अं वरीष, संमत, धृतिमान्, वसु, चरिष्णु  
 आर्य्य, धृष्णु, वाज, सुमति ५७ हे राजन् ये सावर्णिमनु  
 के पुत्रकहेंहैं अब मेरु सावर्णिकोकहतेहैं सुनो ५८ मे-  
 धातिथि, पौलस्त्य, वसु, काश्यप, भार्गव, अंगिरा ५९  
 वाशिष्ठ, पौलह ये सप्तर्षिनाम रोहित मन्वंतरमें हुयेहैं  
 ६० और दक्षकेपुत्र रोहितके देवताओंके तीनगण ६१  
 और धृष्टकेतु, पंचहोत्र, निराकृती, पृथुश्रवा, भूरिधामा,  
 अर्वाक, अष्टहत, गय ६२ येप्रथम सावर्णिके तेजस्वी  
 नवपुत्रहोतेभये अब दशवांमनुकहतेहैं ६३ हविष्मान्

पौलह, सुकृति, भार्गव, आयुमूर्ति, आत्रेय, वाशिष्ठ  
 ६४ और पौलस्त्य, प्रामति, नभोग, काश्यप, अंगिरा,  
 नभस, सत्य ये परमर्षि होतेभये ६५ और ऋषियोंके  
 संत्र देवताओंके गण होतेभये और उत्तम कुनिषंज  
 ६६ शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भरिद्युम्न,  
 सुवर्चा ये दशपुत्र होतेभये ६७ और ग्यारहवें मन्व-  
 तरमें जोसप्तर्षि कहेहैं तिन्होंकोसुन ६८ काश्यप, भार्ग  
 और आत्रेय, अंगिरा, पौलस्त्य, निश्चर ६९ पुलह  
 ये सप्तर्षि और ब्रह्माके पुत्र तीन देवताओं के समूह  
 होतेभये ७० और संवर्त्तग, सुशर्मा, देवानीक, पुरूवह,  
 क्षेमधन्वा, दृढायुध, आदर्श, पंडक, मनु ये नवपुत्र होते  
 भये ७१ और चतुर्थ स्वरवर्णमें द्युति, सुतपा, अंगिरा,  
 काश्यप, पौलस्त्य, पौलह, पौरवि ७२ भार्ग ये सप्तर्षि  
 होतेभये और ब्रह्माकेपुत्र पांच देवताओंके समूहहोते  
 भये ७३ और देव, वायु, अहर, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मि-  
 त्रवान्, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत ७४ मित्रवाहु,  
 सुवर्चा ये बारहपुत्र होतेभये और तेरहवें मनुमें ७५  
 अंगिरा, पौलस्त्य, पौलह, भार्गव ७६ निष्प्रकंप, काश्यप  
 वाशिष्ठ, ये सप्तर्षि ७७ तीन देवताओंके गण होतेभये  
 और ये तेरह रुचिके पुत्र होतेभये ७८ चित्रसेन, वि-  
 श्वामित्र, नय, धर्मभृत्, धृत्, सुनेत्र, क्षत्रवृद्धि, सुतपा,  
 निर्भय, दृढ ७९ और चौदहवें भौत्यमनुमें आग्नीध्र,  
 काश्यप, पौलस्त्य, भार्गव, शुचिर, अंगिरा, वाशिष्ठ,  
 शुक्रये सप्तर्षि होतेभये ८० ऐसे ये मन्वंतर तुम सबों



४२ आदिव्रह्मपुराण भा० ।  
 से कहे हैं ८१ इन्होंको पुरुष-प्रातःकाल कीर्तनकरै तो  
 सुख आयुयश इन्होंको प्राप्तहोताहै ८२ और ऋषियों  
 के स्मरणसेभी-ऐसाही फल होता है और भौत्यमनु में  
 पांच देवताओं के समूह होतेभये ८३ और तरंग,  
 भीरु, वप्र, तरस्मानुग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु,  
 संक्रंदन ८४ तेजस्वी, सबल ये भौत्यमनुके पुत्र होते  
 भये ८५ इन नामों से मनु आप सबोंके आगे वर्णन  
 करे हैं ८६ ॥

इतिश्रीआदिव्रह्मपुराणभाषायांमन्वंतरकीर्तनं  
 नामपंचमोऽध्यायः ५ ॥

## छठवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो दक्षकी पुत्रीविषे  
 कश्यपजीसे विवस्वान् होतेभये और तिस विवस्वान्के  
 त्वष्टाकीपुत्री १ रेणुनाम भार्या होतीभई पश्चात् सुंदर  
 तप और तेजसे संयुक्त और रूप यौवनवाली २  
 भर्ताके रूपसे नहीं प्रसन्न होती हुई और संज्ञानामसे  
 विख्यात ऐसी भार्याहुई है ३ और उस आदित्यमं-  
 डलके तेजकारूप गात्रोंमें परिदग्धहुआ अतिक्रांतकी  
 तरहनहीं होताभया ४ तब स्नेहसे यह कहतीभई यह  
 अंडस्थ भरणहीं इसवास्ते मातंडनाम होताभया ५  
 और विवस्वान् अधिक तेजस्वीहोने से तीनोंलोकोंको  
 तापकरताभया ६ और यह आदित्य तिससंज्ञामें एकक-

न्या और दोपुत्र उत्पन्न करतेभये ७ तिन्होंमें विवस्वान्  
 का पुत्र श्राद्धदेव होताभया और यमुना और यम ये  
 उत्पन्न होतेभये ८ पश्चात् विवस्वान्का श्यामवर्ण  
 देखकर यह संज्ञा तिसकोनहीं सहतीहुई अपनी छाया  
 सबर्णा को रचती भई ९ पश्चात् यह मायावतीछाया  
 अंजलिबांधके संज्ञाकेआगे स्थितहोकर १० कहने  
 लगी कि हे भामिनि मुझकोआज्ञादो मैं वैसेहीकरूंगी  
 संज्ञा कहनेलगी कि हे छाये तेरा कल्याण हो मैं  
 अपने पिताके भवनमें जातीहूं और तू बिकारसे रहित  
 होके मेरे भवनमें बस ११ ये दोनों मेरेपुत्र और यह  
 कन्या तुझे रक्षाकरनी योग्य है और भगवान् सूर्यके  
 आगे यह वृत्तांत कहना नहीं १२ यहसुन छाया कह-  
 ने लगी हे देवि तू सुखपूर्वक जा जबतक मेरेकेशों को  
 ग्रहण नहींकरेगा और शाप नहींदेगा तबतक मैं नहीं  
 कहूंगी १३ तब लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो ऐसे  
 सुन संज्ञा कहनेलगी कि अच्छा ठीकहै पश्चात् यह  
 तपस्विनी लज्जितसीहोकर त्वष्टापिताकेस्थानमेंजाती  
 भई १४ तब यह पिताके समीपगई तब पिताने झड़के  
 दिया और कहा तू अपने भर्ताके पासजा १५ तब यह  
 घोडीका रूपधारणकर और उत्तरमें कुरुदेशोंमें जाके  
 वहां तृणचरती भई १६ और यहां आदित्य इसको  
 संज्ञाही जानताहुआ इसमें आत्माके समान पुत्र पैदा  
 करताभया १७ और पूर्वजमनुके समान उत्पन्नभया  
 सोही सावर्णिमनुहोताभया १८ और दूसरापुत्र शनैः

इचर होताभया सो हेमुनिजनो यह संज्ञाके पुत्रोंसे १६  
 अपने पुत्रों में अधिक स्नेह करती भई तिसको मनु  
 सहताभया और यम नहीं सहता भया २० पश्चात्  
 यह कोप होकर भावीके बलसे और बालभावसे पैर  
 करके तिसको ताड़न करताभया २१ और यह छाया  
 दुःखित होकर अरे तेरा चरण टूटजावे ऐसे शापदेती  
 भई २२ पश्चात् यह यम छाया के वाक्यों से कांपता  
 हुआ और शापसे उद्विग्नहुआ पिताकेआगे अंजलि  
 बांध सम्पूर्ण कहताभया २३ कि यह मेराशापदूरकरो  
 और माताको सम्पूर्ण पुत्रों में बराबर बर्तना उचित  
 है २४ सो यह हमको छोड़कर और छोटीं पर मोह  
 करतीहै सो क्रोधकर बालभाव से और मोह से इसके  
 लाल मारने को मैं तैयारहुआ परन्तु मारा नहीं २५  
 यह मेरा अपराध क्षमा करो क्योंकि जिससे पूज-  
 नीया का मैंने तिरस्कार किया इस वास्ते यह चरण  
 निःसन्देह पड़ेगा २६ सो हे लोकेश माता ने मुझको  
 शापदिया है सो आप यह दयाकरो कि कृपा से यह  
 चरण नहीं पड़े २७ इतना सुन विवस्वान् कहता  
 भया कि यह तो निश्चय ऐसेही होगा क्योंकि जिस  
 से धर्मज्ञ और सत्यवादी ऐसे तेरे में क्रोध उत्पन्न  
 होता भया २८ क्योंकि और तेरी माताके वचन को  
 अन्यथा करने को भी मैं समर्थ नहीं इस वास्ते कृमि  
 तेरे पैरसे मांस लेलेकर पृथ्वीमें प्राप्तहोवेंगे २९ और  
 तिसके पीछे तू सुखको प्राप्त होगा ऐसे तेरी माताका

वचन सत्य होवेगा ३० और शाप के परिहार करके तू भी रक्षित होवेगा, ऐसे यम से कह पश्चात् सूर्य भगवान् छाया से कहते भये कि हे प्रिये तुल्यपुत्रों में तू न्यून अधिक स्नेह क्यों करती है ३१ ऐसे छाया सुन तिस वार्त्ताको गुप्त करती कुछ उत्तर नहीं देती भई ३२ पश्चात् विवस्वान् आत्माको टेककर योग समाधिसे सत्य देखते भये पश्चात् तिसका नाश करने को तैयार हुये ३३ और केश पकड़ लिये तब सम्पूर्ण वृत्तांत छाया कहती भई ३४ पश्चात् विवस्वान् ऐसे सुन क्रोध युक्त होकर दग्ध करने की इच्छा करके त्वष्टा के पास जाते भये यह त्वष्टा इसका विधिसे पूजनकर ३५ क्रोधको शांतकर ऐसा वचन कहताभया त्वष्टा कहने लगा कि आपका अत्यंत तेजसे यह रूप शोभा को प्राप्त नहीं होता सो आपके तेजको नहीं सहती हुई संज्ञा घोड़ी बनकर हरियाली में चरती है ३६ और शुभचारिणी नित्य तप करनेवाली और घोड़ी का रूप धारण करे ३७ पत्तों का भोजन करनेवाली कृश और दीन जटा को धारण किये ब्रह्मचारिणी और हाथीकी सूंडसे व्याकुल करी पद्मिनी के समान अति व्याकुल ३८ और श्लाघाके योग्य और योग बलसे संयुक्त ऐसी स्त्री को तू आज देखेगा और हे देवेश सूर्य जो मेरे मतको आप योग्य जानो तो ३९ आपके भी रूप को मैं निवृत्त करदेऊं तब तिरछे और ऊंचेरूप से संयुक्त सूर्य हुआ ४० त्वष्टा प्रजापति के वचन को

अच्छीतरह मानताभया ४१ और रूपकी सिद्धि के वास्ते त्वष्टा को आज्ञा देताभया तब समीपमें त्वष्टा प्राप्तहो ४२ आमण यन्त्रके द्वारा सूर्य के रूपको अर्थात् तेजको सूक्ष्मरूप सुन्दर करताभया पीछे तेजकी अल्पतासे तिसका निर्भासित रूपहुआ ४३ तब कांत सेभी अधिक कांत ऐसा रूप पहलेसे भी अधिक शोभित होताभया ४४ और तब से लगायत सूर्य का लोहितरूप मुख हुआ है और तिस रूप को धारण करनेवाला सूर्य ४५ और सूर्य के मुखके प्रथम च्युत रूप तेजसे बारह आदित्य उपजते भये इसवास्ते सब आदित्यों की उत्पत्ति सूर्यके मुखसे मानी गई है ४६ और धाता १ अर्यमा २ मित्र ३ वरुण ४ अंश ५ भग ६ । ४७ इन्द्र ७ विवस्वान् ८ पूषा ९ पर्जन्य १० त्वष्टा ११ विष्णु १२ । ४८ ये उपजनेवालों के नाम हैं इन आदित्यों को अपने देहसे उपजे हुये देख सूर्य अति आनन्दको प्राप्तहोतेभये और गंध पुष्प आभूषण रत्नोंसे जटित मुकुट ४९ इन्हों करके सबों को पूजते भये तब त्वष्टा कहने लगा हे देव उत्तर कुरुके देशमें ५० घोड़ीके रूपको प्राप्त हुई और हरित दूब से संयुक्त देशमें विचरती ऐसी अपनी भार्याके समीप गमन करो ५१ तब अपनी भार्या के रूपकी लीला कर अर्थात् आपभी अश्वके रूपको धारणकर और योगको प्राप्तहो ५२ सबोंके तेज और नियमोंसे अति तेज और नियमवाली अपनी भार्याको देखतेभये ५३

तब अश्वही के रूप में सूर्य्य मैथुन के लिये चेष्टा करते हुये उस अपनी भार्याके मुखमें समागम करते भये ५४ तब वह घोड़ी परपुरुषकी शंकाकर सूर्य्यके वीर्य्यको अपनी नासिकाकेद्वारा बाहरकाढ़नेलगी ५५ तबवैद्योंमेंउत्तम और दिव्यरूपवाले ऐसेअश्विनीकुमार उपजतेभये पीछे नासत्य और दल इसनामसे बिख्यात हुये ५६ ऐसे आठवें प्रजापति सूर्य्य के ये दोनोंपुत्र हुये हैं पीछे दिव्यरूपसे सूर्य्य अपनी भार्याको देखते भये ५७ हे मुनिजनो तब भार्या आनंदित होनेलगी पीछे इसकर्मसे अतिपीड़ित मनवाला धर्मराज ५८ इस प्रजाको धर्मसे पालनेलगा अर्थात् धर्मही के आश्रय हुआ सो इसधर्मके प्रतापसे अतिकीर्त्तिवाला धर्मराज ५९ पितरोंका राजापन और लोकपालता को प्राप्तहुआ और सूर्य्य का पुत्र सावर्णिमनु ६० भावीरूप सावर्णिके अंतर में प्रकाशित होगा जोअब भी मेरुपर्व्वतके पृष्ठभागमें घोरतपकर रहाहै ६१ और तिसके तेजसे त्वष्टाने युद्धर्म नहीं प्रतिहत होनेवाला ऐसा विष्णुका चक्र दैत्योंके नाशवास्ते प्रकाशित किया है ६२ और सावर्णिमनु और धर्मराज इनदोनोंसेछोटी और अति यशवाली ६३ और नदियों में श्रेष्ठ और लोकको सुख देनेवाली और यमुना नामसे बिख्यात दी होती भई ६४ और इस सावर्णिमनुका दूसरा जाता शनैश्चर सब लोकके पूजनेयोग्य ग्रहभाव को प्राप्तहुआ ६५ जो देवताओं के इस जन्मको श्रवण

करें और धारणकरें वह मनुष्य दुःखोंसे रहितहोके  
अति यशको प्राप्तहोताहै ६६ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांआदित्योत्पत्ति  
कथनंनामपष्ठोऽध्यायः ६ ॥

## सातवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो—बैवस्वतमनु के  
इक्ष्वाकु १ नाभाग २ धृष्णु ३ शर्याति ४ । १ नरि-  
ष्य ५ प्रांशु ६ नाभारिष्ट ७ करुष ८ पृषध् ९  
ऐसे नामोंवाले नव पुत्र उपजतेभये २ परंतु इन पुत्रों  
की उत्पत्ति से पहले हे मुनिजनो पुत्रकी कामनावाला  
मनु मित्रावरुण की यज्ञ करताभया ३ तब मनु मित्रा  
वरुणके अंश से अग्निमें बहुतसी आहुतीदेताभया ४  
तब ऐसे आहुती देनेसे देवता गन्धर्ब्व मनुष्य तपो-  
धनवाले मुनि ये सब तप्त होते भये ५ तब दिव्य  
बस्त्रोंको धारणकरे और दिव्य आभूषणों से आभूषित  
और दिव्यरूपवाली ऐसी इलानामसे विख्यात कन्या  
उपजती भई ६ ऐसे सुनाहै तब दण्डको धारण करने  
वाला मनु इलासे कहने लगा पुत्रि तू मेरे संग स्थान  
पै चल ७ तब पुत्रकी कामनावाले मनुजी से धर्मयुक्त  
बचन इला कहनेलगी ८ हे कहनेवालों में श्रेष्ठ मैं  
मित्रावरुण के अंशमें जन्मीहूं इसवास्ते तिन्हीं के  
सकाश जाऊंगी ९ क्योंकि हत किया धर्म मुझ को

मत मारो ऐसे मनुजीसे कह मित्रावरुणके समीप में जाके इला अंजली बांध कहनेलगी १० हे देवताओ तुम दोनोंके अंशमें से मैं उपजी हूं इसवास्ते मुझ को तुम्हारा क्या करनाचाहिये और मनुजीने ऐसे कहा कि तू मेरी पुत्री है ११ पीछे ऐसे कहनेवाली और धर्म में परायण ऐसी इलाकेलिये मित्र और वरुण जैसे कहते भये तैसे सुन १२ हे सुन्दर कटिवाली वरवारिणी इस तेरे धर्म और सत्य और नम्रता और शांति और सतसे हम दोनों प्रसन्न हुये १३ और हे महाभागे तू हमारी पुत्री है ऐसे संसारमें विख्यात होवेगी और बंशको उत्पन्न करनेवाला पुत्र तूही मनुजी के होगी १४ अर्थात् हे शोभने जगत् को प्रिय और मनु के बंश को बढ़ाने वाला और तीन लोक में सुद्युम्न इस नाम से विख्यात ऐसा पुत्र होवेग १५ पीछे ऐसे सुन पिता के समीप में गमन करती हुई इसी अंतरमें चंद्रमाकेपुत्र बुधने मैथुनकेलिये याचना करी १६ तब चन्द्रमाके पुत्र बुधसे तिस इलामें पुरूरवा जन्म लेताभया ऐसे पुत्रको उत्पन्नकर पीछे इला सुद्युम्न होता भया १७ और हे मुनिजनो सुद्युम्न के परमधार्मिक और उत्कल, गय, विनताश्व इन नामों से विख्यात तीनपुत्र होतेभये १८ और उत्कल के उत्कला और विनताश्व के दिक्पाश्चिमा और गय के गया ऐसी श्रेष्ठ पुरी होतीभई १९ और हे अरिदम जब मनुजी सूर्य में प्रवेश करते भये तब दशमनुके



पुत्र इस पृथ्वीका विभाग कर ग्रहण करतेभये मध्य देशका राजा इक्ष्वाकु हुआ २० और तिस समय में कन्याभाव से इस गुणको सुद्युम्न नहीं प्राप्तहुआ २१ और वशिष्ठजी के वचनसे महात्मा पुरुषोंके समान प्रतिष्ठा को सुद्युम्न प्राप्तहोके पीछे त्रयागके समीप में राज्यको प्राप्तहुआ २२ और हे मुनिजनो उसपुरूरवा के लिये राज्य देताभया २३ और उसी राज्यस्थान को घृष्टक अंबरीष दंड ऐसेनामोंवाले तीन पुत्र हुये २४ तिन्होंमें महात्मा दंडकराजा तंपस्वियों के योग्य उत्तम दण्डकारण्य नामसे विख्यात और लोकमें विख्यात ऐसे वनको रचताभया २५ तिसमें प्रवेश करने सेही मनुष्यपापोंसे छूटजाताहै और हे मुनिजनो पीछे पुरूरवा पुत्रको उत्पन्नकर सुद्युम्न स्वर्ग में प्राप्त होते भये २६ और नरिष्यन् के शकजातिवाले राजा पुत्र हुये और नाभागके राजाओं में उत्तम अंबरीष पुत्र हुआ २७ और घृष्णके युद्धमें घृष्टरूप ऐसा धार्मिक क्षत्र हुआ और शर्याती के आनर्त्त नामवाला २ पुत्र और सुकन्या नाम से विख्यात जोकि च्यवन मुनिकी भार्या हुई ऐसी पुत्री हुई २८ इस भांति मिथुन उपजाहै और आनर्त्तके महाद्युतिवाला रेवतनामवाला पुत्र उपजा ३० जिसका आनर्त्तदेशमें राज्यहुआ और कुशस्थली अर्थात् द्वारका राजधानी हुई ३१ और रेवतके ककुद्भीनामवाला और धार्मिक और रेवतनाम सेभी विख्यात ऐसाएक ज्येष्ठपुत्रहुआ ३२ बाकीअन्य

भी १०० पुत्रहुये तिन्होंमेंसे रैवत पुत्र १ अपनीकन्या को ग्रहणकर ब्रह्मलोक में गमन करताभया ३३ तथा एक मुहूर्त के समान बहुत से युगों को बीते हुये सुन जवानअवस्थामें स्थितहुआयादवोंसे आवृत ३४ और द्वारवती नामसेप्रसिद्ध और बहुतद्वारोंवाली और बहुत सुन्दर और श्रीकृष्ण हैं अग्रणी जिन्होंके ऐसे भोज वृष्णि अंधक ३५ इन कुलोंसे रक्षित ऐसी अपनीपुरी में आके प्राप्तहुआ पीछे सब यथार्थ तत्त्वसुन रैवत राजा अपनी रेवती पुत्रीको बलदेवजीके लिये विवाह के ३६ मेरुपर्वतके शिखरपै आपतप करनेवास्ते जाताभया और बलदेवजीभी सुखपूर्वक रेवती के संग रमणकरते भये ३७ मुनिजनोने कहा हे सूतजी बहुत साकाल व्यतीत होगया परन्तु रेवती और रैवतराजा को वृद्धता कैसेनहीं प्राप्तहुई ३८ और मेरुको गये शर्याति राजाकी संतति इससमयमेंभी कैसे पृथिवीमें स्थितरही सोतत्त्वसे श्रवण करनेकी इच्छाकरूंहुं ३९ नोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो वृद्धता क्षुधा तृषा लूयु ऋतु चक्र येसब ब्रह्मलोकमें नहींउपजतेहैं ४० और जबरैवत राजा ब्रह्मलोकमें चलेगये तब कुशस्थली पक्ष और राक्षसोंने ग्रहणकरी ४१ और इसराजा के १०० भ्राता राक्षसों से पीड़ित सब दिशाओं में चले गये ४२ और हे मुनिजनो जब सबभ्राताभाजगये तब अन्य क्षात्रियभी भयभीत होके जहां तहां भाजने लगे ४३ ऐसे समूहके समूह इकट्ठे होकर शर्याति इसनाम

से विख्यात क्षत्रिय होते भये ४४ और हे मुनिजनों-  
 वर्तोंमें प्रवेश करने लगे ४५ और नाभगारिष्ठके वैश्य  
 जातिवाले दो पुत्र ब्राह्मणताको प्राप्त हुये और कारुष  
 के युद्धमें कुशल और कारुष इसनामसे विख्यात ऐसे  
 क्षत्रिय उत्पन्न हुये ४६। ४७ और पृषधराजा गुरुकी  
 गायके मर जानेसे हे मुनिजनो शापसे शूद्रहोगया ऐसे  
 नववैवस्वत मनुजीके पुत्रोंका वर्णन किया है ४८ और  
 मनुजीकी छींकसे इक्ष्वाकु उपजा ४९ और इक्ष्वाकुके  
 बहुतसी दक्षिणादेनेवाले १०० पुत्र उपजे तिनमें ज्येष्ठ  
 पुत्र विकुक्षि हुआ वह युद्ध करनेमें समर्थ नहीं हुआ ५०  
 और अयोध्यापुरीका स्वामी भी हुआ और विकुक्षिके  
 उत्तमरूप और शकुनि नाम १० मुख्य हैं ५१ जिन्हों  
 में ऐसे ५० पुत्र उत्तर के देश में राज्यको प्राप्त हो  
 प्रजाकी पालना करते भये ५२ और वशातिनाम है  
 मुख्य जिन्हों में और प्रजाकी पालना करनेवाले  
 ऐसे ५३ विकुक्षिके पुत्र दक्षिण दिशामें वसते भये ५४  
 और एक समयमें इक्ष्वाकु राजा पर्वत कालमें विकुक्षि  
 से कहने लगा हे महाबल श्राद्धके लिये मृगको मार मांस  
 ला ५५ तब पिताके वचन को नहीं मान और श्राद्ध  
 का निरादर कर ५६ और शशाके मांसको खाके शशाद  
 पुत्र शिकार खेलनेको चला गया तब वशिष्ठजीके वचन  
 से इक्ष्वाकु राजाने विकुक्षिका परित्याग किया ५७ तब  
 इक्ष्वाकुके समीपमें शशाद पुत्र वसतारहा पीछे शशाद  
 के अति वीर्यवाला ककुत्स्थपुत्र उपजा ५८ एक समय

में वृषरूपहुये इन्द्रकेपीछे यही सब राक्षसोंको जीतता भया ५६ ककुत्स्थके अनेना पुत्र हुआ अनेनाके पृथु पुत्रहुआ पीछेपृथुके विष्टराश्वपुत्रहुआ विष्टराश्वकेआर्द्र पुत्रहुआ ६० आर्द्र के युवनाश्व पुत्रहुआ युवनाश्व के श्राव पुत्रहुआ श्रावके श्रावस्त पुत्रहुआ जिसने श्राव-स्ती नाम पुरीरची ६१ श्रावस्तके बृहदश्व पुत्र हुआ बृहदश्वके परमधार्मिक कुबलाश्व पुत्रहुआ ६२ और इसीको धुंधु दैत्य के मारने से धुंधुमारभी कहते हैं ६३ मुनिजन पूछते हैं अब धुंधुदैत्यके मारनेका आख्यान तत्वसे सुननेकी इच्छाकरते हैं जिसकारणसे कुबलाश्व का नाम धुंधुमारहुआ ६४ तब लोमहर्षणजी कहते हैं कुबलाश्वके उत्तम धनुर्विद्यावाले और सब विद्याओं में कुशल ६५ और बलवन्त और सुन्दर ऐसे १०० पुत्र उपजतेभये पीछे बृहदश्व पिता कुबलाश्व पुत्रको राज्य स्थानपर प्राप्तकर ६६ आप बनमें गया तब उत्तङ्क ऋषि उसराजाके गमनको निवारण करतेभये ६७ और उत्तंक मुनिने कहा आप इस लोककी रक्षा करनेयोग्यहो और हेपार्थिव निरुद्विग्नहोके तप करने को समर्थ नहींहो ६८ क्योंकि मेरे आश्रमके समीप में मरुधन्वा देशमें बालुकासे पूर्ण उज्जानक विख्यात है ६९ तिसमें देवताओं से अवध्य और बड़े शरीर वाला और अतिबलवाला और पृथिवीके भीतर प्रवेशकरे और बालुरेत से अन्तर्हित ७० और मधु राक्षसका पुत्र ऐसा धुंधुनामवाला महाराक्षस तप को

कर लोकको नाशनेकेलिये शयन करता है ७१ और एक वर्षके अन्त में जब जब वह राक्षस श्वासको छोड़ता है तब तब पर्वत बन आदिसे संयुक्त पृथिवी कांपती है ७२ और पीछे तिसके श्वाससे उपजेवातसे अतिरज उड़ता है और सूर्य के मार्ग को आंधीसे आच्छादित कर ७ दिनोंतक पृथिवीकांपतीही रहती है ७३ और धूमासे संयुक्त अग्निके किनके प्रकाशित रहते हैं इस वास्ते हे राजन् मैं अपने आश्रममें ठहरने को समर्थ नहीं होता ७४ इसलिये लोकके हितकी कामनाकर इस बड़े शरीरवाले राक्षसको मारो और जब आप इसको मारोगे तब स्वस्थरूपी लोक होजावेंगे ७५ और हे पृथ्वीपते तिसको मारनेवास्ते आपही समर्थ हैं और हे अनघ पूर्वयुगमें त्रिष्णु भगवान् ने मुझको वरदिया है ७६ कि जो इस महाबली राक्षसको मारेगा तिसके तेजको तुम बढ़ावोगे ऐसे मुझसे कहा है ७७ और अल्प तेज से महा तेजवाला यह राक्षस दिव्यशत वर्षोंमें भी दग्धहोने को समर्थनहीं होसकेगा ७८ क्योंकि तिस राक्षसमें ऐसा बल है कि देवताओंकी भी सामर्थ्य नहीं है ऐसे उत्तंक मुनिने राजा से वचन कहे ७९ तब बृहदश्व राजा अपने कुबलाश्व पुत्रको धुंधुदैत्यके मारनेवास्ते देताभया ८० और बृहदश्व कहनेलगा हे भगवन् मैंने शस्त्रों का त्याग करदिया है और हे द्विजश्रेष्ठ यह मेरा पुत्र धुंधु राक्षसको मारेगा इसमें संशयनहीं ८१ ऐसे पुत्रको

आज्ञा देकर राजर्षि तपके लिये पर्वतको गमन करता भया ८२ पीछे कुबलाश्व राजा अपने १०० पुत्रों को संगले धुंधुराक्षस के मारनेवास्ते उत्तंक मुनिके साथ चला ८३ तिससमय में कुबलाश्वराजा के शरीर में उत्तंककी आज्ञासे और संसारके हितके वास्ते विष्णु भगवान् अपने तेजसे प्रवेश करते भये ८४ औरजब राजाने गमन किया तब आकाशमें महाशब्द होनेलगा कि यह श्रीमान् राजा अवध्य है और धुंधुराक्षस को मारेगा ८५ पीछे दिव्यपुष्पोंकी वर्षा राजाके चारोंतरफ देवता करनेलगे और हे मुनिजनो देवताओं में नगारे वजनेलगे ८६ पीछे अपने १०० पुत्रोंसहित राजा बालूरेतसे पूरित समुद्र को खुदावताभया ८७ तब नारायणके तेजसे पुष्टकिया राजा फिर बलवाला होताभया ८८ जब राजाके पुत्रोंने अति खोदन किया तब धुंधुराक्षस पश्चिमदिशाको प्राप्तहो खड़ाहुआ ८९ तब मुखसे उपजे अग्नि कर क्रोधसे लोकोंको उद्वर्त्तन करने की तरह वेगसे पानी फिरता भया जैसे चन्द्रमाके उदयमें समुद्र ९० पीछे उस राक्षसने राजाके सबपुत्र दग्धकरदिये केवल तीनशेषरहे ९१ पीछे तिस अति बलवाले राक्षसके सन्मुख अतितेजवाला राजा प्राप्तहो ९२ राक्षसके जलमयवेगको योगविद्यासे पानकर पीछे जलसे अग्निको शांतकरताभया ९३ पीछे राक्षसको मार उत्तंकमुनिको दिखाता भया ९४ तब उत्तंकमुनिने राजाके लिये वरदिया कि हे राजन् अ-

क्षय्यरूप द्रव्य तेरेपास होवेगा और किसी कालमेंभी शत्रुओंसे पराजय नहींहोगा ६५ और धर्म में रति और अक्षय कालतक स्वर्गमें बासहोगा और जोराक्षसने तेरेपुत्र मारदियेहैं तिन्होंकोभी अक्षयलोक प्राप्त होवेगा ६६ लोमहर्षणजीबोले हे मुनिजनो—तिसकुवलाइवराजाके ३ पुत्र शेषरहे तिन्होंमें ज्येष्ठपुत्र दृढाश्व हुआ और चंद्राश्व कपिलाश्व येदोनो छोटेपुत्रहुये ६७ दृढाश्वके हर्यश्व पुत्रहुआ हर्यश्वके निकुम्भ पुत्रहुआ ६८ निकुम्भके युद्धमें विशारद संहताश्व पुत्रहुआ अकृशाश्व और कृशाश्व ऐसेनामोंवाले दो पुत्र संहताश्वके हुये ६९ और सत् पुरुषोंकी माता और तीन लोकमें दृषद्वती नामसे विख्यात ऐसी हैमवती कन्या उपजी हैमवतीके प्रसेनजित् पुत्रहुआ १०० और गौरीनाम वाली पतिव्रता भार्याको प्राप्तहुआ पतिके शापसे वही गौरी बाहुदानदी होतीभई १०१ बाहुदा नदीमें युवनाश्व राजा उत्पन्नहुआ युवनाश्वके त्रिलोकीको जीतनेवाला मांधाताराजा पुत्रहुआ १०२ तिसने शशबिंदुराजाकीपुत्री और चैत्ररथीनामसे विख्यात १०३ और साध्वी और बिंदुमती नामसे विख्यात और अति रूपवाली और पतिव्रता और दशहजार आताओंसे बड़ी १०४ ऐसीस्त्रीको विवाहकर तिसमें पुरुकुत्स और मुचकुन्द ऐसे नामोंवाले दो पुत्रउपजे १०५ पुरुकुत्सके त्रसदस्यु पुत्रउपजा त्रसदस्यु के नर्मदानदीमें संभूत पुत्रहुआ संभूतके सुधन्वा राजा

पुत्रहुआ १०६ सुधन्वाके त्रिधन्वा पुत्रहुआ त्रिधन्वाके  
 त्रय्यारुणपुत्रहुआ १०७ त्रय्यारुणके अतिबलवाला  
 सत्यव्रत पुत्रहुआ यही सत्यव्रत सबों के विवाहों में  
 विघ्नकरनेलगा १०८ जिसने प्रथम अन्यसे विवाहित  
 करी भार्याको आप ग्रहणकिया बालकपने व काम व  
 मोह व आनन्द व चपलतासे किसी पुरवासीकी कन्या  
 को हरताभया १०९ ऐसे अधर्म करने से त्रय्यारुण  
 राजा इसपुत्रको त्यागताभया ११० तब त्यागाहुआपुत्र  
 पितासे बारम्बार कहनेलगा मैं कहां गमनकरूं १११  
 तब उसीको पिता कहनेलगा हे दुष्ट तू चांडालों के  
 कुलमेंमिलजा और तेरेकरके मैं पुत्रवालानहींहूं ११२  
 ऐसे पिता के बचनसुन नगर से निकसताभया और  
 वशिष्ठजीभी तिसको नहीं रोकतेभये ११३ तब सत्य-  
 व्रत पुत्र चांडालोंमें बसनेलगा और त्रय्यारुण पिता  
 भी वनमें चलागया ११४ तब तिस रायज्मण्डल में  
 बारहवर्षोंतक हे मुनिजनो तिसपापसे इन्द्रने वर्षा नहीं  
 करी ११५ और तिसराजाके विषयमें अपनी भार्या  
 को स्थापितकर विश्वामित्र मुनि विपुल तप करनेल-  
 गे ११६ पीछेविश्वामित्रकीस्त्री अपने मध्यम औरस-  
 पुत्रको गलेमें बांध कुटुम्बकी पालनावास्ते १०० गायों  
 के मूल्यमें बेचने को नगरमें चली ११७ तब हे मुनि-  
 जनो उस गलेमें बँधेहुये महर्षि पुत्रको धर्मात्मा वही  
 सत्यव्रत छुटाताभया ११८ और सब कुटुम्ब की  
 पालना करनेलगा दया करके और विश्वामित्र की



प्रसन्नता के लिये ११९ पीछे गले में बांधने से वह विश्वामित्रका पुत्र गालव नामसे विख्यात हुआ जिस गालवजीको सत्यव्रत वीरने छुड़ाया है १२० ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांसूर्यवंशकथनोनाम  
सप्तमोऽध्यायः ७ ॥

## आठवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजीबोले हे मुनिजनो—पीछे वही सत्यव्रत दया व प्रतिज्ञासे विश्वामित्रकी स्त्रियों को विनयमें स्थितहो पोषताभया १ और मृग शूकर भैसे बनके पशू इन्हों को मार मांसको विश्वामित्रके आश्रम में वृक्षपर बांधताभया २ और उपांसुवृत अर्थात् अन्य कोई नहीं जानसकै ऐसे नियमको अंगीकारकर और बारहवर्षकी दीक्षाकोप्राप्तहो पिताकी आज्ञाको पालता हुआ राजाके बनवासकेपीछेभी पूर्वोक्तस्थानमेंही सत्यव्रतवसतारहा ३ तब अयोध्यापुरीको और सवराज्यको उपाध्यायके सम्बन्धसे वशिष्ठजी रक्षाकरतेभये ४ पीछे बालकपने व भावीसे सत्यव्रत वशिष्ठजीमें नित्यप्रति क्रोधको धारण करताभया ५ क्योंकि जबपिताने सत्यव्रतपुत्रको त्यागा तब वशिष्ठजी किसीकारणसे नहीं बर्जतेभये ६ क्योंकि यह सत्यव्रत अपराधी है कितनेक कालतक प्रायश्चित्तकरो ७ और वशिष्ठजी यह भी विचारनेलगे कि जो इसने पापकिये हैं तिन्होंकी निवृत्तिवारहवर्षकी दीक्षा में होजावेगी ८ तब इसका

अभिषेक किया जावेगा अथवा इसके पुत्रका अभिषेक किया जावेगा ६ और इस अभिप्राय को नहीं जानने वाला सत्यव्रत वशिष्ठजी से बैर रखने लगा १० और इस पिता पुत्रके ऐसे कारणहोने में इन्द्र बारहवर्ष तक नहीं वर्षता भया ११ पीछे एक समय में वह सत्यव्रत दीक्षाको धारण करे हुये जहां तहां गया परन्तु कहीं भी मांस नहीं मिला तब वशिष्ठजी की कामधेनु गायको देव क्रोधसे व मोहसे व परिश्रमसे संयुक्त और क्षुधामे पीड़ित १२ और मन १ श्रमन २ उन्मत्त ३ श्रान्त ४ विभुक्षित ५ त्वग्माण ६ भीरु ७ लुब्ध ८ क्रुद्ध ९ कामी १० इन दशधर्मोवाला होके १३ वह राजपुत्र उस गायको मार मांसले विश्वामित्रके पुत्रोंको स्वर्गके पीछे आप खाताभया १४ तब इस आख्यान को वशिष्ठजी मन इसपै क्रोध करने लगे १५ और क्रुद्धहुये वशिष्ठजी इस राजपुत्रके लिये ऐसे कहनेलगे १६ हे कर तेरे पूर्वोक्त अपराध को मैं दूर करदुंगा परन्तु तेने तीन अपराध अर्थात् एकतो पिताका अपरितोष दूसरा गायका मारना और तीसरा अभोक्षित गायके मांसको खाना ये तीनअपराधकिये हैं १७ इस-वास्ते तेने त्रिशंकु अर्थात् तीन अपराध किये हैं इस-लिये तुभको त्रिशंकु सब कहेंगे १८ पीछे समयमें विश्वामित्रजी आके अपने कुटुंबकी पालना करनेवाला देव तिस राजपुत्रसे कहने लगे कि वरमांग १९ तब तो राजपुत्रने कहा मैं अपने इस शरीर सहित स्वर्ग-

लोकमें जाऊं ऐसा वरमांगा २० पीछे जब वारहवर्ष के पश्चात् अनाद्यष्टिके भय शांत होगये तब इसराज-पुत्रको पिताके राज्यपर प्राप्तकर विश्वामित्रजी यज्ञ कराने लगे २१ तब देवतों और वशिष्ठजी के देखते हुये विश्वामित्रजी शरीर सहित इस राजपुत्रको स्वर्ग में प्राप्तकरते भये २२ और इस सत्यव्रतके कैकयवंश की सत्यरथारानी दिव्यरूपवाले हरिश्चंद्र पुत्रको उपजाती भई २३ सो यह हरिश्चंद्र राजा त्रिशंकुका पुत्र हुआ और इसने राजसूययज्ञकरी और चक्रवर्ती राजा हुआ २४ हरिश्चंद्रके वीर्यवाला रोहित पुत्र हुआ जिसने देशकी सिद्धिके लिये रोहितपुर रचा २५ यह राजर्षि राज्यकर और प्रजाकी पालना कर और संसार को असाररूप जान इसरोहितपुरको ब्राह्मणोंके लिये देता भया २६ रोहितके हरितपुत्र हुआ हरितके चंचुपुत्र हुआ चंचुके विजय और सुदेव इन नामोंवाले दो पुत्र हुये २७ इन्होंने विजयमें सब क्षत्रिय जीतलिये इसवास्ते यह विजय कहाया विजयके धर्म अर्थको जाननेवाला रुरुक पुत्र हुआ २८ रुरुकके वृक पुत्र हुआ वृकके बाहु पुत्र हुआ इसराजाको शक यवन कांबोज पारंद पल्लव २९ हैहय तालजंघ ऐसे नामोंवाले मनुष्यराज्य से अलग करते भये और यह राजा अतिधार्मिक भी नहीं हुआ ३० इस बाहुके सकाशसे और्वसीमें विष से संयुक्त सगर पुत्र हुआ तिसको भृगुवंशमें होनेवाले और्वमुनि पालते भये ३१ इसी मुनिसे सगर राजा

आग्नेय अस्त्रको सीख पीछे तालजंघ हैहय इनको मार और सब पृथिवीको जीत शक पल्लव पारद इन क्षत्रियों के धर्मों को छुड़ाताभया ३२ । ३३ और मुनिजन पूछते हैं विषसे सहित सगर राजा जन्मता भया और किस वास्ते शक आदि क्षत्रियों के ३४ कुलोचित धर्मों का क्रुद्धरूप राजा होके छुड़ाता भया और हे लोमहर्षणजी यह सब विस्तारसे हमारेप्रति कहो ३५ तब लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो ब्यसन वाले बाहुका राज्य जब हैहय तालजंघ शक इनआदियोंने हरलिया ३६ तब राजा बनको गया और वह दुःखित राजा वन में जाके मरगया ३७ और इस राजाकी गर्भिणी स्त्री को प्रथम दूसरी रानीने विष दे दिया था ३८ सो विष संयुक्त बालकको धारण किये बाहुकी रानी भी संग गई जब पतिके प्राणांत होगये तब चितावना वनमें पतिके संग गर्भवती रानी जलने लगी ३९ तब दयाभावसे और्वमुनि जलने से वर्जते भये ४० पीछे और्वमुनिके आश्रम में विषसहित बालक जन्मा ४१ तब मुनि उस बालकके जातकर्मादि करा पीछे सबवेदों का अध्ययन करा ४२ पीछे अस्त्र देताभया पीछे देवताओं को भीदुःसह ऐसे आग्नेय-अस्त्र को सीख और सेना इकट्ठीकर ४३ हैहय संज्ञक क्षत्रियों को मारताभया जैसे क्रुद्धहुआ रुद्र पशुओं को और संसारमें कीर्त्ति बढ़ाने लगा ४४ पीछे शक यवन कांबोज पारद पल्लव इन सबों को मारनेलगा ४५

तव हा हा पुकारते हुये सब वशिष्ठजी की शरण  
 गये ४६ तव नियम करा वशिष्ठजी सगर को वर्जते  
 भये और शक आदि क्षत्रियोंको अभय देतेभये ४७  
 तव सगरराजा अपनीप्रतिज्ञा और वशिष्ठजीके वचन  
 कोसुन तिन क्षत्रियोंके धर्मोंको नाशताभया ४८ पीछे  
 शकजातिके क्षत्रियोंके आधेशिरको मुँड़ा छोड़ताभया  
 पीछे यवन और कांबोज क्षत्रियोंके सम्पूर्ण शिरको मुँ-  
 डा छोड़ताभया ४९ पीछे पारदक्षत्रियोंको छुटेहुये वा-  
 लोंवाले बना छोड़ताभया पीछे पल्लवक्षत्रियोंको इमश्रू  
 अर्थात् डाढ़ी धारणकरनेवाले बना छोड़ताभया ऐसे  
 येसब स्वाध्याय वषट्कारसे रहित सगरनेकरदिये ५०  
 और शकयवन कांबोज पारद पल्लव कोलि सर्प महिष  
 दार्व चौल केरल ५१ इन सबक्षत्रियों के धर्मोंका नाश  
 करदिया और वशिष्ठजीके वचनसे ५२ खस तुखार  
 चोल मद्र किष्किन्धिक कोंतलवङ्ग शाल्व कोंकण ५३  
 इनदेशोंके राजाओंकोभी धर्मसे रहित करताभया ऐसे  
 पृथिवीको जीत धर्मको जाननेवाला सगरराजा अश्व-  
 मेध यज्ञकेलिये दीक्षितहो अश्वको चलानेलगा ५४  
 पीछे चलता हुआ अश्व पूर्व दक्षिणके समुद्रके समीप  
 में अपहत हुआ पृथिवीमें प्रवेश करताभया ५५ तव  
 राजा उस देशको अपने पुत्रोंके द्वारा खुदाताभया तव  
 उस जगह को खोदते हुये ५६ आदिदेव कृष्ण हरि  
 प्रजापति विष्णु इन नामोंवाले कपिलमुनिजीकोशयन  
 करतेहुये खेदतेभये ५७ तव जागने से कपिलमुनिजी

के नेत्रोंके तेजसे सगरके सबपुत्र दग्ध होगये परन्तु  
 वर्षकेतु सुकेतु धर्मरथ पंचजन इन नामोंवाले चारपुत्र  
 अवशेषरहे ५८ और इन्होंनेहीसेवंशबढ़ेगा पीछे सगरको  
 कपिलमुनिजीने बरदानदिया कि इक्ष्वाकुका अक्षयवंश  
 रहेगा और तेरी सुन्दर कीर्ति बढ़ेगी ५९ और समुद्र  
 पुत्र होवेगा और अक्षय स्वर्गवासहोगा ६० और मेरे  
 नेत्रोंकेतेजसे जो पुत्रदग्धहोगयेहैं तिन्होंको अक्षयलोक  
 प्राप्तहोवेगा ६१ पीछे समुद्र अर्घ्यग्रहणकर तिससगर  
 राजाको प्रणाम करताभया और तिस कर्मसे समुद्रको  
 सागर कहते हैं ६२ ऐसेसमुद्रसे उसअश्वको ग्रहणकर  
 १०० अश्वमेध यज्ञकरताभया ६३ और सगरराजा  
 के ६०००० पुत्रहुये ऐसे हमने सुनाहै ६४ मुनिजनोंने  
 प्रश्न किया कि हे लोमहर्षण जी तिस महात्मा सगर  
 राजाके ६०००० पुत्र कैसे जन्मे ६५ तब लोमहर्षणजी  
 कहने लगे सगरराजा के दो भार्या हुई वे दोनों तप  
 से पापोंको दग्धकरती भईं तिन्होंमें बिदर्भकी पुत्री  
 और केशिनी नामसे विख्यात ऐसी बड़ी भार्या हुई  
 ६६ और अरिष्टनेमिकी पुत्री स्वरूप से पृथ्वीभर में  
 अति सुन्दर और महती नाम से विख्यात ऐसी छोटी  
 भार्या हुई ६७ हे मुनिजनो और्वमुनि तिन दोनोंको  
 बरदेनेलगे एकभार्या ६०००० पुत्रोंको जन्मेगी ६८  
 और एकभार्या के वंशको धारण करनेवाला एकपुत्र  
 उपजेगा सो तुम दोनों इच्छापूर्वक ऐसे वरको ग्रहण  
 करो ६९ तब एकभार्या लोभको प्राप्तहो शरवीर

६४ आदिब्रह्मपुराण भा० ।

रूपी ६०००० पुत्रों को मांगती भई और एक भार्या  
वंशको चलानेवाले एकपुत्रको मांगतीभई ऐसेही मुनि  
वरदान देतेभये ७० तब केशिनी भार्या के असमं-  
जानामवाला पुत्र उपजा यहसमयपाके महाबल पंच-  
जन नाम राजाहुआ ७१ और दूसरी रानी बीजों से  
सम्पूर्ण तूवी उपजाती भई तिसमें ६०००० काल के  
अनुसार उपज बढ़ते भये ७२ तिन्होंको सगर राजा  
घृतसे पूर्णकुंभ में प्राप्त करनेलगा और जितने गर्भथे  
उतनीही राजाने धार्ये पोषणकेवास्ते प्राप्तकरीं ७३ पी-  
छे दशवें महीनेमें क्रमसे सगरकी प्रीतिको बढ़ानेवाले  
७४ काल के अनुसार ६०००० बालक उपजते भये  
ऐसे हे पृथिवीपते तूवीमें से पुत्र उपजे हैं ७५ पंचजन  
के अंशुमान् पुत्रहुआ और अंशुमान्के दिलीप पुत्र  
हुआ दिलीपके खट्वांग पुत्रहुआ ७६ जिसने स्वर्ग  
से फिर इसलोक में आगमनकर एकमुहूर्त्तभर जीवके  
सत्यसे और बुद्धि से तीनोंलोक अनुसंधित करदिये  
७७ दिलीपके भगीरथ पुत्रहुआ जिसने ये श्रीगंगाजी  
इसलोकमें प्राप्तकरी ७८ और समुद्रमेंमिला पुत्रीभाव  
से मानता भया ७९ इसवास्ते वंशचितक गंगा को  
भागीरथी कहते हैं भगीरथ के श्रुत पुत्रहुआ श्रुत के  
नाभागपुत्रहुआ नाभागके अंबरीषपुत्रहुआ अंबरीष  
के सिंधुद्वीप पुत्रहुआ ८० सिंधुद्वीप के आयुताजित्  
पुत्र हुआ आयुताजित्के महायशवाला ऋतुपर्ण पुत्र  
हुआ ८१ यहराजा पांसोंकेखेलने में अतिचतुर और

नलराजाकामित्र होताभया ऋतुपर्णके आर्त्तपर्णि पुत्र  
हुआ ८२ आर्त्तपर्णिके सुदासपुत्र हुआ यह राजा इन्द्र  
कापुत्रहोताभया सुदासकापुत्र सौदास हुआ ८३ इसी  
को कल्माषपाद और मित्रसहभी कहते हैं कल्माष  
पादके सर्वकर्मा पुत्रहुआ ८४ सर्वकर्मा के अनरण्य  
पुत्रहुआ अनरण्यके निघ्न पुत्रहुआ निघ्नके ८५ अन-  
मित्र और रघु ऐसे नामोंवाले दो पुत्र हुये अनमित्र  
के दुलिदुह पुत्रहुआ ८६ दुलिदुहके दिलीप पुत्रहुआ  
यह रामचंद्रजीका पितामहलगा दिलीपके दीर्घबाहु-  
आंवाला रघु पुत्रहुआ ८७ यह अयोध्यापुरी में महा  
बली होताभया रघुके अज पुत्रहुआ अजके दशरथ  
पुत्रहुआ ८८ दशरथ के धर्मात्मा और महा यश  
वाले ऐसे रामचंद्रजी पुत्रहुये रामचंद्रके कुशपुत्रहुआ  
८९ कुशके अतिथि पुत्रहुआ अतिथिके निषध पुत्र  
हुआ निषधके नल पुत्रहुआ नलके नभ पुत्रहुआ ९०  
नभके पुंडरीक पुत्रहुआ पुंडरीकके क्षेमधन्वा पुत्रहुआ  
क्षेमधन्वाके प्रतापवाला देवानीक पुत्रहुआ ९१ देवा-  
नीकके अहिनगु पुत्रहुआ अहिनगुके सुधन्वा पुत्र  
हुआ ९२ सुधन्वाके नल पुत्रहुआ नलके उक्थ पुत्र  
हुआ ९३ उक्थके बज्रनाभ पुत्रहुआ बज्रनाभके शंख  
पुत्रहुआ शंखके व्युषिताश्व पुत्रहुआ ९४ व्युषिताश्वके  
पुष्य पुत्रहुआ पुष्यके अर्थसिद्धि पुत्रहुआ अर्थसिद्धि  
के सुदर्शन पुत्रहुआ सुदर्शनके अग्निवर्ण पुत्रहुआ  
९५ अग्निवर्णके शीघ्र पुत्रहुआ शीघ्रके मरु पुत्रहुआ



मरुयोगकोप्राप्त कलापद्वीपको प्राप्तहुआ ९६ मरु  
के विश्रुतवत् पुत्रहुआ विश्रुतवत्के बहूद्वल पुत्रहुआ  
और हे मुनिजनो २ नल राजेपुराणोंमें विख्यातहैं ९७  
एक वीरसेनकापुत्र और दूसरा इक्ष्वाकु वंशमें होने  
वाला ऐसेजानो और इक्ष्वाकुवंशके राजे प्रधानता से  
यहां कह दियेगये ९८ अर्थात् यहसब सूर्यवंशीराजों  
का वंशहै इस श्राद्ध देवरूपी सूर्यवंश के आख्यानको  
पठनकरनेसे ९९ संततिवाला और पापों से रहित  
और अति आयुवाला ऐसा मनुष्य होजाताहै १००  
और सूर्यलोकके वासका अधिकारीहोजाताहै १०१ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांआदित्यवंशानु-

कीर्त्तननामअष्टमोऽध्यायः ८॥

## नवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजीवोले हे मुनिजनो प्रजाको रचनेकी  
इच्छाकरनेवाले ब्रह्माजी के मनसे चंद्रमाका पिता  
अत्रिऋषि उपजा १ यह अत्रि कर्म मन वाणी इन्हों  
से सब मनुष्योंके कल्याण के लिये शुभकर्मोंका आ-  
चरण करनेलगा २ सब प्राणियों में दया रखनेवाला  
और धर्मात्मा और उग्रव्रतोंको धारण करनेवाला और  
काष्ठ भीत पत्थर इन्हों के समान शरीरको धारण कर-  
नेवाला और आकाश के सामने दोनों भुजाओंको उ-  
ठाके धारण करनेवाला ३ और महा तेजवाला ऐसा  
अत्रिऋषि सब इन्द्रियोंका निग्रह करनेवाला मौनको

प्राप्तहो ४ तीनहजार दिव्यवर्षोंतक उग्रतपको करनेलगा ऐसेहमने सुनाहै ५ पीछे महापराक्रमवाले और ऊर्ध्वगत वीर्यको धारण करनेवाले ऐसे अत्रिऋषि के शरीरके ऊर्ध्वभाग में अमृत उपजा ६ तब दोनों नेत्रोंके द्वारा दशोंदिशाओंको प्रकाशित करताहुआ ७ पानी फिरनेलगा तिस तेजसंयुक्त पानीरूपी गर्भको प्रफुल्लितहुई दशोंदिशा मिलके धारण करनेलगीं परंतु धारण करनेमें समर्थ नहीं हुई ८ जब उन्होंनेसे धारण नहीं किया गया तब वह तेजरूपी गर्भ पृथ्वीमें पड़ने लगा ९ तब पड़ते हुये उस अमृतरूपी गर्भको सबके बड़े ब्रह्मार्जी देखके लोकोंके कल्याणकेलिये रथमेंस्थापित करतेभये १० अब रथका स्वरूप बर्णनकिया जाताहै हे मुनिजनो काष्ठकीतरह वेदोंसे रचाहुआ और धर्मरूपी और सत्यरूपी ब्रह्मका संग्रह और सफेद रंगवाले हजारों वेदकेमंत्ररूपी घोड़ोंसेसंयुक्त ऐसारथ कास्वरूप हमनेसुनाहै ११ और जब चंद्रमारूपीतेज पृथ्वीमेंपड़नेलगा तब ब्रह्माकेमनसे उपजे सातपुत्र १२ और अंगिरा और अंगिराके पुत्र भृगु और भृगुके पुत्र ऋग्वेद और यजुर्वेदकेद्वारा चंद्रमा की स्तुति करनेलगे १३ तब चंद्रमाकातेज बढ़के सबलोकोंको पुष्ट करताहुआ त्रिलोकीको प्रकाशित करनेलगा १४ और उस उत्तम रथमें बैठके समुद्रों पर्यन्त संपूर्णपृथ्वीकी इक्कीसपरिक्रमा चंद्रमानेकरीं १५ और जो रथकेबेगसे चंद्रमाका तेज पृथ्वीमें प्राप्तहुआ उससे सब ओषधियां

उपजनेलगीं १६ इसीवास्ते चन्द्रमाके तेजसे सब अन्न  
 आदि ओषधियां प्रफुल्लित होतीहैं औ इन अन्नआदि  
 ओषधियोंके प्रतापसे अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज  
 ऐसे चारप्रकारकी प्रजा जीवती है ऐसे हे मुनिजनो  
 सब जगत्को पुष्टकरनेवाला चन्द्रमा कहाहै १७ पीछे  
 उत्तम कर्मोंसे उत्तम तेजको प्राप्तहो एकहजार पद्मसं-  
 ख्यावाले वर्षोंतक तपकरता भया १८ इसीवास्ते जो  
 सुवर्णके समान वर्णवाली देवी इसजगत् को धारणकर  
 रहीहै अर्थात् सबप्रकारके जलोंका स्वामी चन्द्रमा  
 कियागया १९ और यही चन्द्रमा सबप्रकारके बीज  
 और ओषधी और ब्राह्मण और जल इनसबों का  
 स्वामी बनाया गया २० ऐसे उत्तम राज्यपै प्राप्तहोचं-  
 द्रमा सबलोक लोकान्तरों को अपने तेजसे प्रकाशित  
 करताहै २१ पीछे दक्ष प्रजापति अपनी अश्विनीआ-  
 दि और रेवती पर्यंत जो सत्ताईस नक्षत्र हैं इन पु-  
 त्रियोंको चन्द्रमाके लिये विवाहताभया २२ पीछे  
 चन्द्रमा उत्तमराज्यको प्राप्तहो राजसूय यज्ञका आरं-  
 भ करनेलगा तिसमें जहांएक अशरफी व एकगाय  
 की दक्षिणाथी उसजगह लाख लाख अशरफी और  
 लाख लाख गौकादान करता भया २३ और उसयज्ञ  
 में अत्रि मुनि होतावनते भये और भृगुमुनि अध्वर्यु  
 वनतेभये और अंगिरा मुनिउद्गाता वनतेभये और  
 साक्षात् ब्रह्माजी ब्रह्मा वनतेभये २४ अथवा वशिष्ठजी  
 ब्रह्मावनतेभये और साक्षात् नारायण सनत्कुमारआदि

ब्रह्मर्षियोंसे संयुक्तहो सभापति बनतेभये २५ और हे मुनिजनो मैंने ऐसासुनाहै यज्ञके अंतमें मुनिजनों के लिये चन्द्रमा ने त्रिलोकीका दानकर दिया २६ और सिनी वाली कुहू अर्थात् अमावस्या और द्युति, पुष्टि, प्रभावसु और कीर्ति, धृति, लक्ष्मी येभी देवी चन्द्रमा को सेवनेलगीं २७ ऐसे यज्ञको पूर्ण करदेवता और मुनिजनोंसे पूजित किया सबराजाओंसे प्रधान ऐसा चन्द्रमाहोके दशोंदिशाओंको भासित करताहुआ आप प्रकाशितहोता भया २८ परंतु हे मुनिजनो ऐसे उत्तम ऐश्वर्यको प्राप्तहो और मदसे भ्रमतेहुये चंद्रमाकी अनीतिसे बुद्धि भ्रष्टहोनेलगी २९ तबवह चन्द्रमा अतियश वाली और तारा नामवाली बृहस्पतिकी भार्या को हरताभया ३० तब देवता और राजर्षियोंने अत्यन्त समझायाभी परन्तु उसतारा नामवाली स्त्रीको नहीं छोड़ताभया ३१ तब चन्द्रमाके संग बृहस्पतिजी युद्ध करने को तय्यारभये तब चन्द्रमाकी तरफ मदददेने वाले दैत्योंके गुरु शुक्राचार्यजी हुये ३२ और एक समयमें बृहस्पतिजी अपने पितासे पहले महादेवजी से पठन करतेभये उस स्नेहसे महादेवजी ३३ अजगव नामवाले धनुषको धारणकर बृहस्पतिजीकी तरफ मदददेनेवाले हुये और उसीसमय दैत्योंके नाशकरने वास्ते महादेवजीने ब्रह्मशिरनामवाला उग्र अस्त्ररचलिया ३४ जिसकरके दैत्योंका यशनाशको प्राप्तहुआ तब देवता और दैत्योंका आपसमें लोकके क्षय करने-

वाला और तारकामय नामसे विख्यात ३५ ऐसा युद्ध होनेलगा तब बहुतसे दैत्य और बहुतसे देवता नाश को प्राप्तहोगये पीछे तिस युद्धसे बचेहुये तुषित संज्ञा-वाले देवता आदिदेव और सनातन ऐसे ब्रह्माजी के शरणमें जाके प्राप्तहुये ३६ तब आप ब्रह्माजी आके शुक्राचार्य और महादेवजीको निवारणकर ३७ तारा स्त्रीको चन्द्रमासे खोशबृहस्पतिजीको देतेभये तब उस गर्भवती ताराको देख बृहस्पतिजी कहनेलगे ३८ मेरे स्थानमें गर्भ को धारण मतकरे एकान्त स्थानमें इस गर्भको त्याग ३९ तब एकान्तस्थानमें वह तारा उस गर्भ को त्यागनेलगी तब जन्मलेतेही वह दिव्यरूप वाला गर्भ देवताओं के रूपों से भी अधिक रूपको धारण करताभया ४० तब सब देवता संशयको प्राप्त हो तारासे कहनेलगे हे कल्याणी तू सत्यकह यह बालक चन्द्रमाका पुत्रहै या बृहस्पतिजी का ४१ ऐसे प्रकार देवताओंने पूछाभी परन्तु वहतारा कुछभी नहीं बोलतीभई तब तिसताराको वह बालक शापदेने को तय्यारभया ४२ तबउस बालकको बर्ज ब्रह्माजी तारा से पूछनेलगे हे देवी यह किसका पुत्रहै सो तू सत्य बर्णनकर ४३ तब दोनों हाथोंको जोड़ वरके देनेवाले ब्रह्माजीसे कहनेलगी हे स्वामिन् दस्युजनों को दुःख देनेवाला यह बालक चन्द्रमा का पुत्र है ४४ तब चन्द्रमा उस बालकके मस्तकको सूँघ अपने पुत्रका बुध ऐसा नाम धरताभया ४५ परन्तु यह बुध आकाश

में प्रतिकूलपनेसे उदयहोता है और वैराजमनुके इला नामपुत्री उपजी ४६ तिसमें यह बुध पुरूरवा नाम वाले पुत्रको उपजाताभया इस पुरूरवाके उर्वशी में सातपुत्रउपजे ४७ और राजयक्ष्मा रोगने चन्द्रमा को ग्रसलिया तिससे चन्द्रमाकामंडल क्षीणहोनेलगा ४८ तब चन्द्रमा अत्रिमुनिकी शरणमें गया तब महातप वाले अत्रि मुनि तिस पापरोगकी शांतिकरतेभये ४९ तब राजयक्ष्मासे छूटके उत्तम शोभाको प्राप्तहो चारों तरफसे चन्द्रमा प्रकाश करनेलगा ऐसे कीर्तिको बढ़ाने वाले चन्द्रमाका जन्म वर्णन किया है ५० और इसके उपरान्त सोम वंशका श्रवणकर और धन्यरूप आरोग्य और आयुका देनेवाला और पवित्र और मनो-बांछितदेनेवाला ५१ ऐसे चन्द्रमाके जन्मको सुनने से मनुष्यके सब पापदूर होजाते हैं ५२ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांसोमोत्पत्ति

वर्णनंतामनवमोध्यायः ९ ॥

## दशवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हेमुनिजनो बुधके अति विद्वान् और तेजस्वी और दान शील और यज्ञ करनेवाला और अतिदक्षिणादेनेवाला १ ब्रह्मवादी और शत्रुओं को युद्धमें जीतनेवाला और अग्निहोत्र आदियज्ञोंका करनेवाला और पृथ्वी का पति २ और सत्यवादी और पवित्र बुद्धिवाला और त्रिलोकीमें सबके यशोंसे उत्तम

यशको धारण करनेवाला ऐसा पुरूरवा राजा हुआ ३  
 ब्रह्मवादी और शान्त स्वरूप और धर्म को जानने  
 वाला और सत्यवादी ऐसे इसपुरूरवाराजाको उर्वशी  
 बरती भई ४ तिसउर्वशीके संग चैत्ररथ वनमें दशवर्ष  
 और मंदाकिनी नदीके तटपै पांच वर्ष ५ और अल-  
 का पुरी में पांच वर्ष और बदरी पुरी में छः वर्ष और  
 नंदन वनमें सात वर्ष ६ और उत्तर कुरुओंके देशमें  
 आठ वर्ष और गंधमादन पर्वतमें दश वर्ष और  
 सुमेरु पर्वत में आठ वर्ष ७ ऐसे इन अनेक वनों में  
 उर्वशीके संग राजा भोग भोगने लगा ८ और इस  
 पुरूरवा राजाकी प्रयागमें राजधानी हुई ९ और इस  
 पुरूरवा राजाके सकाशसे उर्वशीमें महात्मारूप और  
 आयु, अमावसु १० विश्वायु, श्रुतायु, दृढायु, वनायु,  
 शतायु इननामोंवाले सातपुत्र स्वर्गमें उपजे ११ अमा-  
 वसु के भीम और नग्नजित् ये दो पुत्र हुये भीम के  
 श्रीमान्कांचनप्रभ पुत्रहुआ १२ कांचनप्रभ के विद्वान्  
 और महाबलवाला सुहोत्रपुत्र हुआ सुहोत्रके केशनी  
 रानीमें जह्नुपुत्रहुआ १३ जिसने सर्वमैध और महा-  
 मख इस नामवाला महायज्ञकिया और पतिके लोभसे  
 जिसको गंगाप्राप्तहोतीभई १४ तब वह गंगाकी इच्छा  
 नहीं करने लगा तब गंगाजी ने सब यज्ञस्थान जल से  
 डुबोदिये १५ तब क्रोधको प्राप्तहो जह्नुराजा कहने लगा  
 किहे गंगे तैने बहुतबुराकामकियाहै इसवास्तेतेरेजलको  
 पानकरूं १६ तू अपने अभिमान के फलको तत्काल

प्राप्त होगी ऐसे कहके राजर्षि जहनु गंगा के जल को पीने लगा १७ तब पीहुई गंगाको देख महर्षिजन जहनु राजाकी पुत्री बनाते हुये पीछे युवनाश्व राजा की पुत्री कावेरीको जहनु राजाविवाहताभया १८ और युवनाश्वके शापसे पहिलेही गंगाने अपने आधे भाग से कावेरी रचदी है १९ पीछे जहनु राजा कावेरी रानीमें परमधार्मिक सुनह नामवाले पुत्रको उत्पन्न करता भया पीछे कुशके देव समान तेजवाले और कुशिक, कुशनाभ, कुशांब, मूर्त्तिमान् २० इन नामोंवाले चार पुत्र हुये वनचारी पल्लुओंके संग बड़ाहुआ कुशिक राजा तप करने लगा और यह चाहने लगा कि इन्द्र के समान पुत्रोंको प्राप्तहूं २१ ऐसे हजारों वर्षों के व्यतीत होनेके बाद इन्द्र अति तप करने वाले उस कुशिक राजाको देख २२ अपनेही अंशको उसराजा के पुत्र उपजाता भया २३ तब गाधि नामवाला और कुशिक का पुत्र और साक्षात् २४ इन्द्रका अंश ऐसा गाधिपौर कुत्सीरानी में उपजा गाधि के महाभाग्य वाली और सत्यवती नामसे विख्यात ऐसी पुत्री उपजी २५ इसको ऋचीक नाम वाले भृगु पुत्रके लिये गाधि देताभया पीछे प्रसन्न हुआ ऋचीक मुनि २६ अपने और गाधिके पुत्रहोनेके लिये चरु बनाके अपनी स्त्री से कहने लगा २७ हे प्रिये ये दो चरु के डौने हैं इन्होंमें से एक यह तेरी माताके खानेकेवास्ते है इसके प्रतापसे तेरीमाता अतितेज वाला २८ और क्षत्रियों



में उत्तम और इस संसारके क्षत्रियोंसे नहीं जीतने में  
 आनेवाला और बलवन्त क्षत्रियोंको मारनेवाला ऐसे  
 पुत्रको जन्मेगी इसलिये यह चरुका डौना अपनी माता  
 के लिये देना और हे कल्याणी यह दूसरा चरुका डौना  
 तुम्हको देता हूँ इसके खाने से धीर्यवाला और तप  
 करनेवाला २६ और शांतस्वरूप और ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ  
 ऐसे पुत्रको तू जनेगी ऐसे ऋचीक मुनि सत्यवती मा-  
 र्यासे कहके ३० तप करनेके लिये वनमें प्रवेश करता  
 भया पीछे अपनी भार्याकरके सहित गाधि ३१ तीर्थ  
 यात्राके प्रसंगसे पुत्रीको देखनेवास्ते ऋचीकमुनि के  
 आश्रममें प्राप्त हुआ ३२ तब दोनों चरुके डौनोंको  
 ग्रहणकर सत्यवती माताको देती भई और सब वृत्तांत  
 कहती भई ३३ परन्तु दैवयोगसे माता विपरीत भाव  
 से अपने चरुके डौनेको पुत्रीके लिये दैके ३४ और  
 पुत्रीके डौनेको आप अंगीकार करती भई पीछे क्षत्रि-  
 योंके अंत करने वाले गर्भको सत्यवती धारती भई ३५  
 तब ऋचीकमुनि देखके और योगविद्यासे बिचार ३६  
 अपनी स्त्रीसे कहने लगे हे भद्रे चरुके डौनोंके बदलने  
 से माताने तुम्हे ठगलिया ३७ इसवास्ते क्रूरकर्म कर-  
 नेवाला और अतिदारुण ऐसे पुत्रको तू जनेगी और  
 ब्रह्मस्वरूप और उग्रतपको करनेवाला ऐसे आताको  
 तेरी माता जनेगी ३८ क्योंकि जिस डौनेमें तप करके  
 मैंने ब्रह्म अर्पण कर दिया था वह डौना तेरी माताने  
 अंगीकार किया है ऐसे पतिके वचनको सुन ३९ पति

को मनाने लगी कि ऐसे पुत्रको मैं नहीं चाहती तब मुनि कहने लगे ४० कि हे भद्रे यह तेरा संकल्प पूर्ण होना मुश्किल है और पिता माताके कारणसे उग्रकर्मापुत्र होगा ४१ फिर सत्यवती कहने लगी हे मुने जो इच्छा करो तो आप संसारको भी रच सकते हो और पुत्रके रचने की तो क्या कथा है ४२ इसलिये शांतस्वरूप और कोमलभाव वाला ऐसा पुत्र देने को योग्य हो और हे द्विजोत्तम अगर अन्यथा नहीं करने की आपकी बांछा है तो क्षत्रियोंके नाश करने वाला और उग्ररूप ऐसा मेरे पौत्र होना चाहिये ४३ तब सत्यवतीपै प्रसन्नहोंके ४४ मुनि कहने लगे हे भद्रे पुत्र और पौत्रमें विशेष नहीं है इसवास्ते तेरी बांछा पूरी होगी ४५ तब सत्यवती तपको करनेवाला और इन्द्रियोंको जीतनेवाला और शांतस्वरूप और जमदग्नि नामसे विख्यात ऐसे पुत्रको जनती भई ४६ और पीछे सत्य और धर्ममें परायण और पवित्र ऐसी यही सत्यवती कौशिकी नामसे विख्यात महानदी होती भई ४७ और इक्ष्वाकुवंशसे होनेवाला रेणुनाम राजा हुआ तिसकी रेणुका नाम पुत्रीके संग जमदग्निके विवाह हुआ ४८ पीछे जमदग्निके सकाशसे रेणुका स्त्रीमें अतिदारुण और सब विद्याके अंतको जाननेवाला ४९ और धनुर्वेदके पारको प्राप्त और क्षत्रियोंको नाशनेवाला और अग्निके समान दीप्तरूप और परशुराम नामसे विख्यात ऐसा पुत्र होता भया ५० ऐसे हे मुनिजनो सत्यवतीमें

जमदग्निऋषि उपजे हैं ५१ और कुशिकका पुत्र गाधि  
 राजाके ऋचीक मुनिके चरुके प्रतापसे अति तपस्वी  
 और अतिविद्यावान् और शांतस्वरूप ऐसा विश्वामित्र  
 पुत्र उपजा ५२ यह अपने कर्तव्यसे ब्रह्मर्षियोंके समान हो  
 के सप्तऋषियोंमें प्राप्त हुआ ५३ और पहिले यह वि-  
 श्वामित्र गाधिराजाके विश्वरथनामसे विख्यात पुत्र  
 हुआ ५४ पीछे विश्वामित्रके देवरात आदिनामोंसे  
 त्रिलोकीमें विख्यात ऐसे पुत्रहुये तिनहोंके नाम श्रवण  
 कर ५५ देव, श्रवा और कति और जिस कतिसे  
 कात्यायन नामसे विख्यात पुरुष कहाये और शाला-  
 वती स्त्रीमें हिरण्याक्ष पुत्र हुआ और रेणु नाम वाली स्त्री  
 में रेणुमान् ५६ और सांकृति और गालव और मुद्ग-  
 ल और मधुछंद और जय और देवल ये पुत्र उपजे ५७  
 और दृषद्वतीरानीमें अष्टक और कच्छप और हारित  
 ये तीन पुत्र उपजे ऐसे विश्वामित्रके पुत्रहुये हैं तिन  
 कौशिकोंके गोत्र संसारमें अनेक विख्यात हैं ५८  
 पीछे पाणिन, वभ्रव, ध्यान, जप्य, पार्थिव, देवरात,  
 शालकं, अपन, वाष्कल ५९ लोहित, पामदूत,  
 कारीष ये बारह देवके पुत्रहुये अर्थात् विश्वामित्रजीके  
 पौत्रहुये और हे मुनिजनो सैंधवायन आदि नामोंसे  
 विख्यात सुश्रुतके पुत्रहुये और विश्वामित्रके पौत्र कहा-  
 ये ६० और याज्ञवल्क्य और अघमर्षण और औ-  
 दुम्बर और अभिस्नात और तारकायन और चुंचु-  
 ल ६१ इननामोंवाले छः पुत्र हिरण्याक्षके उपजे ये भी

विश्वामित्रके पुत्रकहाये और सांकृत्य और गालव ये रेणुमानके पुत्रहुये अर्थात् विश्वामित्रके पौत्रकहाये और नारायण और नरये दोनों विश्वामित्रके पुत्रहुये ६२ पीछे ये सब प्रवरभेदकरके विवाह करनेलगेऐसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्रके वंशमें जन्मेहुये मनुष्योंका ६३ इसवंशमें संबंध होनेलगा और विश्वामित्रके पुत्रों में शुनःशेफनामवाला प्रथम पुत्र हुआ ६४ यह भृगुवंश में उपजनेवाला होके कौशिकवंश में हुआ ६५ क्योंकि एकसमयमें हरिश्चन्द्र राजाकी यज्ञमें यह शुनःशेफ पशुकी जगह नियुक्त कियागया तब देवताओंने विश्वामित्रके लिये अर्पणकिया ६६ इसवास्ते यह देवरात नामसे विख्यातहुआ ऐसे देवरातआदि सातपुत्र विश्वामित्र के हुये हैं ६७ और अष्टकके लौहि पुत्र हुआ ऐसे जहनुगण प्रकाशित कियागयाहै ६८ अब इसके उपरान्त महात्मा रूपआयु राजाका वंश बर्णन कियाजावेगा ६९ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषार्याभमावसोर्बेशानुकीर्त्तनं  
नामदशमोऽध्यायः १० ॥

## ग्यारहवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो—आयुराजाके राहु की पुत्री प्रभामें महारथ और वीर १ और नहुष और वृद्धशर्मा और रम्भ और रजी और अनेना इननामों वाले और त्रिलोकीमें विख्यात ऐसे पांचपुत्र उपजे २

इन्हों में से रजी राजा के पांचसौ पुत्र उपजे जिन्होंके प्रताप से इन्द्र को भय देनेवाला और राजेयनामसे विख्यात ऐसा क्षत्रहुआ ३ पीछे एकसमयमें देवता और दैत्यों के युद्धका आरम्भ होनेलगा तब देवता और दैत्य ब्रह्माजीके पासजाके कहनेलगे ४ हे भगवन् हम दोनोंमेंसे किसकी जीत होवेगी आप बर्णन कीजिये क्योंकि तुम्हारे वचनको हम श्रवणकरनेकी इच्छा करते हैं ५ तब ब्रह्माजी कहनेलगे जिन्होंकी मददमें अति सामर्थ्यवाला रजी राजा शस्त्रोंको धारणकर युद्धकरेगा तब वे तीनलोकोंको भी जीतेंगे इसमें संशयनहीं है ६ और जहां रजी राजा होवेगा वही धैर्यता होवेगी और जहां धैर्यहोगा तहां लक्ष्मी होवेगी और जहां लक्ष्मी होवेगी वही धर्म होवेगा और जहां धर्महोगा तहां जयहोगा ७ इसमें संशयनहीं है तब ब्रह्माजीके वचनको सुन देवता और दैत्य रजीके आधीन जयको जान और अपनीअपनी जयको चाहनेवाले उस रजी राजा को वरने के वास्ते गये ८ तब राहुका दौहित्र और परमतेजस्वी और चन्द्रमाके वंशको बढ़ानेवाला ९ ऐसा रजी राजा प्रसन्नहुये देवता और दैत्यों के प्रयोजनको जाननेवाला और अपने यशको प्रकाश करनेवाला ऐसा रजी राजा कहनेलगा १०।११ जो सब दैत्य गणों को अपने वीर्यसे जीतके धर्मसे इन्द्रकी प्रदत्तीको प्राप्तहूँ अर्थात् इन्द्रहोजाऊं तो युद्धकरूंगा १२ तब सब देवता प्रसन्न होके कहनेलगे हे नृपते

आपका मनोरथ सिद्धहोवेगा ऐसे कहके देवता चले गये पीछे रजी राजा जैसे देवताओंसे पूछताभया तैसे दैत्योंसे पूछनेलगा कि अपने वीर्यसे सब देवताओंको जीतलेऊं तो तुम्हाराभी इन्द्रबनूं १३ तब गर्वसेपूरित हुये दैत्य अपने प्रयोजनको जान अभिमान सहित वचन कहनेलगे १४ कि हमारा इन्द्र प्रह्लादहै जिसके लिये देवताओं को जीतने की इच्छा हम करते हैं हे राजन् जो हमारे इन्द्र होनेकी इच्छा आपकरते हैं तो आपयहीं ठहरिये १५ तब रजीराजाने कहा ठीक है पीछे देवताओंने आके कहा हे राजन् इन दैत्यों को जीतके आपहमारे इन्द्र होवेंगे इसवास्ते आप युद्धमें सहायताकरो १६ तब उस युद्धमें जो इन्द्रसे नहींमर-सकतेथे उन सब दैत्योंकोमार १७ बहुत दिनोंसे गई हुई देवताओंकी शोभाको दैत्योंसे ग्रहणकरताभया १८ पीछे महावीर्यवाले रजी राजाके लिये देवतां सहित इन्द्रकहनेलगा कि मैं रजीराजाकापुत्रहूंगा इसलिये हे राजन् आप सब देवताओं के इन्द्र हैं इसमें संशय नहीं १९ अर्थात् कर्मोंसेमैं रजीराजाकापुत्र ऐसीख्या-तिको प्राप्तहूंगा ऐसे इन्द्रके वचनको श्रवणकर इन्द्र की मायासे मोहितहुआ राजा २० प्रसन्न होके इन्द्रसे कहनेलगा कि आपका मनोरथ पूर्ण होगा जब देव-ताओं के समान राजा स्वर्गलोक में इन्द्रकी पदवी को प्राप्तहुआ २१ तब राजा के ५०० पुत्र इन्द्र के सकाशसे सबपदार्थोंको ग्रहणकर स्वर्गलोकमें राज्य

करनेलगे २२ पीछे बहुत दिनोंके व्यतीत होजाने पै राज्यभ्रष्ट और भागभ्रष्ट इन्द्र २३ अतिबलवालेवृहस्पतिजी से कहनेलगा हे ब्रह्मर्षे बड़ बेरी के फल के समान यज्ञभागको मुझेदियाकरो जिसके प्रतापसे मैं तृप्तहुआस्थितरहूँ २४ और हे वृहस्पतिजी कृश और दुःखितमनवाला और राज्यभ्रष्टऔर यज्ञभागसेरहित पराक्रम और बलसे रहित और मूढ़ ऐसा मुझे रजी राजा के पुत्रोंने करदिया है २५ तब वृहस्पतिजी कहने लगे हे इन्द्र जो आपकी ऐसी बांछा है तो संशय मतकरो और मैं तेरेप्यारकेलिये अकर्तव्य नहींकरता भया २६ परन्तु हे देवेन्द्र अब मैं ऐसा उपाय करूंगा कि जिसके प्रतापसे आप तत्कालही यज्ञभाग और अपने राज्यको प्राप्तहोगे २७ हे पुत्र तेरा मन ग्लानि को मत प्राप्तहो पीछे वृहस्पतिजीने ऐसा कर्म कराया कि इन्द्रका तेज बढ़ने लगा २८ और रजी राजा के पुत्रोंकी बुद्धि में मोह उपजनेलगा अर्थात् बाद प्रतिबाद प्रयोजनसे संयुक्त और धर्म का वैरी २९ और अति तर्कोंसे संयुक्त ऐसा अधर्मरूपी शास्त्र बना के अल्पबुद्धीवाले रजी राजाके पुत्रों को पढ़ानेलगा ३० इस शास्त्रकोपढ़के वे सब धर्मशास्त्रोंके वैरीहोगये ३१ और न्याय से रहित कर्मोंको करनेलगे और तिसबुरे मतको अंगीकार करते भये तिस अधर्म के प्रतापसे वे सब राजाके पुत्र नाशको प्राप्त होगये ३२ तब अति दुर्लभ त्रिलोकीके राज्यको वृहस्पतिजीके प्रतापसे इन्द्र

प्राप्त होगया ३३ पीछे राग द्वेषआदि से उन्मत्त हुये  
 और ब्राह्मणोंके बैरी वीर्य्य और पराक्रमसे रहित काम  
 क्रोधसे युक्त ऐसे मोहितरूपवाले रजी राजाके पुत्रोंको  
 मारके अपने सिंहासन पै इन्द्र बैठा ३४ जो मनुष्य  
 इस आख्यानको सुनै व धारण करै वह दुःखको नहीं  
 प्राप्तहोता है अर्थात् उसका अन्तःकरण नहीं बिग-  
 डता है ३५ लोमहर्षणजी बोले कि हे मुनिजनो रंभ  
 राजाके बंश चला नहीं इसवास्ते अनेनाके बंश को  
 कहते हैं अनेनाके अतियशवाला प्रतिक्षत्रपुत्रहुआ ३६  
 प्रतिक्षत्रके सृजय पुत्रहुआ सृजयके जय पुत्र हुआ  
 जयके विजय पुत्र हुआ ३७ विजयके कृती पुत्रहुआ  
 कृतीके हर्य्यश्व पुत्र हुआ हर्य्यश्वके प्रतापवाला सह-  
 देव पुत्र हुआ ३८ सहदेवके धर्मात्मा नदीन पुत्रहुआ  
 नदीनके जयत्सेन पुत्र हुआ जयत्सेनके संकृती पुत्रहु-  
 आ ३९ संकृतीके अति यश वाला क्षत्रधर्मा पुत्रहुआ  
 ऐसे अनेना राजा का बंश प्रकाशित किया अब क्षत्र-  
 वृद्धके बंशको श्रवण कर ४० क्षत्रवृद्धके सुनहोत्रपुत्र  
 हुआ सुनहोत्रके परम धार्मिक और काश शल गृत्स  
 मद इन नामोंवाले तीन पुत्र हुये गृत्समद के शुनक  
 पुत्रहुआ शुनकके शौनक नामसे विख्यात ४१ ब्राह्मण  
 क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जन्मे और शल राजाके आर्षिण-  
 षेण पुत्र हुआ आर्षिणषेणके काश्य पुत्र हुआ ४२  
 काश्यके काश्यप पुत्र हुआ काश्यप के दीर्घतपा पुत्र  
 हुआ दीर्घतपाके धन्व पुत्र हुआ धन्वके धन्वंतरि



पुत्र हुआ ४३ अर्थात् बहुत तप करने से फिर धन्वंतरि देवता मनुष्यों में जन्मलेता भया ४४ मुनि जनोंने पूछा हे सूतजी धन्वंतरि देवता मनुष्यों में कैसे जन्मा यह जानने की इच्छा है इस वास्तेहमारे लियेबिस्तारसे कहो ४५ तब लोमहर्षण जी बोले हे मुनिजनो धन्वंतरि की उत्पत्तिसुनो जैसे समुद्रको मथ अमृत निकालने के समय ४६ प्रथम एक कलशा निकसा तिस कलशे में अत्यंत शोभासे संयुक्त एक पुरुष निकस विष्णुको देख वहीं स्थितरहा ४७ तब विष्णुने कहा कि अप नाम जलसे तू उपजा है इसवास्ते तेरानाम अब्जधरा तब वह अब्ज विष्णु से कहनेलगा हेप्रभो मैं आपका पुत्रहूँ ४८ इसवास्ते हे लोकस्वामिन् तुम्हको यज्ञभाग और स्थानदीजिये ऐसे कहनेसे विष्णु भगवान् सत्य बचनकहनेलगे ४९ कि यज्ञका विभाग और अग्निहोत्र आदि मैंने देवतों और मुनियोंके लिये बांटदिये हैं ५० इस वास्ते तेरे लिये यज्ञभाग आदि नहीं रहा है इससे अब तू देवताओंका प्रिय रहेगा ५१ और दूसरे जन्मसे संसार में ख्यातिको प्राप्तहोवेगा और जबतू गर्भ में प्राप्तहोवेगा तब अपिमादिक अष्टसिद्धि तुम्हको प्राप्तहोवेंगी ५२।५३ और तिसहीशरीरसे देवतापनेको प्राप्तहोवेगा और हेप्रिय चरु मंत्र ब्रतजप इनआदिसे ब्राह्मण क्षत्री वैश्य तुम्हको पूजेंगे ५४ और तू आयुर्वेद के आठ विभाग करेगा इस अवश्य भार्गीको ब्रह्माजी

जानते हैं ५५ इसलिये द्वापरयुगमें दूसरे शरीरको प्राप्तहोवेगा इसमें संशयनहीं ऐसे बरदान देके विष्णु भगवान् अंतर्द्धान होगये ५६ जब द्वापरयुग आके प्राप्तहुआ तब काशीका राजा धन्वनामसे विख्यात और पुत्रकी कामनासे उग्रतप करनेलगा ५७ और यह ध्यान करनेलगा कि जो देवता मुझको पुत्रदेगा तिसकी मैं शरणहुआहूँ अर्थात् समुद्र मथनेकेसमय जो अब्जनाम वाला देवताहुआहै तिसकी आराधना करता भया ५८ तब प्रसन्नहोके वही देवराजासे कहनेलगा कि जो तेरी इच्छा है सो बरमांग वही मैं हे राजन् तुझको दूंगा ५९ तब राजा कहनेलगा हे भगवन् जो आप मेरे पर प्रसन्नहुयेहैं तो आपही मेरे पुत्रहोके संसारमें विख्यात होजाओ तब वह देवबोला कि ऐसेही होगा ऐसेकहकर वहीं अन्तर्द्धान होगया ६० तब तिस राजाकी रानी में धन्वंतरि नामसे विख्यात साक्षात् देव काशीका राजा और सब जीवों के रोगोंके नाशनेवाला ६१ ऐसा पुत्र हुआ पीछे यही धन्वंतरिकर्त्तव्य सहित आयुर्वेदको भरद्वाज ऋषिसेपढ़के फिर विस्तारपूर्वक बना आठ प्रकारके शिष्योंके लिये प्रकाशित करताभया ६२ धन्वंतरि के केतुमान् पुत्र हुआ केतुमान् के भीमरथ पुत्र हुआ ६३ भीमरथ के दिवोदास पुत्र हुआ यही धर्मात्मा काशीका स्वामी हुआ ६४ इसीकालमें शून्यरूप काशीपुरीमें क्षेमक नामराक्षस प्रवेशकरताभया ६५ क्योंकि बुद्धिमान्

निकुंभमुनिने काशीपुरीको शापदिया कि हजारबर्ष तक काशीपुरी शून्य रहेगी इसमें संशयनहीं ६६ जब काशीपुरीके लिये शापदेदिया तब दिवोदास राजा ने गोमती नदी के तटपै सब काशी बासियों को बसाके पुरी रचलई ६७ जिसपुरी में पहले भद्रश्रेण्य राजा का राज्यथा पीछे दिवोदास राजाने भद्रश्रेण्यके उत्तम धनुष धारण करनेवाले १०० पुत्रों का ६८ नाशकर अपने बलसे उस पुरी में अपना राज्य करलिया ६९ तब मुनिजनोंने पूछा हे सूतजीकाशी पुरीको निकुंभमुनि किसवास्ते शाप देतेभये और जो सिद्धक्षेत्रको शापित करताभया ७० ऐसा निकुंभमुनि कौन था लोमहर्षण जी बोले कि हे मुनिजनो दिवोदास राजाप्रकाशित रूप काशीपुरी में बसकर राज्य करनेलगा ७१ इसी कालमें पार्वती सहित महादेवजी पार्वतीजीकी प्रीति करने के वास्ते हिमालयके समीपमें बसने लगे ७२ और महादेवजीकी आज्ञासे सब तपस्वी पार्षद पूर्वोक्त उपदेशों करके पार्वतीजीको प्रसन्न करनेलगे ७३ तब पार्वतीजी प्रसन्नहोती भई परन्तु पार्वतीकी माता मैना नहीं प्रसन्नहुई और बारंबार पार्वतीजी और महादेवजीकी निंदा करनेलगी ७४ और कहने लगी हे पुत्री पार्षदों सहित यह तेराभर्ता महादेव सबकालमें दरिद्रीही बनार है और इसके शीलता बिलकुल नहीं ७५ ऐसे माताके वचनको सुन स्त्री स्वभावसे क्रोधको प्राप्तहो और आश्चर्यमान महादेवके समीप ७६ मुखके

वर्णकोविगाड़ पार्वतीजी महादेवजीसे कहने लगीं हे देव  
 मैं इसजगह नहीं बसूंगी जहां आपका स्थान है ७७  
 उसजगह मुझको प्राप्त करो तब महादेवजी त्रिलोकीके  
 स्थानोंको देखके पृथ्वी मंडल में सिद्धक्षेत्र काशीपुरी  
 को बसनेयोग्य विचारते भये ७८ परंतु दिवोदासराजा  
 के राज्यसे युक्त उस काशीपुरीको विचारसमीपमें स्थित  
 हुये निकुंभपार्षदसे कहने लगे हे राक्षसेश अभी गमन  
 कर काशीपुरीको शून्यबनादे ७९ कोमल उपायसे  
 क्योंकि काशीपुरीका दिवोदासराजा अति वीर्यवाला  
 है तब निकुंभपार्षदजाके काशीपुरी में ८० कंडूकनाम  
 नापितको स्वप्न में दर्शनदेता भया और कहता भया हे  
 अनघ तू मेरा स्थानरच में तेरा कल्याण करूंगा ८१ अ-  
 र्थात् मेरे रूपकी प्रतिमावना काशीपुरीमें स्थापित करदे  
 तब स्वप्नके पीछे इसी विधिसे वह नापित मूर्तिको स्था-  
 पित करता भया ८२ और राजाको जनाके पुरीके द्वार  
 पै उस मूर्तिकेलिये बहुतसी पूजा नित्यप्रतिकरता भया  
 ८३ पीछे गंधधूप फूलोंकीमाला अनेक प्रकारकी बली  
 अन्नपान इन आदिसे अत्यंत पूजाहोने लगी ८४ ऐसे  
 वह निकुंभपार्षद नित्यपूजाको प्राप्तहोने लगा तब काशी  
 बासियों के लिये पुत्र द्रव्य आयु सब कामना आदि  
 हजारहां प्रकारके बरदेने लगा ८५ तब एक समयमें  
 सुयशानाम वाली काशी के राजाकी रानी और राजा  
 की भेजीहुई ८६ और सुन्दर स्वभाववाली और दिव्य  
 रूपवाली ऐसी उसमूर्ति स्थानके समीपमें आके नाना-

प्रकारकी पूजाकर एक पुत्र मांगनेलगी ८७ ऐसे वारं-  
 वार रोजके रोज पुत्रकी प्राप्तिके लिये पूजा करनेलगी  
 परन्तु वह निकुम्भ पार्षद पुत्र नहीं देताभया ८८ क्योंकि  
 इस कारणसे कि मुझपै राजा क्रोधकरे तो कार्यकी  
 सिद्धिहोवे पीछे बहुतकालमें राजाको क्रोध व्याप्तहुआ  
 ८९ तो राजा कहनेलगा कि देखो यहमहाद्वार पै एक  
 भूत नगरके मनुष्योंपै प्रसन्नहुआ सैकड़ों वरदेता है  
 औरमुझको क्योंनहीं देता और मेरेमित्र इस नगरीमें  
 अनेक प्रकारसे इसको पूजते भी हैं ९० तथापुत्रकी  
 प्राप्तिके वास्ते मैंने अपनी रानीभी इसकी पूजाकेवास्ते  
 वारंवार भेजी परन्तु यह देव मेरेलिये पुत्रनहीं देता  
 इसवास्ते किसी कारणकरके कृतघ्नीहै अबसे अगाड़ी  
 मेरे सकाशसे विशेषकर सत्कारको प्राप्तनहीं होगा ९१  
 और इसीवास्ते मैं इस दुष्टदेवके स्थान को फोड़ के  
 पृथ्वीमें मिलाऊंगा ऐसे निश्चय करके दुरात्मा काशी  
 का राजा ९२ उस निकुम्भ नामवाले महादेवजी के  
 पार्षदकेस्थानको नाशकरताभया तब गिरेहुयेमकानको  
 देखके वह गण राजाको शापदेताभया ९३ कि विना  
 अपराधके जो मेरास्थान गिरादिया है इसवास्ते आ-  
 पही आप शून्यरूप तेरी पुरीहोजावेगी ९४ तिस शाप  
 करके काशीपुरी शून्यहोगई ऐसे निकुम्भ पुरीको शाप  
 देके महादेवजीके समीपको जाताभया ९५ तब आप-  
 ही आप चारों तरफसे पुरी खासीहोगई तब तिसपुरी  
 में अपना स्थान बना ९६ पार्वती के संग महादेवजी

बसनेलगे और कहा कि मैं इसस्थान को छोड़ अन्य स्थानमें नहीं जाऊंगा तू इसीगृहको गमनकर ६७ जब हंसके महादेवजीने अपनीबाणीसे यह कहदिया कि मैं काशीबासको नहीं छोड़ूंगा ६८ इसीवास्ते सर्वदेव नमस्कृत महादेवजी सबकाल काशीपुरीमेंबसतेरहतेहैं ६९ और कृतयुग त्रेतायुग द्वापर इन तीनोंयुगोंमें साक्षात् पार्वतीके संग महादेवजी काशी में बसतेरहे हैं १०० और कलियुगमें वह काशीमें महादेवजीका पुर दीखता नहींहै १०१ और काशीपुरी तो बसतीही रहैहै ऐसे काशीके वास्ते शापदियाहै १०२ और भद्रश्रेण्य राजा के दुर्दर्भ पुत्रहुआ इसे दिवोदास राजाने बालक जान दयासे छोड़दिया अर्थात् मारानहीं पीछे समयपाके इस दुर्दर्भ ने दिवोदास राजाके सकाशसे सब पदार्थ छीनलिये हैं १०३ दिवोदासके दृषद्वतीरानीमें प्रतर्दन पुत्रहुआ प्रतर्दनके वत्सभार्ग इन नामोंवाले दो पुत्र उपजे १०४ वत्सके अलर्क पुत्रहुआ अलर्कके सन्नती पुत्रहुआ १०५ और यह अलर्क काशीका राजा ब्रह्मण्य और सत्यवादी हुआ और ऐसाभी सुनाहै १०६ कि छान्छठ हजारवर्षतक जवानरूपसे सम्पन्न यह राजारहा है १०७ और लोपामुद्राके प्रतापसे इसराजाको यह उमर मिली है १०८ और इसीने शापके अंतमें क्षेमकराक्षस को मार फिर काशीपुरी बसाई है १०९ सन्नतीके सुनीथ नामवाला पुत्रहुआ सुनीथ के अतियशवाला क्षेम्य नाम पुत्रहुआ ११० क्षेम्यके केतुमानवाला पुत्र हुआ

केतुमान् के सुकेतु पुत्रहुआ सुकेतुके धर्मकेतु पुत्रहुआ  
 १११ धर्मकेतुके महारथी सत्यकेतु पुत्र हुआ सत्य-  
 केतुके विभु पुत्र हुआ ११२ विभुके सुविभु पुत्र हुआ  
 सुविभुके सुकुमार पुत्र हुआ सुकुमारके धर्मात्मा धृष्ट-  
 केतु पुत्र हुआ ११३ धृष्टकेतुके वेणुहोत्र पुत्र हुआ  
 वेणुहोत्रके भर्गनामपुत्रहुआ ११४ और पूर्वोक्त वत्सके  
 वत्सभूमि पुत्रहुआ और भार्गवके भृगु पुत्रहुआ ११५  
 ऐसे ब्राह्मण क्षत्री वैश्य इन बंशोंमें हजारों काशके बंश  
 में उपजे हैं अब नहुषके वंशको मेरेसे जान ११६ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांसोमवंशेक्षत्रियप्रसूति

नामएकादशोऽध्यायः ११ ॥

## बारहवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजीबोले कि हे मुनिजनो विरजानामवाली  
 पितृकन्यामें इन्द्रकेसमानतेजवाले १ और यति ययाति  
 संयाति आयाति यांचिक सुयाति इननामोंवाले ३ पुत्र  
 नहुषकेहुये २ और इन्होंमें ययाति राजाहुआ तिन्होंमें  
 यति बड़ा पुत्र हुआ और ब्रह्मभूत मुनि होके मोक्षको  
 प्राप्तहुआ ३ और ययाति ककुत्स्थ कन्या और गौ नाम  
 वाली तिसको प्राप्त हुआ ४ और यही ययाति पांचों  
 भाइयों की पृथ्वीकोजीत ५ पीछे शुक्राचार्य की पुत्री  
 देवयानीको और ऋषपर्वा राक्षसकीपुत्री शर्मिष्ठाको वि-  
 वाहताभया पीछे यदु तुर्वसु ये दोनोंपुत्र देवयानीकेउपजे  
 और द्रुह्यु अणु परु ये तीनपुत्र शर्मिष्ठाके उपजे ६।७

और इसी ययाति राजाके लिये प्रसन्न हुआ इन्द्रमनके वेगकेसमान वेगवाले सफेदरंगके ८ दिव्य घोड़ोंसे संयुक्त परमप्रकाशरूप सुवर्णसे बनाहुआ रथदेताभया ६ जिसकरकेछः रात्रिमें संपूर्ण पृथ्वीको और इन्द्र सहित सब देवताओंको युद्धमें जीतताभया १० और यही रथ इन्होंके वंशमें सबके पासरहा ११ परन्तु कुरुके पौत्र जनमेजयके वक्तमें गर्गमुनिके पुत्रके शापसे १२ रथनाश को प्राप्तहुआ क्योंकि वह जनमेजय राजा १३ वाक्कूर नामवाले गर्गमुनिके पुत्रको मारताभया तब ब्रह्महत्या को प्राप्तहुआ लोहूकी गन्धसे संयुक्तराजा जहांतहां जाताभया १४ परन्तु पुरवासी मनुष्योंने त्याग दिया तब कहींभी सुखको प्राप्त न हुआ १५ तब इन्द्रोत्तनामवाले शौनकके शरणमें जाकेरहा तबयह शौनकमुनि इसजनमेजयके हाथसे अश्वमेधयज्ञ करावताभया तब इसराजाके शरीर से लोहूका गन्धदूरहुआ १६ तिस समयमें प्रसन्नहुये इन्द्रसे यही दिव्यरथ वसुनामवाले चंदेरीके राजानेलेलिया और वसुसे बृहद्रथनामवाले राजाने लिया १७ यहीरथ बृहद्रथसे जरासंधने लिया जरासंधकोमार यहीरथ भीमसेनने लिया १८ हे मुनिजनो भीमसेनने प्रीतिसे यहीरथ कृष्णमहाराजकोदिया और सात द्वीपोंसे संयुक्त इससंपूर्ण पृथ्वीकोजीत १९ ययातिराजा अपने पुत्रोंके लिये पांचभागकरताभया दक्षिण पूर्वकी दिशा अर्थात् अग्निकोण में तुर्वसुको राज्यदिया २० और पश्चिम दिशामें द्रुह्युको राज्य



दिया और उत्तरदिशामें अणुकोराज्यदिया और ईशान  
 दिशामें यदुको राज्य दिया २१ और मध्यदेशमें पुरु  
 को राज्य दिया ऐसे सातद्वीपों पर्यंतकी पृथ्वीको यया-  
 तिराजा अपने पुत्रोंके लिये विभाग कर २२ सवराज्य  
 भार पुत्रोंको देके वृद्धअवस्थाको धारण करता भया २३  
 तब शस्त्रोंको त्याग पृथिवीको देख ययातिराजा प्रसन्न  
 होके २४ यदुसे बोला हे पुत्र मेरी वृद्धावस्थाको तू ग्र-  
 हणकर और तेरेरूपसे जवान हुआ मैं इस पृथिवीमें  
 २५ तेरेबिषे अपनी वृद्धअवस्थाको स्थापित करके  
 विचरूंगा तब यदुकहने लगा मैंने अब तक कछु सुकृत  
 नहीं किया है २६ और पानभोजन आदिसे उपजे बहु-  
 तसे दोष वृद्ध अवस्थामें पीड़ा देते हैं इसवास्ते हे राजन  
 तेरी वृद्धअवस्थाको मैं ग्रहण नहीं कर सकता २७ और  
 हे नृप मुझसे अति प्रिय तेरे बहुतसे पुत्र हैं हे धर्मज्ञ  
 तिन्हींमेंसे एक किसीको वृद्धअवस्था देनेका वर ले तब  
 कोपको प्राप्त हो ययातिराजा पुत्रकी निन्दा करता हुआ  
 कहने लगा २८ हे दुर्बुद्धे मेरा अनादर करके ऐसा कौन  
 आश्रम व कौन धर्म है जिसका तू आचरण करेगा २९  
 ऐसे कहकर क्रोधमें प्राप्त हो यदुके लिये शाप देने लगा  
 कि हे मूढ़ तेरी संतानको राज्यपदवी नहीं मिलेगी ३०  
 पीछे ययातिराजा तुर्वसु द्रुह्य अणु इन तीन पुत्रोंसे वही  
 पूर्वोक्त वृत्तांत कहने लगा तब इन्होंने भी राजाका कहना  
 नहीं माना ३१ तब इन्हींके लिये भी शाप दे के जो शा  
 पहले विस्तारपूर्वक कह चुके हैं ३२ वै से ही चारों पुत्रोंके

शापितकर पीछे राजा पुरुसे कहनेलगा हेपुत्र तू मेरी वृद्धअवस्थाको ग्रहणकर और मैं तेरी तरुणअवस्था से पृथ्वी में विचरूंगा जो तू माने तब प्रतापवाला पुरु ३३ पिताकी वृद्धअवस्थाको ग्रहणकरताभया और पुरुकी तरुणअवस्थाको ययातिराजा ग्रहणकर पृथ्वी भरमें विचरताभया ३४ तब कामोंकेअंतको विचारता हुआ अपनी विश्वाचीरानीके संग चैत्ररथ बन में रमणकरने लगा ३५ परन्तु कामोंके भोगसे तृप्त नहीं हुआ तब अपने पुरुपुत्रसे वृद्धअवस्थाको ग्रहणकर ३६ तरुणअवस्था उलटी देताभया तिसी समय में हे मुनिजनो ययाति राजाने गाथागाई है तिसकोसुनो तिसके सुनने से मनुष्यकामदेवसे संकुचित होजाता है जैसे कछुआ अपने अंगोंको संकोचता है तैसे ३७ कभीभी कामों के उपभोगकरके कामशांतनहीं होताहै जैसे घृतसेअग्नि ३८ और जो इसपृथ्वी में अन्न सुवर्ण पशु स्त्री ये सबभी एक मनुष्य के वास्ते बहुत नहीं हैं इसवास्ते मनुष्यको प्रथमही शांतहोजाना चाहिये ३९ और जबसब प्राणियों में कर्मसे मनसे वाणी से पापका आचरण नहीं करता है तब ब्रह्मको प्राप्तहोता है ४० और जब अन्योंसे आप नहीं डरै है और न अन्यों को आप डरावे है और न आपइच्छाकरे है और न वैरकरता है तब ब्रह्मको प्राप्तहोता है ४१ और जो दुर्मति मनुष्योंसे त्यागी नहींजाती और जो वृद्धअवस्थाके संगवृद्ध नहीं होती ऐसी प्राणोंको नाशनेवाले

रोगके समान जो तृष्णा है तिसको त्यागने में सुख होता है ४२ और वृद्ध अवस्थाके संग केशभी वृद्ध अर्थात् जीर्ण होजाते हैं और दांतभी जीर्ण होजाते हैं परन्तु धनकी आशा और जीवनेकी आशा जीर्ण नहीं होती ४३ और जो कामसुख है और स्वर्गादिक जो सुख है यह सब तृष्णाक्षयरूप सुखसे १६ सोलहवें हिस्सेभी नहीं है ४४ ऐसे भार्यासहित ययातिराजा कहकेवनमें बसा और बहुत कालतक उग्रतपको करने लगा ४५ पीछे भृगुतुंगपै तपकरके भोजन आदिको छोड़देहको त्यागकर अपनी भार्या सहित स्वर्गमें प्राप्तहुआ ४६ तिसके वंशमें जो पांच ५ पुत्र हुये हैं तिन्होंके वंशोंसे यह संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है जैसे सूर्यकी किरणों से ४७ हे मुनिजनो प्रथम राजर्षियोंके माने यदुके वंशको सुनो जहां वृष्णिकुलमें साक्षात् नारायणजन्म लेते भये ४८ इस पवित्ररूप ययातिके चरित्रको पठन और श्रवण करने से स्वस्थ और सन्तानवाला और आयुवाला और कीर्तिवाला ऐसा पुरुष होजाता है ४९॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां ययातिचरितं

नामद्वादशोऽध्यायः १२ ॥

## तेरहवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले—हे मुनिजनो पुरुके वंशको विस्तारसे सुनो १ सो प्रथम पुरुके वंशको कहता हूं पीछे द्रुह्यु अणु यदु तुर्वसु इन्होंके वंशोंको कहूंगा २

पुरुके महावीर्यवाला जनमेजयराजा पुत्रहुआ और  
जनमेजयके प्रचिन्वान् पुत्रहुआ यह पूर्व दिशा के  
राजाओंको जीतता भया ३ प्रचिन्वान्के प्रवीरपुत्रहुआ  
प्रवीरके मनस्यु पुत्रहुआ मनस्युके अभयद पुत्रहुआ  
४ अभयदके सुधन्वा पुत्रहुआ सुधन्वाके बहुगवपुत्र  
हुआ बहुगवके संयाति पुत्रहुआ ५ संयातिके अहंया-  
ति पुत्रहुआ अहंयातिके रौद्राश्व पुत्रहुआ रौद्राश्व के  
घृताचीनामवाली अप्सरामें ६ ऋच्यु कृकण्यु कक्ष्यु  
स्थंडिल्यु सन्नतेयु ७ दशाण्यु जलेयु स्थलेयु महाबल  
वननित्य वनेयु इन नामोंवाले दशपुत्रहुये ८ और रु-  
द्रा १ शूद्रा २ भद्रा ३ मलदा ४ शलदा ५ बलदा ६  
सुरखा ७ खला ८ चला ९ गोचपला १० इन नामों  
वाली अप्सराओंके रूपोंसे उत्तम रूपोंवाली दशपुत्री  
हुई ९ और इनदशोंको अत्रिवंशमें उपजा और प्रभा-  
कर नाम वाला विवाहता भया १० रुद्रामें इसी के  
सकाशसे यशवाला सोमपुत्र उपजा जब राहुने सूर्य  
हत करदिया तब आकाश से पृथ्वी में सूर्य पड़ने  
लगा ११ तब अंधेरेसे युक्त लोकमें इसीने प्रकाशकिया  
है तब पड़ते हुये सूर्यसे कहा तेरा कल्याणहो १२ उसी  
वक्त उसमुनिके वचनसे सूर्य पृथ्वीमें नहींपड़ा और  
इसीतपस्वीने अत्रिके बहुतसे गोत्र आत्रेयनामसे वि-  
ख्यात प्रकाशितकिये पुत्रिकाधर्मवाली उनदशकन्या-  
ओंमें अतितपस्वी दशपुत्रोंको उपजाता भया पीछे वेद  
को जाननेवाले और गोत्रको बढ़ानेवाले १३।१५ और

स्वस्त्यात्रेयनामसे विख्यात और धनसेवर्जित ऐसेमुनि होते भये और पूर्वोक्त कक्षेयुके महारथी सभानर चाक्षुष परमंथुइननामोंवाले तीनपुत्रहुये सभानरके विद्वानरूप कालानल पुत्रहुआ १६।१६ कालानलके धर्मको जानने वाला सृंजय पुत्रहुआ सृंजयके वीर पुरंजयपुत्र हुआ २० पुरंजयके जनमेजय पुत्र हुआ जनमेजय के महाशाल पुत्र हुआ २१ महाशालके देवोंमें विख्यात और अति प्रतिष्ठावाला और उदारचित्त वाला ऐसा महामना पुत्रहुआ २२ महामनाके उशीनर और तितिक्षु इन नामोंवाले दो पुत्र हुये २३ और उशीनरके राजर्षिवंशज और नृगा कृम्या नवा दूर्वा दृषद्वती २४ इन नामोंवाली पांच रानियों में पांच पुत्र उपजे पीछे उशीनरके नृगारानी में नृग पुत्र हुआ और कृम्या रानीमें कृमी पुत्रहुआ २५ और नवारानी में नव पुत्र हुआ और दूर्वारानी में सुव्रत पुत्रहुआ और दृषद्वतीरानी में शिविपुत्र हुआ २६ ऐसे पांच पुत्रहुये शिविके शिवपनामसे विख्यातपुत्रहुये और नृगके पौधेय पुत्रहुये और शिविकेलोकमें विश्रुत २७।२८ और दृषदर्भ कैकेय मद्रक इन नामोंसेविख्यात चारपुत्रहुये तिनहोंके नामसे कैकेय मद्रक २९ दृषदर्भ सुवीर ऐसे देश विख्यात हुये हैं अब तितिक्षुके धंशको सुनो तितिक्षुके पूर्व दिशामें ३० उषद्रथनामवाला राजा पुत्र हुआ उषद्रथ के फेनपुत्रहुआ फेनके सुतपा पुत्रहुआ ३१ सुतपाके सुवर्णके तरकसवाला और महायोगी

ऐसा मनुष्य देहमें बली राजां पुत्र हुआ ३२ बली के अंग बंग सुह्य ३३ पुंड्र कलिंग इन नामोंवाले पांच पुत्र हुये और इसीवास्ते बालेयनामसे क्षत्रवंश विख्यात हुआ और इसी बलीके वंशमें ब्राह्मण भी पुत्र हुये ३४ प्रसन्नहुये ब्रह्माजीने इस बली के लिये वरदानकिया कि हे राजन्तू महायोगी होगा और कल्प के प्रमाण तेरा आयुहोगा ३५ और संग्राममें तुभको कोई जीत न सकेगा और धर्ममें प्रधानता तेरीरहेगी और त्रिलोकीमें तेरे पुत्रोंकी ख्यातिरहेगी ३६ और बलमें तेरे समान कोई नहीं रहेगा और धर्मतत्त्वको तू देखनेवाला होगा और चारोंवर्णोंके स्थापन करनेवाला तू होगा ३७ ऐसे ब्रह्माजीके वचनको सुन राजा बलीशान्तस्वरूपहुआ और इसीराजाकी सुदेषणांनम वाली स्त्रियों में ३८ मुनियों में श्रेष्ठ दीर्घतपा मुनिके सकाशसे क्षेत्रज संज्ञावाले जो पूर्वोक्त पांचपुत्र हुये हैं ३९ तिन्हों को राज्यपै स्थापितकर कृतार्थ हुआ और योगात्मा ऐसाबली राजा ज्ञान को प्राप्तहो काल के अनुसार विचरता हुआ ४० बहुतसे कालमें अपने स्थानको प्राप्तहुआ और तिसके पांचों पुत्रोंके नामों से अंग बंग सुह्यक ४१ कलिंग पुंड्र इन नामोंवाले देश विख्यात हो रहे हैं अब मुझसे अंगके वंश को सुनो अंगके राजाओं का राजा दधिवाहन पुत्र हुआ ४२ दधिवाहनके दिविरथ पुत्रहुआ दिविरथके इन्द्रके समान पराक्रमवाला ४३ और विद्वान् ऐसा धर्मरथ

पुत्रहुआ पीछे धर्मरथके चित्ररथ पुत्रहुआ इसी धर्म-  
 रथमे विष्णुपद पर्वतमें ४४ यज्ञके समय इन्द्रके संग  
 अमृतका पानकिया चित्ररथके दशरथ पुत्रहुआ ४५  
 यही लोमपादनामसे विख्यातहुआ और इसीके शांता  
 नाम पुत्री हुई और इसीके ऋष्यशृङ्गमुनिकी कृपासे  
 चतुरङ्ग पुत्रहुआ ४६ चतुरंगके पृथुलाक्ष पुत्रहुआ ४७  
 पृथुलाक्षके चंप पुत्रहुआ इसने मालिनी पुरीका नाम  
 चंपाधरदिया ४८ चंपके पूर्णभद्रमुनिके प्रसादसे हर्य्यंग  
 पुत्रहुआ और इसराजाके समयमें ४९ ऋष्य शृंगमुनि  
 इन्द्रके ऐरावत हस्तीको अपने मंत्रोंके बलसे पृथ्वीमें  
 उतारताभया ५० हर्य्यंगके भद्ररथ पुत्र हुआ भद्ररथ  
 के बहत्कर्मा पुत्रहुआ बहत्कर्मा के बहद्दर्भपुत्र हुआ  
 बहद्दर्भके बहन्मना पुत्र हुआ ५१ बहन्मनाके जयद्रथ  
 पुत्रहुआ जयद्रथके दृढरथ पुत्रहुआ ५२ दृढरथके  
 विश्वजित् पुत्र हुआ विश्वजित्के कर्णपुत्रहुआ कर्णके  
 विकर्ण पुत्र हुआ ५३ विकर्णके कुलको बढ़ानेवाले  
 १०० सौ पुत्र हुये और बहद्दर्भका पुत्र बहन्मनाराजा  
 पूर्वकहा है तिसके यशोदेवी और सत्यानामवाली  
 दो रानी हुई ५४ सो यशोदेवीमें जयद्रथ उपजा और  
 सत्यारानी में ब्राह्मणों से शांतिमें श्रेष्ठ और क्षत्रियोंसे  
 शूरवीरता में श्रेष्ठ ऐसा विजयनाम वाला पुत्र हुआ  
 ५५ विजयके धृति पुत्र हुआ धृतिके धृतव्रत पुत्र हुआ  
 धृतव्रतके सत्यकर्मा पुत्रहुआ ५६ सत्यकर्माके अधि-  
 रथ नामसे विख्यात सूतपुत्र हुआ यही अधिरथ नदी

में बहतेहुये कर्णको ग्रहणकर अपना पुत्र बनाताहुआ इसी वास्ते सूतका पुत्र कर्णकहाया ५७ यह संपूर्ण आपको प्रकाशित किया कर्णके वृषसेन पुत्रहुआ वृषसेनके वृष पुत्र हुआ ५८ ऐसे सत्यव्रत और महात्मा और प्रजावाले और महारथी इसवंशमें राजा प्रकाशित किये ५९ हे मुनिजनो जिसवंशमें जनमेजय राजा उपजा है उसवंश में रौद्राश्वके पुत्र ऋचेयुके वंशको सुनो ६० लोमहर्षणजीबोले कि हे मुनिजनो सबराजाओं से अन्त धृष्य और सब पृथ्वीमंडलमें एकराजा ऐसा ऋचेयु हुआ ६१ इसने तक्षक सर्प की ज्वलना नाम पुत्री में मतिनार पुत्र पैदा किया मतिनार के परमधार्मिक ६२ तंसु, प्रतिरथ, सुवाहु इन नामोंवाले तीन पुत्र और गौरीनाम से विख्यात और मांधाता की माता ऐसी एक कन्याहुई ६३ ये तीनों पुत्र वेद को जाननेवाले और ब्रह्मण्य और सत्यवादी और अस्त्र विद्यामें कुशल और बलवाले युद्ध में निपुण ऐसे होतेभये ६४ प्रतिरथके कण्व नाम पुत्र हुआ कण्वके मेधातिथि पुत्र हुआ और इसीसे कण्व द्विजहुआ ६५ मेधातिथि के ब्रह्मवादिनी इलिनीनामवाली ऐसी कन्या उपजी तिसको तंसु विवाहता भया ६६ तंसुके धर्मकानेता और प्रतापवाला और ब्रह्मवादीऐसा सुरोध पुत्र हुआ इस सुरोधके उपजानकीनाम वाली भार्य्या हुई ६७ और यही भार्य्या दुष्मंत, सुष्मंत, प्रवीर, अनघ ६८ इननामोंवाले चारपुत्रोंको प्राप्तहुई पीछेदुष्-



संतके शकुंतला भार्यामें सबजीवोंको दमन करनेवाला और दशहजार हाथियोंके बलको धारण करनेवाला ६६ और चक्रवर्ती और भरतनामसे विख्यात ऐसा पुत्रहुआ जिसके नामसे इसवंशमें सब भारत कहाये हैं ७० और एक समयमें जब दुष्मंत राजाने शकुंतला रानीको ग्रहण नहीं किया तब दुष्मंत राजाके प्रति आकाशवाणी कहने लगी माता तो भस्त्रा अर्थात् लोहारकी फुकनीके समान होती है और जिससे उपजा है उसीपिताका पुत्र कहावे है ७१ इसवास्ते हे दुष्मंत राजन् पुत्रकी पालनाकर और शकुंतलाका अपमान मत करे और अपने वीर्यसे उपजेपुत्रको उत्तम लोकमें ले जाया करता है ७२ और यह बालक तेरेसे उपजा है ऐसे शकुंतला ठीक कहती है पीछे राजा भरतके पुत्र माताओंके कोपसे नष्टहोगये ७३ हे मुनिजनो यह मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ मरुत देवताओंने ७४ बृहस्पति के पुत्र भरद्वाजको भरतका पुत्र बनाया और यही भरद्वाजके आख्यानको कहता हूँ और भरद्वाजमुनिमरुत् यज्ञकरता भया ७५ तब भरद्वाजके वितथनाम पुत्रहुआ ७६ जब वितथका जन्म होता भया तब भरत राजा स्वर्गलोकको प्राप्त हुआ पीछे वितथको राज्यपै स्थापितकर भरद्वाज बनको गया ७७ वितथके सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग, कपिल इननामोंवाले पांचपुत्रहुये ७८ सुहोत्र के काशिक और गृत्समती इननामोंवाले दो पुत्रहुये ७९ गृत्समतीके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऐसे बहुत

सै पुत्रहुये अब अजमीढके वंशको सुनो ८० अज-  
मीढके नलिनी रानीमें सुशान्ति पुत्रहुआ सुशान्ति के  
पुरुजाती पुत्रहुआ पुरुजातीके बाह्याश्व पुत्रहुआ ८१  
बाह्याश्वके देवताओं के समान उपमावाले और मु-  
द्गल, संजय, बृहदिषु ८२ यवीनर, कृमिलाश्व इन  
नामोंवाले पांचपुत्रहुये इन्होंने बहुतसे देशोंकी पालना  
करी ८३ इसीवास्ते पंचालनामसे विख्यात हुये ८४  
मुद्गलके अतियशवाला मौद्गल्य पुत्र हुआ ८५  
मौद्गल्य के सुमहायशा ब्रह्मर्षि पुत्र हुआ ८६ और  
जिसके सकाशसे इन्द्रसेना वधस्वनामवालेपुत्रको प्राप्त  
हुई पीछे वधस्वके मेनकारानी में ८७ दिवोदास राजा  
और अहल्या कन्या ये दोनों जन्मते भये पीछे अह-  
ल्याभार्या में शरद्वान् अर्थात् गौतमसे ८८ ऋषियों  
में श्रेष्ठ शतानंद पुत्र हुआ पीछे शतानंदके धनुर्वेद  
के पारको जाननेवाला सत्यधृति पुत्र हुआ ८९ पीछे  
एक समयमें अप्सराको देखके इसी सत्यधृतिकी वी-  
र्य्य शरीरके वनमें स्वलित होगया तब उस वीर्य्य से  
एक लड़का और एक लड़की पैदा होतीभई ९० पीछे  
शांतनुराजा वनमें शिकार के वास्ते गया तहां उस  
लड़का लड़की को देख कृपा से ग्रहण करलिया था  
इसीवास्ते उस लड़काका नाम कृप और लड़की  
का नाम कृपी धरदिया गया ९१ ऐसे गौतमोंका वंश  
प्रकाशित किया गयाहै अब दिवोदास के वंशको वर्णन  
करते हैं ९२ दिवोदासके ब्रह्मर्षिरूप मित्रयु पुत्रहुआ

१०० आदिब्रह्मपुराण भा० ।

मित्रयु के सोम पुत्र हुआ ऐसे मैत्रेयनामवालों का भी वंश प्रकाशित किया ६३ और महात्मारूप संजय के पंचजन पुत्र हुआ ६४ पंचजनके सोमदत्त पुत्र हुआ सोमदत्तके सहदेव पुत्र हुआ ६५ सहदेवके सोमक पुत्र हुआ ६६ सोमकके जतु पुत्र हुआ जतु के सौ पुत्रहुये तिन्हों में युवापुत्र पृषत् नाम से विख्यात द्रुपद का पिता हुआ ६७ पृषत् के द्रुपद हुआ द्रुपद के धृष्टद्युम्न पुत्रहुआ धृष्टद्युम्नके धृष्टकेतु पुत्र हुआ ऐसे सोमक वंशभी प्रकाशित किया गया ६८ और एक समयमें धूमनीनामवाली अजमीठ राजाकी रानी व्रत आदिसे समन्वित होके ६९ पुत्रकी प्राप्तिके अर्थ दश हजार वर्षोंतक उग्रतप करती भई और अग्नि में हवन करके पवित्र और परिमित भोजन करनेलगी १०० तब एक समय में अग्निहोत्रकी कुशाओं पै हे मुनिजनो शयन करतीभई तब उस धूमनीरानीके संग अजमीठराजा विषय करताभया १०१ तब धूम्र वर्णवाला और सुन्दरदर्शनवाला ऋक्षनाम से विख्यात ऐसापुत्र उपजा पीछे ऋक्षके संवरण पुत्र हुआ पीछे संवरणके कुरुपुत्र हुआ १०२ इसीकुरुने प्रयागमें आके पवित्र और रमणीय और महात्माजनोंसे सेवित ऐसा कुरुक्षेत्र विख्यातकरदिया १०३ और इसका वंश भी अतिबड़ा हुआहै जिसमें सबमनुष्य कौरवनामसे विख्यात होतेभये कुरुके सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित, अरिमेजय इननामोंवाले चारपुत्रहुये १०४ सुधन्वा के

सुहोत्रपुत्रहुआ १०५ सुहोत्रके धर्मार्थका जाननेवाला  
 च्यवनपुत्र हुआ च्यवनके कृतयज्ञपुत्र हुआ यही  
 कृतयज्ञ यज्ञों के द्वारा धर्मों को जाननेवाला १०६  
 चैद्यारानी में इन्द्रके समान आकाशचारी और वीर  
 और वसुनाम से विख्यात ऐसा पुत्र उपजाताभया  
 १०७ वसुके गिरिकारानीमें महारथ, मगधराट्, वृहद्र-  
 थ १०८ कुश, मारुत्, यदु, मत्स्य, काली ऐसे नामोंवाले  
 सात पुत्र हुये १०९ वृहद्रथके कुशात्रपुत्रहुआ कुशात्र  
 के वृषभपुत्र हुआ ११० वृषभके पुष्पवान् पुत्र हुआ  
 पुष्पवान् के सत्यहित पुत्रहुआ सत्यहितके धर्म को  
 जाननेवाला ऊर्जपुत्रहुआ १११ ऊर्जके शरीरसे दो भाग  
 अलग २ पैदा हुये जराराक्षसीने दोनों भाग जोड़दिये  
 इसवास्ते जरासंधनामवाला पुत्रहुआ ११२ इसने सब  
 क्षत्रियजीते और यह अतिबलवालाहुआ पीछे जरा-  
 संधके प्रतापवाला सहदेव पुत्र हुआ ११३ सहदेव  
 के उदायु पुत्रहुआ उदायु के परम धार्मिक ११४  
 श्रुतशर्मा पुत्रहुआ यह मगधदेश में वासकरताभया  
 और पूर्वोक्त परीक्षित के धार्मिक जनमेजय पुत्रहुआ  
 ११५ जनमेजय के श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन इन  
 नामोंवाले महारथी तीन पुत्र हुये ११६ और जन-  
 मेजय के सुरथ और मतिमान् इन नामोंवाले दो  
 पुत्र अन्यभी हुये ११७ सुरथ के विदूरथ पुत्रहुआ  
 पीछे विदूरथ के महारथी ऋक्षपुत्रहुआ ११८ और  
 जनमेजय के वंशमें दो ऋक्षराजा हुये हैं और दो

१०२ आदिब्रह्मपुराण भा० ।

परीक्षित हुये हैं ११६ और तीन भीमसेन और दो  
जनमेजय ऐसे हुये हैं दूसरे ऋक्षके भीमसेन पुत्रहुआ  
१२० भीमसेनके प्रतीपपुत्र हुआ पीछे प्रतीपके महा-  
रथी शांतनु, देवापि, वाह्लीक इन नामोंवाले तीनपुत्र  
हुये १२१ शांतनुका वंश यह है जिस में आप उपजे  
और वाह्लीक का सप्तरत्नोंको बढ़ानेवाला राज्य हुआ  
१२२ वाह्लीक के महायशवाला सोमदत्त पुत्रहुआ  
सोमदत्तके भूरि, भूरिश्रवा, शल इन नामोंवाले तीन  
पुत्रहुये १२३ और पूर्वोक्त देवापि राजा देवताओं का  
उपाध्यायहुआ और च्यवनके कृतनामवाले पुत्रकेसंग  
इसकी मित्रताहुई १२४ यह शांतनुराजा कौरवों में  
प्रतापीहुआ अब शांतनुके वंशको कहते हैं जहाँ जन-  
मेजय राजा जन्माहै १२५ शांतनुके गंगा रानीमें देव-  
व्रत नामसे विख्यात पुत्रहुआ पीछे यहीदेवव्रत कौरवों  
का पितामह भीष्म नामसे ख्यातिको प्राप्तहुआ १२६  
शांतनु राजासे कालीरानी में धर्मात्मा विचित्रवीर्य्य  
पुत्रहुआ १२७ वेदव्यासजी विचित्रवीर्य्यकी रानियों  
में धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर इन्हेंको उपजाते भये १२८  
धृतराष्ट्र गांधारीरानी में सौ पुत्रोंको उपजाता भया  
तिन्हों में ज्येष्ठपुत्र दुर्योधन राजाहुआ १२९ और  
पांडु के अर्जुन पुत्रहुआ अर्जुन के अभिमन्यु हुआ  
अभिमन्युके परीक्षित पुत्रहुआ परीक्षितके जनमेजय  
पुत्रहुआ १३० ऐसे कौरववंश प्रकाशित कियागया  
अब तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, यदु, इन्हों के वंश कहेजाते हैं

१३१ तुर्वसुके वल्लिके पुत्रहुआ वल्लिके गोभानु पुत्रहुआ गोभानुके त्रैसानु पुत्रहुआ १३२ त्रैसानुके करंधमपुत्र हुआ करंधमके मरुत् पुत्रहुआ १३३ इस राजा ने यज्ञ बहुतकरी परंतु पुत्रकी संतान नहीं हुई किन्तु सम्मता नामवाली एक पुत्रीहुई १३४ दक्षिणा की जगह संवर्त्तके लिये दीगई तब तिस पुत्रीमें दुष्मन्त पुत्रहुआ है १३५ ऐसे ययाति राजाके शापसे तुर्वसु का वंश पौरव वंशमें मिलगया है १३६ दुष्मन्त के करुत्थाम पुत्रहुआ करुत्थामके अथाक्रीड पुत्रहुआ १३७ अथाक्रीडके पांड्य, केरल, कोल, चोल इननामों वाले चारपुत्रहुये जिन्होंके नामसे पांड्य, चोल, केरल, कोल ऐसे देश विख्यातहुये हैं १३८ और द्रुह्यु के बभ्रु और सेतु इन नामोंवाले दो पुत्रहुये सेतु के अंगार पुत्रहुआ यहमरुतों का प्रतिहुआ १३९ इसके संग यौवनाश्व राजाका चौदह महीनेतक युद्धरहा परन्तु अति कष्टसे यौवनाश्वने इसे मारदिया १४० अंगारके गांधारपुत्र हुआ जिसके नामसे गांधारदेश विख्यात है १४१ और गांधारदेश में अति उत्तम अश्वउपजते हैं और अनुके धर्मपुत्रहुआ धर्म के धृत पुत्रहुआ १४२ धृतके दुदुहपुत्रहुआ दुदुहके प्रचेता पुत्रहुआ प्रचेताके सुचेतापुत्रहुआ ऐसे अनुकावंशभी प्रकाशितकिया १४३ अब मैं ज्येष्ठ और उत्तमतेजवाले यदुकावंश विस्तारसे कहताहूं आपसुनो १४४ लोम-हर्षणजीबोले कि हे मुनिजनो यदुके देवपुत्रों के समान

सहस्रद, पयोद, क्रोष्टा, नील, अंजिक इन नामोंवाले पांच पुत्र हुये १४५ सहस्रदके परम धार्मिक हैहय, हैहय, वेणुहथ इननामोंवाले तीन पुत्र हुये १४६ हैहयके धर्मनेत्र पुत्र हुआ पीछे धर्मनेत्र के कार्तिके पुत्र हुआ कार्तिके साहंज पुत्र हुआ १४७ जिसने साहंजनीनाम पुरी रची साहंजके महिष्मान् पुत्र हुआ १४८ जिसने माहिष्मतीपुरी रची माहिष्मान् के भद्रश्रेण्य पुत्र हुआ १४९ यह काशीका राजा हुआ पहले कहचुकेहैं भद्रश्रेण्यके दुर्दमनासपुत्रहुआ १५० दुर्दमके कनक पुत्र हुआ कनकके लोकमें विख्यात १५१ और कृतवीर्य, कृतौजा, कृतकर्मा, कृताग्नि इन नामोंवाले चार पुत्र हुये कृतवीर्य के अर्जुन पुत्र हुआ १५२ जिसने हजार बाहुओंके प्रताप से सात द्वीपोंमें राज्यकिया यह सूर्यके समान तेजवाले रथसे अकेला पृथ्वीको जीतता भया १५३ और यहीदश हजार वर्षोंतक उग्र तपकरके अत्रिकेपुत्र दत्तात्रेय जी की पूजा करताभया तब दत्तात्रेयजीने चारवर दिये तिनहींमें अर्जुनने कहा किमेरे हजारभुजा होजावें प्रथम यह वरमांगा १५४ पीछेकहा कि अधर्ममें प्राप्तहुवै मुझको सत्पुरुष विवारण करें यह दूसरा वरमांगा पीछे उग्र कर्तव्यसे पृथ्वीको जीत धर्म करके प्रसन्न करूं ऐसे तीसरावरमांगा १५५ पीछे बहुतसे संग्रामों को जीत और हजारहा शत्रुओंको मार उग्रसंग्राम में मुझसे अधिक पुरुषके हाथ मेरीमृत्यु होवे यह चौथा

अर्जुन राजाके युद्धके समय हजारबाहु प्रकटहुये १५७ और इस राजाने सातद्वीप, पर्वत, समुद्र और नगरों संयुक्त संपूर्ण पृथ्वी जीती १५८ फिर इस ने सातों द्वीपों में सातयज्ञ किये १५९ और सब यज्ञोंमें एक दक्षिणाके बदले लक्षदक्षिणादी और सबयज्ञोंमें सुवर्ण के यज्ञस्तंभ और सुवर्णकीही बेदी बनाई १६० उस की सब यज्ञोंमें विमानों पर स्थित और भूषणों से भूषित देवते गन्धर्व और अप्सरा नित्यप्रति समीप उपस्थित थीं १६१ और उसकी यज्ञ में महिमा से विस्मित बरीदासक्रेपुत्र नारद नामसे विख्यात गंधर्व ने यह गाथागाई १६२ नारद कहने लगे कि यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और श्रुत में इस सहस्राबाहु अर्जुन राजाकी गतिको कोई राजान प्राप्तिहोवेंगे १६३ यह राजा ढाल, तलवार, धनुष, बाण को धारण कर और रथ में स्थितहो सातोंद्वीपोंमें बिचरताहुआ योगी मनुष्योंकी दृष्टिमें आताहै १६४ और अपने प्रभावसे प्रजा की रक्षा करनेमें इसका द्रव्य कभी नाशनहीं होता और न इसेकभी शोक व बिभ्रम उपजताहै १६५ पचासीहजार वर्षांतक इस चक्रवर्ती राजाने राज्यकिया १६६ यही पशुओं और क्षेत्रोंकी रक्षाकरता रहा १६७ और यही योगके प्रतापसे मेघरूप होके वर्षाभी करतारहा १६८ यही शरद ऋतुमें सूर्यकी किरणोंके समान हजार बाहुओं से शोभित भया १६९ और इसी राजा ने कर्कोटक सर्प के पुत्रों को जीतकर माहिष्मती पुरीमें मनुष्यों के



बीच में सर्पोंको वसाया १७० इसी राजा ने वर्षाकाल में समुद्रके बेगकेलिये क्रीड़ाकरतेहुये अपनी बाहुओंसे समुद्रके बहुतसे अलग अलग स्रोतकिये १७१ और इसी राजा के क्रीड़ाके समय संकित हुई नर्मदा नदी सन्मुख आई १७२ जब इस राजाने हजार बाहुओंसे समुद्रको क्षोभित किया तबचेष्टासे रहित पातालवासी महाराक्षस भी भयभीत भये १७३ जब वह उस समुद्र को जिसमें उसने लहरें चर्णित करदीं मच्छ और महा मच्छ चलायमान करदिये और तीव्रपवन के बेग के समान आगोंके समूह उपजादिये १७४ पूर्वोक्त समुद्र मथनकी तरह क्षोभित करनेलगा १७५ तबउसराजा को देख के महासर्प भी भयभीत भये इसी राजा ने पांचबाणोंसे सेनासहित लंकाकेपति रावणको मोहित कर १७६ और अपने पराक्रमसे जीत पकड़ के माहिष्मती पुरीमें बांधाथा १७७ पर अर्जुन के स्थानमें बँधेहुये रावणको सुनके १७८ पुलस्त्य ऋषिने अर्जुन के समीप जाके रावणको छुटाया १७९ प्रलयके मेघों के समान जिसके बाहुओं का शब्द हुआकरता था १८० अति आश्चर्य है कि परशुरामजीने उसी राजा के हजार बाहु तालवनके समान काटदिये १८१ एक समय इस राजा के समीप आ अग्निने भिक्षा मांगी तब इसने सातो द्वीपों पर्यंत भिक्षा देदी १८२ तब अग्निपुर, ग्राम और देशोंको जलानेलगा और इसी राजाके प्रभावसे सब पर्वत और वन अग्निने जला-

ये १८३ बरुण के पुत्र का शून्य और रमणीक आश्रम को भी अर्जुनकीही सहायतासे अग्निने जलाया १८४ तब बरुणका पुत्र आपव नाम मुनि क्रोधसे अर्जुनको शापदेके कहनेलगा कि हे राजन् ! तूने मेरेआश्रमकी रक्षा नहीं की इसलिये जमदग्नि का पुत्र परशुराम तपस्वी तेरे हजार बाहुओं को काटके और वेग से मथके तुभको मारेगा १८५ लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो ! यही वर पहले इस राजाने दत्तात्रेयसे भी लियाथा इसलिये मुनिके शापसे परशुरामजीने राजा को मारा १८६ और इस राजाके सौ पुत्रोंमें से युद्धमें केवल पांचपुत्र शेष बचे १८७ जिनके शूरसेन, शूर, धृष्णोक्त, कृष्ण और जयध्वजनाम थे इनमें से जयध्वज अवन्तीपुरीका राजा हुआ १८८ जयध्वजके महाबल वाला तालजंघ पुत्र हुआ और तालजंघ के सौ पुत्र हुये उनके वंशमें १८९ बीतिहोत्र, सुजात, भोज, आवन्ती, तौंडिकेर, भरत, सुजात्य, इननामोंसे विख्यात तालजंघ उपजे १९० जो विस्तारके भयसे यहां नहीं गिनायेगये केवल वृषआदि यादवगिनायेजाते हैं १९१ वृषके मधुपुत्र हुआ और मधुके १०० पुत्रहुये तिनसे वृषणका वंशचला १९२ इसीलिये वृषणके वंशके सब लोग वृष्णीकहाये; मधुके सब संतान माधव कहाये और यदुके यादव कहाये १९३ जो मनुष्य नित्यप्रति इसकार्तवीर्यार्जुनके जन्मका वर्णनकरेगा तिसके द्रव्य का नाश न होगा और नहीं हुआ द्रव्यभी फिर मिल-

जावेगा १९४. ऐसे ययातिराजा के पांचों पुत्रोंके वंश बर्णन करे जो पंचमहाभूतों के सदृश संसारको धारण कर रहे हैं १९५ और इन पांचों वंशोंको सुनने से धर्म अर्थको जानने वाला राजा आत्मज पंचकको वंशमें करता है १९६ और संसार में दुर्लभ रूप पांचवरो को प्राप्त होता है १९७ अर्थात् आयु, कीर्ति, पुत्र, ऐश्वर्य्य और पृथ्वी को पाता है १९८ हे मुनियो ! अब यदुके पुत्रक्रोष्ठा के वंशको सुनो जिसके श्रवण करनेसे सब पापों का नाश होजाता है और जिस वंश में साक्षात् विष्णु भगवान् ने जन्मलिया १९९ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां ययातिवंशकीर्त्तनं नामत्रयोदशोऽध्यायः १३ ॥

### चौदहवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले कि हे मुनिजनो ! क्रोष्ठुके गांधारी और माद्री दोभार्याथीं गांधारी में महाबल-वाला अनमित्र पुत्र उपजा १ और माद्रीरानी में युधाजित् और देवमीढुष नामक दो पुत्रहुये इन्हीं तीनों से तीन प्रकार का वंशचला २ फिर वृष्णी और अन्धक नामक दो पुत्र और हुये वृष्णी के स्वफल्क और चित्रक नामक दो पुत्रहुये ३ और हे मुनिजनो ! यह धर्मात्मा स्वफल्क जिसदेशमेंवसै तिसदेशमेंव्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता ४ एक समय काशिराज के राज्यमें तीन बरसतक इन्द्रने वर्षान की ५

और जब उस राज्यमें यही स्वफल्क बसाया गया तब इन्द्र ने वर्षाकरी ६ तब काशिराज ने स्वफल्क को गांजनी नामवाली पुत्री दी यह गांजनी रानी ब्राह्मणों के लिये नित्यप्रति गौवोंका दान किया करती थी ७ क्योंकि जब यह अपनी माताके पेटमें स्थित बहुत वर्षों तक न जन्मी तब इसका पिता कहने लगा ८ कि, हे गर्भ ! तू जल्द जन्म को प्राप्त हो; तुझको सुख प्राप्त होगा तू उदरमें किस वास्ते स्थित है ? तब गर्भ स्थित यह कन्या कहने लगी कि, नित्यप्रति मैं गौवोंका दान किया करूंगी ९ जो आप इस कहने को मानो तो मैं जन्म लूँ और जब इसके बचन सुन पिताने नित्यप्रति गौका देना अंगीकार किया तब यह जन्मी १० स्वफल्कके दाता और यज्ञ करनेवाला अक्रूर नामक पुत्र हुआ और उपमद्रु, मद्रु, नुदर, अरिमेजय, अविक्षिप, उपेक्षु, शत्रुघ्न, अरिमर्दन ११ धर्मधृक्, यतिधर्मा, गृध्र, नोजा, अंतक, आवाह, प्रतिवाह पन्द्रहपुत्र और एक सुन्दरी नामक कन्या १२ भी स्वफल्ककी रानीसे उपजी अक्रूरके उग्रसेना रानीमें देवताके तेजको धारण किये प्रसेन और उपदेव नामक दो २ पुत्र हुये १३ और पूर्वोक्त चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्वक, गवेषण, १४ अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत्, सुबाहु, बहुबाहु नामक पुत्र और श्रविष्ठा और श्रवण नामिनी दो कन्या पैदा हुई १५ पूर्वोक्त देवमीढुषके अश्मकी रानीमें शूर पुत्र हुआ और शूरके भोज्यारानी में दश

पुत्र हुये १६ तिनमेंसे वसुदेवके जन्मके समय आकाश में नक्कारे बजे १७ और शूरके स्थानमें फूलोंकी वर्षा होनेलगी १८ वसुदेवके समान मनुष्यलोकमें कोईभी रूपमणि नहीं हुआ और वह चन्द्रमाके समान कांति हुआ १९ वसुदेवके जन्मके पीछे देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कनवक्र, वत्सवान्, गृजिम २० श्याम, शर्माक और गंडूष नामक नौपुत्र शूरके और उपजे और पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा २१ राजाधिदेवी नामिनी पांच पुत्री भी शूरसेनके हुईं पृथाको मातामह कुंति भोजराजाने मांगा २२ तब शूरराजाने कुंतिभोजके लिये पृथाको दिया इसलिये कुंतिभोजकी पुत्री पृथाका नाम कुंति हुआ २३ अन्त्य राजाके श्रुतदेवामें जगृहु पुत्र हुआ और चैद्यके श्रुतश्रवारानीमें २४ पूर्व जन्ममें हिरण्यकशिपु नामसे विख्यात दैत्यराज और महाबल वाला शिशुपाल पुत्र हुआ २५ वृद्धशर्मा के पृथुकीर्ति रानीमें करूषदेशका पति और वीर २६ और अति बलवाला दन्तवत् पुत्र हुआ कुंतिभोजकी पुत्री कुंतीका विवाह पांडुराजासे भया २७ जिसमें धर्मराज के सकाशसे धर्मोका जाननेवाला युधिष्ठिर पुत्र उपजा वायुके सकाशसे भीमसेन पुत्र हुआ; इन्द्रके सकाशसे मनुष्यलोकमें जिसके समान कोई भी योद्धा नहीं है और इन्द्रके समान पराक्रम वाला अर्जुन पुत्र हुआ २८ पूर्वोक्त वृष्णिवंशमेंके अनमित्र राजाके शिनि पुत्र हुआ २९ शिनिके सत्यक पुत्र हुआ; सत्यकके सात्यकि पुत्र

हुआ ३० सात्यकिके भूमिपुत्र हुआ और भूमिके युगन्धर पुत्र हुआ ३१ अनाधृष्टिके अश्वकी रानीमें अतियशवाला निनर्त्तशत्रु पुत्र हुआ ३२ और देवश्रवाके शत्रुघ्न पुत्र हुआ जन्मसेही इसकी निषादों ने रक्षा करी थी ३३ और उन्हीं में यह रहाथा इसलिये यह एक लब्ध नामसे विख्यात भील कहाया ३४ बसावान् के कोई संतान नहीं हुई तब वसुदेवने अपने कौशिक नामक पुत्रको उसे दिया ३५ और जब गंडूषके सन्तान न हुई तब श्रीकृष्णने चारुदेष्ण, सुचारु, पंचाल और कृतलक्षण नामक चारपुत्र उसको दिये ३६ जो संग्रामसे कभीभी निवृत्त नहीं और जो रुक्मिणी में उपजा छोटा पुत्र ३७ जिसके चलते समय हजारोंकाग पीछे पीछे चला करतेथे और उसीके दियेहुये मिष्ट पदार्थोंको भोजन किया करतेथे ३८ ऐसा चारुदेष्ण हुआ पूर्वोक्त कनवकके तंद्रिज और तंद्रिपाल नामक दोपुत्रहुये ३९ गृजिमके बीर और अश्वहनु नामक दो पुत्र हुये और श्यामके शमीक पुत्र हुआ ४० यह भोजसंज्ञावाला होनेसे अपने को निंदित माननेलगा पर राजाके उत्तम राज्यको प्राप्त हुआ शमीकके जातशत्रु पुत्र हुआ ४१ अब वसुदेवके पुत्रोंका वंशकहाजाता है तिसको सुनो ऐसे ब्रह्म शाखावाला ४२ और तीनप्रकारसे संयुक्त वृष्णीके वंशको धारण करनेसे अनर्थभागी मनुष्य नहीं होताहै ४३ लोमहर्षणजी बोले कि हे मुनि जनों ! वसुदेवके ४४ पौरवी, रोहिणी, मदिरा, धरा, ४५

बैशाखी, भद्रा, सनात्री, सहदेवा, शांतिदेवा, संदेवा, दे-  
 वरक्षिता, वृकदेवी ४६ उपदेवी और देवकी १४ भार्य्याथीं  
 जिनमेंसे अंतकी दो तो भोगपत्नीथीं ४७ और पौरवी  
 और रोहिणी जो बाह्लीककी पुत्रीथी सो वसुदेवजीकी बड़ी  
 पटरानी हुई ४८ इस रोहिणीमें वसुदेवजीके सकाशसे  
 राम, सारण, शठ, दुर्धम, दमन, श्वान्न, पिंडारक, उशी-  
 नर नामक आठ पुत्र ४९ और चित्रा और सुभद्राना-  
 मिनी दो पुत्री हुई ५० वसुदेवजीसे देवकी रानीमें अति  
 यशवाले श्रीकृष्णजी जन्मे रामसे रेवतीमें निशठ पुत्र  
 हुआ ५१ सुभद्रामें अर्जुनसे अभिमन्यु पुत्र हुआ और  
 अक्रूरसे काशी कन्या रानीमें सत्यकेतु पुत्र हुआ ५२  
 वसुदेवकी और सातरानियोंमें जो पुत्र उपजे तिनको  
 सुनो ५३ शांतिदेवा रानीके भोज और विजय नामक  
 दो पुत्र हुये; सुदेवारानीके वृकदेव और गदनामक  
 दो पुत्र हुये ५४ और वृकदेवी रानी में अवगाह पुत्र  
 हुआ ५५ एक समय देवकराजाके पुरोहित गार्ग्यमुनि  
 के पौरुषकी परीक्षाके लिये यादवपक्षमें रहनेवाले कोई  
 पुरोहितने ५६ उक्त मुनिके लिंगको छुआ पर गार्ग्य  
 मुनिका वीर्य स्वलित न हुआ और न लिंगका उत्था-  
 नही हुआ ५७ तब उस पुरोहितने यादवोंकी सभामें  
 गार्ग्यमुनि को नपुंसक बताया तब सब यादव हँसने  
 लगे और मुनिभी इस हालको सुनके क्रोधकर ५८  
 काले लोहेके समान होगये फिर बारहवें वर्ष में कोप  
 की शांति होनेसे गोपोंकी स्त्रियोंके वेषको धारण करने

वाली गोपाली नाम अप्सराके संग भोग करताभया  
 ५६ तब गार्ग्यके सकाशसे और महादेवजीकी कृपा  
 से उस मनुष्यरूप गार्ग्यकी भार्यामें गर्भ ठहरा ६०  
 और अति बलवाला कालयवन नामसे विख्यात बा-  
 लक जन्मा ६१ इसको रणमें बैलके पर्वार्द्ध शरीरके  
 समान शरीरवाले अश्व लेचलतेथे और पीछे सन्तान  
 से रहित यवनराजाके स्थानमें वृद्धिको प्राप्तहुआ इस  
 कारणइसको कालयवन कहतेहैं ६२ यह युद्धकी कामना  
 करं ब्राह्मणोंसे पूछनेलगा ६३ और नारदमुनिने वृष्णि-  
 योंका कुल युद्ध करनेके वास्ते बताया तब वह एक अ-  
 क्षौहिणी सेना लेके मथुरापुरीके समीप गया और ६४  
 वृष्णिकुलमें अपने दूतको भेजा तब वृष्णाचंधक वंशके  
 सब मनुष्य श्रीकृष्णके आश्रय होके ६५ कालयवन के  
 भयसे इकट्ठेहो विचार करनेलगे और सबोंकी बुद्धिमें  
 यही निश्चय हुआ कि यहांसे भागनाही उत्तम है ६६  
 निदान सब रमणीय मथुरापुरीको त्यागके कालयवन  
 को शिवरूप मानतेहुये द्वारकापुरी में प्रवेश करनेकी  
 इच्छा करनेलगे ६७ जो मनुष्य इस कृष्णके जन्मको  
 पर्वकालमें पवित्र व जितेंद्रियहोके श्रवणकरे व करावे-  
 गा वह सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होके सुखको प्राप्त  
 होगा ६८ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषार्थारुणवंशानुचरितं

नामचतुर्दशोऽध्यायः १४ ॥



## पन्द्रहवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले, हे मुनिजनो! क्रोष्टुके अति यशवाला वृजनीवान् पुत्र हुआ और वृजनीवान् के स्वाही और स्वाहा कृतांबर नामक दो पुत्र हुये १ स्वाही के उषद्गु पुत्र हुआ जिसने बहुत दक्षिणाओंसे संयुक्त अनेक प्रकारके यज्ञकरे २ और उनके प्रतापसे चित्ररथ पुत्र हुआ ३ चित्ररथके वीर; यज्ञ करनेवाला और विपुल दक्षिणा देनेवाला राजर्षि शशविंदु पुत्र हुआ ४ शशविंदुके अति यशवाला पृथुश्रवा पुत्र हुआ ५ पृथुश्रवाके उत्तर और सुयज्ञ नामक दो पुत्र हुये और सुयज्ञके ऊखन पुत्र हुआ । ऊखनके स्नेयु पुत्र हुआ ६ स्नेयुके मरुत् पुत्र हुआ और मरुत्के कंबल बर्हिष पुत्र हुआ । इस कंबल बर्हिषने विपुलधर्म किया ७ । ८ और उसके शतप्रसूतिपुत्र हुआ । शतप्रसूतिके रुक्मकवचपुत्र हुआ ९ जो अच्छे धनुष और अच्छे कवचवाले सौ राजाओंको पैंने वाणोंसे मारके उत्तम शोभाको प्राप्त हुआ १० व रुक्मकवचके वीरोंको मारनेवाला पराजित् पुत्र हुआ और पराजित्के अति वीर्यवाले ११ रुक्मेषु, पृथुरुक्म, ज्यामघ, पालित और हरिनामक पांच पुत्र हुये और पराजित्ने पालित और हरिनामक दो पुत्रोंको विदेहोंके लिये दिया १२ पृथुरुक्मके आश्रयसे रुक्मेषु राजा हुआ और इन दोनोंने अपने भाई ज्यामघको निकास दिया तब वह एक आश्रममें जा

बसा १३ जहां उसे प्रशांत व अप्रशांत नामक ब्राह्मणों ने बोध कराया । तब धनुषको धारणकर और रथमें सवारहो १४ नर्मदाके किनारे पर विचरताहुआ मेकला मृत्तिकावति और ऋक्षवान् पर्वतोंको विजयकर शुक्ति-मतीपुरी में जाबसा १५ फिर राजा ज्यामघके सैव्या नामनी और सती रानीहुई । यद्यपि इस राजाके संतान नहींहुई परन्तु इसने अन्य भार्याकी इच्छा नकी १६ निदान एक समय इस राजाने युद्धमें विजय पाया और एक कन्या प्राप्तहुई उसे ग्रहणकर अपनी रानीसे कहने लगा कि यह तेरे पुत्रकी बधूहै १७ यह सुन रानी कहनेलगी कि मेरे तो पुत्रही नहीं उपजा तो तू इसे बधू कैसे मानताहै? १८ तब राजा कहनेलगा फिर इसीकन्या के तपसे वृद्धरूप वाली तेरे सकाशसे विदर्भ पुत्र होगा और उसकी यह बधू होगी । इसप्रकार राजाके कहनेसे ऐसही विदर्भ हुआ १९ व विदर्भ के इसी बधूमें और शूरवीर और युद्धमें विशारद कृथ और कौशिक नामक दो पुत्र २० और भीमनामक तीसरा पुत्र हुआ । भीमके कुंती पुत्र हुआ २१ कुंतीके धृष्ट पुत्रहुआ और धृष्टके परमधार्मिक २२ आवंत, दशार्ह और विषहर नामक तीन पुत्रहुये । दशार्हके व्योमा पुत्रहुआ; व्योमा के जीमूत पुत्रहुआ २३ जीमूतके वृकती पुत्रहुआ; वृकतीके भीमरथ पुत्रहुआ; भीमरथके नवरथ पुत्रहुआ २४ नवरथके दशरथ पुत्रहुआ; दशरथके शकुनी पुत्र हुआ; शकुनीके करम्भ पुत्र हुआ; करम्भके देवरात पुत्र

हुआ २५ देवरातके देवक्षत्र पुत्र हुआ और देवक्षत्र के देवोंके समूहके समान अति यशवाला देवक्षत्र पुत्र हुआ । देवक्षत्रके २६ मीठी वाणीवाला मधु पुत्र हुआ; मधुके वैदर्भीरानीमें पुरुद्वान् पुत्रहुआ और २७ पुरुद्वान्के ऐक्ष्वाकीभार्यामें सबगुणोंसेसंयुक्त और सात्वकोंकी कीर्तिको बढ़ानेवाला सत्वान् पुत्र हुआ २८ ऐसे ज्यामघ राजाके वंशको जानने से व कीर्त्तन करने से प्रजावाला पुरुष होके परम प्रीतिको प्राप्त होताहै २९ लोमहर्षणजी बोले, हेमुनिजनो! सत्वसे संयुक्त, भजिन, भजमान, दिव्य, देवावृध, अंधक, वृष्णि नामक ३० सात्वत पुत्रोंको कौशल्या रानीने जना ३१ भजमानके बाह्यक और उपबाह्यक नाम्नि दो भार्याथीं बाह्यक भार्यामें ३२ कृमि, क्रमण, धृष्ण, शूर और पुरंजय नामक पांच पुत्र हुये और उपबाह्यक रानी में ३३ अयुताजित्, सहस्राजित्, शताजित् और दासक चार पुत्र हुये ३४ पूर्वोक्त देवावृध राजा उत्तम पुत्रकी प्राप्ति के लिये उग्र तपको करनेलगा ३५ और आत्माका ध्यान कर सदैव पर्णाशानदीके जलको छूनेलगा तब पर्णाशा नदीने इस राजाको देख प्रीतिकी ३६ और विचारने लगी कि, जैसे पुत्रकी राजा बांझकरताहै तैसा पुत्र इस रानीमें न होगा ३७ यह विचार पर्णाशा नदीने परम रूपसे संयुक्त कुमारी कन्याके रूपको धारण कर राजाके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकटकी ३८ और राजा ने भी उसे अंगीकार किया ३९ निदान उसमें अति तेज-

वाला गर्भ ठहरा और वह नदीरूपी रानीने दशवें महीने ४० सब गुणोंसे संयुक्त और बभ्रु नामसे विख्यात पुत्रको जना । इसवंशको पुराणके जाननेवालोंसे भी ४१ मैंने सुना है कि, देवावृधके गुणोंको जैसे सन्मुख कहा करते हैं तैसे ही दूरसे भी कहा करते हैं ४२ । फिर मनुष्योंमें श्रेष्ठ बभ्रु और देवताओंके समान देवावृध और सात हजार छाल्छठ पुरुष ४३ ये सब अमृतको प्राप्त हुये और यज्ञका करनेवाला; दानका देनेवाला; विद्वान् और ब्रह्मण्य बभ्रुका वंश हुआ ४४ जिसमें मार्त्तिवत् आदि भोज हुये । अंधकके काश्यकी पुत्रीसे ४५ कुकुर, भजमान, शर्मकम्बल और बर्हिषनामक चार पुत्र हुये; कुकुरके धृष्णु पुत्र हुआ; धृष्णुके ४६ कपोतरोमा पुत्र हुआ; कपोतरोमाके तैतिरि पुत्र हुआ; तैतिरिके पुनर्वसु पुत्र हुआ, पुनर्वसुके अभिजित् पुत्र हुआ ४७ अभिजित्के आहुक पुत्र और आहुकी पुत्री ये दो संतान हुई ४८ आहुकके विषयमें ऐसा बर्णन करते हैं कि वह शुद्ध परिवार युक्त और किशोरके समान उपमावाला ४९ जब गमन करता तब पुत्रोंवाले, उदार चित्त; हजारों शस्त्रोंवाले, ५० शुद्धकर्मवाले और यज्ञ करनेवाले लोग राजाके चारोंतरफ गमन किया करते । उसके पूर्वदिशामें ध्वजावाले दशहजार हाथी ५१ और मेघके समान शब्द करनेवाले दशहजार रथ चला करते थे ५२ और उत्तर दिशामें भी इक्कीसहजार हाथी और इक्कीसहजार रथ चला करते ५३ वे अंधक फिर आहुकी नामवाली

अपनी बहनको अवंतियों के लिये देतेभये ५४ और  
 आहुकके काश्यारानीमें देव गर्भोंके समान देवक और  
 उग्रसेन दो पुत्र हुये । देवकके देवताओंके समान ५५  
 देवान्, उपदेव, संदेव, देवरक्षित नामक चारपुत्र ५६  
 और देवकी, शांतिदेवा, संदेवा, देवरक्षिता ५७ वृकदेवी,  
 उपदेवी और सुनाम्नी सात पुत्रीहुई । ये सातों वसुदेव  
 को विवाहीगई ५८ उग्रसेनके कंस, न्यग्रोध, सुनामा  
 कंक, शंकु, सुभूषण ५९ राष्ट्रपाल, सुतनु और अनाघृष्टि  
 नामक नवपुत्र ६० और कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली  
 और कंका पांचपुत्रीहुई ६१ ऐसे इनसंतानोंसेसंयुक्त कु-  
 कुरके वंशमेंउत्पन्न उग्रसेन विख्यात हुआ । इन अमित  
 बलवाले ६२ कुकुरोंके वंशको धारण करने से उत्तम  
 वंश और उत्तम प्रजाको मनुष्य प्राप्तहोता है ६३ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांवृष्णिवंशकीर्त्तन

नामपंचादशोऽध्यायः १५ ॥

## सौलहवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले; हे मुनिजनो ! पूर्वोक्त भजमानके  
 विदूरथ पुत्रहुआ, विदूरथके राजाधिदेय पुत्रहुआ और  
 १ राजाधिदेयके अतिबलवाले दत्त, अतिदत्त, शोणाश्व,  
 श्वेतबाहन २ समी, दत्तशर्मा, दत्तशत्रु और शत्रुजित्  
 नामक पुत्र और श्रवणा और श्रविष्ठा दोपुत्री हुई ३  
 समीके प्रतिक्षत्र पुत्रहुआ; प्रतिक्षत्र के स्वयंभोज पुत्र  
 हुआ; स्वयंभोजके हृदिकपुत्र हुआ और ४ हृदिक के

अति पराक्रमवाले कृतवर्मा; शतधन्वा ५ भिषग्; वैतरण; सुहृद और अतिदत्त नामक पुत्र और कामदा और कामदत्तिका नाम्नी ६ दापुत्री हुई । कंबलबर्हिष के अस्मोजा और नाशमोजा नामक दोपुत्रहुये ७ और जब अस्मोजा के संतान नहीं हुई तब राजा अन्धकने सुदंष्ट्र, सचारु और कृष्ण नामक अपने तीन पुत्रों को उन्हें दिया ८ पूर्वोक्त क्रोष्टु से गान्धारीमें अनमित्र पुत्र उपजा ९ और माद्रीमें युधाजित्पुत्र उपजा यह पहले कह चुके हैं १० तिसी अनमित्रके निघ्न पुत्रहुआ; निघ्न के प्रसेन और सत्राजित् दोपुत्रहुये ११ सत्राजित् द्वारकापुरीमें जाबसा और स्यमन्तकमणिको समुद्रसे पाया यही सत्राजित् सूर्यका मित्रहुआ एक समय प्रभात को वह रथ में बैठ १२ समुद्रमें स्नान करने व सूर्य का ध्यान करने के लिये गया १३ और सूर्य के लिये उपस्थान करने लगा १४ और जब स्पष्ट मूर्तिमान और तेजसे संयुक्त मंडलवाले सूर्य भगवान् सामने स्थित प्रतीत हुये १५ तब सत्राजित् राजा कहने लगा कि हे देव ! जैसे तेजसे संयुक्त मैं आपको आकाशमार्गमें देखता हूँ तैसेही अब मेरे सामने भी तेजसे संयुक्त प्रतीत होतेहो १६ इसलिये आपकेसंग मेरी मित्रता में क्या विशेष हुआ ? यह सुनके सूर्य ने स्यमन्तक नामवाले मणि रत्नको १७ अपने कंठ से उतार एकांतमें स्थापित कर दिया तब राजाने अतितेज रहित सूर्यको देखा १८ और प्रीतिसे संयुक्तहो दोघड़ी

तक कथा वार्त्ता करता रहा । जब सूर्यनारायण चलने लगे १९ तब राजा कहनेलगे, हे भगवन् ! जिसमणिसे आप लोकोंको प्रकाशित करतेहो वह मणिरत्न मुझको देना उचित है २० यह सुन सूर्यने उस स्यमन्तक मणिको सत्राजित् के लिये देदिया और वह उस मणि को कंठमें बांध द्वारकामें प्रवेश करने लगा २१ तब चारों तरफसे द्वारकावासी मनुष्य दौड़े कि, यह सूर्य आता है। द्वारकामें ऐसा आश्चर्य दिखाके राजा अपने स्थानमें चला गया २२ और फिर उस दिव्यरूप स्यमन्तकनामवाली मणिको प्रेमसहित अपने भाई प्रसेनजित्को भेंट दी २३ वह मणि नित्य प्रति सुवर्णको दिया करती थी और जहां वह मणि रहती थी तहां समयपर वर्षा होती थी और व्याधि का भय न होता था २४ निदान इतने गुण उस मणिमें बिख्यात होने लगे कि, उस मणिको प्रसेनसे श्रीकृष्ण ने लेना चाहा २५ परन्तु प्रसेनने नदी और सामर्थ्य वाले श्रीकृष्णजीने भी फिर उस मणिको हरने की इच्छा नकी २६ निदान एक समय उस मणिको धारण कर प्रसेन शिकार खेलने के लिये बनमें गया और बनमें बिचरनेवाला एक सिंह उसे मार २७ और उस मणिको लेकर वहीं दौड़ने लगा तब अतिबलवाले जाम्बवान् ऋक्षराजने उस सिंहको मार मणिरत्नको ले लिया और अपने विल में प्रवेश गया २८ प्रसेनके मरजाने और स्यमन्तक मणिमें कृष्ण की लालसा रहने का वृत्तांत सुन सब द्वारकावासी शंकित होने

लगे २९ अर्थात् यह विचारनेलगे कि, प्रसेनके मारने में श्रीकृष्ण शामिल हैं । तब मिथ्यादोषसे दोषित धर्मात्मा श्रीकृष्ण कहने लगे कि; मणिको मैं लाऊंगा । ऐसी प्रतिज्ञाकर सखन सहित वे वनको गये ३० और वहां जाके जिस जगहसे प्रसेन शिकार खेलनेलगा था घोड़ाके पैरोंके चिह्नोंके द्वारा खोजतेहुये ३१ ऋक्षवान् और विंध्य पर्वतोंमें ढूढ़ते ढूढ़ते थकगये तब एकस्थान में अश्व सहित प्रसेनको प्राणोंसे रहित पृथ्वीमें पड़ा हुआ देखा परन्तु मणि उसकेपास नहीं थी । निदान अगाड़ीजाके ऋक्षराजका माराहुआ सिंह देखा ३२ और ऋक्षराजके पैरोंके चिह्नोंके अनुसार जाम्बवान् ऋक्षकी गुहाके समीप जापहुंचे ३३ तो उस बिलसे स्त्रीका शब्द सुना जो जाम्बवान्के पुत्रको मणिसे खिला रही थी और यह कहती थी कि; हे बालक ! मतरों ३४ वह धाय यह भी कहती थी कि; प्रसेन को सिंहने मारा और सिंहको जाम्बवान् ऋक्षराजने मारा तब यह स्थमन्तकमणि मिली है इसलिये हे बालक ! रो मत यह मणि तेरी है ३५ ऐसे प्रकट शब्द सुन भगवान् श्रीकृष्णने बिलके द्वारपर ३६ बलदेवजी सहित बहुतसे यादवोंको स्थापितकर उसमें प्रवेश किया ३७ भीतर जाके श्रीकृष्णने जाम्बवान् को देखा और ३८ जाम्बवान् भी श्रीकृष्णको देखके दौड़ा और बाहुयुद्ध करने लगा । निदान जब बाहुयुद्ध करतेकरते इक्कीसदिन बीत गये ३९ और श्रीकृष्ण बिलसे न निकले तब बलदेव



जी आदि सब द्वारकामें आके कहनेलगे कि; श्रीकृष्ण  
 मारेगये इसमें संशय नहीं ४० इधर श्रीकृष्णजी बल  
 वाले ऋक्षराज जाम्बवान्को जीत, जाम्बवान्की जा-  
 म्बवती कन्याके संग विवाह कर ४१ और अपने क-  
 लंकके दूर करनेके निमित्त स्यमन्तकमणिकोभी ग्रहण  
 कर व ऋक्षराजसे आज्ञा लेकर बिलसे निकल ४२  
 भार्या सहित द्वारकापुरीमें आये । ऐसे अपने कलंक  
 को दूरकर ४३ श्रीकृष्णने सब यादवों की सभा में  
 वह स्यमन्तकमणि सत्राजित्को दी ४४ सत्राजित्के  
 दश भार्याथीं तिनमें सौ पुत्र हुये ४५ और उनमें से  
 भंगकार, वातपति और उपस्वावान् ४६ नामक तीन  
 पुत्र विख्यात हुये और स्त्रियोंमें उत्तम व विख्यात स-  
 त्यभामा; दृढव्रता ४७ और प्रस्वायिनी तीनपुत्री हुई ।  
 इन तीनों पुत्रियोंको सत्राजित्ने श्रीकृष्ण को विवाह  
 दिया ४८ भंगकारके गुणों में सम्पन्न और सम्पत्से  
 विश्रुत सभाक्ष भंगुकार नामक दो पुत्र हुये ४९ ऐसे  
 श्रीकृष्णके इस मिथ्याभिशापको जो मनुष्य श्रवणकरै  
 उसको मिथ्याभिशाप अर्थात् मिथ्या दोष कभी नहीं  
 लगते ५० ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्यमन्तकप्रत्यानयनं

पौडशोऽध्यायः १६ ॥

**सत्रहवां अध्यायः ॥**

लोमहर्षणजी बोले, हे मुनिजनों ! जिस स्यमन्तक

मणि रत्न को श्रीकृष्ण ने सत्राजित् को दिया उसकी प्राप्तिमें जो अनर्थ हुआ वह सुनो १ पहले इस सत्यभामा और स्यमन्तकमणिको ग्रहण करने की अक्रूर को चाहनाहुई २ एकसमय द्वारकामें कृष्ण नहीं थे तब महा बलवाले शतधन्वाने रात्रिमें सत्राजित्को मार और स्यमन्तकमणिको ग्रहणकर अक्रूरको सौंपदी ३ तब उस मणिरत्नको पा अक्रूर शतधन्वासे कहनेलगा कि, यह वृत्तांत किसी से न कहना कि, अक्रूरके पास मणिहै ४ यदि श्रीकृष्ण तुझसे कुछ कहेंगे तो हम तेरी सहायता करेंगे और ये सब द्वारकावासी मेरे बश हैं इसमें संशय नहीं ५ निदान जब सत्राजित् मारा गया तब दुःखसे पीड़ितहो सत्यभामाने रथमें बैठ वारणावत नगर को गमन किया ६ और श्रीकृष्ण के समीप जा शतधन्वा के हाथ से सत्राजित् की मृत्युको प्रकट कर और पार्श्व की तरफ बैठ रोने लगी ७ तब श्रीकृष्ण दग्धहुये पांडवों की जलक्रिया कर और अन्य कर्मोंके लिये सात्यकी को नियुक्तकर ८ जल्द द्वारकामें आके बलदेवजी से कहनेलगे ९ कि, प्रसेनको सिंहने मार डाला और शतधन्वाने सत्राजित् को मार डाला इसलिये हे प्रभों ! अब स्यमन्तक मणिका स्वामी मैं हूँ अर्थात् मणि मुझको मिलनी चाहिये १० और रथमें स्थितहो जल्द शतधन्वा को मारने से स्यमन्तक मणि हमारा होसकगहै ११ निदान शतधन्वा और श्रीकृष्ण का आपस में घोरयुद्ध होनेलगा तब शतधन्वा अक्रूर

को सब दिशाओं में देखने लगा १२ परंतु जब युद्ध में प्रवृत्त शतधन्वा और श्रीकृष्ण को देख सामर्थ्य वाला अक्रूर शतधन्वा की सहाय को न आया १३ तब भयसे पीड़ित शतधन्वाने भागने का विचार किया और चारसौ कोश से भी अधिक चलने वाली १४ हृदया नामसे विख्यात घोड़ी पर जो कि उसके पास थी सवार हो श्रीकृष्णसे युद्ध करता ही करता भागा १५। १६ तब रथमें स्थित हो बलदेव और श्रीकृष्ण भी उसके पीछे लगे परन्तु जब चारसौकोशपर पहुँचके शतधन्वा की घोड़ी का परिश्रम और खेदसे प्राणान्त होने लगा तब श्रीकृष्ण बलदेवजीसे कहने लगे १७ कि, हे महाबाहो! आप यहीं स्थित रहो मैं पैदल जाकर मणिरत्नको ले आऊँगा १८ निदान श्रीकृष्णने परमास्त्रके प्रतापसे मिथिला पुरी के समीप शतधन्वा को मारा १९ परन्तु शतधन्वा के पास स्यमन्तकमणि नहीं मिली तब श्रीकृष्ण बलदेव जीके पास लौट आये और बलदेवजी कहने लगे कि, मणिरत्न मुझको सौंप दो २० श्रीकृष्ण कहने लगे कि, शतधन्वा के पास मणितो नहीं निकसी । इस वचनको सुन क्रोधसे युक्तहुये बलदेवजी श्रीकृष्ण को बारम्बार धिक् धिक् कहने लगे २१ और फिर बोले कि, हे कृष्ण ! “आत्रवश मैंने तेरा यह कर्त्तव्य सहा अच्छा तेरा कल्याण हो मैं जाता हूँ न द्वारकामें मेरा कुछ कर्त्तव्य है; न वृष्णिणों के संग मेरा कर्त्तव्य है और न तेरे संग मेरा कर्त्तव्य है” २२ ऐसे कह के जब

बलदेवजी ने मिथिलापुरी में प्रवेश किया तब सब कामनाओं से मिथिलापुरी के राजा ने बलदेव जी की पूजाकी २३ और इसीकालमें बुद्धिमानों मेंश्रेष्ठ अक्रूर ने नानाप्रकार के यज्ञ किये २४ और स्यमन्तक की रक्षा के निमित्त दीक्षामय कवचभी धारण किया २५ फिर नानाप्रकारके रत्न और धनोंको यज्ञोंमें साठबर्षों तकनियुक्त कर २६ बहुत अन्न और दक्षिणाचाले और सब कामोंको देनेवाले अक्रूर यज्ञ विख्यात हुये २७ जब मिथिलापुरीमें बलदेवजी रहनेलगे तब राजादुर्योधन मिथिलापुरी में जाके दिव्यरूपी गदाशिक्षा को बलदेव जीसे सीखनेलगा २८ इधर वृष्णयन्धक वंश केपुरुषोंकेसाथ अक्रूर द्वारकासे निकस गया २९।३० तत्र ज्ञातिभेदके भयसे श्रीकृष्णने अक्रूरको त्यागदिया जब अक्रूर चलागया तब द्वारका में इन्द्र ने वर्षा न की ३१ और अनावृष्टि के भयसे देशदुःखित होनेलगा।निदान जब कुरुर,अन्धक आदि वंशोंमें होनेवाले द्वारका बासियोंने अक्रूर को मनाके ३२ द्वारकापुरी में फिर बसाया तबइन्द्रेने वर्षाकी ३३ शील संयुक्त स्वसारा नामसे विख्यात कन्याको अक्रूर ने श्रीकृष्णको प्रसन्न करने के लिये दिया ३४ पर योगबलसे श्रीकृष्ण अक्रूर के पास मणिको जान सभाके मध्यमेंस्थित अक्रूर से कहनेलगे कि, हे प्रिय ! जो स्यमन्तकमणि आपके पासहै वह मुझको देनीयोग्यहै ३५।३६ मुझमें जो मणि सम्बन्धी क्रोधथा वह अब शांत हुआ है क्योंकि उस

१२६ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

कालको साठवर्ष व्यतीत होगये ३७ श्रीकृष्णके ऐसे वचनों को महा मतिवाले अक्रूर ने सुनके वह मणि श्री कृष्ण को देदी ३८ पर श्रीकृष्णने प्रसन्न हो फिर उसे अक्रूर को लौटाला दिया ३९ तब कृष्णके हाथसे स्यमन्तकमणि को ग्रहण कर और कंठमें बांध अक्रूर सूर्य के समान प्रकाशित हुये ४० ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्यमन्तकमण्युपाख्यानसहित  
सौमवंशकथननामसप्तदशोऽध्यायः १७ ॥

## अठारहवां अध्याय ॥

मुनियोने कहा, हे सूतजी ! आपने भरतों और सब राजाओं का महत् आख्यान १ और देवता, दानव, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, दैत्य, गृह्य और सिद्धों इन्होंके २ अति अद्भुत कर्म, विक्रम और धर्म निश्चय एवम् ताता-प्रकारकी दिव्य कथा और उत्तम जन्म चरित्र कहे ३ और सब प्रजापतियों, गृह्यकों और अप्सराओं की सृष्टि ४ और स्थावर जंगम नाना प्रकार की जगतभी कहा और हमने सुना प्रजा मनुष्योंको पुण्य फलों और कानों को सुखका देनेवाला और अमृतके समान तृप्त करनेवाला पुराणरूपी यह आख्यान है ६ परन्तु अब इस पृथ्वीके संपूर्ण मण्डलका वर्णन श्रवण करने की हमारी इच्छा है । हे धर्मज्ञ ! यह हमको जीति आश्चर्य है और आप कहनेके योग्य है ७ इसलिये जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन और पवित्र नदियां हैं ८ और

जितने प्रमाण वाला; जिस आधार वाला और जितना आत्मत्व वाला इस जगत् का संस्थान है तिसे आप यथा योग्य कहो ६ तामहर्षणजी बोले, हे मुनि-जनों! मैंने यह वृत्तांत संक्षेपसे कहा है इस विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन सौ वर्षोंमें भी नहीं होसका १० हे द्विजो! जंबूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमलिद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप नामक सात द्वीप हैं ११ और ये सातों द्वीप क्रमसे क्षारसमुद्र, ईखके समुद्र, मदिरा के समुद्र, घृतके समुद्र, दही के समुद्र, दूधके समुद्र, जलके समुद्र से वेष्टित हैं १२ इन सातों द्वीपों के बीच में जंबूद्वीप स्थित है और जंबूद्वीपके मध्यमें सुवर्ण का मेरुपर्वत स्थित है १३ मेरुपर्वत चौरासी हजार योजन ऊँचा; सोलह हजार योजन पृथ्वी के भीतर विस्तृत, बत्तीस हजार योजन भूस्तकमें विस्तृत १४ और सोलह हजार योजन मूलमें विस्तृत है और कमल विशेषवृक्ष की तरह स्थित होरहा है १५ उसके दक्षिण भागमें हिमवान्, हेमकूट और निषध नामक तीन पर्वत स्थित हैं और उत्तरमें नील, श्वेत और शृंगवान् नामक तीन पर्वत स्थित हैं १६ और ये सब दो हजार योजन ऊँचे और दो हजार योजन विस्तृत हैं १७ मेरुके दक्षिण ओर भारत वर्ष, किम्पुरुषवर्ष और हरिवर्ष हैं १८ उत्तर ओर रम्यकवर्ष, हिरण्यवर्ष और उत्तर कुरुवर्ष स्थित कहे हैं १९ ये सब अलग अलग नौ नौ हजार योजनके विस्तारके हैं २० मेरुके पूर्व ओर मन्दराचल; दक्षिण ओर गन्धमादन

पर्वत; पश्चिमके तरफ विपलपर्वत और उत्तरके तरफ सुपांश्व पर्वत स्थित है २१ और इन चारों पर्वतोंमें क्रम से कदम्ब, जांघुन, पीपल और बटके ग्यारहसौ योजन विस्तृत ध्वजारूपी वृक्ष स्थित हैं २२ उन पर्वतोंमें महागजके समान प्रमाणवाले और बहुत सुन्दर फल चारों तरफ बिखरते रहते हैं २३ और उन फलोंके स्वच्छरस से यमुनानदी प्रवृत्त होरही है । वहांके बसनेवाले उस रसको पीते हैं २४ और उस रसके पान करनेवालोंके पसीनामें दुर्गन्ध, बुढ़ापा, इन्द्रियदोष, ग्लानि आदिका लेशमात्रभी नहीं उपजता है २५ तिस नदीके उत्तर तीर पर उत्तम वायु चलता है और वहां जांबूनदारुख्य और सिद्धोंका भूषण सुवर्ण स्थित है २६ मेरुपर्वत के पूर्व भद्राश्ववर्ष है; पश्चिममें केंतुमालवर्ष है; और इनदोनोंके मध्यमें इलावृतवर्ष है २७ मेरुके पूर्व चैत्ररथ वन है; दक्षिणमें गन्धमादन है; पश्चिमके तरफ वैभ्राज है और उत्तरकी ओर नन्दनवन और २८ अरुणोद, महाभद्र, सुशीतोदक और मानस नामक चारकुंड हैं २९ शीतांत, चक्रमंज, कुररी और माल्यवान् यह चार पर्वत मेरुसे पूर्वकी ओर स्थित हैं ३० त्रिकूट, शिखर, पतंग, रुचक, निषध आदिपर्वत दक्षिणमें स्थित हैं ३१ और शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग, कांतार आदिपर्वत उत्तरकी ओर स्थित हैं ३२ चौदहहजार योजन विस्तृत महापुरी मेरुपर्वत पर स्थित है ३३ और हे विप्रेन्द्रो उस पर्वतके ऊपर आठों दिशा और विदिशाओंमें इन्द्र आदि लोकपालों

के पुर बसते हैं ३४ और विष्णुके पैरसे निकसी और इन्दुमण्डलको लवन करती हुई ब्रह्माकी पुरीके चारों ओर आकाशसे गंगाकी धारा पड़ती है ३५ और चारों दिशाओंमें प्राप्त होती है जहां सीता अलकनन्दा रक्षु और भद्रानामसे विख्यात हैं ३६ सीता नामवाली गंगा पर्वतसे पूर्वकी ओर भद्राश्वखण्डमें जाके पवित्र करती है ३७ अलकनन्दा नामवाली गंगा दक्षिण की ओर भारतखण्डमें जाके समुद्रमें प्राप्त होती है ३८ रक्षुनाम वाली गंगा पश्चिमदिशाके पर्वतोंसे होकर तुमालबर्ष में जाकर समुद्रमें मिलती है ३९ और भद्रानामवाली गंगा उत्तरके पर्वतों और कुरुदेशोंमें होकर उत्तरके समुद्रमें मिलती है ४० माल्यवान् और गन्धमादन पर्वतों के मध्य में कमल की कर्णिकाके समान मेरुपर्वत स्थित है ४१ और भारत केतुमाल भद्राश्व और कुरु ये चारोंलोकरूपी कमलके पत्र कहे हैं ४२ जठर और देवकूट ये दोनों पर्वत मर्यादा कहे जाते हैं और ये दोनों दक्षिणोत्तर अग्रभागवाले हैं नील निषध इनदोनों पर्वतों तक विस्तृत हैं ४३ और गन्धमादन और कैलास पर्वकी ओर अस्सीयोजन विस्तारसे व्यवस्थित हैं ४४ निषध और पारिपात्र ये दोनों मर्यादा पर्वत कहाते हैं और दक्षिणोत्तरकी ओर विस्तृत हुये नील और निषध तक व्यवस्थित हो रहे हैं ४५ त्रिशृंग और जारुचि ये दोनों बर्ष पर्वत हैं और पूर्वकी ओर विस्तृत होकर समुद्र तक व्यवस्थित हैं ४६ हे द्विजो यह मैंने मर्यादा



पर्वत कहे हैं जो मेरुपर्वतके चारों दिशाओंमें दोदो पर्वत स्थित हैं ४७ और ये सब मेरुके चारोंदिशाओं में केसर पर्वत हैं ४८ और इन पर्वतोंकी सिद्ध चारणों से सेवित अन्तर्द्वीपी है तहां लक्ष्मी विष्णु इन्द्र सूर्य आदि देवतोंके ४९ रमणीक और सुन्दर पुर हैं जो किंकरोंसे रक्षित अनेक प्रकारके स्थान कहे हैं ५० और उन पर्वतोंकी सुन्दर गुफाओंमें गन्धर्व यक्ष राक्षस दैत्य दानव दिनरात्रि क्रीड़ा करते रहते हैं ५१ स्वर्गके प्राप्त होने योग्य मनुष्य वहां जासक्ते हैं पर पापी मनुष्य सैकड़ों जन्मोंमें भी नहीं जासक्ते हैं ५२ और हे द्विजो भद्राश्ववर्षमें हयशिरा नामसे प्रसिद्ध विष्णु स्थित हैं केतुमालवर्ष में बाराह नामसे प्रसिद्ध विष्णु स्थित हैं भारतवर्षमें कूर्म और मत्स्यरूपधारनेवाले विष्णु स्थित हैं ५३ उत्तर कुरुदेशमें गोविन्द और जनार्दन नामोंसे प्रसिद्ध विष्णु स्थित हैं और विश्वरूप तथा सर्वेश्वर हरिनामोंसे प्रसिद्ध विष्णु सब जगह स्थित हैं ५४ और सबोंके आधारभूतभी विष्णुही हैं इन पूर्वोक्त स्थानों में अनेक तरहके आनन्द हैं यहां शोक परिश्रम उद्वेग क्षुब्धय आदिका लेशभी नहीं है और स्वस्थ और दुःखों और चिंतासे रहित प्रजा बसती है ५५ ५६ वहां दशहजार अथवा बारहहजार वर्षोंकी मनुष्यों की आयु होती है ५७ और इन्द्र वर्षा नहीं करता है किन्तु चन्द्रमा की किरणोंसे अमृतरूप जल वर्षता है वहां कृतयुग आदि चौकड़ियोंकी भी संस्था नहीं है ५८ इन सब वर्षों में

भी सात २ पर्वत स्थित हैं हे द्विजोत्तमो उन पर्वतों से  
सैकड़ों निकसीहुई नदियां बहती हैं ५६ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां भुवनकोषवर्णनं  
नामाष्टादशोऽध्यायः १८ ॥

## उन्नीसवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हे द्विजो जैसे क्षीरसमुद्रसे यह  
जम्बूद्वीप वेष्टित है तैसेही प्लक्षद्वीप ईश्वरके समुद्र से  
वेष्टित है १ जम्बूद्वीपका विस्तार एकलक्षयोजन है और  
इससे द्विगुणा विस्तारवाला प्लक्षद्वीप है २ प्लक्षद्वीपमें  
शान्तभय शिखर सुखद आनन्द शिरक्षेमक ध्रुव ३ ना-  
मक सातमर्यादा पर्वत हैं और गोमेद चन्द्रनारद दु-  
न्दुभि सोमक सुमना और वैभ्राजनामक सातवर्षपर्वत  
हैं ४ । ५ इनवर्ष पर्वतों में देवतों और गन्धर्वों सहित  
निरन्तर प्रजावसती है ६ वहां अनेक पवित्रदेश हैं जहां  
चिरकालमें मृत्यु होती है ७ और आधिव्याधि नहीं हैं  
पर सबप्रकार के कामसुख हैं तिन पर्वतोंसे निकसीहुई  
और समुद्रमें मिलनेवाली सातनदियां भी हैं ८ तिनके  
नाम श्रवण करने से पापोंका नाश होता है उननदियोंके  
नाम अनुतप्ता शिखी विप्राशा त्रिदिवाक्रमा ९ अमृता  
और सुकृता हैं और हे द्विजो ये पर्वत और नदियां  
प्रधानतासे गिनाई हैं १० बाकी क्षुद्रनदियां और पर्वत  
तौ वहां हजारों स्थित हैं ११ वहां के बसनेवाले सब  
कालमें उननदियोंका जल पीते हैं १२ और वहां विशेष

कर विकल्पादिकभी नहीं होते १३ उनपर्वतोंके स्थानों में युगोंकी कल्पना भी नहीं है और हे द्विजोत्तमो वहां सदात्रेतायुग के समान कालबीतता है १४ और लक्ष और शाकद्वीपादि में नीरोग मनुष्य पांचहजार बर्षतक जीतेरहतेहैं १५ और तहांवर्णाश्रमविभागसे उपजाचार प्रकारका धर्म और चारहीवर्ण प्रचलित हैं तिनको मैं तुम से कहता हूँ १६ वहां आर्य और कुरुलोग तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अच्छी रीतिसे बसते हैं १७ जैसे जम्बूद्वीपमें जामुनकावृक्ष है तिसी के समान लक्षद्वीपमें पिलषणकावृक्ष है १८ वहां इनवर्णों सहित सोमरूपी जगत् के स्रष्टा और सर्वेश्वर विष्णुप्रसिद्ध हैं १९ जितना लक्षद्वीप है उतनेही प्रमाणसे दूधके समुद्रसे वेष्टित है २० और लक्षादि द्वीपोंके बाहर चारों ओर पूर्वोक्त पदार्थों के समुद्र यथायोग्य वेष्टित हैं २१ यह सब संक्षेप से कहा है अब शाल्मलद्वीप का वर्णन सुनो शाल्मलद्वीपका स्वामी बीरहै और शरीर से उसके पुत्रस्थित हैं २२ जिनकेनामोंसे सातवर्ष प्रसिद्ध हैं और श्वेत हरित जीमूर्त हारित २३ वैद्युत् मानस सुप्रभ उनके नामहैं इसशाल्मलद्वीपके चारोंओर ईश्वर के रसका समुद्र वेष्टितहै २४ और यह द्वीपभी पहिले द्वीपसे विस्तारमें द्विगुणा है इसमें रत्नोंके योनिरूप सातपर्वत कहे हैं २५ और वे सातोंपर्वत उनवर्षों को प्रकट करते हैं उनके नाम कुमुद उन्नत बलाहकद्रोण जहां महौषधियां उपजती हैं २६ कर्ण महिष और क-

कुद्वान् हैं २७ वहां सातनदियां भी हैं जिनके नाम योनि तोया निदृष्टा चन्द्रा शुक्रा विमोचिनी और निवृत्ति हैं २८ और वे पापोंको शांतकरती हैं २९ श्वेतादि सात वर्ष जो इसद्वीप में पहिले कह आये हैं उनमें चारोंवर्ष बसते हैं ३० हे द्विजोत्तमो शाल्मलद्वीपमें जो वर्ष बसते हैं वे लाल पीत और कृष्णरंगोंवाले और दयान्वान् हैं ३१ और वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारोंवर्ष आत्मा और अव्यय विष्णुको पूजते हैं ३२ बहुत से यज्ञोंकेहोनेसे देवताओंका वहां निरन्तर बासरहता है और अति आनन्द होता है ३३ इसशाल्मलद्वीपके मध्यमें शाल्मलिनामवाला एक वृक्ष स्थित है इससे आगे इससे द्विगुण विस्तारित ३४ और मदिराके समुद्रसे वेष्टित कुशद्वीप है ३५ और उसद्वीप में ज्योतिष्मान् नामवाले स्वामीके ३६ उद्भिज वेणुमान् व सुरथ वामन धृति प्रभाकर कपिलनामक सातपुत्रोंके नामसे सातवर्ष विख्यात हैं ३७ उनवर्षोंमें मनुष्य दैत्य दानव देव गन्धर्व यक्ष किम्पुरुष इत्यादि बसते हैं ३८ और अपने २ अनुष्ठानों में तृप्तर ३९ और यथोक्त कर्मोंको करने वाले अपने २ अधिकारों में समर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बसते हैं ४० उसद्वीप में ब्रह्मरूपजनाह्वन भगवान्की पूजासे उत्तम फलकी प्राप्तिहोती है ४१ और वहां विद्रुम हेमशैल द्युतिमान् पुष्टिमान् कुशेशय हृदि मन्दराचल ४२ नामक सातवर्ष पर्वत और धूतप्रापा शिरा पवित्रा विद्युदम्भा ४३ नामक चारनदियां

हैं जो सब प्रकार के पापों को हरती हैं ४४ वहां अन्य भी हजारहा क्षुद्रनदियां और क्षुद्रपर्वत स्थित हैं और कुशद्वीपका नाम संज्ञासे कुशद्वीप कहाता है ४५ और घृत के समुद्र से आवृत है वह घृत का समुद्र कौंचद्वीप से संवृत है ४६ जो कुशद्वीपके विस्तारसे द्विगुणा है ४७ कौंचद्वीपमें द्युतिमानके पुत्र स्थितहैं ४८ जो सोमदृग उष्ण कुशल बांध काहुक पीवरमुनि दुंदुभि अंधकारक ४९ दिवावृत पुण्डरीकवान् महाशैल नामसे प्रसिद्धहैं और सब आपसमें द्विगुणा विस्तारवाले हैं ५० इनमें चिंतासे रहित आनंदित और पवित्र द्विजोत्तम ५१ और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्रमसे बसते हैं ५२ । ५३ वहां सातप्रधान नदियां हैं और क्षुद्रनदियां तो सैकड़ों हैं जिनकाजल वहांके निवासी पान करतेहैं ५४ गौरी ककुद्धती संध्या रात्रि मनोजरा क्षांति पुण्डरीका यह सातप्रधान नदियां सातों वर्षोंमें स्थित हैं ५५ वहां जनार्दन योगी और रुद्रनामोंसे प्रसिद्ध ईश्वरकी पूजा होतीहै और अनेकप्रकारके यज्ञ होतेहैं ५६ और यह द्वीपदहीके समुद्रसे वेष्टितहै वह दहीका समुद्र शाकद्वीपसे आवृतहै ५७ और शाकद्वीपकेस्वामी के सातपुत्रहैं ५८ वेही वर्ष कहाते हैं और जनक कुमार सुकुमार मरीचक आदि नामोंसे प्रसिद्धहैं ५९ हे द्विजोद्भसद्वीपमें उदयगिरि जलाधार रैवतक श्याम अंभोगिरि ६० रम्य और केशरीनामक सात पर्वतहैं और सिद्ध और गंधर्वोंसे सेवित शाकनाम वृक्षहै ६१ जहां वायुकेस्पर्श

से परमआनन्द की प्राप्तिहोती है वहां पवित्ररूप और चार बरोंसे अन्वित देश बसताहै ६२ जहां अति पवित्र और सबपापोंके भयोंको नाशनेवाली नदियां हैं जिनमें प्रधान सुकुमारी कुमारी नलिनी अव्यया ६३ ईक्षु धेनुका और गभस्ती नामक सात नदियां हैं और क्षुद्र नदियां तो हजारों बहतीहैं ६४ और छोटे २ पर्वत भी हजारों स्थितहैं वहांके बसनेवाले मनुष्य उन नदियोंके जलोंको पानकरतेहैं ६५ और उनको स्वर्गकेसमान आनन्दहै व धर्मकीहानि भी नहींहै ६६ उन सातोंबरों में मर्यादासे युक्त मग मागध मानस और मंदगनामोंसे प्रसिद्ध प्रजाबसतीहै ६७ मग संज्ञकमें विशेषकर ब्राह्मण होतेहैं मागध संज्ञकमें विशेषकर क्षत्रिय होतेहैं मानस संज्ञकमें विशेषकर वैश्य होतेहैं और मंदगसंज्ञकमें विशेष कर शूद्र होतेहैं ६८ इसद्वीपमें सूर्यकेरूपको धारण करने वाले विष्णुकी नियतात्मावाले नरपूजाकरतेहैं ६९ और यह द्वीप अपने प्रमाणके समान दूधकेसमुद्रसे चारोंतरफ वेष्टितहै ७० वह दूधका समुद्र पुष्करद्वीपसे वेष्टितहै और पुष्करद्वीप शाकद्वीपसे द्विगुणहै ७१ पुष्करद्वीपमें लवणके महाबीत और धातकी नाम दो पुत्र हुये तिनसे देव ऋषि संज्ञावाले ७२ महाबीत और बातकी दो वर्षहैं उनमें से एक वर्ष तो पर्वतनामसे विख्यात ७३ मानसोत्तर संज्ञक मध्यमें गोल पचासहजार योजन ऊपर को ऊँचा ७४ और इतनेही योजन प्रमाणसे विस्तृत चारोंतरफसे परिमण्डलरूप पुष्करद्वीप बलयको मध्य-

भागसे विभाग करताहुआ ७५ स्थित है दूसरा पर्वत भी ऐसेही स्थित है यह भी बलयके आकारका है इन दोनों के मध्यमें महापर्वत है ७६ जहां मनुष्य दशहजारवर्ष जीवते हैं और रोग शोक राग द्वेषसे वर्जित रहतेहैं ७७ वहां अधम और उत्तम संज्ञा नहीं है और ईर्ष्या असूया भय क्रोध दोष लोभ इत्यादि भी नहीं होते ७८ तिन दोषों वर्षोंमें देव दैत्य इत्यादि महात्मा बसते हैं ७९ पुष्करद्वीपमें सत्य झूठ नदियां पर्वत नहीं हैं ८० वहां मनुष्य और देवता एकरूपवालेहैं और वर्णाश्रमका आचार नहीं है वहां सब पापआदिसे वर्जितहैं और वाणिज्य दण्डनीति शुश्रूषाका भी अभाव है ८१ यह दोनों वर्ष स्वर्ग और भौमनामसे विख्यात हैं वहां दुःख और सुखसमान वर्तताहै और वृद्धतारूप रोग नहीं है ८२ ऐसे पुष्कर द्वीपांतर्गत महावीत और वातकीखण्ड दोनों वर्षोंकी व्यवस्था कहीहै ८३ पुष्करद्वीपमें एकबटका वृक्षहै जो ब्रह्मस्थान कहाताहै और तहां देवता और दैत्योंसे पूजित ब्रह्माजी बसते हैं ८४ शुद्ध और मिष्ट जलसे यह द्वीप वेष्टितहै ऐसेही सातोद्वीप सातसमुद्रों से वेष्टितहैं ८५ और द्वीप और समुद्र आपसमें पूर्वोक्त प्रकारसे स्थितहैं इन सब समुद्रोंमें सब प्रकारसे जल समानहै ८६ और इनकी न्यूनता किसी कालमें नहीं होती है परन्तु हे मुनि श्रेष्ठो समुद्रोंके जल घटते और बढ़ते रहते हैं ८७ अर्थात् चन्द्रमाके उदय और अस्त में वा शुक्लपक्ष और कृष्णपक्षमें पांचसौदश अंगुलके

आदिब्रह्मपुराण भाषा । १३७

प्रमाण ८८ समुद्रोंकी वृद्धि और क्षय होती है हे द्वि-  
जोत्तमो पुष्करद्वीपमें आपसेआप छःओं प्रकारके रसों  
से युक्त सब काल में भोजन उत्पन्न होते हैं ८९ । ९०  
उस स्वादुजलके अगाड़ी दुगुनी काञ्चनी की भूमिहै  
जो सब जन्तुमात्र से वर्जित है ९१ उससे अगाड़ी  
लोकालोक पर्वत दशहजार योजन विस्तृतहै ९२ और  
इतनेही प्रमाणसे ऊंचा और अंडकटाहसे चारोंतरफ  
परिवेष्टितहै ९३ पचास कोटि योजन ऐसी पृथ्वीहै ९४  
और ऐसेही सब द्वीपों और सब पर्वतों सहितहै ९५  
यह धात्री विशेष करके जगत् को धारण करनेवाली  
और सब भूतों के गुणों से अधिक और जगत् की  
आधाररूप है ९६ ॥

श्रीआदिब्रह्मपु० भा० समुद्रद्वीपवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः १९

## बीसवां अध्याय ॥

लोमहर्षण जी बोले हे मुनि सत्तमो यह तो हमने  
पृथिवीका विस्तारकहा इसके सिवाय अतल वितल  
रसातल तलातल महातल १ सुतल पाताल ऐसे सात  
लोक नीचेहैं जहां सुन्दर स्थानोंसे शोभित और कृष्ण  
अरुण श्वेता शवर्णा शैल काञ्चना २ पृथिवी स्थितहै  
और उन स्थानोंमें दैत्य दानवों से उपजे हजारों जीव  
बसतेहैं ३ हे द्विजोत्तमो वहां महासर्पोंकी भी बहुतसी  
जाति बसती हैं और स्वर्गसे भी पाताल रमणीकहै ४  
नारदमुनिने एक बेर पातालसे स्वर्गमें जाकर पाताल



की बड़ी उपमाकी कि जहां स्वच्छ मणियोंके समूहोंसे पाताल अतिसुन्दर है ५ और सर्पोंकी मणियोंसे प्रकाशित और दैत्य दानवोंकी कन्याओंसे शोभित सातवां पाताल लोक है ६ मुक्तहुये मनुष्यको भी पाताल में बसनेकी कांक्षाहोतीहै जहां दिनमें सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशरहता है और घामकीचमक भी नहीं है ७ रात्रियों में जहां चन्द्रमाके समान प्रकाश रहता है और मध्य भोज्य महापान और मधुसेमत्तहुये सर्पोंसे ८ दैत्य दानव गतकालको नहीं जाना वहां अनेक रमणीक बगीचे और कमलोंसे युक्ततालावहैं ९ पुरुषरूपको किलोंके विलापहोतेहैं और मनोहर और रमणीक भूषण और गन्ध आदिसे सुशोभितहैं १० वहां बीणा बांसुरी और सृदंगों के शब्द सबकालमें होतेहैं और अन्यभी दानवोंके अनेक रमणीक भोग्यहैं ११ पाताल में रहनेवाले दैत्य और सर्प अनेक प्रकारके पदार्थ भोगतेहैं विष्णुका तामसी शरीर पातालमें स्थितहै १२ जिसको शेषनाग कहते हैं और जिसके गुणोंका आख्यान करनेको दैत्य और दानव भी समर्थ नहीं हैं सिद्धों और देवताओं द्वारा वह देवर्षि पूजित अनंत कहाजाताहै १३ वह हजार शिरोंवाला व्यक्त और कल्याण रूप अमल कुंडलों और मुकुटको धारणकिये सुन्दर स्वरवाला और अग्नि संयुक्त श्वेतपर्वतके समान १४ नीलवस्त्रोंसे भूषित मदसे उत्सिक्त और श्वेतहारसे उपशोभित कैलासपर्वतके समान शरीर

वाला १५ हलरूपी शस्त्रसे आसक्त हाथोंवाला और उत्तममूशलवाला वारुणी नामवाली कन्याओंसे उपास्यमान १६ और जिसके मुखोंसे कल्पके अन्तमें अतिलयवाला अग्नि निकलता है रुद्ररूपी संकर्षण देव निकलकर तीनों जगत्तों को भक्षण करलेता है १७ वह चित्ररूप शिखरोंवाला सब देवताओं से पूजित और पातालमलवाला देव समस्त पृथिवीमंडल को धारणकर रहा है १८ उसके वीर्य्य प्रभाव और स्वरूप को वर्णन करने और जानने को देवता भी समर्थ नहीं हैं १९ जिसके फणपर यह समस्त पृथिवी सूक्ष्म पुष्प की तरह स्थित होरही है ऐसे देव के वीर्य्य को कौन कहसक्ता है २० विघूर्णित नेत्रोंवाला यह देव जब जँ भाईलेता है तब पर्वत बनआदि सहित पृथिवी कांपती है २१ उसके गुणोंके अंतको गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर सर्प और राक्षस नहीं प्राप्तहोसके इसलिये वह अनंत कहाता है २२ हारेचंदनमें रमणकरनेके समय जिसका हस्त पुष्ट हाथियों को मारता है जिसके मुखों से निकसेहुये श्वासपवनरूप होकर प्रकटहोते हैं २३ और जिसका आराधन करने से पुराने मुनि ज्योतिष शास्त्र और उसके निमित्त और फलको विस्तारसे यथार्थ जानते हैं २४ उसने अपने वीर्य्यसे शिरपर यह पृथिवी धारणकरी है जो लोकोंके देवता दैत्य मनुष्यरूपीमाला को धारण कररही है २५ ॥

## इक्कीसवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हे विप्रो जहां पाप करनेवाले प्राणी पड़ते हैं अब वह नरक कहे जाते हैं १ रौरव शौकर बोध विषशन महाज्वाल तप्तकुम्भ महामोह विमोहन २ रुधिरान्ध वैतरणी कृमिश कृमि भोजन असिपत्रवन कृष्णनानाभक्षदारुण ३ पूयबहा पापवह्नि ज्वालअधः शिरसंदंश कृमिसूत्र तमआरिषि ४श्वभोजन अप्रतिष्ठ हारीतआदि अनेकदारुण नरककहेहैं ५ जो घोररूप और शास्त्र अग्नि विषसे संयुक्त हैं और जिनमें पापकर्मकारी मनुष्य पड़ते हैं ६ झूठी साक्षी देनेवाला पक्षपात करनेवाला झूठबोलनेवाला मनुष्य रौरव नरकमें प्राप्त होताहै ७ गर्भ वपुरीको नाशनेवाला गायोंको मारनेवाला कुसीखका देनेवाला मनुष्य बोध संज्ञक रौरवनरक में प्राप्तहोता है ८ मदिरापिनेवाला ब्रह्महत्या कांकरनेवाला सुवर्णकीचोरी करनेवाला और इन तीनपाप करनेवालोंके संग बसनेवाला मनुष्य शौकरनरकमें प्राप्तहोताहै ९ राज्य अपराध करनेवाला गुरुकीशय्यापरस्थितहोनेवाला पुत्रकीबधूसेभोगकरने वाला और राजाके मृत्यों को मारनेवाला मनुष्य तप्तकुम्भनरकमें प्राप्तहोताहै १० साध्वी स्त्री व रसको बेंचने वाला और अपने भक्तको त्यागनेवाला मनुष्य तप्तलोह नरकमें प्राप्तहोताहै ११ पुत्रकीबधू और पुत्रीमें कुछ भेद नहीं होता इसलिये इन दोनोंसे भोग करनेवाला

मनुष्यमहाज्वाल नरकमें प्राप्तहोताहै गुरुको न मानने वाला नीच १२ वेदोंमें दोषलगानेवाला वेदोंको बेंचने वाला अगम्या स्त्री से भोगकरनेवाला १३ और चोर मनुष्य विमोह नरकमें प्राप्त होता है मर्यादा दूषक और देव द्विज पिता और ज्येष्ठ भ्रातामें दोष लगाने वाला १४ और कृमियों को दुःख देनेवाला कृमिभक्ष नरकमेंपडताहै पितर और अतिथियोंका निरादरकरनेवाला और अधम १५ मनुष्य उग्रसंज्ञक नानाभक्ष नरकमें प्राप्तहोताहै और शर अर्थात् तीरोंको बनाने वाला मनुष्य वेधक नरकमें प्राप्तहोता है निन्दा करने वाला और तलवार आदि शस्त्रोंको रचनेवाला १६ दारुणरूप विषशन नरकमें प्राप्तहोताहै और भूठेही प्रतिग्रहण करनेवाला मनुष्य अधोमुख नरकमें प्राप्त होताहै १७ यज्ञकरनेके अयोग्यको यज्ञ करानेवाला नक्षत्र सूचक और अकेला मिष्टान्न खानेवाला मनुष्य पूयबह नरकमें प्राप्तहोताहै १८ लाख मांस रस तिल और लवण को बेंचनेवाला ब्राह्मण भी पूयबहनरक में प्राप्तहोताहै १९ हे द्विजसत्तमो बिलाव मुरगा बकरा शूकर और पक्षियों को पालनेवाला मनुष्य भी पूयबहनरक में प्राप्तहोता है २० रंगकेद्वारा जीविका करने वाला कैवर्त्त और कुण्डसंज्ञक मनुष्य को भोजन कराने वाला विषदेनेवाला सुईके कर्मसे जीवनेवाला पर्वकाल में स्त्रीसे प्रसंग करनेवाला २१ स्थानको जलानेवाला मित्रको हतकरनेवाला शकुनविद्याको पढ़नेवाला और

ग्रामयाजक २२ मनुष्य रुधिरांध नरकमें प्राप्तहोता है और अमृतको बेंचनेवाला शहदको हरनेवाला और ग्रामको नाशनेवाला मनुष्य बैतरणी में प्राप्तहोता है २३ वीर्यसंबंधी पाप करनेवाला मर्यादाको भेदन करने वाला अपवित्र रहनेवाला और छलसे आजीविका करनेवाला मनुष्य कृष्णनरकमें प्राप्तहोताहै २४ वृथा वृक्षोंको छेदन करनेवाला मनुष्य असिपत्र बनमें प्राप्त होताहै और मृगोंको मारनेवाला मनुष्य अग्निज्वाल नरकमें प्राप्त होताहै २५ भोजनके समय जोविप्र अग्नि में आहुति नहीं करता वह अग्निज्वाल नरकमें प्राप्त होताहै २६ और दिनमें शयन व दिनमें अपनी भार्यासे भोग करनेवाला वेदको न माननेवाला २७ और पुत्रों को विद्या न पढ़ानेवाला मनुष्य कृमिभोजन नरकमें प्राप्त होताहै २८ इनके सिवाय और अन्यभी हजारों नरक हैं जिनमें पापोंके करनेवाले मनुष्य पकाये जाते हैं २९ और इन कहेहुये पापोंके सिवाय और भी अन्य हजारों पाप हैं जिनके करनेसे मनुष्य नरकोंमें पड़ते हैं ३० जो मनुष्य वर्णाश्रमसे विरुद्ध मन कर्म वाणीसे कर्म करते हैं वे सब नरकोंमें बसते हैं ३१ और नीचे शिरवाले नरकवासी स्वर्गगत देवताओंको देखते हैं और देवतानीचे मुखवाले नरकवासियोंको भी देखते हैं ३२ और स्थावर पक्षी पशु मनुष्य देवता मुक्तये सब क्रमसे कहे हैं जैसे स्वर्गमें प्राणी हैं वैसेही नरकमें भी बसते हैं प्रायश्चित्त को न करनेवाले मनुष्य नरकमें बसते हैं ३३ और पापोंके अनुरूप प्राय-

इत्त महर्षियोंने प्रकाशितकियेहैं ३४ हेविप्रेन्द्रो ! मह-  
 त्पाप व स्वल्पपापके अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तहैं ३५  
 और जितने प्रायश्चित्त कर्म तपकर्म व ३६ अन्यकर्म  
 कहेहैं उनकेउपरान्त कृष्णकास्मरणकरना उचितहै ३७  
 जिसेपापकिये पश्चात् ग्लानिकी उत्पत्तिहो उसेविष्णुके  
 स्मरणके समान कोईभी प्रायश्चित्त नहीं है ३८ प्रभात  
 सायङ्काल रात्रि और मध्याह्न समयोंमें नारायणकोस्म-  
 रणकरे तो तत्काल पापोंकानाश होजाताहै ३९ विष्णु  
 का स्मरण सबप्रकारके क्लेशोंको नाशताहै और विष्णु  
 के स्मरणसे मुक्तिकीप्राप्ति विघ्नोंकी हानि होतीहै ४०  
 जिस मनुष्यकामन जप होम और पूजाकेद्वारा विष्णुमें  
 लगताहै उसेइंद्रआदिदेवताओंके ऐश्वर्यभी तुच्छहैं ४१  
 दुष्टपुरुषोंकेसंग गमनकरना फिर जन्मकीबांझान करनी  
 औरवासुदेव विष्णुका स्मरणकरना यही मुक्तिका अति  
 उत्तम बीजहै ४२ इसलिये दिन रात्रि पुरुषोत्तम विष्णु  
 का स्मरण करनेसे सब पातकोंसे रहित और शुद्धहो  
 मनुष्य नरकमें नहीं प्राप्तहोताहै ४३ मनको प्रसन्न क-  
 रनेवाला स्वर्गहै और मनको दुःखित करनेवाला नरक  
 है ऐसे पुण्यरूप स्वर्ग और पापरूप नरक ये दोनों  
 कहेहैं ४४ एकही पदार्थ प्रथम सुख देकर पीछे दुःख  
 देताहै और पीछे कोप और भयको देताहै इसलिये  
 कोई पदार्थ दुःख संज्ञक नहीं है ४५ और जो प्रथम  
 सुखरूप होकर पीछे दुःखरूप होजाताहै इसलिये कोई  
 पदार्थ सुखरूपभी नहींहै ४६ सुख दुःख आदि ल-

क्षणोंवाला केवल यह मनका परिणाम है/ज्ञानही पर-  
ब्रह्म है और ज्ञानसे बंध निवृत्त होता है ४७ यह विश्व  
ज्ञानात्मक है और ज्ञानसे परे कुछ भी नहीं है हे विप्रो  
विद्यातो विद्यारूपही है इसलिये ज्ञान धारण करना  
चाहिये ४८ यह मैंने पृथिवी मण्डलका वर्णन किया  
और सब पाताल और नरकभी कहे ४९ एवम् सब  
समुद्र पर्वत द्वीप वर्ष और नदियोंका भी संक्षेपसे व-  
र्णन किया अब आप फिर क्या श्रवण करनेकी इच्छा  
करते हो ५० ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां नरककीर्तनन्नाम एक

विंशतितमोऽध्यायः २१ ॥

## बाह्यसर्वा अध्याय ॥

मुनियोंने कहा हे भगवन् आपने सब कुछ कहा प-  
रन्तु अब भुव आदि आकाशस्थलोंको १ और ग्रहोंकी  
स्थिति और प्रमाणको यथावत् वर्णन करो २ त्नामहर्षण  
जी बोले हे मुनिजनो सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंसे  
जहांतक समुद्र नदी और पर्वत सहित पृथिवी है ३ और  
जितना उसका परिमण्डल है उतनेही प्रमाणवाला और  
विस्तृत परिमण्डलवाला आकाश भी है ४ हे विप्रो  
पृथिवीसे एकलक्ष योजन दूरीपर सूर्यका मण्डलस्थित  
है ५ सूर्यसे एकलक्ष योजन चन्द्रमाका मण्डल स्थित  
है चन्द्रमासे एकलक्ष योजन नक्षत्रोंका मण्डल स्थित  
है ६ नक्षत्रमण्डलसे दोलक्षयोजन बुधमण्डल है बुधके

मण्डलसे दोलक्षयोजन शुक्रका मण्डल है ७ शुक्रके मण्डलसे दोलक्ष योजन मंगलका मण्डल है मंगलके मण्डलसे दोलक्ष योजन बृहस्पतिका मण्डल है ८ बृहस्पतिके मण्डलसे दोलक्षयोजन शनिका मण्डल है शनिके मण्डलसे एकलक्षयोजन सप्तर्षियों का मण्डल है ९ और ऋषियोंके मण्डलसे एकलक्ष योजन ऊपर और समस्त ज्योतिश्चक्रका मेढीभत ध्रुव स्थित है १० हे द्विजोत्तमो यह संक्षेपसे त्रिलोकी मैंने कही इज्याफलरूप पृथिवी है ११ और ध्रुव मण्डलके ऊपर महर्लोक है जहां कल्पवासीजन रहते हैं और जो एककोटि योजन है १२ दोकिरोड़ योजन जनलोक है जहां सनन्दन आदि प्रियरूप और अमलचित्तवाले ब्रह्माके पुत्र स्थित हैं १३ जनलोकसे आठकिरोड़ योजन ऊपर तपोलोक है जहां आहारसे वर्जित और वैराजनाम से विख्यात देवते स्थित हैं १४ तपोलोकसे बारहकिरोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है जहां मुक्तमनुष्य बसते हैं उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं १५ पैरोंसे चलनेयोग्य जीव जहां बसते हैं वह भूलोक है १६ और पृथिवी और सूर्यके अन्तरमें सिद्ध मुनि आदिकोंसे सेवित भुवर्लोक है सो भी मैंने कहा १७ सूर्य और ध्रुवके अंतरमें जो स्वर्लोक है वह भी लोकसंस्था जाननेवालों से कहा १८ और इसी प्रकार विप्रोंने यह त्रिलोकी कही है जनलोक तपोलोक और सत्यलोक नामोंवाली दूसरी त्रिलोकी है १९ और इन छहोंके मध्यमें महर्लोक है जो इसमें प्रवेश करता है वह कल्पके अंत



में नष्टहोगा २० हे द्विजो ऐसे सात पातालोंसे संयुक्त ब्रह्मांडका विस्तार मैंने वर्णन किया २१ अंडक टाहसे तिरछा ऊंचा और नीचा जैसे कैथकाबीज सब तर्फसे आवृत होताहै तैसेही यह जगत्स्थितहै २२ दशगुने जलसे यह ब्रह्मांड आवृत होरहाहै जल अग्निसे वेष्टितहै २३ अग्निवायुसे वेष्टितहै वायु आकाशसे आवृत होरहाहै आकाश महाभूत आदिसे आवृतहै २४ और महत्त्वको आवृतकरके प्रधान अवस्थित होरहाहै २५ उस अनंतरूपदेवका अंत और संख्या नहीं है ऐसेही हजारोंके हजार और किरोड़ोंके किरोड़ अर्थात् अपरिमित ब्रह्मांडहै २६ जैसेकाष्ठमें अग्नि और तिलोंमें तेल निकसताहै तैसेही यहजगत्है २७ क्षोभका कारण भूत पृथिवी सृष्टिकालमें इसजगत्को धारण करती है जैसे वायुकणिका रूपहुये पर्वतको २८ प्राणीरूपीस्कंध और शाखाओंवाला ईश्वररूप बृक्षस्थित है २९ जैसे आद्यबीजसे नवीनबीज उत्पन्न होते हैं और तिनसे अन्यबृक्ष उत्पन्न होते हैं ३० और वेभी तिन लक्षणोंसे अनुगतहैं तैसेही अव्याहृतसे महदादि उपजते हैं ३१ महदादिकोंसे विशेष उपजतेहैं विशेषोंसे देवआदि उपजते हैं ३२ और तिन देवोंसे पुत्र और पौत्रउत्पन्न होते हैं ३३ जैसे बीजके संकाश से बृक्षोंका अभाव नहीं होताहै तैसेही प्राणियोंका भूतस्वर्गसे अभावनहीं होता ३४ और जैसे कालांतरमें बीजसे वृक्ष होजाताहै ३५ तैसेही नारायणरूपी बीजसे यह संसार

कहा है ३६ और जैसे बीजमें मूल नालिपत्र अंकुर कण्ठ कोष फूल दूध त्वचा फल ३७ तुष और कण उपजते हैं तैसेही ईश्वर में देवतादि प्राणी स्थित हैं ३८ अर्थात् विष्णुकी भक्तिको प्राप्तहोकर प्ररोहण कालमें उपजते हैं ३९ विष्णु परब्रह्महै और सबोंका साक्षीहै जिससे यहजगत् उपजताहै और जिसमें लीन होताहै ४० इसलिये परमधाम और परमपद ब्रह्मही है ४१ जिसके अभेद संबंधसे यहचराचर जगत् प्रतीत होताहै ४२ वही मूल प्रकृति वालाहै वही व्यक्त रूप वालाहै वही जनार्दनहै और उसीमें उसी जगत् लय होकर ठहरताहै ४३ कर्ता और क्रिया रूपभी वही है वही यज्ञरूपसे पूजितहोताहै और वही कर्म फल है ४४ युगादिकोंका साधनरूपभी वही है और उस ईश्वर से व्यतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है ४५ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांभूर्भुवस्वरादिकीर्तनं नाम  
द्वाविंशतितमोऽध्यायः २२ ॥

## तेहसवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजीबोले हे मुनिजनों ताराओं से व्याप्त और शिशुमारकेसमान आकृतिवाला दिव्यरूपविष्णु काहै उसकी पुच्छपर ध्रुवस्थितहै १ और यह ध्रुव आप भ्रमताहुआ चंद्र सूर्यआदि ग्रहोंको भ्रमाता है और उसके भ्रमणकरनेसे सब नक्षत्रचक्रकीतरह भ्रमते हैं २ सूर्य चन्द्रमा तारे नक्षत्र ग्रह सब वायुगणसे ध्रुवमें बँधे

हुये हैं ३ और हे विप्रो शिशुमार की प्राकृतिवाला ज्योतिषां का रूप जो आकाशमें है तिसका आधाररूपस्थान नारायणके हृदयमें स्थित है ४ उसी हृदिस्थित नारायण की आराधनासे उत्तानपादका पुत्र ध्रुव शिशुमारचक्रकी पुच्छ पर स्थित है ५ शिशुमार चक्रका आधाररूप सर्वाध्यक्ष नामसे प्रसिद्ध विष्णु है शिशुमारसे संयुक्त ध्रुवमें सूर्य व्यवस्थित है ६ और उसके आधारभूत देवासुर और मानुषरूपी यह जगत् जिस विधानसे है वह अब सुनो ७ कार्तिक आदि आठमहीनोंमें सूर्य रसात्मिक जल को खेंचता है और आषाढ़ आदि चारमहीनोंमें वर्षाता है तब उत्पन्नहुये अन्नसे यह संपूर्ण जगत् पैदा होता है ८ सूर्य अपने तीक्ष्ण किरणोंसे जगत्के जलको ग्रहणकर पीछे वायुमय नाड़ियोंके द्वारा मेघोंमें पहुँचता है ९ और धूम अग्नि और पवनके समूहसे उत्पन्नहुये बादलोंमें जल पहुंचनेसे वे बादल मेघरूप कहाते हैं १० हे विप्रो वायुसे प्रेरित किये जल कालजनित संस्कारको प्राप्त हो वे बादल निर्मल होजाते हैं ११ नदीके जल समुद्रके जल पृथिवीके जल और प्राणिसम्भव जल इन चारप्रकारके जलोंको सूर्यग्रहण करता है १२ और कभी २ आकाशगंगाके जलको ग्रहणकर बिना बादलोंके ही पृथिवीपर वर्षाता है १३ तिसके स्पर्शसे मनुष्योंका पापरूपी कीचड़ धोजाता है और इसदिव्यस्नानसे मनुष्यनरकमें नहींजाता है १४ सूर्य दीखते भी जो वर्षाहोती है वह सूर्य अपने किरणोंसे आकाशगंगा

के जलको वर्षाता है १५ और जब कृत्तिका आदि नक्षत्रोंमें सूर्य दीखते हुये जल आकाशसे वर्षाता है वह भी गंगा-जलके समान है १६ युग्म नक्षत्रोंमें सूर्यकी साक्षीसे जो जल आकाशसे वर्षता है यह सूर्यने अपने किरणोंसे निकासता है १७ यह जल अतिपवित्र है और मनुष्योंके पापोंको नाशता है ऐसे आकाशगंगाके जलसे दिव्यस्नान कहा है १८ मेघोंसे वर्षाहुआ जल सब प्रकारके ओषधि आदिको पुष्टकरता है और प्राणियोंके जीवनके लिये अमृतरूप है १९ इसलिये शास्त्ररूप नेत्रोंवाले मनुष्य यज्ञोंको देवताओंकी पुष्टिकेलिये करते हैं २० सब यज्ञ वेद ब्राह्मण आदिवर्ण भूतगण २१ और यह संपूर्ण जगत् वृष्टिद्वारा धारण किया जाता है और उसी वृष्टिसे अन्नउत्पन्न होता है वृष्टिको सूर्यउत्पन्न करता है २२ सूर्यके आधारभूत ध्रुव है ध्रुवका आधार शिशुमार चक्र है और शिशुमार चक्रका आधार नारायण है २३ शिशुमारके हृदयमें नारायण सब प्राणियोंका स्वामी आदि भूत और सनातन विष्णु है २४ हे मुनि श्रेष्ठो यह मैंने समुद्र आदिसे संयुक्त ब्रह्मांड कहा अब इससे अन्य क्या श्रवण करनेकी इच्छा करते हो २५ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां ध्रुवस्थितिर्नाम

त्रयोविंशोऽध्यायः २३ ॥

## चौबीसवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूछा हे धर्मज्ञ पृथिवीमें जितने तीर्थ और

आश्रमहैं तिनको वर्णनकरो हमारामन उनको श्रवण करनेको है १ लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनों जिस मनुष्यके हाथ पैर और मन सावधानहों और विद्या तप और कीर्तिभीहो वह मनुष्य तीर्थके फलको प्राप्त होसक्ताहै २ मनुष्यका शुद्धमनही तीर्थरूप होजाताहै और मनवचन और इन्द्रियों इन्होंका निग्रह उत्तमतपहै ऐसे शरीरसे उत्पन्न होनेवाले तीर्थ स्वर्गमें प्राप्तकरते हैं ३ और अति दुष्टचित्त तीर्थके स्नानसेभी नहींशुद्धहोताहै जैसे मदिराकापात्र सैकड़ोंबार धोनेसेभी अशुद्धही रहताहै ४ तैसेही तीर्थदान व्रत और आश्रमये दुष्टचित्त और दंभी और अजितेंद्रिय मनुष्यको नहीं शुद्ध करसक्ते ५ इन्द्रियोंको बशमेंकरके मनुष्य जहां जहां बसताहै उसे वहांहीं कुरुक्षेत्र प्रयाग और पुष्करतीर्थ प्राप्त होतेहैं ६ हे मुनिश्रेष्ठो अबतीर्थ और पवित्रस्थानोंका श्रवणकरो गयाजी और प्रयाग श्रीतीर्थ कनखल ७ भृगु तुंग हिरण्याख्य भीमारण्य कुशस्थल लोहाकुल केदार मंदारारण्य ८ महाप्रभ चारुकुंड सर्वपापहर रूपतीर्थ शूकरतीर्थ महाफलदेनेवाला चक्रतीर्थ ९ योगतीर्थ सोमतीर्थ शाकोटकतीर्थ कोकामुखतीर्थ पवित्ररूप बदरीशैल १० सोमतीर्थ तुंगकूट स्कंदाश्रमतीर्थ और इसी में महाप्रभावाला सप्तसामुद्रिकतीर्थहै ११ धर्मोद्भवतीर्थ कोटितीर्थ सर्वकामिकतीर्थ सलिलतीर्थ बदलीतीर्थ सुप्रभतीर्थ १२ ब्रह्मदत्ततीर्थ बह्मिकुण्ड सत्यपदतीर्थ चतुःस्रोततीर्थ चतुःशृंग तीर्थ द्वादशबारक पर्वत १३

मानसतीर्थ और स्थूलशृंगतीर्थ स्थूलदण्डतीर्थ उर्व-  
 शीतीर्थ लोकपालतीर्थ मेरुवरतीर्थ सोमांध्रिपर्वत १४  
 सबकालमें प्रभावाला मेरुकुण्डतीर्थ सोभाभिषेचनती-  
 र्थ महाशांततीर्थ कोटरकतीर्थ पञ्चधारतीर्थ त्रिधारक  
 तीर्थ १५ सप्तधारतीर्थ एकधारतीर्थ अमरकटतीर्थ शा-  
 लिग्रामतीर्थ चक्रतीर्थ अति उत्तमरूप कोटिद्रुम १६  
 बिंदुप्रभ देवहृदतीर्थ विष्णुप्रभतीर्थ शंखप्रभतार्थ ग-  
 दाकुण्ड चक्रतीर्थ आयुधतीर्थ १७ अग्निप्रभतीर्थ प-  
 न्नगतीर्थ देवप्रभतीर्थ गन्धर्वतीर्थ श्रीतीर्थ ब्रह्महृदतीर्थ  
 १८ लोकपालारुख्यतीर्थ मणिपूरगिरिपवित्ररूप पिंडा-  
 रकतीर्थ १९ बस्त्रप्रभतीर्थ दारुवन छायारोहण सिद्धे-  
 श्वरतीर्थ मित्रवन कालिकाश्रम २० बटावठ भद्रकट  
 कौशांवी दिवाकर दीपसरस्वतीतीर्थ विजयतीर्थ का-  
 मदतीर्थ २१ मालव्यतीर्थ गोप्रचारतीर्थ गोचरतीर्थ  
 बटशूलकतीर्थ स्नानकुण्ड प्रयाग गुप्तरूप विष्णुपद  
 तीर्थ २२ कन्याश्रम उत्तमरूप जम्बूमार्गतीर्थ गाभस्ति  
 तीर्थ ययातिपत्तन २३ कोटितीर्थ भद्रवटमहाकालवन न-  
 र्मदातीर्थ वर्षतीर्थ अर्बुदतीर्थ २४ पिंगतीर्थ सुराशिष्टी-  
 र्थप्रियसंगमतीर्थ दौर्वासिकतीर्थपिंजरकतीर्थ २५ ऋषि  
 तीर्थ ब्रह्मतुंगतीर्थ बसुतीर्थ कुलारिकातीर्थ शक्रतीर्थ  
 पञ्चनन्दतीर्थ वेणुकातीर्थ २६ बिपुलरूप पैतामहतीर्थ  
 रुद्रपादतीर्थ मणिमन्ततीर्थ कामारुख्यतीर्थ कृष्णतीर्थ  
 कुमारीतीर्थ २७ यजनतीर्थ याजनतीर्थ ब्रह्मबाहुंकतीर्थ  
 पुण्यन्यासतीर्थ पुण्डरीकतीर्थ मणिपूर्व उत्तरतीर्थ २८

दीर्घसत्रतीर्थं हंसपदतीर्थं औशनसतीर्थं गंगोद्भेदतीर्थं  
 शिरोद्भेदं औरनर्मदोद्भेदतीर्थं २६ रुद्रकोटितीर्थं शंकुमन  
 तीर्थं सत्रावनामिततीर्थं स्यसंतपंचकतीर्थं ब्रह्मतीर्थं द-  
 र्शनतीर्थं ३० पृथिवीतीर्थं पृथुदकतीर्थं दशाश्वमेधिक  
 तीर्थं सर्पितीर्थं दधिकलांतकतीर्थं ३१ कोटितीर्थं वाराह  
 पक्षिणीतीर्थं पुण्डरीकतीर्थं सोमतीर्थं मुंजवाटतीर्थं ३२  
 बदरीवन रत्नमलक लोकद्वारतीर्थं पंचतीर्थं कपिला  
 तीर्थं ३३ सूर्यतीर्थं सिखण्डीतीर्थं नैमिपारण्य यक्षराज  
 तीर्थं ब्रह्मावर्ततीर्थं सुतीर्थक ३४ कामेश्वरतीर्थं सातृतीर्थं  
 शीतवनतीर्थं श्वानलोम्बापहतीर्थं मानकतीर्थं सामकतीर्थं  
 ३५ दशाश्वमेध तीर्थं केदारतीर्थं ब्रह्मोदुंबरतीर्थं सप्तर्षि  
 कुण्डतीर्थं देवीतीर्थं जम्बुकतीर्थं ३६ इलास्पदतीर्थं कोटि  
 कूटतीर्थं किन्दानतीर्थं किन्तपतीर्थं कारण्डवतीर्थं वि-  
 ड्यतीर्थं त्रिविष्टपतीर्थं ३७ पाणिखारतीर्थं मिश्रकतीर्थं  
 मधुराट्तीर्थं मनोजवतीर्थं कौशिकीतीर्थं देवतीर्थं ऐसे-  
 ही नैमिषमें पांचतीर्थं ३८ ब्रह्मस्थानतीर्थं सोमतीर्थं  
 कन्यातीर्थं ब्रह्मतीर्थं मनातीर्थं एकावनतीर्थं ३९ सौ-  
 गन्धिकवनतीर्थं मण्डीतीर्थं सुतीर्थक ईशानतीर्थं पाव-  
 नतीर्थं पञ्चयज्ञिकतीर्थं ४० त्रिशूलधारातीर्थं साहेंद्र  
 तीर्थं देवस्थानतीर्थं कृतालयतीर्थं शाकम्भरीतीर्थं देव-  
 तीर्थं सुवर्णारण्यतीर्थं कलिहूदतीर्थं ४१ क्षीरतीर्थं विरू-  
 प्राक्षतीर्थं भृगुतीर्थं कुशोद्भवतीर्थं ब्रह्मतीर्थं ब्रह्मयोनि  
 तीर्थं नीलपर्वत ४२ कुञ्जावट भद्रवट वसिष्ठपदतीर्थं  
 धूम्रावर्ततीर्थं मेरुधारतीर्थं कपिलतीर्थं ४३ स्वर्गद्वार

तीर्थ प्रजाद्वारतीर्थ कालिकाश्रमतीर्थ रुद्रावर्ततीर्थ सु-  
 गन्धाश्वतीर्थ कपिलावन ४४ भद्रकर्णहृद शंकुकर्णहृद  
 सप्तधातुसुततीर्थ औशनसतीर्थ ४५ कपाल मोचन  
 तीर्थ नरकीर्णतीर्थ कास्यकतीर्थ चतुःसामुद्रिकतीर्थ शं-  
 त्तदतीर्थ सहस्रदतीर्थ ४६ वेणुकतीर्थ पंचवटतीर्थ वि-  
 मोचनतीर्थ औजसतीर्थ स्थाणुतीर्थ कुरुतीर्थ स्वर्गद्वार  
 तीर्थ कुशध्वजतीर्थ विश्वेश्वरतीर्थ चामरुककूप नारा-  
 यणाश्रमतीर्थ गंगाहृद वटबदरीपत्तन ४७ इन्द्रमार्ग  
 तीर्थ-एकरात्र तीर्थ क्षीरकवन सोमतीर्थ दधीचितीर्थ  
 श्रुततीर्थ ४८ अरुन्धतीवन उत्तमरूप ब्रह्मावर्त वेदी-  
 तीर्थ कुरुवन यमुना प्रभवतीर्थ ४९ कन्याश्रमतीर्थ  
 सन्निहिततीर्थ पवित्ररूपकोटितीर्थ स्थलीभद्र काली  
 हृद ५० वीरप्रभोत्थतीर्थ सिंधोत्थतीर्थ शमीतीर्थ कु-  
 लपातीर्थ असितीर्थ मृत्तिकातीर्थ ऊर्वासंक्रगणतीर्थ  
 मायाविद्योद्भवतीर्थ ५१ महाश्रमतीर्थ अवतसिकातीर्थ  
 रूपतीर्थ सुन्दरिकाश्रमतीर्थ ब्रह्माणीतीर्थ वैश्रामतीर्थ  
 गंगोद्भेदतीर्थ सरस्वतीतीर्थ ५२ बाहुतीर्थ बाहुनदी  
 विमलातीर्थ अशोकतीर्थ गौत्तमीरामतीर्थ शतसह-  
 स्रदतीर्थ ५३ भर्तृस्थान कोटितीर्थ धाराकापिलीतीर्थ  
 पंचनन्दतीर्थ मार्कण्डेयतीर्थ ५४ सोमतीर्थ शिरोदतीर्थ  
 मत्स्योदरीतीर्थ सूर्यप्रभतीर्थ सूर्यतीर्थ सोमतीर्थ बं-  
 लतीर्थ ५५ अरुणास्पदतीर्थ दारुकतीर्थ शुक्रतीर्थ  
 सैवान्नकतीर्थ अविमुक्ताख्यतीर्थ नीलकण्ठहृद ५६  
 सुखद्वार किंपुलिकातीर्थ कोटिपिशाचमोचन सुभद्रा



हृद ५७ विमलदन्तकुण्ड चण्डेश्वरतीर्थ ज्येष्ठस्थानहृद  
 हरिकेशवन ५८ अजामुखसुरतीर्थ घण्टाकर्णहृद पुण्ड-  
 रीकहृद रूपिकातीर्थ ५९ सुवर्णोदपानतीर्थ श्वेततीर्थ  
 श्वेतहृद घर्घरिकामकुण्ड श्यामाकूप चण्डिका ६० श्म-  
 शानतीर्थ स्तम्भकुम्भतीर्थ विनायकहृद सिंधूद्रवकूप  
 पवित्ररूप ब्रह्मसर ६१ रुद्रावासतीर्थ नागतीर्थ लोमक  
 तीर्थ भक्तहृद क्षीरसर प्रेताधारतीर्थ कुमारकतीर्थ ६२  
 ब्रह्मावर्त्त कुशावर्त्त दधिकर्णोदपानकतीर्थ शृंगतीर्थ म-  
 हातीर्थ महानदी ६३ पवित्ररूप ब्रह्मतीर्थ गयाशीर्ष  
 तीर्थ अक्षयवट दक्षिणतीर्थ उत्तरतीर्थ सोमयतीर्थ रू-  
 पशांतिकतीर्थ ६४ कपिलाहृद गृध्रवट सावित्रीहृद प्र-  
 भासन शीतवनयोनिद्वार धेनुकवट ६५ रण्यकतीर्थ  
 कोकिलाख्यतीर्थ मतङ्गहृद पितृकूप रङ्गतीर्थ चक्रतीर्थ  
 सुमालीतीर्थ ६६ ब्रह्मख्यान सप्तकुण्ड मणिरत्नहृद  
 सुकुलाश्रम सुकुलाहृद ६७ जनकरूपतीर्थ पवित्ररूप  
 विशनतीर्थ आद्यतीर्थ विनाशतीर्थ माहेश्वरीधारा ६८  
 रमणीक देवपुष्करणी सपर्यकूप जातिस्मरतीर्थ वामन-  
 कतीर्थ बटेश्वरहृद ६९ कौशाख्यतीर्थ भरततीर्थ ज्ये-  
 ष्ठानिका तीर्थ विश्वेश्वर कांति शांति कन्या संवेद्यतीर्थ  
 ७० निश्चराप्रभवतीर्थ वसिष्ठाश्रम देवकूटतीर्थ पवित्र  
 कूप कौशिकाश्रम ७१ कुम्भकर्णहृद कौशिकीहृद धर्म  
 तीर्थ कामतीर्थ मुकुलिकतीर्थ ७२ दंडोलीमालिनितीर्थ  
 नवेडिकातीर्थ संध्यातीर्थ कामतोय तीर्थ कपिल तीर्थ  
 रोहितार्णवतीर्थ ७३ शोणोद्भवतीर्थ वंशगुल्मतीर्थ ऋ-

षभतीर्थ कालतीर्थ पुण्यावतीहृद बदरिकाश्रमतीर्थ ७४  
 रामतीर्थ पितृवन विरजातीर्थ मार्कण्डेयवन कृष्णतीर्थ  
 कृष्णवट ७५ रोहिणीवीर्यसर इन्द्रद्युम्नसर सानुगर्भ  
 तीर्थ माहेंद्रतीर्थ श्रीतीर्थ श्रीनदी ७६ इष्टतीर्थ आश्वभ  
 तीर्थ कावेरीहृद कन्यातीर्थ गोतीर्थ गोमतीस्थान ७७  
 सर्वदेवव्रत तीर्थ कन्याश्रमहृद महाराजहृद शक्रतीर्थ  
 दण्डकतीर्थ ७८ अंकारतीर्थ तुंगवन मेधारण्य देवहृद  
 अमर पर्वत ७९ पवित्ररूप मन्दाकिनीहृद माहेश्वरकूप  
 गंगातीर्थ त्रिपुरुषतीर्थ तांमततीर्थ बड़वामुखतीर्थ ८०  
 गृध्रकूट तीर्थ काकूशोण तीर्थ रोहितकतीर्थ कपिलहृद  
 अगस्त्यहृद वसिष्ठहृद कपिलाहृद ८१ बालखिल्याहृद  
 सप्तर्षिहृद महर्षिहृद अखण्डितफल ८२ उपवासको  
 करनेवाला और जितेंद्रिय मनुष्य इन तीर्थोंके माहात्म्य  
 को सुन स्नान करै और देवता ऋषिमनुष्य पितरोंका तर्प-  
 णकर और देवताओंका पूजन कर दोदो रात्रि स्थित रहै  
 ८३ हे द्विजो इन तीर्थोंके अलग २ फल प्रकाशित किये  
 हैं और इन तीर्थोंके स्नानसे अश्वमेध यज्ञके फलको  
 मनुष्य प्राप्त होताहै ८४ जो मनुष्य इन तीर्थोंके मा-  
 हात्म्यको सुनै व पढ़ै वह सब पापोंसे छूटजाताहै ८५ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां तीर्थमाहात्म्यवर्णनो नाम

चतुर्विंशोऽध्यायः २४ ॥

## पचचीसवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूँछा हे सूतजी इस पृथ्वीमें सब अर्थ काम मोक्षको देनेवाली उत्तम पृथ्वी और तीर्थों में उत्तम तीर्थ हमसे वर्णन करो १ लोमहर्षणजी बोले हे मुनि जनो पहिले मुनिजनोंने इसी प्रश्नको मेरे गुरुसे पूँछा था सोही हे द्विजोत्तमो मैं तुमसे कहताहूँ २ सब आश्रमोंसे पवित्र और नानाप्रकारके पुष्पोंसे शोभित नाना प्रकारके वृक्ष और लताओंसे आकीर्ण नानाप्रकारके मृगगणों से युत ३ और पन्नग कमल देवदारु शाल ताल तमाल पनस ध्रुव खैर ४ पाटला अशोक वकुल कनेर चमेली और अन्य नानाप्रकारके वृक्ष और पुष्पों से उपशोभित ५ कुरुक्षेत्र में एक समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाभारतके कर्ता नानाप्रकारके शस्त्रोंमें विशारद ६ अध्यात्ममें निष्ठ विद्वान् और सब प्राणियों में रत पुराण और आगमके बह्ना वेद और वेदांगोंके पारको जाननेवाले और कमलके पत्रके समान नेत्रोंवाले पसशरके पुत्र वेदव्यासजीके दर्शन करनेको संशित ब्रत ७। दशांतातप भरद्वाज गौतम वसिष्ठ जैमिनि धौम्य मार्कण्डेय बाल्मीकि ९ विश्वामित्र सतानन्द वात्स्य दाल्भ्य भागुरि सुमन्तु परशुराम कण्व मेधा तिथि गुरु १० मांडव्य च्यवन धूम्र असित देवल मौहुल्य तृण जंतु पिप्पलाद अकृतब्रण ११ सम्बर्त्त दोनो कौशिक मैत्रेय हारित शांडिल्य अगस्त्य दुर्वासा लोमश १२ नारद

पर्वत वैशम्पायन गालव भास्करि पूरण सूत पुलस्त्य  
 कपिल १३ उलूक अश्वहंल वायु द्वैधस्थान तुम्बरु  
 सनत्कुमार कृशकृष्ण भौतिक १४ आदि मुनिजन आये  
 और उन तथा दूसरे राजर्षियोंसे नक्षत्रोंमें चन्द्रमाके  
 समान परिवृत्त हुये वेदव्यासजी १५ उन मुनिगणोंकी  
 पूजाकी और वे मुनिगणभी व्यासजीकी पूजाकर आ-  
 पसमें कथा बार्त्ता करनेलगे १६ कथा के अन्तमें वे त-  
 पोवन निवासी मुनिजन सत्यवतीके पुत्र वेदव्यासजीसे  
 एक संशय पूँछनेलगे १७ कि हे मुने वेद शास्त्र पुराण  
 आगम भारत और भूत भव्य भविष्य सबोंको आप  
 जानते हैं १८ और बहुतसे दुःखोंसे युक्तसारसे रहित  
 बड़े समुद्रवत् रागरूपी ग्राहोंसे आकुल और भयानक  
 विषयरूपी जलसे व्याप्त १९ और इन्द्रियोंसे आवृत्त  
 पवनवाला कृशरूप सैकड़ों तरंगोंसे संकुल और मोह  
 से संकलित रौद्र और लोभरूपी गम्भीरतासे दुस्तर  
 २० संसारसे रहित आपसे हम पूँछते हैं कि हे मुनिस-  
 त्तम हमसे यह वर्णनकरो २१ कि भैरव और लोमहर्षण  
 रूपी इस असार संसारमें डूबतेहुये लोकोंको उपदेश  
 के द्वारा उद्धार करनेको आप समर्थहो २२ और मोक्ष  
 के देनेवाले और दुर्लभ क्षेत्रोंको कहनेको आप योग्य  
 हो और पृथिवी में कर्मभूमिको सुनना हम चाहते हैं  
 २३ मनुष्य अच्छे कर्मोंको करके यथोचित कर्मभूमि  
 प्राप्तहोकर परमसिद्धिको प्राप्तहोते हैं और बुरेकर्म-  
 से नरकको प्राप्तहोतेहैं २४ हे द्विजोत्तम क्षेत्रमें अथवा

अक्षेत्रमें पुरुष मोक्षको प्राप्तहोता है इसलिये हे महा-  
 प्राज्ञ जो हमने प्रश्नकिया है उसका उत्तर वर्णनकरो  
 २५ मुनिजनोंके वचनसुन भूतभव्य और भविष्यको  
 जाननेवाले व्यासजी कहनेलगे २६ कि हे मुनिजनो  
 तुमने जो प्रश्नकिया है तिसका उत्तर मैं कहता हूँ यही  
 सम्वाद पहले मुनिजनों का ब्रह्माजी के सङ्ग हुआ है  
 २७ विस्तृत और नानाप्रकारके रत्नोंसे विभूषित नाना  
 प्रकारके वृक्षों और लताओंसे आकीर्ण नानाप्रकारके  
 पुष्पोंसे शोभित और नानाप्रकारके पक्षियोंसे शब्दित  
 रम्य और नानाप्रकारके अस्तरोसे आकुल नानाप्र-  
 कारके सत्वोंसे आकीर्ण नानाप्रकारके आश्चर्योंसे स-  
 मन्वित और नानाप्रकारके धातुओंसे भूषित नानाप्रकार  
 के मुनियोंसे आकीर्ण और नानाप्रकारके आश्रमोंसे  
 समन्वित मेरुपर्वतके पृष्ठभागमें स्थित जगत्के स्वामी  
 और जगत्की योनि चतुर्मुख और जगत्के पति बन्धु  
 आधार और ईश्वर और देव दानव गन्धर्व यक्ष वि-  
 द्याधर सर्प मुनि सिद्ध अप्सरा आदिसे परिवारित ब्रह्मा  
 जीको २८। ३२ स्तुतिकर कितनेही उनके सामने ध्यान  
 करनेलगे कितनेक बाजोंको बजानेलगे और कितनेक  
 नृत्यकरनेलगे ३३ ऐसे सर्वभूत समागमरूप और नाना  
 प्रकारके पुष्पोंसे संयुक्त और दक्षिणकी पवनसे सेवित  
 सुन्दर कालमें ३४ ब्रह्माजीको भृगुआदि ऋषिप्रणाम  
 कर इसी प्रश्नको पँडनेलगे ३५ कि हे भगवन् पृथिवी  
 तलमें कर्मभूमि और दुर्लभमोक्षक्षेत्रोंको सुननेकी हम

इच्छांकरते हैं सो हमसे वर्णनकरो ३६ व्यासजी बोले कि उन मुनिजनोंके वचनको सुन देवताओंके ईश्वरब्रह्मा जी उसप्रश्नके उत्तरको वर्णन करनेमें प्रवृत्तहुये ३७॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांऋषिसंवादेप्रश्न  
नामकपंचविंशोऽध्यायः २५ ॥

## द्वितीयां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि हे मुनिजनो अब मैं भक्ति और मुक्तिके देनेवाले कल्याणरूप और वेदसे व्यवस्थित पुराणको कहूँगा तिसको सुनो पृथिवीमें भारतवर्ष-कर्म-भूमि है और कर्मोंके फलका भोगने का स्थान स्वर्ग और नरकहै १ । २ भारतवर्षमें मनुष्य पाप और पुण्य कर्मको करनेसे निश्चयशुभ और अशुभ कर्मोंके फलोंको प्राप्तहोतेहैं ३ और ब्राह्मण आदि आप कर्मकरके सावधानहुये सिद्धिको प्राप्तहोतेहैं इसमें संशय नहीं ४ शुभ कर्मको करनेवाले मनुष्य वहां देव शरीरको प्राप्त होतेहैं और संयत इन्द्रियोंवाले अन्य मनुष्यमोक्षको प्राप्तहोतेहैं ५ शांतरूप और रागमत्सरतासे रहित पण्डितदुःखोंको त्यागकर विमानोंमें बैठस्वर्गमें स्थितहोते हैं ६ और शुभ कर्मके करने से स्वर्गबासीहुये मनुष्य सर्व कालमें भारतवर्षमें जन्मलेनेकी आकांक्षा करते रहते हैं ७ और यह इच्छा रखतेहैं कि स्वर्ग और मोक्षके फलोंको कब हम देखेंगे मुनियों ने पूँजा कि आपने जो कर्म करके पुण्य आदि कहा है ८ और हे सुरश्रेष्ठ

भारतवर्षमें जहां तप स्वर्ग मोक्ष कर्म पृथिवीमें किया-  
जाता है ९ सो उसतप स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति का  
कौन कर्महै १० हे ब्रह्मन् जो हमपर दयाकरनेकी इच्छा  
करो तो हम भारतवर्ष का आख्यानकहें ११ हे नाथ  
इसभारतवर्ष में जौन २ वर्ष और पर्वतहैं और जो जो  
वर्षों के भेद हैं वे सब हमसे कहो १२ ब्रह्माजी बोले-  
हे द्विजो मनुष्योंके भेद भारतवर्ष को सुनो जहां समुद्र  
के जलसे वेष्टित टापू हैं १३ और दशहजार योजन  
भारतवर्षहै जिसके अंतमें किरात पश्चिममें यवन आदि  
१४ और मध्यमें ब्राह्मण क्षत्री वैश्य और शूद्र बसतेहैं  
१५ और वे पूजा युद्ध व्यवहार शुश्रूषा आदि कर्मों  
से बर्त्ततेहैं १६ वहां स्वर्ग और मोक्षका हेतु पुण्यहै और  
नरकका हेतु पाप है १७ जहां महेन्द्रमलय शक्तिमान्  
ऋक्ष विंध्याचल पारियात्र नामक प्रधान सातपर्वतहैं  
१८ और अन्यभी विस्तारसे उच्छ्रितरम्य विपुल और  
चित्रशिखरवाले १९ कोलाहल वैभ्राजमन्दर दर्दराचल  
वांतधम रैवतक मैनाकसुर २० तुंगप्रस्थ राजगिरि गो-  
धन पांडवबिल पुष्पागिरि उर्जवन्त रैवत अर्बुद २१ ऋ-  
ष्यमूक गोमन्तकूट शैलकृतासर श्रीपर्वत चकोर आदि  
सैकड़ों अन्य पर्वतहैं २२ और तिन पर्वतोंसे मिलेहुये  
म्लेच्छ आदिबहुतसे देशहैं वे म्लेच्छ आदि जन जिन  
नदियोंकेजलोंको पीतेहैं उनको भी हेद्विजोत्तमो जो २३  
गंगा सरस्वती चन्द्रभागा सिंधु यमुना शतद्रू विपाशा वि-  
तस्ता ऐरावतीकुहू २४ गोमती धूतपापा बाहुदा दृषद्वती

विपाण देविकारं क्षुत्रिशिरा गण्डकी २५ कौशिकी दूसरी  
हिमवत्पादतिः स्मृत कौशिकी देवस्मृति देवतीरा दाहु-  
घ्नी सिंधु २६ वेणा चन्दना सदानीरामकी चर्मएवती  
विदिशा वेत्रवती २७ सिप्रा अरंती पारियात्र शोण  
महानदी नर्मदा सुरथाक्रिया २८ मन्दाकिनी दशार्णा  
चित्रकूटा आपगा चित्रोत्पला करमोदा पिशाचिका  
२९ लघुश्रेणी विपाशा धैवलानदी सुमेरुजा शुक्लेवती  
शकुनी त्रिदशाक्ती ३० कव्यपाद मृता वेगबाहिनी  
शिप्रा पयोधनी निर्विर्ण तापी सतपताकिनी ३१ वेष्ट्या  
वैतरणी शिनी बाली कुमुद्वती तोया महागौरी दुर्गा  
अन्ताशिला आदि पवित्रजलवाली नदियां ३२ विष्णु-  
पादसे उत्पन्नहुई हैं और गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी  
३३ तुंगभेदा सुप्रयोगा पापनाशिनी ये नदियां सह्य-  
प्रादसे निकसी हैं ३४ कृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पजाति  
उत्पलावती ये शीतलजलवाली नदियां मलयपर्वत से  
उत्पन्नहुई हैं ३५ पितृसोमा ऋषिकुल्या बहुलात्रिविधा  
लांगलिनी और वशकरा ये नदियां महेन्द्रपर्वतसे उत्पन्न  
हुई हैं ३६ पवित्ररूपी गंगा और सरस्वती सब समुद्र  
में जाके प्राप्त होती हैं ये सब विश्वकी माता हैं और सब  
प्रकारके पापों को हरती हैं ३७ हे द्विजोत्तमो अन्य भी  
प्रावृट्कालमें बहनेवाली और सदाबहनेवाली क्षुद्रन-  
दियां बहुत हैं ३८ मत्स्य मुकुट कुल्य कुन्तल काशिक  
कोशल अंधक कलिंग मकर और वृकसहित ३९ ये सब  
मध्यदेश कहे हैं और सह्यपर्वत के उत्तर में जो गोदा



चरी नदी है ४० यहां पृथिवीभरमें मनोरमदेश है और  
 तहांहीं महात्मा भार्गवमुनिकारमणीक गोवर्द्धनपुर है ४१  
 काह्लीकण्टधाना सुभीरा कालतोयद अपरांत शूद्र वा-  
 ह्लिकमेकल ४२ गांधार यवन सिंधु सौवीर भद्रक शत  
 हृदकलिंग पारद आहार्य मूषिक ४३ माठर कनक कैकेय  
 दग्धमानिक क्षत्रिय परदास वैश्य शूद्र कुल ४४ कांबोज  
 विक्रांत बर्वर लोकिक नीव सुषार पल्लव आतन ४५  
 आत्रेय भरद्वाज पुष्कल दशेरुक नश्यक शून्यकार कु-  
 लिक जहनुक ४६ जषध निमित्त किरातजाति तोमर  
 हंस माक्का काश्मीर कुवल ४७ सूतिक कहजरुवर्ण दार्व  
 नामक उत्तरदिशाके देश हैं ४८ अंधक मुकुर अंतर्गिरा  
 बहिर्गिरा अपरेंगा रींगामतद मानवर्तिक ४९ ब्रह्मतुङ्ग  
 प्रतिभय भर्याग उपमण्डुक प्राग्रज्योतिष मद्र विदेह  
 स्तामक निंदक ५० मल्व मग्न कामन्द प्राच्यासनपद ये  
 सब पूर्वदिशा के देश हैं और दक्षिणा पयगामी अन्य  
 भी देश हैं ५१ पूर्वकेशल गोलांगूल सेतुर्षिक मूषिक  
 कुमार बासक ५२ महाराष्ट्र माहिषक कालिंग आभीर  
 सहवैशिक्या अचेव्य शवल ५३ पुलिंद मौलेय वैदर्भ  
 दण्डक पौलिक मानक अश्मक भोजवर्द्धन ५४ कौलक  
 कुन्तल डम्भक शीलकालक ये दक्षिणके देश हैं ५५  
 सूर्पारक कान्निधन ऊर्ण तालकट उत्तमांश दशार्णतेज  
 किष्किन्धिक ५६ तोषल कोषल त्रैपुरारिदिशि तुषार  
 तुवर कांबोज यवन ५७ आभूष तुण्डिकरि बीरहोत्र  
 कुतर्जिज ये सब देश विन्ध्याचलके पृष्ठपर पश्चिम में

स्थित हैं ५८ नीहार तुषमार्ग कुरुत्वंगण खस ५९ कुञ्ज  
 प्रारषण ऊर्णटटी कुण्डक चित्रमार्ग मानुष किरात तो-  
 मर ये सब पर्वत के आश्रयभूत देश हैं और ६० इन  
 सब देशोंमें कृत त्रेता आदि युगों की कल्पना है ऐसे  
 मनुष्यों का स्थान संज्ञक भारतवर्ष है ६१ जिसके पूर्व  
 और दक्षिणकेतरफ समुद्र लगरहाहै और उत्तरमें हि-  
 मालय पर्वत है ६२ ऐसे सब बीजोंवाला भारतवर्ष है  
 तहांब्रह्मत्व और देवत्व से ६३ मृग रीछ सर्प आदि  
 ६४ सब स्थावर जंगम उत्तम गतिको प्राप्तहोजाते हैं  
 हे विप्रो शुभ और अशुभ कर्म करके प्राणियों को यह  
 कर्मभूमि प्राप्तहोतीहै और अन्यलोकों में यह कर्मभूमि  
 नहीं है ६५ देवशरीर को छोड़कर भी मनोरथवाले इस  
 भारतवर्षमें मनुष्यके शरीर को धारणकरते हैं ६६ इस  
 वास्ते शुभाशुभ कर्मोंको भोगनेकेलिये इसभारतवर्ष  
 के समान पृथिवीमें अन्यवर्ष नहींहै ६७ जहां ब्राह्मण  
 आदि वर्ण बांछितफलको प्राप्तहोते हैं भारतवर्षमें जो  
 मनुष्य उत्पन्न होतेहैं वे धन्य कहते हैं ६८ और धर्म  
 अर्थ काम और मोक्षके महाफलको प्राप्तहोते हैं इस  
 वर्ष में तपका भी दुर्लभफल प्राप्तहोजाताहै ६९ और  
 सब दानों और सब यज्ञों देवतोंकी आराधना और वेद  
 के पाठके फल ७० की प्राप्ति मनुष्यों को यथार्थ होती  
 है इसलिये हे द्विजो भारतवर्षके सब गुणों को वर्णन  
 करने में कौन समर्थ है जहां तीर्थयात्रा गुरुकी सेवा  
 ७१ नानाप्रकारके कर्मों नानाप्रकारके शस्त्रों और अ-

१६४ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

हिंसा आदि सब फल मनुष्यों को यथार्थ मिलता है  
७२ ब्रह्मचर्यगार्हस्थ्य इष्टापर्ति यज्ञ और अन्यशुभ-  
कर्मों के फल ७३ भारतवर्षमें प्राप्त होते हैं अन्यलोकमें  
नहीं जिस भारत वर्षमें सब देवते भी जन्म लेनेकी बांछा  
करते हैं ७४ यह सब पापों को हरता है पवित्र है धन्य है  
और बुद्धिको बढ़ाता है ७५ जो जितेन्द्रिय मनुष्य इस  
आख्यान को नित्यप्रति सुनै व पठन करैगा वह सब  
पापोंसे निर्मुक्त होकर विष्णुके लोकको प्राप्त होवेगा ७६॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां स्वयंभू ऋषिसंवादे

भारतगुणकीर्तननामपड्विंशोऽध्यायः २६॥

## सत्ताईसवां अध्यायः ॥

ब्रह्माजी बोले उस भारतवर्ष में दक्षिण समुद्रके स-  
मीप में ओडदेश विख्यात है जो स्वर्ग और मोक्ष को  
देता है १ और उत्तर समुद्रसे लगाकर जहां तक विरज  
मण्डल है यह सब गुणोंसे अलंकृत पुण्य शील मनुष्योंका  
देश है २ उस देशमें जो जितेन्द्रिय रूप ब्राह्मण उपजते हैं वे  
तप और स्वाध्यायमें तत्पर और पूज्य हैं ३ और तिस देश  
में उत्पन्न हुये ब्राह्मण श्राद्धदानबिवाह यज्ञ आदिकर्मों  
में प्रशस्त हैं ४ षट्कर्मोंमें निपुण और वेदके पारग इति-  
हासको जाननेवाले पुराणोंमें विशारद ५ सब शास्त्रोंके  
अर्थमें कुशल यज्ञको करनेवाले मत्सरतासे रहित  
अग्निहोत्रमें रत और स्मार्त अग्निमें तत्पर ६ और  
पुत्र भार्या धन आदिसे युक्त दान देनेवाले और सत्य

वादी ब्राह्मण यज्ञोत्सव से विभूषित उस पवित्र देशमें बसते हैं ७ और अपने धर्म में निरत शान्त और धार्मिक क्षत्रिय आदि तीनोंवर्ण भी वहां बसते हैं ८ उस देशमें उत्पन्न होनेवाले कोणादित्य नामसे प्रसिद्ध सूर्य को देखनेसे मनुष्य सब पापोंसे छूटजाताहै ९ मुनियों ने पूँछा कि हे ब्रह्मन् अब हम उस सूर्य के क्षेत्रका वर्णन सुनने की इच्छा करते हैं जहां वह सूर्य स्थित है १० ब्रह्माजी बोले क्षीरसमुद्रके पवित्र मनोहर और सब गुणोंसे अन्वित तटपर ११ चम्पक अशोकबकुल केनेर पाटला पुन्नाग कमल नागकेसर १२ तगर कुन्तजक सेवती मालती कुन्दपुष्प मल्लिका १३ केतकी बनखण्डी सम्बर्त्त पुष्प कदम्ब बडहल शाल पनस देवदारु १४ सरल मुचुकुन्द लाल और श्यामपुष्प पीपल सातला आंब आवड़ा १५ ताड़ सुपारीवृक्ष नारियलवृक्ष कैथ आदि नानाप्रकारके वृक्षोंसे अलंकृत १६ देशमें पवित्र और जगत्में विख्यात सातयोजन विस्तारवाला और भुक्तिमुक्ति को देनेवाला क्षेत्रहै १७ जहां हजार किरणों वाला वह सूर्य स्थित है और उसको भुक्तिमुक्ति देने वाला कोणादित्य कहते हैं १८ प्रतिमास शुक्लपक्षकी सप्तमी में जितेंद्रिय और उपवासी मनुष्य वहां प्राप्त होकर समुद्रमें स्नानकरै १९ और शुद्धहोकर दिवाकर का स्मरण २० और देवता ऋषि और मनुष्यों का तर्पणकरै फिर धोती और अँगोछेको ग्रहणकर सुन्दर आसनपर बैठ २१ और पवित्रहोकर पूर्वकी ४६ सूर्य

कर लालचन्दन संयुक्त पानीसे पद्मके आकार २२ अ-  
 र्थात् आठपत्तोंवाला और केसराख्य नाम से प्रसिद्ध  
 वर्तुल और ऊपर को कर्णिकावाला कमललिखकर २३  
 तिल चावल जल और लालचन्दन रक्तपुष्प और कुशा  
 संहित तांबाके पात्र में रखे २४ और तांबेके पात्रके  
 अभाव में आकके पत्तेके दोनेमें तिल और पानीडाल  
 उसपात्रको ढकदे २५ और न्यास और अंग न्यासको  
 हृदय आदिकोंके द्वारा करके अच्छीतरह सूर्यका ध्यान  
 करके २६ प्रथममध्यदलमें फिर अग्निकोण के दलमें  
 फिर नैऋत्यकोण के दलमें और फिर ईशानकोणके  
 दलमें पूजाकरके फिर मध्यदलमें पूजाकरे २७ पश्चात्  
 प्रभूत विमलसार और आराधना के योग्य परमसुख  
 कमलको पूजकर सूर्य का आवाहनकरे २८ और क-  
 र्णिका के ऊपर स्थापित करके मुद्रादिखावे कि स्नान  
 आदि करके और ध्यानकरके सावधानहो २९ उसरक्त-  
 पद्ममें व्यवस्थित पिंगाक्ष और दो भुजाओंवाले और  
 कमलकीदण्डीके समान अरुण भागवाले सब लक्षणों  
 से संयुक्त और सब गहनोंसे विभूषित स्वरूप और बर  
 को देनेवाले शान्त और प्रभामण्डलसे मण्डित ३०।३१  
 सूर्यको पूजे सचिक्रण सिन्दूरके समान उदितहुये सूर्य  
 को देखकर पूर्वोक्तपात्र को ग्रहणकरे और गोडों से पृ-  
 थिवीपर खड़ाहो ३२ उसे शिरपर धारणकर और एक  
 चित्त और सावधानहो ३३ अक्षरमन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य  
 पुत्र भायाँ और श्रद्धाभाव और भक्ति से पूजाकरे ३४

फिर अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान मध्य आदि सब दिशाओंमें क्रमसे पूजाकरे ३५ अर्घ्यदेकर गन्ध पुष्प दीप नैवेद्यको निवेदनकर जापस्तुति और प्रणामकरके मुद्रा बांधकर विसर्जनकरे ३६ जो जितेन्द्रिय वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री सूर्य को अर्घ्य देंगे ३७ वे निरन्तर भक्तिसे युक्त और विशुद्ध आत्मावाले मनुष्य परमगतिको प्राप्तहों ३८ त्रिलोकी को प्रकाश करनेवाले और देव और आकाशमें बिचरनेवाले सूर्य का जो मनुष्य स्मरणकरतेहैं वे सदासुखके भाजनहोतेहैं ३९ जबतक सूर्यको अर्घ्य निवेदन न करे तबतक विष्णु व महादेव का पूजन नहीं करे ४० इसलिये यत्न से नित्यप्रति पुष्प और मनोरम गन्धसे संयुक्त अर्घ्य सूर्य को देतारहै ४१ ऐसे जो सप्तमी तिथिमें पवित्र और स्नान मनुष्य सूर्यको अर्घ्य देताहै वह बांछित फलको प्राप्तहोता है ४२ रोगी रोगों से छूटताहै धनकी इच्छा वाला मनुष्य धनको प्राप्तहोताहै विद्यार्थी विद्याको प्राप्त होता है और पुत्रार्थी पुत्रोंको प्राप्तहोता है ४३ एवम् जिस जिस कामका ध्यानकर सूर्यको अर्घ्य दियाजाता है तिसी तिसी फलको मनुष्य प्राप्तहोता है ४४ समुद्र में इसप्रकार स्नानकरके और सूर्यको अर्घ्य और प्रणाम करने से नर वा नारी सब तरहके कामोंके फलों को प्राप्त होतेहैं ४५ और सूर्य गंगाके जलमें स्नान करके और कुशाओं से शिरका अभिषेक करनेसे सब पापों से मुक्तहुआ मनुष्य स्वर्गमें बसता है ४६ सूर्य

को पुष्पांजलि देनेसे मनुष्य सूर्यलोकमें वसताहै सूर्य की पूजा और प्रदक्षिणाकर ४७ वेदके मन्त्रोंसे स्तुति करे और परम भक्तिसे कोणार्क की पूजाकर गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्यको निवेदनकरे ४८ एवम् दण्डवत् प्रणाम और अनेक तरहकी जय शब्दोंसे जगतके स्वामी सूर्य की पूजाकरै तो ४९ मनुष्य दश अश्वमेध यज्ञों के फलको प्राप्तहोता है ५० और सब पापोंसे मुक्तहोकर और युवा और दिव्य शरीर को धारणकर सात पीढ़ी ऊपरकी और सातपीढ़ी नीचेकी उच्चारकर ५१ कामग और तेजवाला सूर्य के समान विमानमें स्थित हो और गन्धर्वोंसे उपगीयमान सूर्यलोकमें प्राप्तहोताहै ५२ और तहां उत्तम भोगोंको भोगकर बहुतदिनों के पीछे योगियोंके उत्तम कुलमें जन्मलेकर ५३ चारों वेदों को जाननेवाला स्वधर्ममें रत और पवित्र ब्राह्मण होकर उत्तम योगको प्राप्तहो मोक्षको प्राप्तहोता है ५४ चैत्रमासके शुक्लपक्षमें जो मनुष्य तहां कामदेव को नाशनेवाली यात्राकरताहै वह सब पूर्वोक्त फलको निश्चय प्राप्तहोवेगा ५५ सूर्यके शयन में स्थापनमें संक्रान्तिमें अयनमें रविवारमें सप्तमीतिथिमें व सर्वकाल में जो ५६ तहां यात्रा करते हैं वे सूर्य के समान वर्ण वाले विमान में स्थित होकर सूर्यलोकमें वसतेहैं ५७ तहां समुद्रके तीरपर सब कामनाओं का देनेवाला कामदेवनाम से विख्यात महादेव है इसलिये ५८ तिस समुद्रमें स्नानकर महादेवके दर्शनकरे और गन्ध पुष्प

धूपं दीप नैवेद्य इत्यादि देकर ५९ प्रणाम स्तुति गीत बाजे इत्यादि उत्सव करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञके फलों को प्राप्त होता है ६० और इस कर्मसे महात्मा जन परमसिद्धि को प्राप्त होते हैं और मनोबांछित चलनेवाले और किकिणी जालसे मण्डित ऐसे विमानमें स्थित होकर और गन्धर्वों से गीयमान हो शिवलोकमें प्राप्त होते हैं ६१ शांकरयोग को प्राप्त होनेसे मनुष्य शिवलोकमें जाता है और तहां मनोरम भोगोंको भोगकर ६२ यहां आकर चारोंवेदों को जानने वाला होकर फिर शांकरयोगको प्राप्त हो मोक्षको प्राप्त होजाता है ६३ जो मनुष्य उस सूर्यक्षेत्रमें प्राणोंको त्यागता है वह सूर्यलोकमें प्राप्त होकर सूर्यके समान आकाशमें आनन्दित होता है ६४ और बहुतकालके उपरान्त मनुष्य देहको धारणकर धार्मिकराजा होता है तब सूर्ययोगको प्राप्त हो मोक्षको प्राप्त होजाता है ६५ हे मुनिजनों समुद्रके तीरपर भुक्ति और मुक्ति को देनेवाला और अति दुर्लभ यह सूर्यक्षेत्र मैंने कहा है ६६ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूत्रयपिसंवादेकोणादित्य  
माहात्म्यवर्णनो नाम सप्तविंशोऽध्यायः २७ ॥

## अट्टाईसवां अध्याय ॥

मुनियों ने पूँछा हे सुरश्रेष्ठ भुक्ति और मुक्ति को देने वाला सूर्यका क्षेत्र आपने कहा और हमोंने सुना १ पर इससुख को देनेवाली आपके मुखसे कहीं पवित्र और



पापों को नाशनेवाली सूर्य की कथा सुननेसे हम तप्त नहीं होते २ इसलिये हे सुरश्रेष्ठ जो उस देवकी पूजाका फलदानका फल ३ और प्राणिपात नमस्कार प्रदक्षिणा धूप दीप प्रदान अर्चनविधि आदिमें जो फल होता है ४ उपवास में जो पुण्य है और रात्रिके भोजनमें जो पुण्य है और किस प्रकारका अर्घ्य दिया जाता है कहां बस्त्र दिया जाता है ५ कैसे भक्ति करी जाती है और कैसे वह देवप्रसन्न होता है यह सब वृत्तांत सुनने की हम इच्छा करते हैं ६ ब्रह्माजी बोले हे द्विजोत्तमो सूर्यका अर्घ्य पूजादिक और भक्तिश्रद्धा समाधि को मुझसे सुनो ७ मनसे भावना और भक्ति होती है और ध्यानही समाधि है इसलिये यह सब श्रवण करो ८ जो उस देवकी कथा सुनावे और उसके भक्तोंको पूजे और अग्निकी शुश्रूषा करे वह मनुष्य सनातनभक्त है ९ चित्त और मन से देवपूजामें रत और ईश्वर सम्बन्धी कर्मको करनेवाला मनुष्य सनातनभक्त होता है १० देवताओं केलिये क्रियमाण कर्मों को जो यमराजमानता है अथवा जो देवताओं का कीर्त्तन करता है वह सनातनभक्त कहाता है ११ और पदार्थका भोजनकर उसकी निन्दा न करनेवाला और अन्नदेवताकी निन्दा न करने और उस देवमें चित्त लगानेवाला और सूर्यके व्रतको करनेवाला मनुष्य परमभक्त कहाता है १२ स्थितहुआ चलताहुआ शयनहुआ सँघताहुआ नेत्रोंको खोलताहुआ नेत्रोंको मीचताहुआ जो मनुष्य सूर्यका स्मरण करता है वही

भक्त कहाता है १३ ऐसे सब कालमें जाननेवाले और बिनाजानने वाले को भक्ति समाधि तत्त्व और मनसे भक्ति करनी चाहिये १४ जो ब्राह्मणको नेमसे दानदेता है उसे देव मनुष्य और पितर तीनों प्रति ग्रहणकरतेहैं १५ और पत्र पुष्प फल जल ये सब जिसने भक्तिकेद्वारा उसकेलिये अर्पित किये हैं वे सब उसको मिलजातेहैं १६ इसलिये नेम और आचारसे मिलीभाव शुद्धियुक्ति करनी उचित है और भावशुद्धिसे जो कियाजाता है वह निश्चय मनुष्यको मिलता है १७ सूर्यकी स्तुति जापपूजा उपचार औरउपवास ये सबषष्ठीतिथिमें किये जाने से मनुष्यको सब पापोंसे छुटातेहैं १८ और शिर को पृथिवी में नवायकर जो सूर्यको प्रणामकरते हैं वे तत्कालही सब पापों से मुक्तहोजाते हैं इसमें संशय नहीं १९ जो भक्तपुरुष सूर्यकी परिक्रमा करताहै उसको सातोंद्वीपों संयुक्त पृथिवी की परिक्रमा का फल मिलजाता है २० और जो आकाश की परिक्रमाकर सूर्यको मनमें ध्याता है उसको सब देवताओं की परिक्रमाकाफल प्राप्तहोताहै २१ जो मनुष्य एकबार भोजन करके षष्ठीतिथिमें सूर्यकी पूजाकरताहै और नेम व्रतभक्तिके द्वारा सूर्यको ध्याताहै २२ वह महाभागसप्तमीतिथिमें अश्वमेधयज्ञके फलको प्राप्तहोताहै और जो दिनरात्रिका व्रतकर सूर्यकी पूजाकरताहै २३ सप्तमीमें वं षष्ठीतिथिमें वह मनुष्य परमगतिको प्राप्तहोता है कृष्णपक्षकी सप्तमी में जो व्रतकरनेवाला और जि-

तेन्द्रिय मनुष्य २४ सब रत्नोंके द्वारा सूर्य को पूजता है वह अग्नि के समान कांतिवाले विमानमें स्थित हो सूर्यलोकमें गमनकरता है २५ और शुक्लपक्षकी सप्तमीमें उपवास करनेवाला मनुष्य जो सब प्रकारके शुद्धउपहारों से सूर्यकी पूजाकरै २६ वह सब पापोंसे निर्मुक्त होकर सूर्यलोकमें गमनकरता है जो अर्कके सम्पुटमें आठतोलै जलकोपीवे २७ और चौबीसदिनोंतक क्रम से इसीप्रकार बढ़ाके पीछे नित्यप्रति घटातारहै तो दो वर्षतक निरन्तर ऐसेही पीनेसे २८ यह अर्कसप्तमी सबकामनाओं को देती है शुक्लपक्षकी सप्तमीतिथि में जो रविवारहो तो २९ विजयासप्तमी कहातीहै उसदिन दान करनेसे महाफलकी प्राप्तिहोतीहै और स्नानदान जप होम उपवास आदि ३० विजयासप्तमी में करने से महापातकों का नाशहोता है जो मनुष्य रविवारके दिन श्राद्धकरते हैं ३१ और अश्वकी पूजाकरते हैं वे मनोबांछितफलोंको प्राप्तहोतेहैं जिनलोगोंके धर्मक्रिया आदि सूर्यके उद्देश से कियेजाते हैं ३२ उनके कुलमें दरिद्रता और रोग कभी नहीं उपजताहै और सूर्यकी भक्तिकरनेवाला मनुष्य बांछित फलको प्राप्तहोता है ३३ सुगन्धवाले और विचित्र ऐसे पुष्पों से जो उपवासी मनुष्य सूर्यको पूजताहै वह मनोबांछितफलको प्राप्तहोता है ३४ घृत अथवातेलसे दीपक प्रज्वलित करनेसे दीर्घ आयुको प्राप्तहो और सुन्दर शरीरवाला और नेत्ररोगसे रहितहोजाताहै ३५ दीपकदानसे मनुष्य

ज्ञानरूपी दीपकसे प्रकाशित रहताहै और स्पष्ट बुद्धि-  
 वाला और श्रेष्ठइन्द्रियोंसे युक्तहोजाताहै ३६ तिलपरम  
 पवित्रहै और तिलोंका दानभी उत्तमहै इसलिये हवन  
 और दीपककार्यमें तिलोंका बर्तनामहापापोंको नाशता  
 है ३७ जो मनुष्य नित्यप्रति देवताके मन्दिर अथवा रम-  
 णीक चतुष्पथमें दीपकजलाताहै वह सुन्दररूप और  
 भाग्यवाला होजाताहै ३८ विशेष करके तो घृतसे दीपक  
 जलानाकहा है और घृतके अभावमें तेलसे जलाना  
 कहा है परन्तु रसमेद और अस्थिकेतेल आदि से क-  
 दापि न जलाना चाहिये ३९ दीपकदानसे मनुष्य ऊपर  
 के लोकोंमें जाताहै सदाप्रकाशित रहताहै और तिर्य्य-  
 ग्गति को नहीं प्राप्तहोता ४० प्रकाशित दीपकको नतो  
 हरनाहीचाहिये और न बुझाना चाहिये क्योंकि दीपक  
 को हरनेवाला मनुष्य अन्धाहोजाता है और नरकमें  
 बसताहै ४१ जो मनुष्य नित्यप्रति चन्दन अगर और  
 चम्पासे सूर्यको पूजताहै ४२ वह धनयश और लक्ष्मी  
 वाला होजाताहै और जो मनुष्य रक्तचन्दन और रक्त  
 पुष्पों से युक्त ४३ अर्घ्यसूर्यको देताहै वह एकवर्ष में  
 सिद्धिको प्राप्तहोता है सूर्य के उदय से अस्तहोनेतक  
 ४४ सूर्यके सन्मुख मन्त्रको जपना महापातकोंको नाश-  
 नेवाला आदित्यव्रतकहाताहै ४५ और जो उदयहोते  
 सूर्य को अर्घ्यदेता है वह सब पापोंसे छूटजाताहै ४६  
 सुवर्ण गाय बैल पृथिवी बस्त्र सहित अर्घ्यको देनेवाला  
 मनुष्य सातजन्मोंतक फलको प्राप्तहोताहै ४७ अग्नि

जलआकाश पवित्रपृथिवी प्रतिमापिण्डी आदिमेंयत्न से सूर्य को अर्घ्य देनाचाहिये ४८ सव्यहोनेका नियम नहीं है किन्तु सूर्य के सन्मुख स्थित होकर अर्घ्यदेवै और घृत संयुक्त गूगलका धूपदेवे और भक्ति करतारहै ४९ ऐसे करनेसे मनुष्य तत्काल पापोंसे छूटताहै इसमें संशयनहीं और श्रीवास धूप देवदारु ५० कपूर अगर आदि सूर्यको देनेवाले मनुष्य स्वर्ग में बसते हैं ५१ सूर्यके उत्तर अयन व दक्षिण अयनमें सूर्यकी पूजा करने से मनुष्य सब पापों से छूटताहै ५२ और विषु-काल ग्रहण पर्वकालमें सूर्य को ५३ विशेषकर पूजने से मनुष्य सबपापोंसे छूटजाताहै ५४ ऐसेही सब बेला व अबेला में जो मनुष्य भक्तिसे सूर्य को पूजताहै वह सूर्यलोकमें बसता है ५५ और खीर मालपुआ फलमूल घृत चावलसे सूर्यको बलिदेनेसे सबकामनाओंकी प्राप्तिहोती है ५६ सूर्यको घृतका तर्पण करने से मनुष्य स्निग्ध होजाताहै और दहीसे तर्पणकरै तो कार्यकी सिद्धिहोतीहै ५७ तीर्थसे जललाकर जो सूर्य को स्नानकराता है वह परमगतिको प्राप्तहोता है ५८ जो क्षत्रिय ध्वजा पताका और चमरकादान सूर्यकी प्रीतिके लिये करताहै वह बांछितगतिको प्राप्तहोयगा ५९ और भक्तिसे जो जो द्रव्य सूर्यकेलिये दियाजाता है सो सो लक्षगुण होकर फिर मनुष्यको सूर्य देदेता है ६० शानस कायिक और वाचिक आदि सब पापसूर्य के प्रणाम करने से नाशहोतेहैं ६१ सूर्यकी एकदिन

की पूजासे जो फल प्राप्तहोता है वह सौ यज्ञोंके करने से नहीं होता ६२ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयंभुञ्जषिसंवादेसूर्यस्य  
पूजाभक्तिनियममाहात्म्यनामाष्टविंशोऽध्यायः २८ ॥

## उन्तीसवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूँछा हे देव बड़ा आश्चर्य्य है कि जगत् के स्वामी सूर्यका दुर्लभ माहात्म्य तुमसे सुना १ हे देवेश फिर सूर्य के माहात्म्यको वर्णन करो हम सुनने की इच्छा करते हैं और हमको अति आश्चर्य्य है २ गृहस्थी ब्रह्मचारी बानप्रस्थ वा संन्यासी जो मोक्षकी इच्छाकरै तो वह किस देवताका पूजनकरै ३ मनुष्य को स्वर्ग कैसे प्राप्तहोता है और मनुष्य का कल्याण कैसे होता है किसकर्मको करनेसे मनुष्य स्वर्गसे नहीं पड़ता ४ देवताओं का देवता कौन है और पितरों का पिता कौन है जिससे पर कुछभी नहीं है ऐसे देवको वर्णनकरो ५ यह स्थावर जंगम जगत् कहांसेरचागया है और प्रलयमें कहां जाता है इसका वर्णन कीजिये ६ ब्रह्माजी बोले जो देव अपने किरणोंसे जगत्के अंधेरेको नाशता है इससे बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है ७ यही अनादि है और यही अन्तसे रहित है पुरुष शाश्वत और अव्ययनामवाला भी यही है और अपने तेजरूपवाले किरणों से तीनिलोकोंमें भ्रमनेवाला भी यही है ८ सर्वदेवमयभी यही है और तपसे शुभ आ-

चरणवालाभी यहीहै सब जगत्का नाथ भी यहीहै और शुभाशुभ में सर्वसाक्षीभी यहीहै ९ सबभूतोंको नाशने वाला और फिर रचनेवालाभी यहीहै और अपने किरणों से वर्षाकरनेवाला भी यहीहै १० धाता विधाता भूतादि भूतभावन नामोंवालाभी यहीहै और यह कभी क्षयको प्राप्त नहीं होताहै और अक्षयमण्डलभी यही है ११ पितरोंमें मुख्य और देवताओंका देवताभी यही है और ध्रुवस्थानभी यहीहै १२ सृष्टिकालमें जगत्को रचनेवालाभी यही है और प्रलयमें सब जगत् इसी सूर्यमें लयहोताहै १३ असंख्यातयोगी अपने शरीरों को त्यागकर पीछे वायुकेरूप को धारणकर तेजराशि सूर्यमें प्रवेश करतेहैं १४ और इसके हजारोंकिरणों के आश्रितहुये मुनि सिद्ध और देवता वसते हैं १५ गृहस्थी और योगधर्मवाले जनक आदि राजे ब्रह्मवादी बालखिल्य आदि ऋषिगण वानप्रस्थ कर्म वाले वेदव्यास आदि और पञ्चशिष्य आदि सन्न्यासी ये सब योगको प्राप्तहो सूर्यमण्डल में प्रवेश करतेभये १६ । १७ शुकदेवजी भी योगधर्मको प्राप्तहोकर पीछे सूर्य के किरणों को पानकर मोक्षधर्मको प्राप्तहुये हैं १८ शब्दमात्रमें वेद मुखवाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदिमें अन्धकारको नाशनेवाला सूर्यकहाहै १९ और इससे अन्यबुद्धि करनी उचित नहींहै जिसके सकाशसे दृष्टिका आरोपणहोता है २० उसी सूर्यभगवान् को सब को पूजना योग्यहै वही माता और वही पिताहै और सब

जगत्का गुरुभी वहीहै २१ और आदिसे रहितलोकका नाथ किरणोंकीमालावाला जगत् का पति और मित्रता में स्थित यहीहै २२ और अनादि निधन ब्रह्मा नित्य अक्षयनामोंवालाभी यहीहै सब प्रजापतियों और सब प्रजाको रचकर २३ अनन्त किरणोंवाला वह अव्यक्त बारहप्रकार आत्माकोकर सूर्यभावको प्राप्तहुआहै २४ औरइन्द्र धाता पर्जन्य तुष्टापूषा अर्यमाभग विवस्वान् विष्णु अंशु वरुण और मित्र २५ इन बारहनामों से सूर्य ने अपनी मूर्तियों से यह सब जगत् व्याप्त कर रक्खाहै २६ उस सूर्यकी इन्द्रनाम वाली मूर्ति दैत्यों को नाशनेके लिये देवराज्यपरस्थितहै २७ धाता नाम से विख्यात मूर्ति प्रजापति रूपसे स्थित हुई है और नानाप्रकार की प्रजाको रचती है २८ पर्जन्य नामसे विख्यात हुई तीसरी यह मूर्ति जलको वर्षाती है २९ तुष्टानामसे प्रसिद्ध चौथी मूर्ति वनस्पति और ओषधियोंमें स्थित है ३० पूषा नामसे प्रसिद्ध मूर्ति अग्नि में स्थित है जो मनुष्यों के शरीर में प्रवेशित होकर अन्नको पकाती है ३१ अर्यमा नाम वाली और भग नाम वाली मूर्ति और विवस्वान् नामवाली मूर्ति अनेक प्रकारसे जगत्को पोषतीहै ३२ विष्णु नाम वाली मूर्ति देवताओंके शत्रुओंको नाशती है ३३ अंशुमान् नाम से प्रसिद्ध मूर्ति वायुमें स्थितहुई प्रजाको आनंद देती है ३४ वरुणनामवाली मूर्ति जलमें स्थित होकर प्रजा की रक्षा करती है ३५ और मित्रनाम से प्रसिद्ध मूर्ति



लोकके हितके लिये चन्द्रमा और नदीके तटमें स्थित है ३६ वायुको भक्षण करनेवाला नेत्रोंसे अनुग्रह करने वाला और नानाप्रकारके नामोंसे स्थित ३७ सूर्यका स्थान बहुत समय तक मित्रभावसे स्थित होनेसे मित्र कहाताहै ३८ ऐसे सूर्यने बारहनामोंसे यह सब जगत् व्याप्त कररखाहै ३९ जो मनुष्य इनबारहनामोंसे सूर्य की पूजा करते हैं वे सूर्यलोकमें जाकर बसते हैं ४० मुनियोंने पूँछा हे भगवन् आश्चर्य है कि आदिदेव और सनातन होकर सूर्यने वरकी प्राप्तिके लिये प्राकृत मनुष्यकी तरह क्यों तप किया ४१ ब्रह्माजी बोले सूर्य का गुह्य आख्यान कहताहूँ जो पहले नारदसे सूर्यने कहाहै ४२ पहले सूर्यकी बारहमूर्तियोंमेंसे मित्र और वरुणने तप किया ४३ जलमात्रका भक्षण करनेवाला वरुण पश्चिम समुद्रपर स्थित हुआ और वायुको भक्षण करनेवाला मित्ररहा ४४ फिर एक समय गन्धमादन पर्वतसे विचरते नारदमुनि मेरुपर्वतके शृंगपरआये ४५ और जहां मित्र तप कररहाथा वहां आकर आप भी तप करनेलगे और मित्रनामक सूर्यको देख अति आश्चर्य मानताभया ४६ कि यह अविनाशी अक्षय सर्वव्यक्त अव्यक्त सनातन सत्य एकात्मा त्रिलोकीरूप ४७ सब देवताओंका पिता और परों से भी परे सूर्य किस देवताको और किस पितरको पूजताहै ४८ ऐसा मनमें चिंतनकर नारद बोले हे देव सांगोपांग वेदों में तो तुम्हारा गान कियागयाहै ४९ और आपही अज

हैं धाता महामूर्त्त अनुत्तम आदि नामोंवाले भी आपही  
 ही और भूत भविष्यत् भव्य सब आपही में प्रति-  
 ष्ठित हैं ५० हे देव गृहस्थ आदि चारो आश्रम नाना-  
 प्रकारकी मूर्त्तिवाले आपको नित्यप्रति पूजते हैं ५१ सब  
 जगत्के पिता माता आपही हैं और आपही देव और  
 शाश्वतहो परन्तु किस देवको पूजतेहो हम नहीं जानते  
 ५२ इन्द्रनामक सूर्य्य बोले कि हे ब्रह्मन् नहीं कहनेके  
 योग्य परमगुह्य और सनातन आख्यान में तुम्ह भक्त  
 को यथायोग्य सुनाताहूँ ५३ वह सूक्ष्म अविज्ञेय अ-  
 व्यक्त अचल और ध्रुव आदि नामोंवाला ब्रह्म इंद्रियों  
 और इन्द्रियोंके अर्थ और सब भूतोंसे वर्जित प्राणियों  
 का अन्तरात्मा क्षेत्रज्ञ त्रिगुण और शक्तिसे रंजित और  
 कल्पित पुरुष हिरण्यगर्भ भगवान् और बुद्धिरूप एं-  
 कात्मा और त्रिलोकीको धारण करनेवाला शरीरों और  
 शरीरवालोंमें निरन्तर बसनेके योग्य शरीरोंमें अवसन्न  
 और कर्मोंसे अलिप्यमान तेरा और मेरा अन्तरात्मा  
 सब देहमें स्थित और सबोंका साक्षीभूत किसीसे और  
 कहीं भी ग्रहण करने के अयोग्य सगुण और निर्गुण  
 विश्व और ज्ञानगम्य चारोंतरफ हाथ और पैरोंवाला  
 और सब जगह शिर नेत्र और मुखवाला सब जगह  
 कर्ण इन्द्रियवाला और सब जगह प्रवृत्त होकर स्थित  
 और विश्वमूर्द्धा विश्वभुज और विश्वरूप पैर नेत्र और  
 नासिकावाला ऐसे क्षेत्रमें विचरनेवाला और सुखको  
 देनेवाला यहां क्षेत्रनाम शरीरकाहै और वहशरीर और

सुखको जानताहै इसवास्ते क्षेत्रज्ञ नामवाला और प्र-  
 शस्तरूप अव्यक्तपुरमें संशयकरनेवाला बहुविधविश्व  
 और सब जगह सर्वरूपहै इसीलिये उसको विश्वरूप  
 कहते हैं सबोंसे बड़ा एकपुरुष और महापुरुष सनातन  
 और विधियोंवाला क्रिया यज्ञ और आत्मासे आत्मा  
 को रचनेवाला एक प्रकार दशप्रकार और शतसहस्र  
 प्रकारवाला अकर्त्ता और कर्त्ता और आकाशसे पतित  
 जलकी तरह सुस्वादु विशेष करके पृथिवीरूप और  
 गुणके वशसे पृथिवीरूपभी नहीं जैसे अकेला वायु देह  
 में पांचप्रकारसे है तैसेही एकत्वरूप और पृथक्त्वरूप  
 और देहमें पांचप्रकार वालाहै इसमें संशय नहीं जैसे  
 स्थानान्तरं विशेषसे अग्निपर संज्ञाको प्राप्तहोताहै तै-  
 सेही यह ब्रह्महै ५४ । ६९ जैसे एक दीपकसे हजारों  
 दीपक प्रकाशितहोतेहैं तैसेही यह अकेला हजारोंरूपों  
 को रचताहै ७० जब यह आत्मा को जानताहै तब के-  
 वलरूप होजाताहै और प्रलय में एक रूपवाला और  
 बहुत रूपोंवाला रहताहै ७१ यही नित्यप्रति स्थावर  
 जंगम जगत् को नाशताहै और अक्षय अप्रमेय और  
 सर्व इन नामोंवाला भी यहीहै ७२ इसलिये हे द्विज-  
 सत्तम उसीसे अव्यक्तरूप त्रिगुण उत्पन्न होताहै और  
 अव्यक्तसे व्यक्तभावमें स्थितहोनेवाली प्रकृति उत्पन्न  
 होती है ७३ उसी सदसत् और आत्मावाले ब्रह्मकी  
 योनिहै लोकमें देवकर्ममें और पितृकर्ममें पूजितहोता  
 है और इसकेसिवा कोई देव व पितर नहींहै यह ईश्वर

आत्मा से जाननेयोग्य है इसलिये उसको मैं पूजता हूँ  
 ७४ । ७५ कितनेही स्वर्गवासी इस को देखते हैं और  
 इस ईश्वरकी शिक्षासे मनुष्य उत्तमगतिको प्राप्तहोते  
 हैं ७६ नानाप्रकारके जीव इसदेवको पूजकर स्वर्गमें  
 बसते हैं और जो भक्तिसे इस देव को पूजते हैं तिनको  
 यह परमगति देता है ७७ यही सर्वगत और निर्गुणहै  
 यह सुनके मैं इस ब्रह्मरूपी सूर्येश्वर को पूजताहूँ ७८  
 सूर्य से भावित लोक एक तत्त्व को आश्रित होते हैं  
 और वे सब सूर्य के शरीर में प्रवेश करते हैं ७९ हे  
 नारद यह गुह्य आख्यान मैंने प्रकाशित कियाहै और  
 हमारी भक्तिसे तुमनेभी सुना ८० देवतां और मुनियों  
 ने भी यह पुराण कहा है और सब देवता परमात्मा  
 रूपी सूर्य को पूजते हैं ८१ ब्रह्माजी बोले कि इस  
 प्रकार पहले नारदने सूर्य से कहा था सोई हे द्विजो-  
 त्तमो मैंने भी तुम्हारे आगे यह कथा कही ८२ हे  
 द्विजोत्तमो यह ऋषिजनों का कहा आख्यान है इस  
 लिये जो सूर्य का भक्त न हो तिससे कभी न कहना  
 जो मनुष्य इसको सुनावै और सुनै वह सूर्य में प्रवेश  
 करता है इसमें संशय नहीं है ८३ । ८४ इसको सुनने  
 से रोगी रोगसे छूटजाताहै और जिज्ञासु मनुष्य ज्ञान  
 और बांछितगति को प्राप्तहोता है ८५ इसको मार्ग  
 में अध्ययन करै तो कुशलसे ध्यानको प्राप्तहोताहै और  
 जिसकामनाकी इच्छाकरै तिस कामना को प्राप्तहोता  
 है ८६ इससे तुम्हें निरन्तर सूर्यकी पूजाकरनी चाहिये

और वह सूर्य्य सब जगत्काधाता और गुरु है ८७ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयंभुवृषिसंवादे

एकोनत्रिंशोऽध्यायः २९ ॥

## तीसवां अध्याय

ब्रह्माजी बोले हे मुनि सत्तमो इससम्पूर्ण त्रिलोकी का मूल सूर्य्य है और इसी सूर्य्य से देव मनुष्य और दैत्यों संयुक्त जगत् उपजता है १ रुद्र महेन्द्र उपेन्द्र और सब देवताका सार्वलौकिकतेज यह सूर्य्य है २ सर्वात्मा सर्वलोकों का स्वामी देवता का देवता और प्रजापति भी इसीकानाम है और त्रिलोकीका मूल और परम-देवता भी यही सूर्य्य है ३ अग्निमें जो हवनकिया जाता है वह सूर्य्यको प्राप्त होता है सूर्य्यसे वर्षा होती है वर्षा से अन्नउपजता है और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है ४ इसलिये यह जगत् सूर्य्य से उपजता है और सूर्य्य हीमें लीन होजाता है ५ पहलेभाव और अभाव ये दोनों सूर्य्यसे निकसे हैं ६ क्षण मुहूर्त्त दिन रात्रि पक्ष महीना सम्बत्सर ऋतु और युग ७ ये सबकाल संख्या सूर्य्य से ही होती है और कालकेबिना कोई क्रियानहीं होसकी ८ ऋतुओंका विभाग पुष्पमूल फल और वनस्पती की उत्पत्ति तृण ओषधि आदि ९ व्यवहारोंकी क्रिया और प्राणियोंको इसलोक व परलोकमें सुखकी प्राप्ति और प्रकाश सूर्य्यके बिना नहीं होसके १० वसंतऋतु में कपिलरूप सूर्य्य होता है ग्रीष्मऋतु में सवर्णके सं-

मान कान्तिवाला होता है ११ वर्षा ऋतुमें श्वेतरूप होता है शरद ऋतुमें पाण्डुरूप होता है १२ हेमन्त ऋतुमें तांबा के समान कान्तिवाला होता है और शिशिर ऋतुमें लोहितरूप होता है ऐसे ऋतुओं से उपजे वर्ण सूर्य के कहे हैं १३ और ऋतुओं के अनुसार वर्णवाला सूर्य सुभिक्षकरता है सामान्यसे सूर्य के १४ आदित्य सविता सूर्य मिहिर अर्कप्रभाकर १५ मार्तण्ड भास्कर भानु सूत्र भानु दिवाकर और रवि बारहनाम हैं १६ और विष्णु इन्द्र धाता भग पूषा मित्रावरुण अर्यमा विवस्वान् अंशुमान् त्वष्टा पर्जन्य १७ आदि ये बारहनाम बारहों महीनों में अलग २ उपस्थित होते हैं १८ चैत्रमासमें विष्णुनामक सूर्य तपता है बैशाखमासमें अर्यमानामक सूर्य तपता है ज्येष्ठमास में विवस्वान् सूर्य तपता है आषाढमें अंशुमान् सूर्य तपता है १९ श्रावणमें पर्जन्य सूर्य तपता है भाद्रपदमें बरुण सूर्य तपता है आश्विनमें इन्द्रनामक सूर्य तपता है कार्तिकमें धातानामक सूर्य तपता है २० मार्गशिरमें मित्रनामक सूर्य तपता है पौषमें पूषानामक सूर्य तपता है माघमासमें भगनामक सूर्य तपता है और फाल्गुनमें त्वष्टानामवाला सूर्य तपता है २१ । १२०० किरणों से विष्णुनामक सूर्य तपता है १३०० किरणोंसे अर्यमानामक सूर्य तपता है २२ । १४०० किरणोंसे विवस्वान् नामक सूर्य तपता है १५०० किरणों से अंशुमान् नामक सूर्य तपता है २३ विवस्वान् के समान ही पर्जन्य बरुण और

अर्यमानामक सूर्यतपतेहैं २४।१२०० किरणोंसे इन्द्र नामक सूर्यतपताहैं और ११०० किरणोंसे मित्र और त्वष्टानामक सूर्यतपतेहैं २५ उत्तरदिशासे सूर्यकी किरणेंबढ़तीहैं और दक्षिणकेतर्फसे घटतीहैं २६ सूर्यलो- कसे संग्रहहोकर हजारोंकिरणें धातुओंको प्राप्तहोती हैं और अनेक प्रकारसे संग्रहीत होतीहैं २७ सूर्यके चौ- बीसनाममैंने प्रकाशितकिये पर उनके सहस्रनामभी हैं २८ मुनियोंने पूँछाहे भगवन् जोहजारनामोंसे सूर्यकी स्तुति कियाचाहतेहैं तिनको क्या पुण्य मिलताहैं और वे किसगतिको प्राप्तहोतेहैं २९ ब्रह्माजी बोले हे मुनि- शार्ङ्गल सूर्य के सहस्रनामों से क्या है सारभूत और सनातन स्तोत्रको सुनो ३० और जो पवित्र शुभ और गुप्तनाम हैं तिनको मैं कहताहूँ ३१ विकर्त्तन विवस्वान् मार्तण्ड भास्कर रवि लोकप्रकाशक श्रीमान् लोकचक्षु- ग्रहेश्वर ३२ लोकसाक्षी त्रिलोकेश कर्त्ता हर्त्ता तमिस्रहा- तपन तापन शुचि सप्ताश्ववाहन ३३ गभस्ति हस्त ब्रह्मा इक्कीसनामोंवाला यह स्तोत्र सूर्य को वाञ्छित है ३४ और यह स्तोत्र लक्ष्मी आरोग्यधन वृद्धि और यशको देताहैं और त्रिलोकीमें यह स्तवराज प्रसिद्धहै ३५ हे द्विजश्रेष्ठो जोमनुष्य दोनोंसमयमें इसस्तवराज से सूर्यकी स्तुतिकरते हैं वे सब पापोंसे छूटजातेहैं ३६ और मानसिक वाञ्छिक देहज और कर्मज पाप इस स्तोत्रके एकपाठसे शान्तहोतेहैं ३७ यह स्तवराजही जपहै यही हवन है यही सन्ध्योपासनहै यही बलिमन्त्र

यही अर्घ्यमंत्र है और यही धूपमन्त्र है ३८ अन्नदान स्नान प्राणिपात और प्रदक्षिणामें पूजित किया यह मन्त्र सब पापोंको हरता है ३९ इसलिये हे द्विजो तुम सब बरों और सब कामरूप फलोंके देनेवाले इसस्तोत्रसे सब कामना सिद्धिकरनेवाले सूर्यकी स्तुति करते रहो ४० ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयंभू ऋषिसंवादे सूर्यस्य  
चतुर्विंशतिनामवर्णननाम त्रिंशोऽध्यायः ३० ॥

## इकतीसवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूछा हे भगवन् प्रथम तो आपने सूर्यको निर्गुण शाश्वत और देव कहा फिर बारह रूपांवाला कहा और मैंने सुना १ पर ऐसे तेजका समूह और महाप्रकाशवाला सूर्य स्त्रीके गर्भमें कैसे रहा यह हमको अति संशय है २ ब्रह्माजी बोले कि दक्षके ६० पुत्रियां हुईं तिनमेंसे अदिति दिति दनु विनता इत्यादि तेरह कन्याओंको दक्षने कश्यपके लिये दिया ३ तब तीनों भुवनोंके ईश्वर देवताओंको अदितिने जना दितिने दैत्योंको जना और दनुने दानवोंको जना ४ विनता आदि अन्य स्थावर जङ्गम जगत्को जनती भईं तिनके पुत्र पौत्र दौहित्र आदिकोंसे ५ यह सब जगत् व्याप्त है और सब देवतेभी कश्यपजीके पुत्र हैं ६ सात्विक राजस और तामस तीन प्रकारके गुणभी उसीसे उत्पन्न भये ७ त्रिभुवनका ईश्वर और यज्ञका भोक्ता देवतोंको ब्रह्माजीने कर दिया ८ तब सम्पन्न दैत्य दानव और राक्षस दे-



१८६ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

वताओं को पीड़ा देनेलगे और देवतों और दैत्योंका दारुण युद्धहोनेलगा ९ निदान दिव्य हजारवर्षोंतक घोरयुद्ध होकर देवतोंका पराजयहुआ और अतिबल वाले दैत्य और दानवोंका जयहुआ १० तब पराजित हुये देवतोंकी माता अदिति ११ यज्ञभागोंसे वर्जित और क्षुधासे अतिपीड़ित अपने पुत्रोंको देखकर सूर्य का तपकरनेकेलिये यत्नकरनेलगी १२ अर्थात् अग्नि में हवन करनेवाली निराहार और परमनियममें स्थित अदिति तेजके समूह और आकाशमें स्थित सूर्यकी स्तुति करनेलगी १३ कि हे परमसूक्ष्म आपको नमस्कार है हे अतुलताको धारणकरनेवाले आपको नमस्कार है हे सबोंके स्वामिन् हे सर्वाधार हे शाश्वत आपको नमस्कार है १४ हे गोपते जगत्के उपकार केलिये आपकी मैं स्तुति करतीहों और आपका जो तीक्ष्ण रूप है तिसको नमस्कार है १५ आठमहीनों में नाना-प्रकारके रसोंको धारणकरनेवाला जो आपकारूप है तिसको मैं प्रणाम करतीहूँ १६ और जो दोनों सन्ध्याओंमें रजोगुण और तमोगुण से युक्त और अग्निसोम सहित जो आपकारूप है तिसको मैं प्रणाम करती हूँ १७ मध्याह्नमें ऋक् यजु और सामवेदोंसे जो आपका रूप तपता है तिसविभावसुको मैं प्रणाम करतीहूँ १८ और सबरूपों से परे जो ॐ आपकारूप है और स्थूल अमल और सनातन जो आपकारूप है तिसको मैं प्रणामकरतीहूँ १९ ब्रह्माजी बोले कि ऐसे वह देवी दिन

रात्रि और बे भोजनकिये सूर्य की आराधनाकेलिये स्तुतिकरनेलगी २० तब बहुतकालके उपरांत भगवान् सूर्य अदितिके अगाड़ी प्रत्यक्षप्रगटहुये २१ और तेज के महाकूटमें पृथिवीपर स्थित और किरणोंके समूहसे दुर्दृश सूर्यको अदिति ने देखा २२ और उसे देखकर परमआश्चर्यको प्राप्तहो बोली कि हे गोपते हे जगत् द्योते आप प्रसन्नहो और मैं आपको देखना नहीं चाहती २३ हे दिवाकर कृपाकरो आपकारूप मैंने देखा हे भक्तानुकम्पक हेविभो मेरे पुत्रोंकी आपरक्षाकरो २४ अपने तेजसे प्रकटहुआ तप्ततांबे के समान कान्ति वालाहोकर सूर्यने देखा २५ और प्रणतहुई अदितिको देख सूर्य बोला कि हे अदिति जो तुझको बांछितवर हो वह तू मुझसे ग्रहणकर २६ तब शिरनीचेकिये पृथिवी पर खड़ी अदिति बरकेदेनेवाले सूर्यसे कहनेलगी २७ कि हे देव प्रसन्नहो मेरे पुत्रोंका त्रिभुवनराज्य और यज्ञ भाग अति बलवाले दैत्य दानवोंने छीनलिया है २८ हे गोपते पुत्रों की रक्षा सम्बन्धी प्रसाद मुझपर करो और अपने अंशसे मेरे पुत्रोंकेभ्राता बनकर उनदैत्य दानवों का नाशकरो २९ हे दिवाकर ऐसी कृपाकरो कि मेरेपुत्र फिर त्रिलोकीके राज्यको प्राप्तहोजावें और फिर यज्ञोंका भोजन करनेलगे ३० हे च्युत मेरे पुत्रोंपर कृपा करके प्रसन्नहो और शरणागतकी पीड़ाहरो आपकार्यके कर्ता हैं ३१ तब अपने तेजको बारणकरताहुआ सूर्य अदितिके पुत्रोंपर प्रसन्नहोकर प्रणतहुई अदितिसे कहने

लगा ३२ कि हे अदिति अपने सम्पूर्ण अंशसे मैं तेरे गर्भ  
 में वसूंगा और तेरे पुत्रोंको प्रसन्न कर दैत्योंका नाश करवा-  
 ऊंगा ३३ ऐसे कहकर सूर्य अंतर्धान होगये और वाञ्छित  
 फलको प्राप्त हो अदिति भी तपसे निवृत्त हुई ३४ निदान  
 अदितिके उदरमें सूर्य विप्रावतारसे विख्यात हो प्रा-  
 त्तभये ३५ और सावधान हुई अदिति कृच्छ्र चांद्रायण  
 आदि ब्रतोंको धारण करने लगी क्योंकि उसने विचारा कि  
 मैं दिव्य गर्भको प्राप्त भई हूँ इसलिये मुझे भी पवित्र होना  
 उचित है ३६ तब कुछ कोपको धारण करनेवाले कश्यप  
 जी अदितिसे कहने लगे कि हे त्रिष्ये नित्य प्रति ब्रतोंके  
 करनेसे तू गर्भको न धारण करेगी ३७ अर्थात् तेरे ग-  
 र्भाण्डमें यह बालक मर गया है तब अदिति बोली नहीं  
 मरा है किन्तु दैत्य और दानवोंकी यह मृत्यु करेगा ३८  
 ब्रह्माजीने कहा इस प्रकार अदितिने अपने गर्भसे उस  
 बालकको त्यागा ३९ और जब पतिके वचनसे कोपित हुई  
 अदिति अतिप्रज्वलित गर्भको त्यागती भई तब उदय  
 हुये सूर्यके समान तेजवाले ४० उस गर्भको कश्यप  
 मुनिस्तुति करने लगा जब वह स्तूयमान बालक गर्भा-  
 ण्डसे निकल ४१ कमलके पत्र और सुवर्णके समान कां-  
 तिवाला अपने तेजसे दिशाओंमें व्याप्त हुआ तब भ-  
 सहित कश्यपजीको ४२ आकाशवाणी हुई कि हे मु-  
 अदितिसे तूने कहा था कि यह बालक मृतक हुआ है  
 ४३ इसलिये हे मुने यह मार्तण्डनामसे प्रसिद्ध होगा  
 और यज्ञभागके हरनेवाले दैत्योंको मारेगा ४४ मा-

र्त्तण्ड के जन्मको सुनकर देवता अतिआनन्दित हुये और दैत्य अतिबल देखानेलगे ४५ तब उनदैत्य दानवों को युद्धकेलिये इन्द्र ने बुलाया ४६ और देवता और दैत्योंका ऐसा घोरयुद्धहुआ कि शस्त्र और अस्त्रों की वृष्टिसे तीनों भुवनयुक्त होगये ४७ उस युद्धमें भगवान् मार्त्तण्डने अपने तेजसेदग्धकिये दैत्योंको भस्मकर दिया ४८ और सब देवता अति आनन्दको प्राप्तहो तेजोंके समूहरूपीसूर्य्य और अदितिकी स्तुतिकरनेलगे ४९ निदान सब देवता अपने २ अधिकार और यज्ञ भागोंको पहलेकीतरह प्राप्तहुये और मार्त्तण्डभी अपने अधिकारको प्राप्तहुआ ५० फिर कदम्बके फूलकेसमान ह्रस्व और नीचे ऊपरके किरणोंसे अग्नि के पिण्ड के सदृश सूर्य्य होगया स्फुटरूप शरीरको न धारणकिया ५१ मुनियोंने पूँछा हे भगवन् अति प्रकाशित और कदम्ब गोलककेआकारको सूर्य्य कैसेप्राप्तहुआ हे जगत्पते मुझसे यह आप वर्णनकरो ५२ ब्रह्माजीने कहा विश्वकर्मा प्रजापतिने सूर्य्यको प्रसन्नकरके संज्ञानाम वाली अपनी कन्याको उसेदिया ५३ और उस संज्ञामें श्राद्ध देव मनु यम और यमुना कन्या उत्पन्नभये ५४ पश्चात् बिवस्वान् का श्यामवर्ण देखकर संज्ञा उसको नसहके अपनी छाया सवर्णाको रचतीभई ५५ और यह मायावती छाया अंजलीबांधके संज्ञाकेआगे स्थित हो ५६ कहनेलगी कि हे भामिनि मुझको जो आज्ञाहो करूँ ५७ संज्ञा कहनेलगी कि हे छाये तेरा कल्याणहो

मेरे दोनों पुत्र और यह कन्या तेरे रक्षाके योग्यहै हे  
 छाये भगवान् सूर्यके आगे यह वृत्तान्त न कहना ५८  
 यह सुन छाया कहनेलगी हे देवि तू सुखपूर्वक जा  
 जबतक सूर्य मेरे केशोंको ग्रहण नहींकरेगा और शाप  
 नहीं देगा तबतक मैं नहीं कहूँगी ५९ यह सुन संज्ञा  
 कहनेलगी कि अच्छा ठीक है पश्चात् यह तपस्विनी  
 लज्जितहुई अपने पिता त्वष्टाके यहां गई और पिता  
 झुंकीदेकर कहनेलगा कि तू अपने भर्ताके पासजा ६०  
 ६१ तब यह घोड़ीकारूप धारणकर और उत्तरके कुरु-  
 देशोंमें जाकर वहां तृण चरनेलगी ६२ और आदित्य  
 ने उसको संज्ञाहीजान उसमें मनुके समान पुत्र उत्पन्न  
 किया जो सावर्णिमनु हुआ ६३ और दूसरापुत्र शनै-  
 श्चर हुआ हे मुनिजनो यह संज्ञाके पुत्रोंसे ६४ अपने  
 पुत्रोंमें अधिक स्नेह करनेलगी यह वर्त्ताव मनुने तो  
 सहन किया पर यम नसहसका ६५ और कोपकरके भा-  
 वीकेवश बालभावसे उसे एक लातमारी ६६ छाया यह  
 देख दुःखितहुई और बोली कि अरे तेराचरण टूटजाय  
 ६७ निदान यम छाया के वाक्यों को सुन कांपताहुआ  
 और शापसे उद्विग्रहुआ पिताके आगेजा अंजलिबांध  
 सम्पूर्ण वृत्तांत कहा ६८ और प्रार्थनाकी कि यहमेरा  
 शाप दूरकरो क्योंकि माताको सम्पूर्ण पुत्रोंसे बराबर  
 वर्त्तना उचितहै ६९ पर यह तो हमको छोड़कर छोटों  
 पर मोहकरतीहै इसलिये मैं क्रोधकर बालभाव और  
 मोहसे उसको लातमारने को तैयारहुआ परन्तु मारी

नहीं ७० यह मेरा अपराध क्षमाकरो क्योंकि पूजनीया का मैंने तिरस्कार किया है इसवास्ते यह चरण निःसन्देह गिरपड़ेगा ७१ हे लोकेश माताने मुझको शाप दिया है इसलिये आप दयाकरो कि आपकी कृपासे यह चरण नटूटे ७२ इतनी बात सुन विवस्वान बोला कि यह तो निश्चय होगया क्योंकि तुम धर्मज्ञ और सत्यवादीमें क्रोध उत्पन्न हुआ ७३ और तेरी माताके वचनको अन्यथा करनेको मैं समर्थ नहीं हूँ इसलिये कृमि तेरे पैरसे मांस लेलेकर पृथ्वी पर प्राप्त होवेंगे ७४ और उसके पीछे तू सुखको प्राप्त होगा ७५ यमसे इसप्रकार कह सूर्य भगवान् ब्रह्मासे कहने लगे कि हे प्रिये तुल्य पुत्रोंमें तू न्यूनाधिक स्नेह क्यों करती है ७६ ब्रह्माने यह सुन उसवार्त्ताको गुप्तरख कुछ उत्तर न दिया ७७ तब विवस्वान आत्माको टककर योगसमाधि से सत्य विचारकर तिसका नाश करने को तैयार हुये ७८ और केशपकड़ पँछने लगे तब सम्पूर्ण वृत्तान्त ब्रह्माने कहा ७९ विवस्वान सब वृत्तान्त सुन और क्रोधयुक्त हो उसे दग्ध करने की इच्छा से त्वष्टाके पास गये और त्वष्टा उनका विधिसे पूजन कर ८० और क्रोधको शान्त कर बोला ८१ कि आपका अत्यन्त तेज से यह रूप शोभाको प्राप्त नहीं होता इसलिये आपके तेजको नसहके संज्ञा घोड़ी बनकर हरयालीमें चरती है ८२ वह अशुभ चारिणी नित्य तप करनेवाली और घोड़ीका रूप धारण कर ८३ पत्तोंका भोजन करनेवाली कृश और दीनजटाको धारण किये ब्रह्मचारिणी और

हाथीके शुण्डसे व्याकुलकरी यामिनी के समान अति व्याकुल ८४ और श्लाघा के योग्य योगबल से संयुक्त स्त्रीको तू आज देखेगा हे देवेश जो मेरामत आप योग्य जानो तो ८५ आपके रूपको भी मैं निवृत्त कर देऊं तब तिरछे और ऊंचे रूपसे संयुक्त सूर्य ने ८६ त्वष्टा प्रजापतिके वचनको अच्छीतरह मान ८७ रूप की सिद्धिके वास्ते त्वष्टाको आज्ञादी और त्वष्टा समीप में प्राप्तहो ८८ अनुज्ञात हुआ विश्वकर्मा शाकद्वीप में सूर्य के तेजको यथायोग्य करनेके लिये सावधान हुआ ८९ और जब आमणयन्त्रके द्वारा सूर्यके दुःसह तेजको हटाया तब पृथ्वी आकाश को जानेलगी ९० और ग्रहनक्षत्र तारागणसहित आकाश आक्षिप्त और व्याकुल भया ९१ जलोंवाले सब समुद्र क्षोभित होने लगे शिखरोंवाले पर्वत टूटनेलगे ९२ और हे मुनिसत्तमों ध्रुवरूपी आधारवाले नक्षत्र नीचेको प्राप्त होगये ९३ और भ्रमण से पतित हुये वायुके वेगसे क्षिप्तहुये अति गर्जनेवाले हजारों मेघ वर्षनेलगे ९४ और सूर्य के अधिक तेजको हटानेके समय भूमि आकाश और पाताललोक आदि जगत् व्याकुल होगया ९५ त्रिलोकीं को भ्रमते देख सब देवता ब्रह्माके संग सूर्यके समीप आकर स्तुतिकरनेलगे ९६ कि देवताओंके आप आदि देवहैं यह जगत् ब्रह्मासे उत्पन्न हुआहै पर आप सृष्टि स्थिति और प्रलयकालोंमें तीनि प्रकारसे स्थितहैं ९७ इन्द्र भी यहां आकर देवतोंके संग स्तुति करनेलगे ९८

कि हेदेव हेजगत्स्वामिन् हे अशेष जगत्पते आपस-  
 बौत्कर्षतासे वर्त्ततेरहैं वशिष्ठं अत्रि आदि सप्तऋषिभी  
 तहां प्राप्त होकर ९९ स्वस्ति२ अर्थात् मङ्गल हो हो  
 कहनेलगे और नानाप्रकारके स्तोत्रों से स्तुति करने  
 लगे वेदोक्त ऋचाओंद्वारा बालखिल्य मुनिगण भी  
 स्तुतिकर कहनेलगे १०० कि हे नाथ अग्नि और  
 पवन आपहीहैं मुक्तोंका मोक्षभी आपहीहैं ज्ञानमें श्रेष्ठ  
 भी आपही हैं १०१ और कर्मकाण्ड से वर्जित सब  
 प्राणियों की गति भी आपही हैं हे देवेश हे जगत्पते  
 हम सबोंको कल्याण कारीहो १०२ विपत्तिकालमें ह-  
 मारा कल्याण हो और चार पैरोंवालों से भी हमारा  
 कल्याणहो फिर विद्याधरोंकेगण यक्ष राक्षस और सर्प  
 १०३ अंजलियोंको बांधकर शिरोंके द्वारा पृथिवी में  
 नतहुये १०४ और कहनेलगे कि हे भूतभावन आपका  
 अधिकतेज हमें प्राप्तहो फिर हाहा हूहू नारद तुम्बरु  
 १०५ नामोंवाले और खड़ज मध्यम गान्धार आदि  
 ग्रामोंमें विशारद गन्धर्व गानेलगे १०६ और मूर्खना  
 और तालोंसे सुखको देनेवाली विश्वाची घृताची उ-  
 र्वशी तिलोत्तमा १०७ मैत्रिका सहजन्या रम्भा सरसां-  
 बरा आदि सब अप्सरा नाचने १०८ और भाव हास्य  
 विलासआदि बहुतसे कटाक्षोंको करनेलगीं और बीणा  
 ढोल नक़ारे मृदंग डमरू भेरीआदि हज़ारोंबाजे बजने  
 लगे १०९ और गन्धर्व और अप्सराओंके गणोंके  
 गान और नाच और अनेकप्रकारके बाजोंसे सबजगत्



में कोलाहल होनेलगा ११० निदान अंजलियों को बांधे और भक्ति से नम्रमूर्तिवाले सबदेवों ने लिख्यमान सूर्यको प्रणामकिया १११ पर सब देवोंको समागमरूपी कोलाहलमें विश्वकर्मा तेजको शान्त न कर सका ११२ तब गोड़ोंतक सूर्यका लेखण करदिया ११३ और प्रकाशितसे प्रकाशित रूपको सूर्य प्राप्तहोगया ११४ ऐसे हिमजल और धर्मकाल का कारण और ब्रह्मा विष्णु और शिवसे संस्कृत सूर्यका ध्यानकरे तो आयुके अन्तमें मनुष्य सूर्यके लोकमें बसताहै ११५ हे मुनिसत्तमो ऐसे तो सूर्यका पहिले जन्म हुआहै सो परमरूप मैंने कहदिया ११६ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भुवऋषिसंवादेमार्तरण्ड  
स्वशरीरजन्मकथननामएकत्रिंशोऽध्यायः ३१ ॥

## बत्तीसवां अध्याय ॥

मुनियोंने कहा हे देव फिर सूर्यकी कथा हमारे से कहीं क्योंकि इसशुभकथाको सुननेमें हमारी तृप्ति नहीं होती १ दीप्तरूप महातेजवाले और अग्निके समूहके समान कान्तिवाले सूर्यका ऐसा प्रभाव कहांसे हुआहै यह सुननेकी हम इच्छाकरतेहैं २ ब्रह्माजीबोले अनन्त भूतोंकेलिये नमस्कारहै प्रकृतिकागुण बुद्धि पहले उपजतीहै ३ फिर महाभूतोंका प्रवर्तक अहंकार उपजताहै फिर अग्नि वायु जल आकाश पृथिवी येउपजतेहैं फिर अण्डउपजताहै ४ और फिर उसअण्डमें ये सातोंलोक

प्रतिष्ठितहोतेहैं सातोंद्वीपों और सातोंसमुद्रोंसे पृथिवी  
 आवृत हुईहैं ५ और ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों  
 स्थितहैं सब प्रधान गुण उस ईश्वरका ध्यान करतेहैं  
 ६ प्रथम महातेजवाला और तमोगुणसे उत्पन्न विष्णु  
 प्रकटहुआ तब ध्यानयोगसे हमोंने सबदेवतोंको जाना  
 ७ और पृथक् २ सब प्रकार से भाव्यरूप परमात्मा  
 को जानकर दिव्य स्तुतियों से हम स्तुति करनेलगे  
 कि ८ हे देव देवताओं के आदिदेव आपही हैं और  
 देवदेव भी आपही हैं सर्व भूत देव गन्धर्व और  
 राक्षसका जीवनभी आपहीहैं ९ और मुनि किन्नर सिद्ध  
 सर्प पक्षियोंकेभी जीवन आपही हैं आपही ब्रह्मा हैं  
 आपही महादेवहैं आपही विष्णु और प्रजापति हैं १०  
 और वायु इन्द्र चन्द्रमा सूर्य वरुण आदि नामोंवाले  
 भी आपही हैं आपही कालहैं आपही सृष्टिकेकर्ता हैं  
 और हर्ता धर्ता और प्रभु इननामोंवालेभी आपही हैं  
 ११ नदियां समुद्र पर्वत विजली इन्द्रका धनुष प्रलय  
 प्रभव व्यक्त अव्यक्त सनातन आदि नामोंवाले भी  
 आपहीहैं १२ ईश्वरसे परे विद्याहै विद्यासे परे शिवहैं  
 और शिवसे परे परमेश्वररूपभी आपही हैं १३ सब  
 जगह हाथ और पैरोंवाले और सब जगह नेत्र शिर  
 और मुख इन्हींवाले आपहीहैं हजारों किरणोंवाले और  
 हजारों कन्धोंवाले और हजारों पैरोंवालेदेव आपहीहैं  
 १४ भूः भुवः स्वः महः सत्य तप और जन लोकोंकेरूप  
 भी आपहीहैं और दीप्त दीपन और सेव्य नामोंवाले

१९६ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

भी आपही हैं सब लोकोंको प्रकाशित करनेवाले भी आपही हैं १५ और देवता और इन्द्रको भी जो दुर्निरीक्ष्यरूप आपका है तिसको नमस्कार है वेदविदों के जाननेयोग्य नित्य और सर्वज्ञानसे समन्वित आपको नमस्कार है १६ सब देवताओंके आदि देवरूप आपको नमस्कार है और विश्वको रचनेवाले विश्वभूत १७ और अग्नि आदि देवताओंसे पूजित आपको नमस्कार है १८ विश्वस्थित और अनित्य आपको नमस्कार है १९ और यज्ञ वेद और लोकों से परे और आकाशसे परे परमात्मा नामसे विख्यात आपको नमस्कार है २० कारणकेभी कारणरूप आपको नमस्कार है पापविमोचनरूपी आपको नमस्कार है अदितिकरके वन्दितहुये आपको नमस्कार है और रोगसे छुड़ानेवाले आपको नमस्कार है २१ सब बरोंको देनेवाले आपको नमस्कार है और सबप्रकारके सुखोंको देनेवाले आपको नमस्कार है सबोंको धनके देनेवाले आपको नमस्कार है और सबोंको बुद्धि के देनेवाले आपको नमस्कार है २२ ऐसे स्तुतिकिया और तेजसरूप में स्थित सूर्य सुन्दर वाणीसे बोला कि तुम्हारेलिये कौन वर देना चाहिये २३ देवताबोले आपके तेजसरूपको कोई सह नहीं सक्ता इसलिये हे प्रभो जगत्के हितकेलिये आप ऐसरूप धारणकरो कि सब सहलेवें २४ एवमस्तु कहके लोकोंके कार्यके सिद्धिकेलिये सूर्य गरमी वर्षा और हिमको देनेवालाहुआ २५ निदान सांख्य योगी और

मोक्षकी आकांक्षावाले जन ध्यानियोंके हृदयमें स्थित हुये सूर्य को ध्यानेलगे २६ सब लक्षणोंसे हीन और सब पातकोंसे संयुक्त मनुष्यभी यदि सूर्यके आश्रित हो तो सब पापोंसे छूटजाताहै २७ होम वेद और बहुत दक्षिणाओंवाले यज्ञभी सूर्यकी भक्ति और नमस्कार की षोडशी कलाको नहीं प्राप्तहोसके २८ इसलिये तीर्थोंमें परमतीर्थ मंगलोंमें परममंगल और पवित्रोंमें परमपवित्र सूर्यकी भक्तिके लिये यत्न करो २९ इन्द्र आदि देवताओं द्वारा स्तुति किये सूर्यको जो प्रणाम करतेहैं वे सबपापोंसे मुक्तहुये सूर्यलोकमें बसतेहैं ३० मुनियोंने पूँछा कि हे ब्रह्मन् चिरकालसे हमें सूर्य के अष्टोत्तरशत नामोंको सुननेकी इच्छाहै ३१ ब्रह्माजी बोले अच्छा सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोंको मुझसे सुनो सूर्यका यह स्तोत्र गुह्य है जो स्वर्ग में प्राप्तकरता है औ मोक्षको देताहै ३२ सूर्य अर्यमा भग त्वष्टा पूषा अर्क सवितारवि गभस्ति भानू अज काल मृत्यु धाता प्रभाकर ३३ पृथिवी जल तेज आकाश वायु परायण सोम वृहस्पति शुक्र बुध अंगारक ३४ इन्द्र विवस्वान् दीप्तांश शुचि शौरि शनैश्चर ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्कन्द वैश्रवण यम ३५ वैद्युत जठराग्नि ऐंधन तेज सांपति धर्मध्वज वेदकर्ता वेदांग वेदवाहन ३६ कृत त्रेता द्वापर मलाशय कलि कला काष्ठा मुहूर्त्त क्षया मास आक्षय ३७ सम्बत्सरकर अश्वत्थ कालचक्र विभावसु पुरुष शाश्वत योगी व्यक्त अव्यक्त सनातन ३८ कालाध्यक्ष

प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोतुद वरुण सागर अंश जी-  
मूर्त जीवन अरिहा ३६ भूताश्रय भूतपति सर्वलोक  
नमस्कृत मन सुपर्ण भूतादि शीघ्रग प्राणधारण ४०  
धन्वन्तरि धूमकेतु आदिदेव अदितिसुत द्वादशात्मा  
अरविन्दाक्ष पिता माता पितामह ४१ स्वर्गद्वार प्रजा-  
द्वार मोक्षद्वार त्रिविष्टपदेहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा  
विश्वतोमुख ४२ चराचर आत्मा भूतात्मा मैत्रेय करु-  
णानिधि अमित तेजवाला और कीर्तनके योग्य सूर्य  
के ये नाम हैं ४३ हे द्विजोत्तमो यह नामाष्टशतक मैंने  
तुम्हारे लिये कहा है ४४ देवगण पितर और यक्षों से  
सेवित और दैत्यों को नाशनेवाले लोक बन्धित और  
अग्नि और सुवर्णके समान कांतिवाले सूर्यको जगत  
के हितके लिये मैं प्रणाम करता हूँ ४५ जो समाहित म-  
नुष्य इस स्तोत्रको सूर्योदयकालमें पढ़ेगा वह पुत्र भार्या  
धन और रत्नके समूह पूर्वजन्मके स्मरण सब कालमें  
स्मृति और उत्तम बुद्धि को प्राप्त होगा ४६ देववर सूर्य  
के इस स्तोत्रका बुद्धिमान् और सावधान मनुष्य की-  
र्तन करेगा वह शोकरूप द्वाग्नि के समुद्र से अलग  
होकर मनोवाञ्छित फलोंको प्राप्त होगा ४७ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां स्वयम्भूत्प्रसम्बादे सूर्य-

माहात्म्याष्टशतकं नाम त्रिंशोऽध्यायः ३२ ॥

तेतो हवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि सब अंगोंमें प्राप्त होनेवाले त्रिपु-

रारित्रिलोचन उमाप्रियकर रौद्र और चन्द्रमासे अर्द्ध  
 कृतमस्तकवाले महादेवजीने १ सब देवतों सिद्धों वि-  
 द्याधरों ऋषियों गन्धर्वों यक्षों नागों और समाहित रूप  
 वाले अन्योंका विद्रावणकर २ पहले यज्ञ करतेहुये दक्ष  
 के समृद्धरूप रत्नोंसे आढ्य और सब संभारोंसे संवृत  
 यक्षको नाश किया ३ और जिसके प्रतापसे त्रस्त हुये  
 इन्द्र आदि देवते शांतिको न प्राप्तहो उसीके शरण में  
 गये ४ बरोंको देनेवाले शूलपाणि वृषध्वज पिनाकधारी  
 भगवान् दक्ष यज्ञ विनाशन ५ श्मशानवासी महेश्वर  
 एकाश्रमवासी मुनिश्रेष्ठ सर्वकामप्रद और हरनामवाले  
 महादेवजी सब कामों को देते हैं ६ मुनियोंने पूँछा कि  
 महाराज सब भूतोंके हितमें रत महादेवजीने सब देव-  
 ताओंसे सुशोभित हुये यज्ञको कैसे नाश किया ७ इस  
 आख्यानको हम श्रवण करनेकी इच्छा करते हैं आप  
 वर्णन कीजिये ८ ब्रह्माजी बोले कि दक्षप्रजापतिके साठ  
 कन्या थीं तिन्होंको यथायोग्य पूजकर उत्तमपतियों को  
 दिया ९ एक समय उसने अपने यज्ञमें सब कन्याओं  
 को बुलाया और सब कन्याओंमें बड़ी महादेवकी पत्नी  
 सतीको १० रुद्रके बैरसे न बुलाया ११ जमाई और  
 श्वशुरके इस बैरको जानकरभी बिना बुलाई सती दक्ष  
 के स्थानको गई १२ पर दक्षप्रजापतिने सब कन्याओं  
 को तो अच्छी तरह पूजा परंतु सतीको बातभी न पूँछी  
 १३ तब क्रुद्धहो सती पितासे बोली कि सब कन्याओं  
 से मैं श्रेष्ठहूँ मुझको अच्छी तरह क्यों नहीं पूजते १४

क्या मैं पूजनेके योग्य नहीं हूँ मुझसे आप सबोंका क्या  
 बैरभाव है मेरा तिरस्कार करनेयोग्य आप नहीं हो १५  
 यह सुन रक्तनेत्रोंवाला दक्ष कहनेलगा कि हे सति तु-  
 झसे श्रेष्ठ उत्तम और पूज्य छोटी पुत्रियां हैं १६ जो  
 बहुत मानोंके योग्य और ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ व्रत करनेवाले  
 और महायोगी धार्मिक उनके पति हैं १७ हे सति इन  
 सबोंमें तेरे पति महादेवसे गुणोंकी अधिकता है और  
 वशिष्ठ अत्रि पुलस्त्य पुलह कृतु १८ भृगु मरीचि आदि  
 मेरे जमाई श्रेष्ठ हैं पर महादेव इनसे और मुझसे ईर्ष्या  
 रखता है १९ इसलिये मैं तुझे विशेष भूषित नहीं करता  
 २० ऐसे वचन सुनके क्रुद्ध हो सती पितासे कहनेलगी  
 कि २१ यदि आप नहीं दुष्टरूपवाली मुझको निन्दित  
 करते हैं तो हे तात तेरे यज्ञसे मैं भी बैर करती हूँ २२  
 निदान उस अपमानसे दुःखित हो सतीने ब्रह्माजीको  
 प्रणाम करके कहा २३ कि हे ईश्वर इस देहको त्याग  
 करने पर जहां मेरा जन्म हो तहां मैं महादेवकी ही पत्नी  
 बनूँ अन्यकी नहीं २४ ऐसे कह और महादेवजी का  
 ध्यान कर सतीने अपने आत्मामें आत्मासे अग्नि को  
 धारण किया २५ और वायुसे प्रेरित अग्नि सतीके सब  
 अंगोंसे निकलकर प्रज्वलित हुआ सतीके मरण २६  
 और पिता पुत्रीके सम्बादको सुन महादेवजी दक्ष और  
 मुनिजनोंके ऊपर क्रोधित हो बोले कि २७ हे दक्ष निर-  
 अपराध सतीका तूने अपमान किया और पतियों स-  
 हित अन्य पुत्रियोंका सत्कार किया है २८ इसलिये ये

सब महर्षि और तू दूसरे जन्मको प्राप्तहोगा २९ चाक्षुष मन्वन्तरमें सप्तऋषि जन्म लेवेंगे ३० और दक्षप्रचे-  
ताओंका पुत्र और मनुष्योंका राजा ३१ वृक्षोंकी मा-  
रिषानामवाली पुत्रीमें जन्मेगा ३२ मैं तहां भी दक्षके  
धर्म अर्थ और काम कर्मोंमें विघ्न करूंगा ३३ ऐसे शा-  
पितहो दक्षने बारम्बार महादेवको शापदिया कि ३४  
हे क्रूर तूने जो मेरे कर्तव्यमें ऋषिजनोंको शाप दिया  
है ३५ इसलिये तुझको देवताओंके संग द्विज यज्ञों में  
न पूजेंगे और हे क्रूर तेरे लिये स्वर्गवासी हवन भी न  
करेंगे ३६ तू स्वर्गको त्याग बहुत युगोंतक इसी लोक  
में बसतारहेगा और देवताओं के संग आनन्दित न  
होवेगा अर्थात् अलगही रहेगा ३७ महादेवजी बोले  
कि चार प्रकारके भोजनोंको देवतेनहीं भोगसकते इस-  
लिये देवतासे मैं अलगही भोजन करताहूँ ३८ और  
सब देवताओं का आदि भूलोक है तिसको मैं अपनी  
इच्छासे अकेला धारण कर रहाहूँ तेरी आज्ञासे नहीं ३९  
उसीसे निरन्तर सबलोक बसतेहैं और वहांहीं मैं बसता  
हूँ तेरी अनुज्ञासे नहीं ४० ऐसे अमित तेजवाले महा  
देवने दक्षके यज्ञका नाशकियाहै सब अपने २ शरीरोंको  
त्यागकर उत्पन्नहोवेंगे ४१ परन्तु कश्यपजीकी स्त्री दिति  
नारायणकी लक्ष्मी इन्द्रकी शची ४२ विष्णुकी कीर्त्ति  
सूर्यकी उषा और वशिष्ठकी अरुन्धती कभी अपने  
पतियोंको नहीं त्यागेंगी ४३ निदान प्रचेताओंका पुत्र  
दक्ष महादेवके शापसे चाक्षुष अन्तरमें मारिषामें उत्पन्न



हुआ ४४ और भृगु आदि सब ऋषियोंने भी आद्य त्रेतायुगमें वैवस्वत मनुके जन्म लिये ऐसा मैंने सुना है ४५ दक्ष और महादेव के आपस में ऐसे शापहुये हैं इसलिये बैरीपर कभी दया न करना चाहिये ४६ मुनियोंने पूँछा हे भगवन् दक्षकी पुत्री सती क्रोधवश देहको त्याग फिर हिमाचलकी पुत्री कैसेहुई ४७ और देहान्तरमें वहीदेह कैसे भई महादेवके संग उनका संयोग और महादेव पार्वती का सम्बाद कैसेहुआ ४८ और उस बड़े पर्वतमें स्वयम्बर कैसे बरागया हे जगन्नाथ अति आश्चर्योंसे समन्वित वह विवाह कैसेहुआ ४९ हे ब्रह्मन् यह समग्र वर्णन करनेको आप योग्यहो इसलिये इसपवित्र और मनोहर कथाको सुननेकी हम इच्छा करतेहैं ५० ब्रह्माजी बोले हे मुनिशार्दूलो पापोंको नाशनेवाली इसकथाको श्रवणकरो यह महादेव और पार्वतीका सम्बाद सब कामोंके फलोंको देनेवाला और पवित्रहै ५१ एकसमय पर्वतराज हिमालय द्विपदोंमें श्रेष्ठ कश्यपजीकी पूजाकरके बोला कि ५२ हेमुने इस जगत्में ख्यातिही मुख्यहै इसलिये जिसके पूजन से सत्पुरुषोंमें ख्यातिकी प्राप्तिहो वह करूं यही अभिलाषा मुझकोहै ५३ कश्यपजी बोले हे महाबाहो तेरे ऐसी संतति होवेगी कि जिससे आप ब्रह्माआदि ऋषियोंके संग ख्यातिको प्राप्तहोवेंगे ५४ हे शैलेन्द्र क्या तू नहीं देखता है जो मुझसे पूँछता है हे अचल जो पहले मैंने देखाहै वह तुझसे वर्णनकरताहूँ ५५ काशी

पुरीको गमन करतेहुये मैंने आकाश में संस्थित और देवतोंकेसमान दिव्य और अतिऋद्धिवाला एकविमान देखा ५६ और हे प्रिय उसविमानमें कुछ आर्त्तशब्द मैंने सुना तब मैं उसेज्ञानद जानकर वहांहीं अन्तर्हित होकर स्थितरहा ५७ हेशैलेन्द्र फिर वहां नियमवाला पवित्र और तीर्थोंके अभिषेक से पवित्र आत्मावाला एक तपस्वी विप्र विवरमें संस्थितहुआ ५८ और जिसगर्त्तमें विमानसे पतितहुये पुरुष लटकतेथे उसमें प्रवेश करगया ५९ उसगढ़में उसने जब लटकतेहुये मुनि जनोंको देखा ६० तब उन दुःखित और नीचेको मुख वाले मुनिजनोंसे पूँछनेलगा ६१ कि आपकेसे दुःखित होरहेहो और तुम्हें इसगर्त्तमें किसने डाला ६२ तब वे पितर बोले रेमढ़ हम तुभक्षीण पुण्यवाले के पिता पितामह और प्रपितामह पितर हैं और तेरे दुष्ट कर्मों से दुःखित होरहेहैं ६३ हेमहाभाग गर्तरूपी यह नरकहै और इसमें पड़नेकेलिये हम लम्बायमान होरहेहैं ६४ हे विद् जबतक तू जीवैगा तबतक हम यहां स्थित हैं और जब तेरीमृत्यु होजावैगी तब पापमें चित्तलगाने वाले हम नरक में प्राप्त होजावेंगे ६५ यदि तू बिवाह करके उत्तम संतति उत्पन्न करेगा तो हम इस नरकसे मुक्त होसकें हैं ६६ तप आदि और तीर्थों के फल से हम आनन्दित नहीं होते हे महाबुद्धे अपने पितरोंकी रक्षाकर ६७ निदान पितरोंके वचन को अङ्गीकारकर और महादेवकी आराधनाकर उसने पितरोंका उद्धार

किया और रुद्रके गणभावको प्राप्तहुआ ६८ महादेव  
 के तपसे उस ब्राह्मण को उत्तम संतान प्राप्तहुई ६९  
 इसीतरह हे शैलेन्द्र वर वरणिनी पुत्रीको तू भी उत्पा-  
 दनकर ७० ब्रह्माजीने कहा कश्यपजीके ऐसे वचनोंको  
 सुन हिमवान् पर्वत उग्रतप करनेलगा ७१ और मैंने  
 तपकरतेहुये हिमाचलके समीपजाकेउससे कहा कि ७२  
 हे शैलेन्द्र इसतपसे मैं प्रसन्नहुआ इसलिये तू वाञ्छित  
 फलकोमांग ७३ हिमाचल बोला हे भगवन् जो आप  
 प्रसन्नहुये हो तो मैं एकपुत्र की इच्छा करता हूँ ७४  
 तब पर्वतराजके वचन सुन उसके मनोवाञ्छित वरको  
 मैंनेदिया ७५ और कहा हे सुव्रत इसतपसे तेरी भार्या  
 में एक कन्या उत्पन्न होगी ७६ जिसके प्रतापसे तू  
 सुन्दर कीर्तिको प्राप्तहोगा ७७ देवतों से पूजित और  
 तीर्थोंकी कोटिसे समावृत पवित्र और देवतों को भी  
 पवित्र करनेवाली ७८ सुन्दरकन्या तेरे उत्पन्न होगी  
 ७९ ब्रह्माजी बोले कि समयपर हिमाचल से मेना में  
 अपर्णा एकपर्णा और एकपाटलानाम्नी तीरकन्या  
 उत्पन्नहुई ८० और बड़केपत्र का आहार करनेवाली  
 एकपर्णा पाटला वृक्षकेपत्रका आहार करनेवाली पा-  
 टला और आहारसे वर्जित अपर्णा तीनों कन्यातप  
 करनेलगीं ८१ निदान कईहजारवर्षोंतक वे ऐसा उग्र  
 तपकरतीरहीं जो देवों और दैत्योंसे भी न होसके ८२  
 अन्तमें पाटलाकेपत्रों का पाटला और बड़केपत्रों का  
 एकपर्णा ने आहार किया ८३ पर अपर्णा ने तब भी

भोजन न किया तब स्नेहसे दुःखितहुई उसकी माता  
 ने तिसेवर्जित किया ८४ यह स्थावर जंगम जगत् इन  
 तीन कुमारियों द्वारा प्रलयतक धारणकियाजाताहै ८५  
 योगबलसे अन्वित अति तपसे संयुक्त स्थिर यौवन  
 वाली ८६ ब्रह्मचर्य्यको धारणकरनेवाली त्रिलोकी की  
 माता और अपने तपसे तीनलोकों को प्रकाशित क-  
 रनेवाली ये तीनों होतीभई ८७ इनतीनों में से अपर्णा  
 नामवाली कन्या उमाश्रेष्ठहुई और महायोगके बलसे  
 महादेव को प्राप्तभई ८८ पर्णा और पाटलकण्व और  
 जैगिषव्य मुनियों को व्याहींगई और इन दोनों में से  
 एकमें शंख और लिखितनामक दो पुत्रहुये ८९ तपके  
 योगसे उमा सबलोकोंमें श्रेष्ठ होगई ९० और महा-  
 लक्ष्मीरूप उमासे पूजित हो मैंने उससे कहा कि हे  
 देवि यह तपकरके तू कैसे लोकोंको स्थापित करैगी ९१  
 तूनेही तो यह जगत् रचाहै और इन सब लोकोंको  
 अपने तेजसे तूही धारण कररहीहै ९२ हे जगत् की  
 माता हमपर प्रसन्नहो और वर्णनकर कि तेराप्रार्थित  
 क्याहै देवी बोली हे पितामह जिसकामनाके लिये मैं  
 तप करतीहूँ ९३ तिसको आप जानतेहो मुझसे क्या  
 पूँछतेहो तब मैं बोला कि हे शुभे जिसकेलिये तू तप  
 करती है ९४ वह आप आकर तुझे यहांहीं बरैगा  
 और सब लोकेश्वरों का ईश्वर तेरापति होवेगा ९५  
 हम सब जिसके अगाड़ी स्थित रहते हैं ९६ वह देव-  
 ताओंका देवता परमेश्वर का भी ईश्वर हम सबोंकी

यहांहीं आपको मनोरथसे वरती हूँ ब्रह्माजी बोले कि इतना कह अपने हाथोंमें महादेवके हाथको ग्रहणकर पार्वती स्थितहुई २१ और शम्भुको मध्यमेंकर बोली मैंने आपको बरलियाहै फिर पार्वतीके कर्त्तव्यसे वह देव २२ कहनेलगा कि हे पार्वती जिसवृक्षके नीचे तू स्थितहै यह अतिसुन्दरता को धारणकरैगा २३ अर्थात् इस अशोकवृक्षका पुष्प कामदेवके रूपको धारैगा और मुझको अतिप्रिय लगैगा २४ चारोंतर्फसे सब प्रकारके पुष्प और फलोंसे शोभित सबोंको भक्ष्यदेने वाला और अमृतको भिरानेवाला यहवृक्ष होवेगा २५ और सब देवताओं को अतिप्रिय भयसे रहित सब लोकोंमें श्रेष्ठ और मुनिजनोंसे आवृत तू होवेगी २६ चित्रकूट नामसे विश्रुत तेरे इसआश्रममें जो पुण्यार्थी मनुष्य आगमन करेगा वह अश्वमेधयज्ञ के फलको प्राप्तहोवेगा २७ इसके समीप भी जो मनुष्य मरेगा वह ब्रह्मलोकमें गमनकरेगा और जो मनुष्य नियमोंसे युक्तहुआ इसजगह प्राणियोंको त्यागैगा २८ वह देवी की कृपासे गणोंका स्वामी होवेगा ब्रह्माजी बोले कि उस देवीसे इसप्रकार कहकर २९ अमृतरूप आत्मा वाले और सब भूतोंके ईश्वर महादेवजी चलैगये और पार्वतीने ३० चन्द्रमा सरीखे मुखको धारणकर और गंगामें प्रवेशकर उसदेवहिमें मनको लगाया ३१ परन्तु जैसे चन्द्रमासे रहित रात्रि होतीहै तैसेही उदासहुई पार्वतीने पीड़ित बालकके शब्दको सुना ३२ जोउसी

आश्रमके समीप जलसेपूरित गंगामें क्रीड़ा कर रहा था ३३ फिर क्यादेखा कि उस खेलतेहुये बालकको योग-  
मायाके बलसे ग्राहने ग्रसलिया ३४ तब वह ग्राहग्रस्त  
बालक कहनेलगा कि मेरीरक्षा करनेको कोई समर्थ  
नहीं ३५ मेरे बांछितको धिकारहै जो मैं अपने मनो-  
रथको नहीं प्राप्तहुआ और इसदुरात्मा ग्राहके मुखमें  
मरूंगा ३६ मैं दुःखितहो अपने शरीरको नहीं शोचता  
कि जैसा पिता और तपस्विनी माताको शोचताहूँ ३७  
ग्राहके मुखमें प्राप्तहोनेवाले मुझको मरा सुनतेही मेरे  
प्यारकरनेवाले और एकपुत्रवाले माता पिता प्राणोंको  
त्यागेंगे ३८ बड़ा आश्चर्य्य और कष्ट है जो मैं अकृत  
श्रम बालक तपआदि कर्मोंको करेबिनाही मृत्यु को  
प्राप्तहोताहूँ ३९ ब्रह्माजी बोले कि तब उस पीड़ित  
बालकके वचनको सुन पार्वती वहांगई जहां वह बालक  
ग्राहके मुखमें प्राप्तथा ४० और उस सुन्दर रूपवाले  
बालकको ग्राहके मुखमें स्थितदेखा ४१ ग्राहनेभी देवी  
को देख उस बालकको पकड़लिया परन्तु उस बालकने  
आर्त्तशब्द न किया ४२ तब महाव्रतको धारनेवाली  
और दुःखसेपीड़ित पार्वती उसबालकको देखकर कहने  
लगी ४३ कि हे ग्राहराज हे महासत्त्व हे भीमपराक्रम  
इस बालकको तू छोड़दे ४४ ग्राहबोला हे देवि दिनमें  
जो प्रथम मुझको प्राप्तहोताहै तिसको मैं ग्रहण करता  
हूँ और लोक के कर्त्ता ने मेरे लिये मांस का भोजन  
विहितकियाहै ४५ इसकारण हे पार्वती यह तो मुझको

छःदिनोंमें मिलाहै और ब्रह्माके विहितकिये इसभोजन को मैं कैसे त्यागूं ४६ देवीने कहा कि मैंने जो हिमाचल के पृष्ठभागमें तपकियाहै तिसके मिस इस बालक को छोड़दे हे ग्राहराज तुझको नमस्कारहै ४७ ग्राह बोला हे बाले हे शुभानने तू इसके बदलेमें क्यों तपकोदेतीहै हे सुरश्रेष्ठे इसबालकको मैं न छोड़ूंगा ४८ देवीने कहा हे महाग्राह जिसकर्मको सत्पुरुष नहीं करते वहीकर्म तूने किया इसमेंसंशय नहीं ४९ ग्राहबोला कि हेपार्वती तूने अल्प या बहुत जो कुछ तप कियाहै उस सम्पूर्ण तपको मेरेलियेदे तो बालक छूटसक्ताहै ५० देवीबोली हे महाग्राह जन्मसे जो मैंने तप कियाहै वह सब तेरे लिये मैंने दिया अब इसबालकको छोड़ ५१ ब्रह्माजी ने कहा कि उसतपके फलसे विहितहो वह महाग्राह मध्याह्न के सूर्यकीतरह प्रकाशित होगया ५२ और पार्वती से कहनेलगा कि हे देवि तूने यह क्याकिया ५३ कि जिसतपके संचयमें बहुत दुःखसहा तिसको त्याग दिया यह अच्छा नहीं इसलिये हे सुमध्यमे मैं कहता हूँ कि इसको तूही ग्रहणकर ५४ हे देवि तुझपर मैं प्रसन्नहूँ और इसबालककी भक्तिसे मैं इसेउलटा देताहूँ ग्राह के यह वचनसुन पार्वती बोली ५५ कि हे महाग्राह तू ने बालक को छोड़दिया यह मैंने जाना परन्तु ब्राह्मणों से तप श्रेष्ठ नहीं है इसलिये मैं ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानती हूँ ५६ हे ग्राहेन्द्र दान देकर मैं फिर ग्रहण नहीं करती क्योंकि धर्मज्ञ मनुष्य दान देकर

फिर उलटा ग्रहण नहीं करते हैं ५७ इसलिये मैंने तुम्हको-  
ही दे दिया फिर कैसे ग्रहण करूँ तेरा यही उत्तम बर है कि  
इस बालकको छोड़ना उचित है ५८ निदान पार्वतीकी  
प्रशंसाकर और बालक को छोड़ वह ग्राह उसी जगह  
अन्तर्धान होगया ५९ और तीरपर छोड़ा हुआ बालक  
भी स्वप्न लब्ध मनोरथकी तरह उसी जगह अन्तर्हित  
हुआ ६० और पार्वती अपने तपका क्षय जान फिर  
नियमोंमें स्थित हो तप करने लगी ६१ तप करती पार्वती  
को देख महादेवजी आकर बोले कि तप मत कर ६२ हे  
देवि जो तूने तपका दान किया है तिसीसे तेरा तप हजार  
गुना होगया है ६३ ऐसे अक्षय तपके बरको प्राप्त हो पा-  
र्वती स्वयम्बरको देखती हुई तहांही स्थित रही ६४ जो  
मनुष्य इस आख्यानका पाठ करता है वह इस शरीर  
को त्यागकर गणपति के शरीरके तुल्य पराक्रमवाला  
हो जाता है ६५ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां पार्वती महादेवसम्बादे

चतुःत्रिंशोऽध्यायः ३४ ॥

## पैंतीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले सैकड़ों विमानों से संकुल और वि-  
स्तृत हिमवान्के पृष्ठपर समयपाकर पार्वती का स्वयं-  
म्बर हुआ १ ध्यानमें तत्पर हिमवान् पर्वत ने अपनी  
पुत्रीको महादेवसे अभिमन्त्रितकी २ जानकर भी आ-  
चारलक्षण की बांझासे पार्वती के स्वयम्बर को सब



लोकोंमें विख्यातकिया और हृदयसे ऐसा चिन्तनाकर  
 ३ कि जब देव दानव और सिद्ध सब लोकनिवासी म-  
 नुष्यों को वर देनेवाले महादेव प्रत्यक्ष आगमन करेंगे  
 ४ तब उनकेलिये उमादीजावेगी ५ निदान ब्रह्मलोक  
 तक इसस्वयम्बरको प्रकाशितकर रत्नोंसे युक्त उसने  
 स्वयम्बरदेश को सजाया ६ हिमाचलकी पुत्रीका स्व-  
 यम्बर सुनकर सब लोकोंमें बसनेवाले और दिव्यवेषों  
 को धारण करनेवाले देवते आनेलगे ७ प्रथम फूलेहुये  
 कमलोंके आसनमें स्थित सिद्ध और योगियोंसे परि-  
 वृत और देवताओंसे उपेक्षित मैं ब्रह्मा वहां प्राप्तहुआ  
 ८ फिर हजार नेत्रोंवाला और दिव्य अंगके भूषणोंको  
 धारण कियेहुये ९ हाथियोंमें उत्तम और मद भिराते  
 हुये ऐरावत हस्तीपर स्थित और बज्रको धारण किये  
 इन्द्र आये १० फिर देवताओंके तेजके प्रभावसे अ-  
 धिक रूपवाले और सब दिशाओंको प्रकाशित करने  
 वाले सूर्य सुन्दर विमानमें स्थित और छत्रको धारण  
 कियेहुये वहां आये ११ और महा पर्वतके समान ऊंचा  
 और पुष्ट शरीरवाला विचित्र रत्नोंसे जटित वेषवाला  
 और सब जगत्को पोषणवाला वायुदेवताभी विमान  
 में स्थितहो वहां आया १२ देवतों और दैत्यों को सं-  
 तापित करताहुआ और तेजमें अधिक सुन्दर वेषको  
 धारण करनेवाला अग्निदेव भी वहां देवतों के मध्यमें  
 स्थित हुआ १३ और अनेकप्रकारकी मणियों और  
 प्रज्वलित पृष्ठिको धारण करनेवाला कुबेर दिव्य वि-

मानमें स्थितहो वहां आया १४ देवतों और दैत्योंको पुष्ट करता हुआ और कांति और शीतलतासे सुन्दर रूपवाला चन्द्रमा भी महारत्नोंसे चित्रितरूप विमान में स्थितहो वहां आया १५ और श्याम अंग और पृष्ठि वाला विचित्र वेषको धारे और सब अंगोंमें सुगन्धित पुष्पोंकी मालाओं को धारण किये बड़े पर्वतके समान गरुड़पर स्थित विष्णुभी वहां आये १६ प्रज्वलित और सुन्दर वेषको धारण करनेवाले देवताओंमें श्रेष्ठ और देवताओं के वैद्य दोनों अश्विनीकुमार भी प्रज्वलित विमानमें स्थित होकर वहां आये १७ और हजारों प्रकारसे फुरते हुये अग्निके समान जटाओं को धारण करनेवाले और प्रज्वलित सूर्यके समान तेजवाले महादेवभी बहुतसे सर्पोंके संगे विमान में स्थित होकर आये १८ अग्नि सूर्य चन्द्रमा और वायुके समान प्रकाशितरूप और वेषको धारणकर बहुतसे देवता वहां आये १९ और गन्धर्वोंका राजा दिव्य विमानमें विचरनेवाला विश्वावसु भी इन्द्रकी आज्ञा से गन्धर्वों के समूह और अप्सराओंके संगे आया २० नानाप्रकार के अलग २ विचित्ररूपोंको धारण करनेवाले अन्यदेवता और गन्धर्व किन्नर राक्षस सर्प सब विमानोंमें बैठ कर वहां आये २१ निदान राजाओंका अधिराज अधिक लक्ष्य मूर्तिवाला और आज्ञा ऐश्वर्य्य और बल से आनन्दित इन्द्रने पार्वतीको अधिकवेष धारणकराने की आज्ञादी २२ तब समस्त जगत्को उत्पन्न करनेमें

कारण देवतों और दैत्योंकी माता महादेवकी पत्नी जो पहले पुराणमें प्रकृतिनामसे विख्यात २३ और दक्षके कोपसे हिमाचल के गृहमें जन्म लेनेवाली देवतों के कार्यको करनेवाली मणि और सुवर्णसे गुप्त विमानमें स्थित और देवतोंसे वीजित अंगोंवाली २४ पार्वती सबप्रकारके पुष्पोंकी मालाको ग्रहणकर स्थितहुई ब्रह्माजीबोले कि जब इन्द्रआदि सब देवता अपने आसनोंपर स्थितहुये तब पार्वती मालाकोले सभामें आई २५ तब देवी की जिज्ञासा से पहलेही पंचशिखाओंवाला पवित्र बालक होकर महादेव व पार्वतीके समीप प्राप्तहुआ २६ और उसको देख और जानकर प्रीतिसे संयुक्तहो २७ तपसे पूर्णसंकल्पवाली पार्वती उसविभुको देखकरभी निवृत्तहुईसी स्थित रहीं २८ देवीके समीपवती उस बालकको देखकर देवता कहनेलगे कि यह कौनहै और उसेदेखकर सब मोहितहुये २९ इन्द्रबाहुको उठा बज्रको फेंकनेलगा तो उसका बाहु स्तम्भित होगया ३० फिर भगवान्से विख्यात और कश्यपका पुत्र बली सूर्य दीप्तरूप शस्त्रको उठा मोहितहो फेंकने लगा ३१ तब शिरको कँपाताहुआ देव उस बालकके सन्मुख देखनेलगा और महादेव ने उसके बल तेज योग सबोंको स्तम्भित करदिया ३२ जब अति क्रोधवाले सब देवता स्तम्भित होगये तब परम संविग्नहो मैंने उसके चरणोंका ध्यानकिया ३३ तब मैंने जाना कि पार्वतीकेसंग महादेवजी स्थितहोरहे हैं ऐसे जान-

कर मैंने उसके समीपजा ३४ शम्भुके दोनों चरणों में नमस्कारकिया और पुराणों और सामवेद के गुह्यनामों से उसकी स्तुति करने लगा ३५ कि हे देव अजभी आपही हैं और अमरभी आपही हैं श्रद्धा यक्ष परावर प्रधान पुरुष ब्रह्म ध्येय तदक्षर आदि नामोंवाले भी आपही हैं ३६ और अमृत परमानन्द ईश्वर कारण महद्ब्रह्म श्रिक प्रकृति स्रष्टा सर्वकृत्य रत आदि नामोंवाले भी आपही हैं ३७ हे देव सब कालमें सृष्टिका कारण रूप यह आपकी प्रकृति है जो पत्नीरूपको प्राप्त होकर यहां प्राप्त हो रही है ३८ हे ईशान आपको सदा नमस्कार हो और इस देवीको सदा नमस्कार हो हे देव आपके प्रसाद और योगसे इस पार्वतीने ३९ यह सब देव आदि प्रजाके जीवरचे हैं और आपकी योगमायासे ये मोहित हो रहे हैं इसलिये इनपर प्रसाद करो कि पहले की तरह ये फिर हो जावें ४० हे विप्रो मैंने ऐसे उस ईश्वरको जान तिसके समीप इस प्रकार कहा ४१ पर मूढ़हुये सब देवतोंने इस महादेवको न जाना तब मैंने उनसे कहा हे देवतो इस महादेव की शरणमें जल्द प्राप्त हो ४२ भवानीके संग परमात्मा और अव्यय महादेवजी स्थित हैं उन स्तम्भितहुये देवतोंने मेरे वचनको मान ४३ मन और शुद्धचित्तसे उस महादेवको प्रणाम किया ४४ और उन सबोंपर प्रसन्न हो महादेवजीने पहले की तरह उन देवताओंके शरीरको कर दिया ४५ ऐसे जब सब देवताओं का दुःख निवारण कर महादेव ने

क्षमाकरके अद्भुतरूप धारणकिया ४६ जिसके तेजसे ध्वस्तहो सबोंके परमचक्षु खुल गये और महादेव को अच्छीतरह देखकर ४७ इन्द्रआदि सबदेवतोंने प्रणाम किया ४८ तब प्रसन्नहो देवीने सब देवतोंके सन्मुख उन अमलद्युतिवाले महादेव के पैरोंमें माला चढ़ाई ४९ और साधु २ कहतेहुये देवतों ने पार्वती सहित महादेव को पृथिवी में शिरोंको झुकाकर प्रणामकिया ५० उसी अन्तरमें मैंने देवताओं के संगमें महाद्युति वाले हिमाचल से कहा ५१ कि हे शैलेन्द्र अब तू श्लाघा पूजा और बन्दनाके योग्य सबोंसे महानूहोगया क्योंकि अब महादेवसे तेरासम्बन्धहुआ है ५२ अब शीघ्र विवाह होना चाहिये तब हिमाचल प्रणाम कर मुझसे कहनेलगा ५३ कि मेरे भाग्यका जो उदय हुआ है इसमें आपही कारणहो इससे मुझपर प्रसन्न हो ५४ हे पितामह विवाहके लिये यथायोग्य सब सामान इकट्ठे किये हैं ५५ हिमाचलके ऐसे वचन सुनकर मैंभी अनेक प्रकारकी तय्यारी करनेलगा ५६ और हे बिप्रो उसी क्षण हमने महादेवके विवाहके लिये ५७ नानाप्रकारके रत्नोंसे उपशोभित और रत्न मणि सुवर्ण मोती ५८ आदिसे पुरको रचकर अलंकृत किया ५९ मरकतमणियोंसे चित्रित और सोनेके स्तंभोंसे शोभित तांवा और स्फटिककी भीतों और मोतियोंके हारों से प्रलंबित ६० महादेवके विवाहके लिये स्थान रचागया और ऐसा शोभित होनेलगा जैसे इन्द्रका पुर ६१ मणि

चन्द्रमाँ और सूर्यके समान प्रकाश करनेलगी और सुगन्धित और मनोरम गन्धको ग्रहणकर पवन चलने लगा ६२ अर्थात् महादेवके लिये अपनी भक्तिको दिखाकर सुख स्पर्शरूप पवन चलने लगा और चारों समुद्र इन्द्र आदि सब देवते ६३ देवनदी महानदी मंत्र ध्यान गन्धर्व अप्सरा गण सर्प यक्ष राक्षस ६४ किन्नर देव चारण तुम्बुरु नारद हाहा हूहू ६५ सब नानाप्रकारके रत्न और बाजोंको यथायोग्य ग्रहणकर वहाँ आये ६६ वेद गीता और तपमें तत्पर ऋषि मुनि सब वैवाहिक मंत्रोंको जपनेलगे ६७ और सब मातृगण और सब देवताओंकी कन्या आनन्दितहो महादेवके विवाहमें गान करनेलगीं ६८ छहों ऋतु गन्ध और सुखको देनेवाले सब पवन शरीरों को धारण करके महादेवके विवाहमें स्थितहुये ६९ नीले मेघके समान काँतिवाले और मंत्र आदिसे आनन्दित शब्द करतेहुये मयूरगण नाचनेलगे ७० और पृथ्वी अनेक प्रकारके विमान और विजलियोंसे शोभित पीत श्वेत पुष्पों के समान वर्णोंवाली बलाकाओंसे अलंकृत अनेक प्रकारके वृक्षलता और सुन्दरजलकी धाराओंसे शोभित समयपर उद्धत मनोवाली और मोर आदिके समान बाणी बोलनेवाली स्त्रियों के शब्दोंसे शब्दित मेघोंके समूहों और इन्द्रके धनुष से अति विराजित विचित्र पुष्पोंके रसकी सुगन्ध से सुगन्धित होगई मनोहर पवनोंसे काँपती हुई देवताओंकी अंगनाओंकी अलकावली

२१८ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

में उनका मुख ऐसा शोभायमान होताथा मानों मेघ  
में स्थित चन्द्रमा बंदलों से उत्सिक्कहो प्रतिविम्बको  
धारणकर रहाहै ७१ । ७६ जहां तहां पांथ पुरुषों की  
स्त्रियें उनस्त्रियों को देखरही थीं ७७ हंस और नूपुरके  
शब्दों से युक्त समुन्नतस्तनोंवाली रसवाले पुष्प और  
वेणिसे शोभित सम्पूर्ण अंगोंवाली ७८ मेघोंसे निर्मुक्त  
और कमलके कोषके समानस्तनोंवाली सुवर्णके नूपुरों  
से निर्हादित शरत्कालके चन्द्रमाकेसमान दिगंतरो  
वाली विस्तृत पुलिन और श्रोणीवाली बोलतेहुये सा-  
रसोंकी मेखलावाली गीलेकमलोंके समान श्याम और  
सुन्दरनेत्रों से मनोहर सुन्दर ओष्ठोंवाली कुन्दकेदण्ड  
के समान प्रहासवाली नवीन नीलेकमलों के समान  
श्याम और कुन्दपुष्पों की पंक्तियों से परिस्कृत और  
चन्द्रमाकी शीतलता के वर्षनेसे कठोररूप स्तनोंकरके  
शोभित और सब देवताओंकी स्त्रियोंको आनन्दितकर-  
नेवाली मदवाले भ्रमरोंके समूहसे मधुरस्वरको बोल-  
नेवाली चलायमान और सुन्दर कुण्डलों से शोभित  
और रक्तअशोककीशाखाके पत्तोंकेसमान अँगुलियों  
को धारणकरनेवाली लालअशोकके पुष्पोंकेसंचयरूपी  
बस्त्रों को धारण करनेवाली और रक्तकमलके समान  
वर्णवाली जातिकेपुष्पों के समाननखोंकी पंक्तियोंवाली  
केलाकेस्तम्भोंके समान भीरु और चन्द्रमारूप बलय  
वाली सब लक्षणों से सम्पन्न और सब गहनों से भ-  
षित शरदऋतु के समान मनोहर और सैकड़ों मेघोंके-

समान आडम्बरवाली पूर्ण चन्द्रमाकेसमान मुखवाली और नीलेकमलकेसमान नेत्रोंवाली सूर्यकी किरणोंके समान पद्मासनवाली और अनेक पुष्पोंकी रजसे सुगन्धित बनको आनन्दित करनेवाली और बोलतेहुये हंसोंके समान नूपुरोंके शब्दोंवाली अनेक स्त्रियांपार्वती के विवाहमें आईं ७९ । ८८ अति शीतल जलसेदशों दिशाओं को छवन करतेहुये हेमन्त और शिशिरऋतु भी आये ८९ और वह पर्वत उन ऋतुओंसे शोभित होगया और शिशिरऋतु तथा वर्षाऋतुकी शोभा हिमालयपर्वत परहुई ९० अगाधजलसे समुद्रकी और अम्बरकी एकसी शोभाहोगई और वह पर्वतभी ऋतु के पर्यायको प्राप्तहोगया ९१ जैसे श्रेष्ठ उपकारकरने से दुर्जनकी शोभाहोजातीहै तैसेही तिस पर्वतके शिखरोंकी अति शोभाहोगई ९२ वह पर्वत पीलेवर्णकी पृथ्वी से अति शोभित होगया ९३ और देवताओंकी स्त्रियोंके मनमें कामदेव को पैदाकरनेवाला वायुचलने लगा कमलनी पुष्पोंसे युक्तहोगई ९४ कुछ कटे २ बादल अति शोभितभये और शीतोष्णसे रहित साधारण तलावोंकाजल कमलकी केशरों से अति शोभित हुआ ९५ अनेक देवताओं की अंगना वहां शोभा देखनेको आईं ९६ प्रियंगुवृक्ष आँब मालकांगनी इत्यादिक आपसमें हिलतेहुये अपनी २ मंजरियोंसे शोभाको प्राप्तभये ९७ और हिमवान् पर्वत से गिरेहुये शृंगोंने अपने कार्यके उद्देशलेके हाथी मदके पानी को भिरने



लगे जैसे वृक्षोंसे मदभिरताहो ९८ फूलीहुई शोकवृक्ष  
की लता पर्वतके शिखरोंपर ऐसे शोभितभई जैसे का-  
मिनी अपने पतियों के कण्ठमें लम्बितहोरही हों ९९  
इसमें आँव कदम्ब नीपसंज्ञककदम्ब ताड़वृक्ष तमाल  
कैथ अशोक सर्जवृक्ष अर्जुन कोविदारवृक्ष पुन्नाग-  
वृक्ष नागेश्वर कर्णिकार १०० लवंग कालागुरु सातला  
बड़ सहोंजना नारियल आदिवृक्ष और फलपुष्पवाले  
अन्य अनेक वृक्ष मनोहर दीखनेलगे १०१ श्रेष्ठजल  
से पूरित जलाशय चक्रांड कारण्डव हंसआदि जीवों  
से सेवित और बगुलाओंकी पंक्तियों से युक्त हो रहेथे  
१०२ और नीलेकमल और पद्मसरीखे तथा और अ-  
नेक और विचित्र पंखोंवाले पक्षी अनेक प्रकारके वृक्षों  
में बिचररहेथे १०३ और क्रीडामें प्रयुक्तहुये कामदेव  
से मत्तशब्द कररहे थे १०४ निदान उसपर्वत में और  
पार्वतीजीके विवाहमें शीतलवायु चलनेलगा और सु-  
न्दरपुष्पोंको गिराताहुआ हौले २ पर्वत को स्पर्श क-  
रता बहनेलगा १०५ सब ऋतुमिलीहुई प्रकाशितभई  
और जो २ चिह्न जिस ऋतुके हैं वे सब मनोहर दीख-  
नेलगे १०६ परस्पर अभिमानवाले पुष्प नीले और  
सपेद कमलोंसे युक्तहुये शोभित होनेलगे १०७ और  
अमरोंके भुण्डके भुण्ड भुक विस्तीर्ण जलस्थानोंमें  
कमलोंकी शोभाहोनेलगी १०८ तलावोंमें सब और  
कमलों की नालें फैलगई और कमलों के पत्तोंसे भू-  
षितहुई बावड़ी अति रमणीक होगई १०९ अनेक प्र-

कार के पक्षियों से संघुष्ट उसपर्वतके शिखर फूलेहुये  
 कर्णिकार वृक्षोंसे अधिक शोभितहुये ११० जिनपर पक्षी  
 शब्द करनेलगे और पाटलाके पीले पुष्प खिलगये  
 १११ सबदिशा तिसपर्वतकी शोभासे मूर्तिमान् होगई  
 और कालेमृगके समाननील अशोककेवृक्ष ११२ तिस  
 पर्वतमें आपसमें बढेहुये शोभितहुये और केशूकेवृक्षों  
 के बनोंकी अति शोभाहुई ११३ तमालपत्रोंसे उस हि-  
 मवान् पर्वतकी ऐसी शोभाहुई जैसे नीलेमेघोंके समूह  
 से संध्याकी शोभाहोतीहै ११४ श्रेष्ठ विशाल और ऊंचे  
 चन्दनकेवृक्ष तथा चम्पेके वृक्षों और कोकिलाओं के  
 शब्दोंसे वह पर्वत अति शोभितभया ११५ और मदे  
 वाले कोकिलाओं के शब्दों को सुनकर देवताओं की  
 स्त्रियों के मनमें कामदेवका प्रादुर्भावभया ११६ निदान  
 हिमाचल पर्वत बहुत से पुष्पोंवाले वृक्षोंसे अति शो-  
 भितभया ११७ और सुन्दर और मज्जको हरनेवाला  
 वायु पाटला कदम्ब और अर्जुनवृक्षोंकी गन्धकोलिये  
 बहनेलगा ११८ फूलेहुये कमलों से रक्तवर्णवाली बा-  
 वडियोंकी अति शोभाभई और उनकेतटके ऊपर शब्द  
 करतेहुये हंसोंकी पंक्ति दृष्टिगोचर होनेलगी ११९ उस  
 पर्वतके सब शृंगोंपर भ्रमरों की पंक्ति बकुलवृक्षों को  
 सेवन करनेलगी और वे सब वृक्ष सुन्दर पुष्पोंसे प्र-  
 फुल्लित होगये १२० निदान सब वृक्ष पुष्पों से चि-  
 त्रितहो अनेक प्रकारकेपक्षी उनपर बासकरनेलगे १२१  
 इसप्रकार उसशोभित कालमें जब सब इकट्ठेहुये तब

अनेक प्रकारके बाजों से युक्त ब्राह्मण १२२ आके पार्वती को विवाह के लिये गहनों से भूषितकर पुरमें ले गये १२३ ब्रह्माजी बोले कि पश्चात् मैंने शिवजी से यह कहा कि अब मैं उपाध्यान पदमें स्थितहो अग्निमें घृत को होमताहूँ १२४ इसलिये मुझे आज्ञा दीजिये कि मुझको अब क्या कर्त्तव्य है यह सुनके देव देव जगत्पति शंकरने मुझसे कहा १२५ कि हे सुरेशान आप अपनी इच्छापूर्वक कर्मकरो और हे ब्रह्मन् हे जगद्विभो मैं आपके वचन को मानूंगा १२६ तब मैंने जल्द कुशाओं को ले शिव और पार्वती के हाथों को योगबंधनसे बांधा १२७ अग्निदेव मूर्त्तिमानहो अंजली बांधके स्थितहुआ और मूर्त्तिमान वेदके महामंत्रोंसे १२८ यथोक्तविधि से होमेहुये घृतका भोजन किया पश्चात् ब्रह्माजीने प्रकाशित हुये अग्निकी प्रदक्षिणा शिवजी को करवाके १२९ प्रकृष्ट अंतरात्मासे शिव और पार्वती का हस्त बंधन छुटाया १३० जब शिवजी का विवाह काल होगया तब सब देवते और ब्राह्मण शिवजी को प्रणाम करने लगे १३१ पर शिवजीके विवाहके वृत्तांत को किसीने अच्छीतरह न जाना हे मुनिजनो यह सब स्वयंवर का आख्यान और महादेव का विवाह तुम्हें सुनादिया १३२ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूत्पत्तिसंवादे उमा

शंकरविवाहनामपंचत्रिंशत्तमोऽध्यायः ३५ ॥

## कृत्तीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी ने कहा कि इसप्रकार अतुल पराक्रमवाले शिवजीका जब विवाह प्रवृत्त हुआ तब इंद्र आदिक देवते अतुल हर्षको प्राप्त हुये १ और बांछित वाणियोंसे शिवको प्रणामकर कहने लगे कि हे पर्वतलिंग और पार्वतीश आपको नमस्कार है २ पवन सरीखे वेगवाले विरूप अजित क्लेशके नाशक और शुभसम्पदा के देने वाले आपको नमस्कार है ३ नील शिखण्ड और अम्बिकाकेपति आपको नमस्कार है और पवनरूप और शतरूप आपको नमस्कार है ४ भैरवरूप विरूपनयन और हजारनेत्रों और हजार चरणोंवाले आपको नमस्कार है ५ वेद वेदांगरूपी आप त्रिलोकीकेनाथ और पशुलोक में रतको नमस्कार है ६ पीड़ाको हरनेवाले यज्ञके शिरके नाश करनेवाले और सब क्लेशको हरनेवाले आपको नमस्कार है ७ इन्द्रका विष्टंभ करनेवाले श्रेष्ठ तथा नेष्ठ सब पुरुषोंके अधिपति और शम्भनरूप आपको नमस्कार है ८ जलाशयमें लिंगवाले युगका अन्त करनेवाले कपालकी मालाको धारण करनेवाले और कपालसूत्रको धारण करनेवाले आपको नमस्कार है ९ दंष्ट्री गदी और भगदेवताके नेत्रको गिरानेवाले और पृषाके दांतोंको हरनेवाले आपको नमस्कार है १० और पिनाक शूल खड्ग मुद्गरको धारण करनेवाले और अमलरूप आपको नमस्कार है ११ कालको नाश

करनेवाले पर्वतमें वास करनेवाले और सुवर्णकी बेत वाले और कुण्डलोंको धारण करनेवाले आपको नमस्कार है १२ योगियोंमें गुरुरूप और चन्द्रमा सूर्यरूपी नेत्रोंवाले और मस्तकमें नेत्रवाले आपको नमस्कार है १३ श्मशानके पति और श्मशान में वरको देनेवाले देवताओंके पति और असुररूप आपको नमस्कार है १४ सैकड़ों विजलियोंके तेजकेसमान हासवाले और पार्वतीकेपति साधुरूप जटिल और ब्रह्मचारी आपको नमस्कार है १५ वृषभमुण्ड और पशुके पति और जल में स्थित होनेवाले और योग ऐश्वर्यके देनेवाले आपको नमस्कार है १६ शान्त सूक्ष्म प्रलय और उत्पत्तिकारी अनुग्रह कर्ता और स्थिति कर्ता आपको नमस्कार है १७ रुद्र वसु आदित्य अश्विनीकुमाररूप साध्यदेव और विश्वदेव आपको नमस्कार है १८ आपशर्व उग्र शिव वर देनेवाले और भीमरूप सेनाके पति और पशुपतिको नमस्कार है १९ महादेव चित्र बिचित्र प्रधान प्रमेय और कार्य कारणरूप पुरुषरूप २० पुत्रकी इच्छा करनेवाले और पुरुष संयोगसे प्रधान गुणकारी आपको नमस्कार है २१ सर्वदा पुरुष और माया को प्रवृत्त करनेवाले कृताऽकृतके कर्ता और फलयोग के कर्ता आपको नमस्कार है २२ कालज्ञ सर्वत्र नियमकारी गुणों को विषम करनेवाले और वृत्ति को देनेवाले आपको नमस्कार है २३ हे देवदेवेश हे भूतभाविन हे प्रभो आप को नमस्कार है हमारा कल्याण करो २४

इस प्रकार वह उमापति और जगत्पति देवस्तुत हुआ देवताओं से बोला २५ कि हे देवतो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ आपको जो चाहिये सो वरमांगो मैं देऊंगा इसमें संदेह नहीं २६ तब वे सब देवते नम्रहोके शिवजीसे कहनेलगे कि हमको आप यह वर दें २७ कि जब हमको कुछ कार्यहो तब हमको इच्छित फलमिले ऐसेही होगा कहके और उन देवताओंको विदा करके २८ शिवजी महाराज अपने गणों समेत बनको चले गये २९ जो पुरुष शिवके इस उत्सवका गान करेगा वह गणेशजीके समान देहको प्राप्तहो सुन्दर बुद्धिवाला होवेगा ३० जो कोई ब्राह्मण इस स्तोत्रको सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह सर्वलोकोंमें प्राप्त होनेवाला पुरुष देवताओंसे पूजित होवेगा ३१ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भूत्पिसंवादे

सदाशिवस्तुतिनामषट्त्रिंशोऽध्यायः ३६ ॥

## सैंतीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि जब शिवजी बनको गये और इन्द्र अपने स्थानको चले गये तब क्रूर कामदेवने महादेवको बशमें करनेकी इच्छाकी १ और उस दुरात्मा कुलाधम और सब मनुष्यों को कँपानेवाले ऋषियों को विघ्न करनेवाले और व्रतोंसहित नियमान और बक्रांजयरूप रत्तीकेसंग आयेहुये कामदेव को देख २ । ३ वह सुरेश्वर शिवजी जानने की इच्छाकरके तीसरे नेत्रसे देखातो ४

शिवजी के नेत्रसे सैकड़ों लटाओंवाला अग्नि निकस कर वस्त्रों समेत तिसकामदेव को जलाने लगा ५ तब वह लोकको जलाने वाला आपही हुआ पीड़ितहोके करुणा सहित शिवको प्रसन्नकर पुकारने लगा ६ और भस्महोके पृथ्वीपर गिरपड़ा ७ पतिकी यह दशादेख उसकी स्त्री दुःखितहो करुणा सहित विलापकरने लगी तब उसको दुःखित देख पार्वती ८ उसके दुःखको जानके समझाने लगी ९ और कहने लगी कि हे भद्रे यह तो अब दग्धहोगया परन्तु अब फिर इसकी उत्पत्ति तेरेही से होवेगी १० ब्रह्माजी बोले कि कामदेवकी स्त्री प्रीतियुक्त और क्लेशरहित हो चली गई ११ और वह वृषध्वज महादेव कामदेव को दग्ध करके हिमाचल पर्वतकी १२ अनेक गुफाओंसे रमणीक पद्मके वगीचों एवम् १३ विद्याधर गन्धर्व तथा अप्सरा आदिकों से सेवित अनेक पवित्र और मनोहर देशोंमें पार्वतीके संग रमण करने लगे १४ अति हर्षको प्राप्तहो शिवजी महाराज देव इन्द्र मुनि यक्ष सिद्ध गन्धर्व विद्याधर दैत्य मुख्य इत्यादिक के संग उस पर्वत में नाचने लगे १५ और गन्धर्व और सुवेशवाली अप्सरा इत्यादिक गानकरने लगीं एवम् श्रेष्ठ ब्राह्मण उनका ध्यान और स्तुति करने लगे १६ इसप्रकार महादेवजी इन्द्रके तुल्य पराक्रम वाले अपने गणोंसहित पार्वती की प्रीतिबशं उसपर्वत पर रहे १७ ऋषियोंने पूछा कि हे ब्रह्मन् पार्वती के संग महादेवजी ने वहाँ क्या किया यह सुननेकी हम इच्छा

करते हैं १८ लोमहर्षणजी बोले कि ब्रह्माजीने यों वर्णन किया है कि शिवजी महाराज अपने गणों सहित पार्वती के संग अनेक हास्य करतेरहे १९ और चन्द्रमा को मस्तकमें धारण करनेवाले शिवजी और पार्वती दोनों अनेक कामरूप धरके अनुभावों से रमण करतेरहे २० एक समय पार्वती ने मेना नामवाली अपनी माताको सुवर्ण के आसनपर बैठे देखा २१ और मेना ने आई हुई पार्वती को देख अति सुन्दर आसनपर बैठाल २२ बोली कि हे पुत्री तेरा आगमन कैसे हुआ २३ तेरा भर्ता दरिद्री है और तू भी दरिद्री के संग रमण करती है जैसे दरिद्री होते हैं तैसे ही तू भी निराश्रय है २४ हे शुभे जैसे तेरा पति है तैसे ही तू भी क्रीड़ा करती है २५ इस प्रकार माताके वचन सुन पार्वती उदास न हुई और २६ क्षमा के बश उसको कुछ भी न कहा पर क्रोधसे पूरित हो शिवजी के आगे जा कहने लगीं २७ कि हे भगवन् देवदेवेश इस पर्वतपर मैं न बसूंगी कहीं अन्य स्थानमें बास करों २८ शिवजी ने पूछा कि हे पार्वती सर्वदा तो तू मेरे ही संग रहती है और अन्य जगह कभी मन नहीं करती २९ पर अब तू आपही अन्य स्थानका बास क्यों ढूँढती है हे शुचिस्मिते यह मुझसे कहो ३० पार्वती कहने लगीं कि हे देवेश पिताके घर में गई थी माता ने मुझे देखके ३१ और आसनादिकसे मेरा पूजन करके मुझसे कहा ३२ कि हे उम्रे तेरा भर्ता सदा दरिद्रियोंके संग क्रीड़ा करता है देवताओंके संग कभी नहीं करता ३३



इसलिये हे शिवजी महाराज इन अपने गणों के संग जो आप क्रीड़ाकरते हो यह रमण मेरी माता को नहीं सुहाता ३४ ब्रह्माजी बोले कि शिवजी ने पार्वती को हास्य कराने के लिये कहा कि हे पार्वती ऐसाही है इसमें संदेह नहीं तुझे क्यों क्रोधहुआ ३५ मैं बकलों के बख्शों को धारण करने वाला नग्न रहनेवाला और श्मशान में बासकरने वाला हूँ ३६ मेरे कोई मकान भी नहीं है केवल पर्वतों की गुफाओं में मेरावास है ३७ हे कमलनयनी मैंतो नग्नगणोंके संग रहताही हूँ हे देवि तू क्रोधमतकर तेरीमाता ने कहा सो ठीकहै ३८ प्राणियों के माता के समान इस पृथ्वी में कोई बन्धु नहींहै ३९ पार्वतीजी कहनेलगी कि हे देव हे सुरेश्वर मुझको बन्धुओं के साथ कुछ कृत्यनहीं है आप ऐसा करो कि जिसमें हमारा बास अन्य जगहहो ४० ऐसे पार्वतीके वचन सुन महादेवने हिमवान् पर्वतको त्याग और अपनी भार्या पार्वती और अपने गणों युक्त सुमेरुपर्वत में गमनकिया ४१ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भुसंवादेउमाशंकरः ।

योर्हिमवान्परित्यागनामसप्तत्रिंशोऽध्यायः ३७ ॥

## अरतीसवां अध्याय ॥

ऋषियों ने पूछा कि हे ब्रह्मन् पहले वैवस्वत अंतर में प्रचेताके पुत्र दक्षकी यज्ञका विनाशक्यों हुआ और सर्वात्मक विभु शिवने पार्वतीके अपराधको जान

के क्रोधबश अतुलपराक्रमवाले दक्षके यज्ञका कैसे विनाशकिया २ यह आप हमसे विस्तार पूर्वक कहो ३ ब्रह्माजी बोले कि हे विप्रो जैसे महादेव ने क्रोधकरके पार्वती की प्रीति बश यज्ञ विध्वंसकिया सो मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ ४ हे द्विजश्रेष्ठो सुमेरु पर्वतमें ज्योतिष्ठनामवाला एकत्रैलोक्य पूजित शृंगहै और वह सब रत्नोंसे भूषित ५ अप्रमेय अनाधृष्य और सब लोकोंसे नमस्कार किया जाता है तिस पर्वतके सर्वधातुविभूषित तटपर महादेवजी ६ स्थितहुये और पार्वती भी नित्य शिवजीके समीप स्थित रहनेलगीं ७ महान् आत्मावाले आदित्य महान् पराक्रमवाले वसु महात्मा और वैद्योंमें श्रेष्ठ अश्विनीकुमार ८ गुह्यकोंसे युक्त और यक्षोंका राजा श्रीमान् कैलासमें वास करनेवाला कुबेर राजा ९ और शुक्रजी भी महात्मा शिवकी उपासना करनेलगे और सनत्कुमार आदि परमऋषि १० अंगिरस आदि देवर्षि विश्वावसु गन्धर्व नारद और पर्वत ऋषि ११ और अप्सराओंके गण आये अनेक प्रकारकी सुगन्धोंको बहानेवाला और सुखको देनेवाला वायु चलनेलगा और पुष्पोंसे युक्तहुई सब ऋतु नक्षत्र चन्द्रमा विद्याधर और तपरूपी धनवाले सिद्ध १२ पशुपति महादेवकी उपासना करनेलगे अनेक प्रकारके रूपोंको धारण करनेवाले जीव १३ और राक्षस महाबलवाले पिशाच और अनेक प्रकारके रूप और आयुधोंको धारण करनेवाले महादेवके अनुचर महादेवजीकी आज्ञामें स्थित

२३० आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

हुये १४ और अपने तेज करके दीप्तमान् हुआ नन्दी-  
श्वर शूलको ग्रहणकर शिवजीकी आज्ञामें स्थितहुआ  
१५ एवम् सब नदियोंमें श्रेष्ठ और सब तीर्थों के स-  
मान जलवाली गंगाजीभी शिवकी उपासना करनेलगीं  
१६ इस प्रकार शिवजी महाराज सुरर्षियों और देव-  
ताओंसे पूजित वहां स्थित भये १७ एक समय दक्ष  
नाम प्रजापतिने अनेक विधानोंसे यज्ञका प्रारम्भ किया  
१८ और इन्द्र आदि सब देवते उसकी यज्ञमें प्राप्त  
होनेके लिये इकट्ठे होकर १९ प्रकाशित विमानोंमें बैठ  
के गंगाजीके द्वारपर प्राप्तहुये २० और गन्धर्व और  
अप्सराओं और अनेक प्रकारके ऋषियों से युक्तधर्म  
करनेवालों में श्रेष्ठ दक्ष राजा को २१ सब पृथ्वीवासी  
आकाशवासी और स्वर्गलोकवासी अंजली बांध के  
प्राप्तहुये और प्रजापतियोंकी उपासना करनेलगे २२  
आदित्य रुद्र साध्य और मरुद्गण यज्ञका भाग लेने को  
विष्णुके संग आये २३ और मासतक उपवास करने  
वाले आज्यप दोनों अश्विनीकुमार अनेक प्रकारके दे-  
वताओंके गण २४ और अन्य भूतग्रामचतुर्विध जरा-  
युज अंडज स्वेदज और उद्भिज २५ सबप्राणी निमंत्रित  
करके जहां बुलायेगये देवते और महर्षि विमानोंमें बैठे  
हुये ऐसे प्रकाशित हुये कि जैसे अग्नि २६ जब इस  
प्रकार सब आचुके तब दधीचिऋषि क्रोधमें युक्तहोके  
बोले कि नहीं पूजनेलायकोंकी पूजा करनेसे और पूजा  
करने लायकवालोंकी न पूजा करने से २७ मनुष्य म-

हान् पापको प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं ऐसे कहके वे ऋषि फिर दक्ष से बोले कि २८ इस कर्म में पशुपति प्रभु शिव पूजने लायक हैं २९ दक्ष कहने लगा कि हे ऋषि शूल हाथमें धारण करनेवाले और कपर्दी ऐसे ग्यारह रुद्र मेरे स्थान पर आये हैं अन्य महेश्वरको मैं नहीं जानता ३० दधीचि बोले कि मैं शिवजीसे उपरांत किसी को नहीं समझता हूँ ३१ इसलिये दक्षका महान् यज्ञ सफल न होवेगा ३२ दक्ष कहने लगा कि इस यज्ञमें सुवर्णके पात्रमें समग्र मंत्रविधिसे अज और प्रतिम विष्णु भगवान्का भाग है शिवजीका इस यज्ञमें भाग नहीं है ३३ हे दधीचि जगत्के प्रभु विष्णु भगवान्को देवताओंने नित्य यज्ञका भाग दिया है इसलिये मैं विष्णुके लिये यज्ञभाग दूंगा और शिवके लिये नहीं ३४ इधर देवताओंको जातेहुये देखके पार्वती अपने पति पशुपति देवसे कहने लगीं ३५ कि हे भगवन् ये इन्द्र आदिक देवते कहांजाते हैं हे तत्त्वज्ञ आप इसका तत्त्व कहो मुझे यह बड़ा आश्चर्य है ३६ महादेवजी कहने लगे कि दक्षनाम वाला महाभाग और उत्तम प्रजापति अश्वमेध यज्ञ करता है इसलिये देवते वहां जाते हैं ३७ पार्वतीने कहा हे महाभाग इस यज्ञमें आप क्यों नहीं जाते ३८ शिवजी कहने लगे कि हे महाभाग यह यज्ञ उन्हीं देवताओंसे अनुष्ठित है सब यज्ञोंमें मेरा भाग कल्पित नहीं है ३९ हे बरवर्णिनि देवता मुझको यज्ञधर्म से यज्ञभाग नहीं देते ४० पार्वती कहने लगीं

कि हे भगवन् आप सब देवताओंमें अधिक तेजवाले  
 अजेय और यशवालेहो ४१ इसलिये हेमहाभाग इस  
 यज्ञभागके निषेधसे मुझको अति दुःख होता है और  
 मुझे महान् संदेहहै ४२ ऐसा कौन दान नियम अथवा  
 तप में करूं कि मेरे पति अब यज्ञके भागको प्राप्तहोवें  
 ४३ इस प्रकार कहतीहुई पार्वतीको शिवजी जान फिर  
 क्षोभको प्राप्तहुई तिसके प्रति शिवजी बोले कि हे देवि  
 हे कृशोदरि यह क्या वचन तूने कहा ४४ हे विशालनेत्रे  
 ध्यान करके मैं सब कुछ जानताहूं और सबसंत मेराही  
 ध्यान करते हैं ४५ हे प्रिये तेरे मोह से अब मैंने सब  
 देवते और यज्ञ शिक्षित करदिये हैं और मुझ यज्ञेश  
 को सामवेदके जाननेवाले नित्य गाते हैं ४६ सब ब्रा-  
 ह्मण मेरी स्तुति करते हैं और यज्ञमें मेरेही भाग की  
 कल्पना करते हैं ४७ पार्वती कहनेलगीं कि हेभगवन्  
 मुझ स्त्रीके आगे आप अपनी आत्माकी बड़ाई करते  
 हो इसमें संदेह नहीं ४८ शिवजी बोले हे वरवर्णिनि  
 मैं अपनी आत्माकी बड़ाई नहीं करता हे वरारोहे मैं  
 भाग लेनेके वास्ते किसको रचूं ४९ इसप्रकार शिवजीने  
 प्राणप्रिया अपनी पत्नी से कहकर क्रोधरूपी अग्निसे  
 एक गणको रचा ५० और उससे कहनेलगे कि तू दक्ष  
 की यज्ञका विनाशकर ५१ निदान यह शिवजीका गण  
 क्रोधयुक्तहो पार्वतीके क्रोधको दूर करनेवाला वीरभद्र  
 नामसे प्रसिद्ध हुआ ५२ और उसने अपने शरीरके  
 रोमोंसे अनेक गणोंको रचा ५३ जो रुद्रके पीछे रहने

वाले और उनके समान पराक्रमवाले हुये ५४ वे सब रुद्रके तुल्य पराक्रमवाले अनुचर शीघ्रही सैकड़ों हजारों होगये ५५ और किलकिला शब्द करनेलगे जिससे आकाश पूरित होगया और उस महान् शब्द से सब देवता त्रस्तहोगये ५६ पर्वत व पृथ्वी कांपनेलगी अतितेज वायु चलनेलगा ५७ अग्नि दीप्त न हुआसूर्य का प्रकाश मध्यमहोगया ग्रह नक्षत्र और तारेअप्रकाश होगये ५८ और ऋषि देव दानव सब छितरबितर होगये इसप्रकार जब अंधेराहोगया तब ये सब गणसबको दग्ध करनेलगे ५९ और वृक्षों को उखाड़नेवाली घोर वायु चलनेलगी वे शिवकेगण अति घोर शब्द और मर्दन करते ६० वायुवेग और मनवेगके समान दौड़ने और यज्ञके पात्रोंको और मकानों को चूर्ण करनेलगे ६१ अन्न आदि अनेक दिव्य पदार्थों की राशि जो पर्वतों के समानथी उन्हें उस समयढकी न देख ६२ और घृत और खीर की कीच और शहदसे दिव्य खांडकी रेतीवाली दूधकीनदी ६३ गुड़के सुन्दर समूह अनेक प्रकारके उच्चावचमांस और अनेक प्रकारके ६४ दिव्य लेह्य और चोष्यपदार्थोंको वे महादेवके गण अनेक प्रकार के मुखोंसे भक्षणकरने और फेंकनेलगे ६५ कोई सब प्राणियों को भयकरानेवाले शब्द करनेलगे और कोई रुद्रकेसमान कोपवाले महाकाय और कालरूपी अग्नि के समान उपमावाले ६६ पर्वतोंको क्षोभकराते हुये और सबोंको डराते हुये अनेक प्रकारकी क्रीड़ा

करते और पुरकी स्त्रियोंको फेंकते हुये ६७ सब गण रुद्रके कोपसेयुक्त विचरनेलगे और देवताओंसे रक्षित दक्षप्रजापतिके यज्ञस्तम्भको शीघ्र भद्रकाली प्राप्तहुई ६८ तब इन्द्र देवता और दक्षप्रजापति अंजली बांध के वीरभद्रसे पूँअनेलगे कि तू कौनहै ६९ वीरभद्रबोले कि मैं देव नहींहूँ और न कोई दैत्यहीहूँ मैं यहां न कुछ भोजनकरने आयाहूँ और न इन देवताओंकी क्रीड़ाही देखने आयाहूँ ७० हे देवतो मैं दक्षकी यज्ञका विनाश करने आयाहूँ और वीरभद्र मेरा नामहै मैं रुद्रकेकोप से उत्पन्न हुआहूँ ७१ और यह भद्रकाली रुद्रकेकोप से निकसीहै और महादेवकी प्रेरीहुई यहां यज्ञकेसमीप आईहै ७२ हे राजेन्द्र तू देव देव उमापति शिवकी शरणहो रुद्रका क्रोध श्रेष्ठ है और तेरे परिचारकभी श्रेष्ठहैं ७३ अब त्यागेहुये और जहां तहां से उखाड़े हुये यज्ञस्तम्भके ऊपर मांसकी इच्छा करनेवाले गीध गिरतेहैं ७४ पक्षिपातहोने लगरहेहैं और सैकड़ों गी-दड़ बोलनेलगे हैं निदान वह दक्ष राजाका यज्ञ शिव केगणोंसे वध्यमानहो ७५ मृगरूपको धारणकर और अलक्षित होके आकाश में भागा ७६ और वीरभद्र धनुषको ग्रहणकर और बाणको चढ़ाके उसके पीछे दौड़ा तब असित पराक्रमवाले उस गणके तेजसे ७७ ऊर्ध्वकेश अतिरोमांग और सेनाके अन्त करनेवाले विकराल और कालेवर्णवाले रक्त वस्त्रोंको पहिने ७८ दूसरेगणने उसयज्ञको ऐसे दग्धकिया कि जैसे तृणको

अग्निदग्ध करे सब देवता भयभीतहुये दशोंदिशाओं में भागे ७६ और भयसे पृथ्वी सातोंद्वीप और देवलोक व्याप्तहोगये ८० यह दशादेख दक्ष महादेवजीकी पूजा करके बोला कि हे प्रभो सब देवता यज्ञभाग देवेंगे ८१ और हे देवेश्वर आप इन गणोंका संहारकरो ८२ हे शिवजी महाराज ये देवता और हजारों ऋषि सब आपके क्रोधके कारण शांतिको नहीं प्राप्तहोते ८३ और आपके क्रोधसे जो यह स्वेदज पुरुष पैदाहुयेहैं सो सब मनुष्यों को दुःख दे रहे हैं ८४ हे प्रभो इन सबों के तेज और स्थितज्वर को धारण करनेको यह पृथ्वी समर्थ नहीं है ८५ हे पिनाकधृक् देव सब देवता यह कहके गयेहैं कि शिवके भागकी तुम कल्पनाकरो ८६ ब्रह्माजी ऋषियों से बोले कि ऐसा कहनेसे शिव परमप्रीति को प्राप्तहुये और दक्षभी अपने मनसे महादेवकी शरण को गया ८७ फिर दक्षप्रजापति प्राणाऽपान वायुको रोक देवतों और पितरों का पूजन कर अंजली बांध ८८ भयभीत शंकित और विभ्रष्टहुआ और नेत्रों में आंशुभरे शिवसे बोला ८९ कि हे भगवन् जो आप मुझपर प्रसन्नहुयेहैं और जो मैं तुम्हारा प्रियहूँ तो मैं ग्राह्य हूँ अथवा अग्राह्य हूँ ९० परन्तु जो इस यज्ञमें दग्ध कियाहै भक्षण कियागया है पियागया है नाशा गया और चूर्णित कियागया ९१ और दीर्घकाल में यज्ञसे सिद्ध कियागया है सो हे महेश्वर आपके प्रसादसे सब सम्पूर्ण होजाय ९२ दक्षके वचन सुन



२३६ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

धर्माध्यक्ष भग नेत्रहर्ता त्र्यम्बक महादेवजी ने एव-  
मस्तु कहदिया ६३ और दक्षप्रजापतिने साष्टांग दण्ड-  
वत् करके शिवजीसे वरदानले शिवका आठ अधिक  
सहस्रनाम स्तोत्र जपा ६४ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भुःपिसम्वादेदक्षयज्ञ-  
विध्वंसननामअष्टत्रिंशोऽध्यायः ३८ ॥

## उन्तालीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि हे द्विजोत्तमो दक्षप्रजापति शिव  
के ऐसे कार्यको देख अंजली बांध स्तोत्र कहनेलगा कि  
१ हे देवदेवेश आपको नमस्कार है हे बलसूदन हे देवेन्द्र  
हे बलज्येष्ठ देव दानव पूजित आपको नमस्कार है २ हे  
सहस्राक्ष हे विरूपाक्ष हे त्र्यम्बक हे यक्षाधिपप्रिय आप  
चारों ओर हाथ पैरोंवाले और सब जगह अक्षि शिर  
औरमुखवाले हो ३ लोकमें आप सबजगह श्रुतिमानहो  
और सब जगह आवृत होके ठहरतेहो आप शंकुकर्ण  
महाकर्ण और कुम्भकर्णहो और समुद्रमें स्थान रखने  
वालेहो ४ आप गजेन्द्रकर्ण गोकर्ण और पाणिकर्णहो  
और आप शतोदर शतावर्त शतजिह्व और शतानन  
हो आपको नमस्कार है ५ गायक गान करते हैं और  
एक कर्मवाले आपकाही पूजन करतेहैं देव दानव गोप्ता  
भी आपहीहो और शतक्रतु मूर्त्तिमानहो ६ और महा  
मूर्त्तिहो आपसमुद्रहो और सबदेवता आपमें ऐसेस्थित  
रहते हैं जैसे गौओं के थानमें गौ ७ में शरीरमें सोम

अग्नि गणेश आदित्य विष्णु ब्रह्मा वृहस्पति एक को भी नहीं देखता ८ क्रिया कारण कर्ता कार्य और असत्त्व सत् असत् सब आपहीके गुणहैं ९ भवके लिये शर्व रुद्र वरद पशुपति अधकघाती सबोंको नमस्कार है १० हे त्रिजटावाले हे त्रिशिर्ष हे त्रिशूलधारी हे त्र्यम्बक हे त्रिनेत्र हे त्रिपुरघ्न आपको नमस्कार है ११ हे चण्ड हे मुण्ड हे बिल्वदण्डधर हे दण्डिन् हे शंकुकर्ण हे पिण्डिखण्ड आपको नमस्कार है १२ हे ऋद्धि हे दंडकेश हे शुष्क हे विकृत हे विलोहित हे धूम्र हे नीलग्रीव आपको नमस्कार है १३ हे अप्रतिरूप हे विरूप हे शिव हे सूर्य हे सूर्यसूर्यपति हे सूर्यध्वज हे प्रताकी आपको नमस्कार है १४ हे हिरण्यकृतचूड हे हिरण्यपति हे शब्दवान् हे चण्ड हे श्मशाननिरत आपको नमस्कार है १५ हे अस्तुत्यस्तुत्य और स्तूयमान हे किलकिलायिन् और शेषनागकी मालावान् शयित और शित आपको नमस्कार है १६ हे धारमाण हे मुंजरूप हे कुटिलरूप हे नर्त्तनशील हे शृंगबजानेवाले आपको नमस्कार है १७ हे बाह्यरूप हे हारलब्ध और गीतवादित्रकारी आपको नमस्कार है १८ हे ज्येष्ठ हे श्रेष्ठ हे बल हे प्रमथन हे कन्यरूप हे क्षय हे उपक्षय और उग्र आपको नित्य नमस्कार है १९ चतुर्दश बाहुरूप कपाल हस्त सितभस्मप्रिय आपको नमस्कार है २० हे विभीषणरूप हे भीम हे भीष्मव्रतधर हे पवनसे ऊपर को मुख करनेवाले हे खड्ग सरीखी जिह्वावाले उग्रदंष्ट्रा

वाले आपको नमस्कार है २१ पक्ष मास और वर्षरूप  
 ऐसे आपको और गन्धर्वों के प्रिय आपको नमस्कार  
 है २२ हे अघोर घोररूप हे घोरघोरतर हे शिव शांत  
 रूप और शान्तर आपको नमस्कार है २३ हे बुद्धरूप  
 हे शुद्धरूप हे विभागप्रिय आपको नमस्कार है २४ हे  
 पंच हे पतंग हे सांख्यपर हे चंडैकघुष्ट हे यमघण्ट हे  
 घंटिन आपको नमस्कार है २५ सहस्रशत घंटावाले  
 और घंटाभारप्रिय आपको नमस्कार है २६ हे प्राणदंड  
 रूप हे नित्यरूप हे लोहितरूप आपको नमस्कार है २७  
 हे कुहूकाररुद्र हे कुरूकार प्रिय हे बटको धारण करने  
 वाले हे गिरिवृक्षप्रिय आपको नमस्कार है २८ हे गृध्र  
 मांस शृगालके लिये तारक और भवके लिये यज्ञाधि-  
 पति सुत और प्रकृत आपको नमस्कार है २९ हे यज्ञ  
 वाराहदत्त हे तथ्यातथ्य और तटरूप हे नद्य हे तटिन  
 पति आपको नमस्कार है ३० हे अन्नद हे अन्नपति और  
 हे अन्न उपजानेवाले हे सहस्रशीर्ष हे सहस्र चरणों  
 वाले आपको नमस्कार है ३१ हे सहस्र उद्यतशूलवाले  
 हे सहस्रनयन हे बालार्कवर्ण हे बालरूपधर आपको  
 नमस्कार है ३२ हे बालार्करूप हे बालक्रीडनक हे शुद्ध  
 हे बुद्ध हे क्षोभण हे क्षय आपको नमस्कार है ३३ हे तरं-  
 गांकिनकेश हे मुक्तकेश हे षट्कर्म तुष्ट और हे द्विज  
 कर्मनिरत आपको नमस्कार है ३४ हे वर्णाश्रमों के  
 विधिवत् पृथक् धर्मको प्रवृत्त करनेवाले हे घोष हे  
 घोष्य और कलकल आपको नमस्कार है ३५ हे श्वेत

पिंगलनेत्र हे कृष्णरक्तेक्षण हे धर्मकामार्थ मोक्षरूप  
 क्रथ और क्रथन आपको नमस्कारहै ३६ हे सांख्य  
 हे सांख्यमुख्य हे योगाधिपति हे रथ्यविरथ्य हे चतु-  
 ष्पथ निरत आपको नमस्कारहै ३७ हे कृष्णाजिनोत्त-  
 रीय हे षाड्यज्ञोपवीतिनू हे ईशान हे वज्रसंघात और  
 हे हरिकेश आपको नमस्कारहै ३८ हे त्र्यम्बक हे विश्व-  
 नाथ हे व्यक्ताव्यक्त हे कालचक्र हे कामद हे धृतनि-  
 कन्दन आपको नमस्कारहै ३९ हे गन्धर्व्व गर्वगर्वित  
 हे गर्वघ्न सद्योजात हे उन्मादन शतावर्त्त हे गंगातोयार्द्ध  
 हे मर्द्धज आपको नमस्कारहै ४० हे चन्द्रावर्त्त हे युगा-  
 वर्त्त हे मेघावर्त्त हे युगावर्त्त भर्त्ता हे अन्नद हे श्वघ आ-  
 पको नमस्कार है ४१ आपही अनुश्रेष्ठा हो आपही  
 भोक्ताहो सूर्य्य वा अग्निके समान प्रकाशवालेहो और  
 जरायुज अण्डज स्वेदज और उद्भिज भी आपही  
 हो ४२ हे देवदेवेश आपही भूतग्रामचतुर्विधहो और  
 आपही चराचरके स्रष्टा और प्रतिहताहो ४३ आपही  
 ब्रह्मा विश्वेश और ब्रह्मविदोंके ब्रह्महो आपही सबके  
 परम योनिहो अमृतहो और ज्योतिषोंके निधिहो ४४  
 और ब्रह्मवादी आपको ऋक् साम ओंकारादि कहते  
 हैं और आपही अग्निहो ४५ सामवेदके जाननेवाले  
 और ब्रह्मवादी आपही का गुणगातेहैं और ऋक् साम  
 और अथर्ववेदों में प्रभुहो ४६ ब्रह्मके जाननेवालों  
 और कल्पोपनिषद्गणों द्वारा आपही पढ़ेजातेहो और  
 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्य वर्णाश्रम ४७

तथा भूमि आश्रम संघ विजली गर्जना संवत्सर ऋतु  
 मास मासार्द्ध ४८ कला काष्ठा निमेष नक्षत्र युग विषाण  
 ककुद और पर्वतोंके शिखर सब आपहीहैं ४९ और  
 मृगोंकेपति आपसिंहहो सर्पोंमें आप तक्षकहो समुद्रों  
 में आप दूधका समुद्रहो मंत्रोंमें ओंकाररूपहो ५० प्रह-  
 रणोंमें वज्रहो और व्रतों में सत्यहो हे देवेश आपही  
 इच्छा राग मोह क्षमा ५१ व्यवसाय धृति लोभ काम  
 क्रोध जय और अजयहो खटांगी शरीरथी ५२ छेत्ता  
 भेत्ता प्रहर्ता जेता मंता आपही हैं और दश लक्षणों  
 संयुक्त धर्म्मात्माहो कामहो ५३ इन्द्रहो समुद्रहो सूर्य  
 हो सरोवरहो और लता वनकेतृण ओषधी पशु मृग  
 पक्षी आदि सब आपकेही रूपहैं ५४ हे भगवन् आप  
 द्रव्य कर्म गुणाभहो कालमें पुष्प फलप्रदहो आदि  
 अन्त मध्यहो गायत्रीके आकारहो ५५ हरितहो लो-  
 हितहो कृष्णहो नीलहो पीतहो अरुणहो रुद्रहो कृषि-  
 लापतिहो कपोतहो ५६ सुवर्णरेताहो इसलिये सुवर्ण  
 भी आपहीहो सुवर्ण नामाहो और सुवर्णप्रियहो ५७  
 आपही इन्द्रहो आपही यमहो आपही धनदहो और  
 आपही अग्नि उत्फुल्ल चित्रभानु स्वर्भानु और भानु  
 हो ५८ आपही होत्रहो होताहो हौम्यहो हुतहो विभु  
 हो त्रिसौपर्णहो ब्रह्महो यजुर्वेदियों के शतरुद्रहो ५९  
 पवित्रोंमें पवित्रहो मंगलोंमें मंगलहो गिरि कोशांतरही  
 ब्रह्माहो जीवको प्रज्वल करनेवालेहो ६० प्राणहो तम  
 सखरजोगुणहो सत्यव्रतहो और प्राण अपान समान

उदानं व्यान येभी सब आपहो ६१ उन्मेष निमेष क्षे-  
यास्तम्भ लोहितांगी गदी दंष्ट्री और महाबक्रू महोदर  
६२ शुचिरोमा हरितश्मश्रु कटिकेश सुलोचनभी आप-  
हीहो गीत वादित्र नृत्यांग गीत वादनकप्रिय ऐसेभी  
आपहीहो ६३ और मत्स्य जल जलौजन्य जङ्कारक  
हो विकालहो सुकालहो दुष्कालहो और कालनाशन  
आपहीहो ६४ मृत्युभी आपहीहो क्षयभी आपही हो  
अन्नभी आपहीहो और क्षमा करनेवालेहो सर्वतो-  
र्त्तकहो संवर्त्तकहो और मेघहो ६५ घण्टाकीहो घण्टकी  
घण्टीहो वृडाल हो लवणोदधिहो तरणहो शरण अ-  
र्थात् रक्षक हो और सब भूत अर्थात् प्राणियों के  
सुतारणहो ६६ आपही धाता हो आपही विधाताहो  
और सन्धाता धारण धर ऐसेउपोब्रह्म सत्य तथा ब्रह्म-  
चर्य्य और आर्जव ऐसे भी आपहीहो ६७ भूतात्मा  
भूतकृत् भूतभूतभव्य और विभु और भूर्भुवःस्वःइन्होंमें  
रत्न और अग्नि तक आपहीहो ६८ ईक्षण वीक्षण शांत  
दांतदांतविताशन ब्रह्मावर्त्त सुरावर्त्त कामावर्त्त आपको  
नमस्कार है ६९ कामविनिर्हता कर्णिकार सृजप्रिया  
चन्द्र भीममुख सुमुख दुर्मुख मुख आप हो ७० और  
चतुर्मुख बहुमुख और रणमें अभिमुख और हिरण्यगर्भ  
शकुनि धनद और विराट्पति आपहीहो ७१ अधर्म-  
हा महादक्ष दण्डधर रणप्रिय गोणेत गौप्रचार और  
गोवृषेश्वर वाहन आपहीहो ७२ और त्रैलोक्यगोप्ता  
गोविन्द गोमार्ग मार्ग स्थिर स्थाणु निःकम्प और

सुनिश्चल ७३ शिखण्डी पुण्डरीकावलोकन दुर्वारण  
 दुर्विषहा दुस्सह दुरतिक्रमभी आपहो ७४ दुर्बल दुर्द्धर  
 नित्यमुद्धार्य जय और विजय शब्द शशांकशयन शीत  
 उष्ण क्षुधा तृषा ज्वर ये सब आपही हो ७५ आधि  
 व्याधि और व्याधिरूप व्याधि सत्य यज्ञ मृगव्याध  
 और व्याधियों के करनेवाले ७६ दण्डवृक्ष कुण्ड रौद्र  
 भागविनाशन विषप सुराप और क्षीर और अमृतप  
 अर्थात् अमृतके पीनेवाले आपही हो ७७ और मधुप  
 आर्य्यप सर्वप बल अबल वृषआरूढ़ होनेवाले वृषभ  
 और वृषभलोचन आपहीहो ७८ आप वृषसे विख्यात  
 और लोकोंमें लोकशंकरहो चन्द्रमा और सूर्य आपके  
 नेत्रहैं ब्रह्मा हृदाहै ७९ अग्निषोम आपका देहहै और  
 आप धर्म कर्म से साधित हो ब्रह्मा गोविन्द पुराने  
 अवतार ८० ये भी आपके माहात्म्यको जाननेमें समर्थ  
 नहीं हैं और हे शिवजी महाराज वाणीभी आपके माहा-  
 त्म्य अर्थात् आपकी महिमा कहने में समर्थ नहीं है  
 ८१ हे शिवजी महाराज रक्षा करने लायकोंमें मैं रक्ष-  
 णीयहूँ अर्थात् आपको मेरी रक्षा करनी चाहिये और  
 हे अनघ आपको नमस्कारहै ८२ आप भक्तोंपर दया  
 करतेहो और मैं सदा तुम्हारा भक्तहूँ आपको हजारों  
 पुरुष प्राप्तहोतेहैं ८३ आप समुद्रके अन्तमें ठहरतेहैं  
 और आपनित्य सबकी रक्षा करनेवालेहो ऐसे सत्वस्थ  
 समदर्शीपुरुष कहतेहैं ८४ जो ज्योतियोंको प्रकाशकरता  
 है तिस योगात्माको नमस्कारहै और जो सब जीवोंका

विभाग करके युगान्तमें ८५ जलके मध्यमें शयनकर-  
ताहै और जिसने राहुरूप होके अमृत पानकिया है  
सो आपकाही रूपहै ८६ आपही राहुरूप होके सूर्य  
और चन्द्रमाको ग्रसतेहो अग्निरूपहो और सब देह  
धारियों के शरीर में अंगुष्ठमात्र पुरुषरूप से स्थितहो  
८७ हे भगवन् मुझ शरणागत की नित्य रक्षा करो  
८८ आपके जिन भागोंको नित्य स्वाहा और स्वधा-  
कार प्राप्तहोते हैं और जो देहमें स्थितहोके प्राणियों  
को रुलाते ८९ और हर्ष कराते हैं पर आप उसमें  
कुछ हर्ष नहीं मानते आपके उन रूपोंको नमस्कार है  
समुद्रों दुर्गों नदियों पर्वतों की गुहाओं ९० चौराहे  
मार्गों गलीमें आंगनां सभाओं हाथी अश्व और रथ  
शालाओं जीर्णस्थानों ९१ पांचोभूतों दिशाओं और  
विदिशाओंमें जो तेरे अंशहैं और चन्द्रमा सूर्य तारा-  
गणोंकी किरणोंमें ९२ और रसातल तथा तिससे परे  
आपके अंशहैं तिनको नमस्कारहै नमस्कारहै ९३ हे  
भव आप सर्वहो सर्वगहो सर्वभूतपतिहो और सर्व  
भूतांतरात्माहो इसलिये मैंने आपको यज्ञमें निमंत्रित  
नहींकिया ९४ और हे देव अनेकप्रकारकी दक्षिणावाले  
यज्ञोंसे आपकाही पूजनकरतेहैं और आपही सबकेकर्ता  
हो ९५ हे देव अथवा मैं तेरी सूक्ष्ममायासे मोहित हो-  
गया तिसकारण आपको निमंत्रित नहीं किया ९६ हे  
देवदेवेश आप प्रसन्नहो आपही मेरे रक्षकहो आपही  
शक्ति और प्रतिष्ठाहो और तुम्हारे बिना अन्य कोई



नहीं है ऐसी मेरी मति है ९७ इस प्रकार दक्षप्रजापति  
 ने महादेवकी स्तुति करके विशेषकर रमणकिया और  
 महादेवभी प्रसन्न हो दक्षसे कहने लगे ६८ कि हे दक्ष  
 इस स्तोत्रसे मैं तुझसे अति प्रसन्न होगया इसलिये  
 तू प्रसन्नहोके मेरे सन्मुखहो एकाग्र मनसे सुन ९९ कि  
 हजार अश्वमेध यज्ञों और सौ बाजपेय यज्ञोंका फल  
 तुझको होवेगा १०० बहुत कहनेसे क्या है तू मेरे समीपमें  
 प्राप्त होवेगा और त्रिलोकीका अधिपति होगा १०१  
 ऐसे कहके सर्वज्ञ शिवजी कहने लगे कि हे दक्ष इस  
 यज्ञके विघ्न होनेमें तू कछु वचन मत कह १०२ क्योंकि  
 पहलेभी मैंने तेरा यज्ञ विध्वंस किया था और मुझसे  
 फिर अब तू इस वरको ग्रहण कर १०३ कि वेद और  
 वेदके षडंग सांख्य योग आदि सबोंको जान और देव  
 दानवों से भी दुश्चर तप कर १०४ हे दक्ष सब वर्णाश्र-  
 मोंसे होने में दुस्तर धर्मका स्थान और गूढ़ सांगो-  
 पांग तप तू कर १०५ सब वर्णाश्रमोंमें पशुपाश विमो-  
 क्षण पाशुपत व्रत है इसलिये हे दक्ष यह सर्व पाप  
 विमोचन तप मैंने तेरे आगे कहा है १०६ और हे महा-  
 भाग इस यज्ञका जो फल है वह सम्पूर्ण तुझको होवेगा  
 व अपने मनकी कल्पना को त्याग १०७ शिवजी महा-  
 राजने ऐसे कहके अपनीपत्नी पार्वती और अपनेगणों  
 समेत अमित तेजवाले दक्षको दर्शन दिया १०८ और  
 अपने भागको यथार्थ विधिसे प्राप्तहोके अपने रचेहुये  
 ज्वरको बहुतप्रकार से बांट दिया १०९ ब्रह्मा जी बोले

कि हे द्विजो सुनो सब भूतोंकी शांतिके लिये शिवजी ने हाथियों में तो शिखाभिताप ज्वरदिया ११० पर्वतों में शिलाजीत ज्वर हुआ जल में सिवाल ज्वर हुआ सप्पोंमें केंचलीरूप ज्वरहुआ १११ गौओं में खुरकी बीमारी रूपी ज्वरहुआ ऊसर रहजाना अर्थात् बीज न जमना पृथ्वीमें ज्वरहुआ ११२ दृष्टिका प्रत्यचरोधन श्वानोंमें ज्वरहुआ घोड़ोंमें रंधद्वारा ज्वरहुआ मयूरोमें शिखोद्भेद ज्वरहुआ ११३ और कोकिलाओं में नेत्र रोग ज्वरहुआ इसप्रकार प्रजामें जुदा २ भेदसे अनेक प्रकारका ज्वर है ११४ शुक अर्थात् तोतों में हिचकी आना ज्वर हुआ शार्दूलोंमें श्रमरूपी ज्वरहुआ ११५ और मनुष्योंमें ज्वर नामसेही ज्वर प्रसिद्धहै यह ज्वर सबके शरीर में जन्मसमय अथवा मध्यमें प्रवेशहोता है ११६ इसप्रकार यह महादेवजीका रंचा दारुणज्वर सब प्राणियों से नमस्कार करनेलायक और मान्य है ११७ और इस ज्वरकी उत्पत्तिको जो मनुष्य समाहित और एकाग्रचित्त हो सुनेगा वह सब रोगों से छूटजावेगा और मनबांछित कामनाओं को प्राप्तहोगा ११८ और दक्षके कहेहुये इस स्तोत्र का जो पाठकरेगा अथवा सुनेगा वह भी कुछ दुःखको न प्राप्तहोगा और उसकी दीर्घ आयुहोगी ११९ जैसे सब देवताओं में महादेवजी श्रेष्ठ हैं तैसेही सब स्तोत्रोंमें यह दक्षनिर्मित स्तोत्र श्रेष्ठहै १२० और यश आयु ऐश्वर्य पुत्र धन इत्यादिकों की इच्छावाले और विद्याकी इच्छा-

वाले पुरुषों को भक्तिसे यह स्तोत्र सुनना चाहिये १२१  
 दीनव्याधिसे दुःखित तथा भयादिग्रस्त और राजकार्य  
 वाला मनुष्य इसस्तोत्रके पाठसे महान् भयसे छूटजाता  
 है १२२ और इसी देहसे गणों का ईश्वर होके और  
 इसलोकमें सुखों को भोगके फिर शिवलोकमें गणोंका  
 राजा होता है १२३ जहां इस स्तोत्र का पाठ होता है  
 वहां यक्ष पिशाच नाग विनायक विघ्न नहीं करते १२४  
 और जो स्त्री भक्तिसे इसस्तोत्रको सुने तो वह पितृपक्ष  
 में अपने भर्ता के संग मोद करती है और इसलोकमें  
 सुखभोगती है १२५ जो इसको सुने अथवा बारम्बार  
 कीर्त्तन करेगा तिसके सबकार्य सिद्धहोंगे १२६ मनके  
 विचारे और बाणीसे कहे सबकाम शिवजीके इसस्तोत्र  
 के अनुकीर्त्तनसे सिद्धहोजाते हैं १२७ जो मनुष्य महा-  
 देव स्वामिकार्त्तिक पार्वती और नन्दीश्वर को नियम  
 करके बलिदे और फिर भक्तिसे इन नामों का पाठकरे  
 १२८ वह मनो बांछित फलों को प्राप्तहो मरणके उप-  
 रान्त हजारों स्त्रियोंसे आवृत हो स्वर्गमें प्राप्तहोता है  
 १२९ और सब पापों से मुक्तहोता है इसदक्षकृत स्तोत्र  
 का पाठकरने से मनुष्य मरणके उपरान्त गणों से युक्त  
 और देव और दानवोंसे पूज्यमान १३० वृषसे नियुक्त  
 विमानमें विराजित हो रुद्रका अनुचर होजाता है १३१  
 पाराशर के सुत व्यासजी महाराज ने कहा कि यह हर  
 किसी को बताना और सुनाना कभी न चाहिये १३२  
 इस परमगुप्त स्तोत्र को सुनके पाप योनिवाले पुरुष

वेश्या स्त्री और शूद्रभी रुद्रलोकमें प्राप्तहोते हैं १३३  
और जो मनुष्य पर्व में इसे ब्राह्मणों केलिये सुनाता है  
वह ब्राह्मण रुद्रलोकमें प्राप्तहोता है १३४ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भृत् ऋषिसंवादेदक्षरु-  
तसहस्रनामस्तुतिनामएकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ३९ ॥

## चालीसवां अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले हे मुनिजनो वे सब मुनि इस  
पाप विनाशिनी कथा को जो रुद्र क्रोधसे उत्पन्नहुई  
और वेद व्याससे कहीगईथी १ और जिसमें पार्वती  
का शेष शम्भुका दुस्सहक्रोध वीरभद्रकी उत्पत्ति भद्र-  
कालीका सम्भव २ दक्षयज्ञ का विनाश शम्भुका अ-  
द्भुतवीर्य्य और दक्षके ऊपर प्रसन्नता ३ रुद्रका यज्ञमें  
भाग और दक्षकायज्ञफल सुनके बहुत प्रसन्नहुये और  
बारम्बार विस्मित होके ४ वेदव्याससे इस शेष कथा  
को पूछनेलगे और वेदव्यासजी एकाम्र क्षेत्रका वर्णन  
करनेलगे ५ कि हे ब्राह्मण ब्रह्माजीसे इसकथाको सुन-  
के ऋषिप्रशंसा करनेलगे और उनकी रोमावली खड़ी  
होगई ६ ऋषियों ने पूछा कि हे ब्रह्मन् महादेव का तो  
माहात्म्य आपने हमसेकहा सो बड़ा आश्चर्य्यहै ७ और  
दक्षका यज्ञ विध्वंसभी सुना पर अब आप हमारेआगे  
एकाम्रक्षेत्रका वर्णनकरें ८ हे ब्रह्मन् हम इसे सुननेकी  
इच्छा करते हैं और हम को परम आश्चर्य्यहै ९ वेद  
व्यासजी बोले कि उनका वचन सुन चतुर्मुखी ब्रह्मा

पृथ्वीतलमें मुक्ति देनेवाले शम्भुके उसक्षेत्र को वर्णन करनेलगे १० ब्रह्मार्जिने कहा कि हे मुनि शार्दूल सुनो हम विधिसे तुम्हारे आगे कहते हैं सब पापों को हरने वाला पवित्र और परम दुर्लभ ११ कोटिलिंगोंसे युक्त और काशीजिके समान शुभ एकाग्रनाम से विख्यात और अष्टकसमन्वित वह तीर्थ है १२ हे द्विजो पहले वहां एक आंब का वृक्षहुआ था इसवास्ते तिसी नाम से वह एकाग्रतीर्थ विख्यातहुआ १३ वह तीर्थ दृष्ट पुष्ट मनुष्यों से आकीर्ण नरनारियों से समन्वित विद्वानोंके गणोंसे बढ़ाहुआ धन धान्य से समन्वित गृह गौओंके कुल इत्यादिकोंसे भूषित अनेक प्रकारके बलियोंसे आकीर्ण अनेक रत्नोंसे शोभित पुरके घरोंकी अटारियोंसे संकीर्ण गलियों से अलंकृत राजहंसों के समान कांतिवाले श्रेष्ठराजाओं के मकानों से शोभित शस्त्रोंके समूहसे पूरित खांहियोंसे वेष्टित सफेद लाल पीली काली और अन्य अनेक वणोंकी ध्वजाओं और पवनसे हिलतीहुई पताकाओं अर्थात् सूक्ष्मध्वजाओं से अलंकृत नित्योत्सवों से प्रमुदित अनेक बाजों से शब्दित १४ । १८बीणा वेणु मृदंग क्षपणी आदिबाजों से ध्वनित देवताओं के दिव्य मकानों और किलेकोट से संयुक्त १६ विचित्र पूजासे सर्वत्र अलंकृत है वहां प्रसन्नमन पतलीकटिवाली २० मनोहरहार और ग्रीवा वाली कमलकेपत्तों के समान नेत्रोंवाली भारी तथा ऊंची कुचों वाली पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाली

सुन्दरअलकों और नरम कपोलोंवाली तागड़ी और नूपुरोंका शब्द करनेवाली हंस तथा गजगामिनी कुचों के भारसे नईहुई और सुन्दरकेश तथा कानोंवाली फूलेहुये नेत्रोंवाली सब लक्षणों से सम्पन्न और सब आभरणोंसे भूषित दिव्य बस्त्रों को धारण करनेवाली सुन्दर और कांचनकेसमान कान्तिवाली दिव्यगन्धोंको अंगों में लगायेहुये और कानके गहनोंसे भूषित मदसे आलसवाली नित्यहँसतेहुये मुखवाली विजलीकेसमान चमकतेहुये दन्तोंवाली लालहोठोंवाली मधुरस्वरवाली ताम्बूलसे रंजित मुखवाली और चतुर और प्रियदर्शन वाली सुलभ और प्रियवादिनी नित्य यौवनसे गर्वित और सब चरित्रोंसे मंडित अप्सराओं के समान स्त्री तहां क्रीड़ा करती हैं २१ । २७ वे अंगना अपने २ घरों में मुदितरूप और यौवनसे गर्वित सुन्दर शरीरवाली दीखती थीं २८ यहां सब लक्षणों से सम्पन्न और सम्पूर्ण आभरणोंसे भूषित ब्राह्मणक्षत्रियवैश्य और शूद्र २९ अपने २ धर्ममें निरतबसतेहैं और सुन्दर नेत्रोंवाली अन्य वेश्या भी बसती हैं ३० घृताची मैनका तिलोत्तमा उर्वशी और विप्रचित्तिके समान कांतिवाली ३१ और बिश्वाची प्रम्लोचाके सदृश प्रियवादिनी और प्रियहार्यवाली वेश्या वहां बसती हैं ३२ सब कुशल संयुक्त सब गुणोंसे संयुक्त और नृत्यगीतमें निपुण स्त्री वहां बसती हैं ३३ हे मुनिश्रेष्ठो वे स्त्री सबस्त्रियोंके गुणों से युक्त देखने में चतुर और सुन्दर तथा प्रियदर्शन

वाली हैं ३४ जिनके दर्शनमात्रसे मनुष्य मोहको प्राप्त होजाताहै वहां कोई निर्धन नहीं है और न कोई किसी का वैरी है ३५ वहां रोगीभी नहीं है मलिनभी नहीं है मायावीभी नहीं है और रूपहीन तथा दुर्वृत्त और पर-द्रोहकारी भी नहीं है ३६ पृथ्वीमें विख्यात ऐसे तिस क्षेत्रमें मनुष्य बसते हैं और सब सुख संचार औ सत्व-सुखाहैं ३७ अनेक प्रकारके मनुष्यों से आकीर्ण और सम्पूर्ण खेती और कर्णिकार पनस चम्पा नागकेशर पाटला शोकवृक्ष बकुल कैथ अर्जुन आंब नींब कदम्ब नारंगी खैर शाल ताड़ तमाल नारियल सहोंजना सस-कुम्भ कौविदार पीपल लकुट राल वृक्ष लोध देवदारु पालाश मुचुकुन्द पारिजातक कुन्द केला जामुन सुपारी कावृक्ष केतकी कनेर फूलेहुये केश मन्दार कुन्दकेपुष्प अन्य जातिकेपुष्प इत्यादिके वृक्षोंसे युक्तहै और बागों में अनेकप्रकारके पक्षी बोलतेहैं ३८ । ४३ फलोंकेभार से नयेहुये और पुष्पित वृक्ष दृष्ट आतेहैं कमल फूल रहेहैं और चकोर भौरा कोकिला ४४ और मधुरशब्द करनेवाले मयूर शब्द कर रहेहैं तोते और अनेकप्रकार के जीव तथा पपैये ४५ तथा अन्य पक्षीगण और मधुर २ बोलतेहुये अमर तालाबोंके ऊपर गूँजरहे हैं ४६ और अनेकप्रकार के वृक्ष पुष्प और जलाशयोंसे वह क्षेत्र चारोंतरफसे शोभित होरहाहै ४७ कृत्तिबासा अर्थात् चर्मके बस्त्रोंवाले महादेवजी सब लोकके हित और भुक्ते मुक्तिके लिये वहां विराजमानहैं ४८ और

पृथ्वीके समस्त तीर्थों नदियों सरोवरों तालाबों बाव-  
लियों कपों तथा समुद्रों ४९ से एक एक बूँद इंकट्टी  
करके शिवजी महाराजने सब लोकोंके हितकेलिये सब  
देवतों सहित ५० विन्दुमर नामक एकक्षेत्र वहाँ रचा  
है ५१ उस विपुल क्षेत्र में जो मनुष्य मार्गशिर में  
जितेन्द्रिय होके यात्रा करेगा ५२ और विधिसे स्नान  
कर भक्ति पूर्वक देवता ऋषि मनुष्य और पितरों का  
तर्पण ५३ तिल और जलसे नाम गोत्र विधानपूर्वक  
करेगा वह अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्तहोवेगा ५४  
ग्रहण और संक्रांति के दिन तथा समरात्रि दिवकाल  
और युगादिकतिथी वा अन्यशुभतिथी ५५ में जो मनुष्य  
ब्राह्मणोंके लिये धनादिक दान देतेहैं उन्हें अन्यतीर्थों  
की अपेक्षा सौगुना फल इसतीर्थ में होताहै ५६ इस  
तीर्थमें जो पितरों के लिये पिण्डदान देतेहैं वे पितरों  
की अक्षयवृत्ति करतेहैं इसमें सन्देह नहीं ५७ वेपुरुष  
जितेन्द्रिय होके शिवका पूजन और प्रदक्षिणाकर शिव  
लोकमें प्राप्तहोजाते हैं ५८ वहाँ जाके घृत और दूध  
से शिवजी को स्नानकरा और चन्दन सुगन्ध कुंकुम  
आदिका लेपकर ५९ चन्द्रमौलि महादेवका अनेकप्र-  
कारके पुष्पोंसे पूजनकरै ६० और शास्त्रोक्त तथा वेदोक्त  
मंत्रोंसे और अदीक्षितनामवाले मलमन्त्रसे शिवजीका  
जापकरे ६१ तथा दण्डवत्कर और अनेक प्रकारके म-  
नोहर मीतवादित्र ६२ नमस्कार जय शब्द प्रदक्षिणा  
इत्यादिक विधानोंसे देवदेव महादेवजीका पूजन करे



तो ६३ वह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धारकर दिव्य गहनोंसे भषित होके ६४ जाली के भरोखे लगे सोने के विमानमें बैठ गन्धर्व और अप्सराओं से उपगीयमान और सर्पोंसे सेवित हुआ ६५ सब दिशाओंको प्रकाशित करता शिवलोकमें प्राप्त होता है और ६६ वहां जाके प्रीतिदायक दिव्य सुखोंको भोग उस लोकवासियों के संग आनन्द करता रहता है ६७ पश्चात् पुण्य क्षीणहोनेपर इस पृथ्वी लोकमें आके जन्म लेता है ६८ हे द्विजोत्तमो फिर वह योगीजनोंके घरमें जन्म ले और चतुर्वेदीहो अर्थात् चार वेदोंका अध्ययनकर ६९ पाशुपत योगको प्राप्तहो मोक्षको प्राप्त होजाताहै ७० अयनके उत्थापन संक्रांतिके अर्क अशोक अष्टमी और पवित्रारोहण आदि ७१ पर्वणियोंमें जो मनुष्य कृत्तिवासा नामवाले अविनाशी महादेवका दर्शन करते हैं वे सूर्यके समान कांतिवाले विमानमें बैठ शिवलोकमें प्राप्त होते हैं ७२ और जो श्रेष्ठबुद्धिवाले पुरुष किसी अन्य पर्वकालमें भी महादेवका दर्शन करते हैं वे भी पापसे छूटके शिवलोकमें प्राप्त होते हैं ७३ महादेवसे पश्चिम पूर्व दक्षिण और उत्तर चारो तरफ अढाईयोजनमें जो वह क्षेत्रहै सो भुक्ति मुक्तिदायकहै ७४ इस क्षेत्रमें श्रेष्ठ भास्करेश्वर जो महादेवहैं जिन्हें पहिले सूर्य ने पूजा है उन्हें जो मनुष्य कुण्डमें स्नानकर देखते हैं ७५ वे सब पापोंसे निर्मुक्तहो श्रेष्ठ विमानोंमें बैठ ७६ और गन्धर्वों द्वारा उपगीयमान हो शिवलोकमें प्राप्त

होते हैं और वहां श्रेष्ठ भोगोंको भोग ७७ पुण्य क्षीण होने पर इस पृथ्वीलोकमें जन्मले धार्मिक ७८ यज्ञ करनेवाले दान करनेवाले और यती होते हैं ७९ जो पुरुष मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर स्वर्णजालेश्वर परेश्वर शुक्ला-चात्रातिकेश्वर नामोंसे विख्यात ८० शिवप्रतिमाओं को देखते और पूजन करते हैं और विन्दुसर तीर्थोंमें स्नान करते हैं ८१ वे सब पापों से निर्मुक्तहो बिमानोंमें बैठ गन्धर्वोंद्वारा उपगीयमानहुये शिवलोकमें प्राप्त होते हैं ८२ और वहां एक कल्पतक मुदित हुये ठहरते हैं और शिवलोकमें बहुतसे मनोहर भोग भोगके ८३ पुण्य क्षीण होनेपर इस लोकमें श्रेष्ठ कुलमें जन्मते हैं अथवा योगीजनों के घरमें वेद वेदांगको जाननेवाले होते हैं ८४ हे द्विजवरो वे मनुष्य सब मनुष्योंके हितमें रत रहते हैं मोक्षशास्त्रमें निपुण होते हैं और ८५ सब जगह वे समान बुद्धि रखते हैं तब शिवजीसे वरको पा मोक्षको प्राप्त होजाते हैं ८६ हे द्विजो उस क्षेत्रमें जहां २ शिवके लिंग स्थापितहैं वे सब पूजा करने लायकहैं ८७ चतुष्पथ श्मशान अथवा जहां २ शिवका लिङ्ग दीखे उसको ८८ अव्यग्रचित्तसे और श्रद्धासे समाहित हो स्नान करावे और भक्तिसहित गन्ध मनोहर पुष्प ८९ धूप दीप नैवेद्य चढ़ाके नमस्कार स्तोत्र दण्डवत् नृत्य गीत इत्यादिकोंसे शिवजीको प्रसन्नकरे ९० तो मनुष्य शिवलोकमें प्राप्त होताहै इसी विधानसे श्रद्धापूर्वक जो नारी शिवजीका पूजन करती है ९१ वहभी पूर्वोक्त फल

को प्राप्त होती हैं इसमें कुछ संदेह नहीं ६२ उस क्षेत्र के गुणोंको शिवजीके सिवाय कोई कहनेको समर्थ नहीं है ६३ उस उत्तम क्षेत्रमें चैत्र आदिक महीनोंमें जाके श्रद्धा से अथवा अश्रद्धासे जो नर अथवा नारी ६४ विन्दुसरतीर्थमें स्नान करताहै और विरूपाक्ष महादेव और पार्वती ६५ तथा गण स्वामिकार्तिक गणेश नांदि कल्पद्रुम और सावित्रीके दर्शन करताहै वह शिवलोक में प्राप्त होताहै ६६ जो पापको नाश करनेवाले कपिल तीर्थमें विधिसे स्नान करताहै वह अपने सब मनोरथों को प्राप्तहो शिवलोकमें प्राप्त होताहै ६७ एकाग्रक शिव क्षेत्र काशीजीके समानहै जहां मृत्यु पानेवालेकी मोक्ष होजाती है ६८ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायास्वयम्भश्चपिसम्बादेएकाग्रक  
क्षेत्रस्यमाहात्म्यवर्णननामचत्वारिंशोऽध्यायः ४० ॥

## इकतालीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि विरजक्षेत्रमें विरजा नाम वाली ब्राह्मणी माताहै जिसके दर्शन करके मनुष्य सातपीढ़ी को पवित्र करदेताहै १ उस देवीको देख भक्तिसे पूजन कर और प्रणाम कर मनुष्य अपने बंशका उद्धारकर ब्रह्माके लोकमें प्राप्त होताहै २ विरजक्षेत्रमें सब पापों को नाश करनेवाली और वर देनेवाली और भक्तवत्सला माता विराजमानहै ३ वहां सब पापों को हरने

बाली वैतरणीनदी भी है जहां स्नानकर मनुष्य सब पापोंसे छूटजाताहै ४ क्रोडरूपी हरिभगवान् भी वहां बास करते हैं जिनकी भक्तिसे मनुष्य दर्शनकर विष्णु पुरमें प्राप्त होताहै ५ कपिल गोग्रहतीर्थ सोमतीर्थ बालासंज्ञक मृत्युक्षय क्रोडतीर्थ वासुक और सिद्धकेश्वर यह तीर्थ भी वहां हैं ६ इन तीर्थों में स्नानकर मनुष्य बुद्धिमान् और जितेन्द्रिय होके देवताओं को प्रणाम कर ७ सब पापोंसे छूट श्रेष्ठ विमानमें बैठ गन्धर्वों से उपगीयमान हुआ मेरे लोकमें प्राप्त होताहै ८ जो पुरुष बिरजक्षेत्रमें पिंडदान करताहै वह पितरोंकी अक्षय तृप्ति करताहै इसमें संदेह नहीं है ९ हे मुनि श्रेष्ठो जो पुरुष बिरजक्षेत्रमें शरीरको त्यागते हैं वे मोक्षको प्राप्त होजाते हैं १० और जो मनुष्य समुद्रमें स्नान करके कपिल हरिभगवान्का दर्शनकर बाराहीदेवीके दर्शन करताहै वह स्वर्गलोकमें प्राप्त होताहै ११ वहां उत्कलक्षेत्रमें अन्यभी पवित्र तीर्थ और देवताओंके स्थान बहुतसे हैं १२ हे द्विजोत्तमो समुद्रके उत्तरभागमें मुक्ति को देनेवाला और पापको नाशनेवाला वह परमगुह्य क्षेत्रहै १३ और वहां दशयोजनमें विरुतीर्ण और परम दुर्लभ सावित्रतीर्थ है १४ जिसमें अशोकवृक्ष अर्जुन वृक्ष पुन्नाग बकुल सरल पनस नारियल शाल ताड़ कौंच १५ कर्णिकार तमाल देवदारु कदम्ब पारिजात बड़ अगर चन्दन खजूर चूका मुचुकुन्द केशू १६ और सातला सहीजना शिरस सुन्दर नींबू टेंडू बहेड़ा इत्या-

दिक वृक्ष शोभित होरहे हैं १७ और सब वृक्ष फलों और मनोहर चमेली के पुष्पोंसे १८ शोभा देरहे हैं मनको प्रसन्न करनेवाले शब्दोंको करतेहुये चकोर मयूर भौरे तोते १९ कोकिला कलहंस जीवकपक्षी हारीत पपीहे और मधुर बोलनेवाले अन्य अनेक २० पक्षी कानोंको रमणीक शब्द सुनातेहुये वहां कूजरहे हैं २१ और केतकी बनखण्ड अतिमुक्त मालती कुन्द और कनेरके पुष्पोंकी शोभा होरहीहै जम्बीरीनींबू २२ अनार और बिजौरा आमसोल सुपारी ताड़ केला २३ इत्यादिक और रंग विरंग पुष्पोंवाले अन्य मनोहर वृक्षों और अनेक प्रकार की सुन्दर बेलों से आच्छादित सरोवर २४ बड़ी २ बावड़ी तालाब कुण्ड इत्यादिक और सफेद तथा नीले कमलोंसे भषित अन्य जलाशयोंपर २५ । २६ अतिशोभा होरहीहै और राजहंस चकवा चकवी जलकुक्कुट कारण्डव २७ हंस कछुवे मत्स्य बगुले इत्यादिक जलचारी जीव क्रीड़ा कररहेहैं जिनके गूँजने २८ जलोद्भव पुष्पोंके विकास २९ और ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ भिक्षुक और अपने धर्म में निरत अन्य वर्णोंसे वह क्षेत्र अलंकृत होरहा है ३० दृष्टपुष्ट नर और नारियोंसे आकीर्ण सब विद्याओंका स्थान और सब गुणोंकी खानि ३१ वह परम दुर्लभ क्षेत्रहै हे मुनियो वहां पुरुषोत्तमनामसे विख्यात भगवान् विराजमान हैं ३२ उस क्षेत्र में जहां गिरै और जैसे गिरै वही कृष्णके प्रसादसे पुण्य देनेवाली है ३३

वह जगद्व्यापी विश्वात्मा पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान् जहां विराजमान है वहां सब कुछ प्रतिष्ठित है ३४ मैरुद्र इन्द्र अग्नि आदि देवते उस देशमें बसते हैं ३५ और गन्धर्व अप्सरा सिद्ध पितर देव मनुष्य यक्ष विद्याधर तीक्ष्ण व्रतवाले मुनि ३६ बालखिल्य आदिक ऋषि कश्यप आदिक प्रजेश्वर गरुड सर्प और अन्य स्वर्गवासी ३७ तथा अंगोंसहित चारोंवेद और अनेकप्रकार के शास्त्र इतिहास पुराण श्रेष्ठ दक्षिणावाले यज्ञ ३८ और अनेकप्रकारोंकी पवित्र नदी पवित्र तीर्थ और देवताओं के स्थान ३९ समुद्र पर्वत सब उस देशमें व्यवस्थित हैं ऐसे देवर्षि पितृसेवित देशमें ४० किसको वास नहीं रुचता है अर्थात् बसनेकी इच्छा कौन नहीं करता है उस देशकी अन्य उत्तमता क्या कहें ४१ मुक्ति को देनेवाले पुरुषोत्तम भगवान् स्वयं वहां विराजमान हैं वे पण्डितजन धन्य हैं जो उत्कलेवर क्षेत्र में बसते हैं ४२ जो पुरुष तीर्थराजके जलमें स्नानकर पुरुषोत्तम भगवान् के दर्शन करते हैं वे सदा स्वर्गमें बसते हैं ४३ और जो उत्कल क्षेत्र में बसते हैं उनका जीवन सफल है जो इस क्षेत्र में शरीर छोड़ते हैं उनका जीवन सफल है ४४ जो ताम्रसरीखे होठोंवाले खिलेहुये कमल सरीखे नेत्रोंवाले विशाल भृकुटी और केशोंवाले ४५ सुन्दर मुकुटवाले सुन्दर हास्य और सुन्दर दांतोंवाले सुन्दर कुण्डलोंसे मण्डित ४६ और सुन्दर नासिका कपोल मस्तकवाले उत्तम लक्षणोंवाले और त्रिलोकी

को आनन्द देनेवाले श्रीकृष्ण के मुखरूपी कमलको देखतेहैं उनका जीवन सफलहै ४७ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांउत्कलक्षेत्रवर्णननाम

एकचत्वारिंशोऽध्यायः ४१ ॥

## बयालीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि हे विप्रो पहले कृतयुगमें इन्द्रके समान पराक्रमवाला इन्द्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजाथा जो सत्यवादी पवित्र चतुर और सबशस्त्रधारण करनेवालोंमें उत्तम रूपवान् सुभगशूर दाता भोक्ता और प्रियंवद सबयज्ञोंका यष्टा ब्रह्मण्य सत्यसंगर धनुर्वेद और वेदशास्त्रमें निपुण नर और नारियोंका मित्र पौर्णिमाके चन्द्रमाके समान शीतल और सूर्यकीतरह दुष्प्रेक्ष्य शत्रुओंके यज्ञमें भयको देनेवाला और वैष्णव और नित्य सम्पन्न जितक्रोध और जितेन्द्रिय अध्यात्मविद्यामें निरत मोक्षकी इच्छावाला और धर्म में तत्परथा निदान उसकीरुचि विष्णुके आराधनमें उत्पन्न भई १।६ और यहचिन्ता उपजी कि देवतोंके देव विष्णु की आराधना कैसेकरूँ और किसतीर्थ क्षेत्र व आश्रम में करूँ ७ ऐसी चिन्ता करके वह राजा मनसे पृथिवी के सब तीर्थों और आश्रमोंको देख ८ और मनहींसे सबोंका चिन्तवन कर मुक्तिके देनेवाले और विख्यात कुरुक्षेत्र में गया ९ और तहां जाकर बहुतसी दक्षिणावाले अश्वमेध यज्ञको करनेकी इच्छासे १० अतिवि-

स्तृत एक स्थान बनाकर उसमें बलदेव कृष्ण सुभद्रा  
 आदिकोंकी मूर्तियोंको स्थापित किया ११ और पंच-  
 नद तीर्थको विधिसे बनाके स्नान दान तप होम देव  
 दर्शन आदि करनेलगा १२ वह भक्तिसे नित्यप्रति  
 विष्णुको प्रणाम करताथा और विष्णुके प्रसादसेही  
 अन्तमें मोक्षको प्राप्तहुआ १३ हे विप्रो मार्कण्डेय वट  
 श्रीकृष्ण और बलदेवके दर्शन और इन्द्रद्युम्न सरमें  
 स्नान करनेसे निश्चय मोक्षहोताहै १४ मुनियोंने पूछा  
 हे भगवन् इन्द्रद्युम्न राजा किसकारण मुक्तिको देनेवाले  
 कुरुक्षेत्र में गया १५ और वहां जाकर कैसे विस्तार से  
 अश्वमेधकरके उसने विष्णुकोदेखा १६ तथा सब फलों  
 को देनेवाले और परमदुर्लभ कुरुक्षेत्र में त्रैलोक्य में  
 विश्रुत उसस्थानको उसने कैसेबनवाया १७ क्योंउसने  
 कृष्ण बलदेव और सुभद्राकी मूर्तियोंको स्थापितकिया  
 १८ और कैसे उस राजशार्दूल ने उस स्थान में १९  
 देवतांसे पूजित कृष्ण आदि तीनोंको स्थापित किया  
 २० हे मुनिश्रेष्ठ विस्तारपूर्वक यथायोग्य २१ उसके  
 चरित्र कहनेको आप योग्यहो और आपके वाक्यरूपी  
 अमृतसे हम तृप्तिको नहीं प्राप्तहोते २२ इसलिये इस  
 वृत्तांतको श्रवणकरने की इच्छाहै क्योंकि हमें अति  
 आश्चर्य्य प्रतीत होताहै २३ ब्रह्माजी बोले कि हे द्विज-  
 श्रेष्ठो जो तुम उस पुरातन आख्यान को पूछतेहो जो  
 सब पापोंको हरनेवाला भुक्ति और मुक्तिको देनेवाला  
 और शुभ है २४ तो जैसे कृतयुग में हुआ है तैसे मैं



कहता हूँ २५ हे जितेन्द्रिय मुनिजनो तुम श्रवणकरो  
 पृथिवी में मनुष्योंसे विश्रुत अन्वन्ती नामक नगरी है  
 २६ जो सब नगरियोंमें उत्तम दृष्टपुष्ट जनोंसे आकीर्ण  
 दृढप्राकार तोरणोंवाली गम्भीर परिखाओंसे अलंकृत  
 अनेकप्रकारके जनोंसे आस्तीर्ण नानाप्रकारके मनुष्यों  
 से युक्त और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि अन्य  
 जातियोंसे व्याप्त नानाप्रकार के आयुधों और अनेक  
 प्रकारके भांडोंसे संयुक्त गली बाजारोंसे रमणीय और  
 दृढ चतुष्पथों से भूषित अनेकतरह की अटारियों से  
 शोभित गोशाला और मार्गोंसे अलंकृत राजहंसों के  
 समान कांतिवाले क्षुद्र और चित्रश्रीवावाले मनोहर  
 लक्षों स्थानोंसे अलंकृत यज्ञ और उत्सवोंसे आनन्दित  
 और गीत वादादिकोंसे शब्दित नानावर्णवाली पताका  
 और ध्वजाओंसे अलंकृत और हस्ती घोड़ोंके समूहों  
 से संकीर्ण पदातिगण से संकुल अनेकतरहकी काम-  
 नाओंकी दाता विद्वानोंसे अलंकृत और मलिन दुःखी  
 दुर्बल रोगी अंगहीन जुवारी आदि मनुष्यों से रहित  
 सुन्दर मनवाले पुरुष और स्त्रियोंसे व्याप्त है वहां दिन  
 और रात्रिमें आनन्दित हुये मनुष्य अलग २ क्रीडा  
 करते हैं २७ । ३६ और सुन्दर कुण्डल और रूपोंवाले  
 देवते दीखते हैं ३७ एवम् सुन्दर ऐश्वर्यवाले और  
 कामदेवके समान कांतिवाले दिव्य अलंकारोंसे भूषित  
 और सब लक्षणोंसे लक्षित सुन्दर केशों नरम कपोलों  
 और आनन्दमुखोंवाले शोभाको धारणकरनेवाले सब

शास्त्रोंके ज्ञाता सब रोगोंके भेत्ता सब रत्नोंके दाता और सब सम्पदाओंके भोक्ता शूरवीर पुरुष ३८ । ४० और हंसके समान विचरनेवाली कानों तक विस्तृत नेत्रोंवाली सुन्दर मध्यवाली चिकने जघनोंवाली पनि और उन्नत स्तनोंवाली सुन्दर केशोंवाली और चन्द्रमुख वाली उज्ज्वलकपोलों और स्थिर मुखोंवाली हारों के भारसे उन्नत ग्रीवावाली लाल ओष्ठोंवाली और रंजित और ताम्बूलसे विराजित मुखोंवाली सुवर्ण और गहनोंसे उपेत कानोंके गहनों और सब अलंकारों से भूषित श्यामरंग से युक्त और सुन्दर कटिवाली तागड़ी और नूपुरसे शब्दित दिव्य माला और दिव्य गन्ध अनुलेपनको धारण करनेवाली सुन्दर मुखोंसे प्रकाशित और सुन्दर अंगोंवाली रूप और लावण्य से संयुक्त और हँसित मुखोंवाली मनोहर स्त्रियां रहती हैं मदीन्मत्त हुई चौराहों और सभाओं में क्रीड़ा करती और गतिवाद्य और कथाओंके आलेपसे रमणकरती हुई गीत और नृत्यमें निपुण बहुतसी वेश्यायें भी वहां दीखती हैं ४१ । ४७ और बहुतसे स्त्रीगणोंसे सेवित देखनेके योग्य और कुशल अन्य स्त्रियां भी वहां हैं ४८ गणोंसे समन्वित और सब रत्नोंसे अलंकृत पतिव्रता स्त्रियोंसे आकीर्ण और वन उपवन पवित्र उद्यान देवताओंके दिव्य मंदिरों और पुष्पों के वृक्षों तथा ताल तमाल बकुल नागकेसर दियाल कर्णिकार चन्दन अगर् चम्पक और पुन्नाग नारिकेल पलाश सरल नारंग

बड़हल लोध सातला सहैजना आंब अमली शीसम  
धव खैर पाटला अशोक तगर और लाल और पीले  
कनेरके वृक्षों कदम्ब अर्जुन भिलावा अम्बाड़ा बड़ पी-  
पल गम्भारीके वृक्षों देवदारु मन्दार पारिजात तिल-  
डीक बहेड़ा प्राचीन आंवला पिलखन जामुन शिरस  
काला अगर कचनार बिजौरा केंदुक खजूरि अगस्त्य  
शाखोटक कंकोल मुचुकुन्द हिन्ताल बीजपूरक केतकी  
बनखण्ड कुन्दुक मल्लिका कुन्द भिंटी केला पूंगफल  
कन्दर सँभालू बट निर्गुण्डी अर्थात् सँभालू ल-  
सोढ़ा बड़बेरी करंजु और अन्यप्रकारके अनेक वृक्षों  
लताओं गुल्मों और नन्दनवनके समान पुष्पों और  
पुष्पोंकी गन्धसे युक्त और सबकालमें फलोंवाले वृक्षों  
और चकोर कमल प्रियपत्रक बातक प्रियपुत्र हारीत  
जीयापोता जीवक आदि वृक्षोंसे शोभित और कलं-  
विक शशा कोकिल आदि कानोंमें रमणीक शब्दकरने  
वाले और मनोरम पक्षियोंसे शब्दित बहुतसे तालाब  
और दिव्यजलाशयों से उपशोभित कौमोदिनी लाल  
और नीले सुगन्धित कमलों से आकीर्ण और नाना-  
प्रकारके अन्य वृक्षों मनोहर पुष्पों और सब प्रकारके  
सुगन्धित पुष्पोंके वनों और हंस कारण्डव चकवा च-  
कवीसे उपशोभित सारस बगुला कछुआ मच्छीआदि  
से संयुक्त जलके स्थानों से आवृत और वेत कदम्ब  
जल कुसुम और जलचर जीवों और वानरोंसे विभू-  
षित वृक्षोंसे उपशोभित और नानावर्णके आनन्दित

रूप पक्षियोंसे शब्दित नानाप्रकारके वृक्ष और पुष्पों से शोभित अनेकतरहके जलाशयों उद्यानों और जल और स्थलचारी पक्षियोंसे अधिष्ठित और देवताओं के स्थानोंसे शोभित उसपुरीमें त्रिपुरके शत्रु और तीन नेत्रोंवाले ४६ । ७० महाकाल नामसे विख्यात और सब कामनाओं को देनेवाले सदाशिव स्थित हैं ७१ वहां देव ऋषि और पितरोंका विधिसे तर्पणकर शिवालयमेंजा तीन परिक्रमाकरै ७२ और धौत वस्त्रोंको धारणकर और जितेन्द्रियजलपुष्प गन्ध धूप दीप ७३ नैवेद्य बलिदान गीत वाद्य परिक्रमा दण्डवत् प्रणाम नृत्यस्तोत्र आदि से महादेव की पूजाकरै ७४ तो विधिपूर्वक महाकालरूप शिवको पूजने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्तहोताहै ७५ और सब पापोंसे मुक्त हो सार्वकामिक विमानमें स्थित होकर स्वर्ग में गमन करता है जहां शिवका स्थान है ७६ और दिव्यरूपको धारणकर और शोभासेसंयुक्त और दिव्यगहनोंसे अलंकृत होकर प्रलयतक उत्तम भोगोंको भोगैहै ७७ हे मुनिश्रेष्ठो वह मनुष्य बुढ़ापा और मृत्युसे बर्जित हो अनन्तकालतक शिवलोक में बसताहै और पुण्यक्षय होनेपर उत्तम ब्राह्मणकुलमें जन्मता है ७८ तहां चार वेदों को जाननेवाला और सब शास्त्रोंमें निपुण होकर प्राशुपत योगको प्राप्तहो मोक्षको प्राप्तहोताहै ७९ उस स्थलमें शिप्रानामक एकनदीहै जिसमें विधिसे स्नान कर और देव पितृका तर्पणकरने से ८० मनुष्य सब

पापों से मुक्त हो विमानमें स्थित होकर स्वर्गलोकमें उत्तम भोगों को भोगता है ८१ वहां भगवान् गोविन्द स्वामी भुक्ति मुक्तिप्रद विष्णुभी स्थित हैं ८२ उनकी भक्ति से पूजन और प्रणाम करने से मनुष्य गन्धर्वोंसे गीयमानहुआ विष्णुलोक में वसता है ८३ और प्रलयतक नानाप्रकार के भोगोंको भोगताहुआ सुन्दररूपवाला सुभग और सुखीरहता है ८४ फिर वह बुद्धिमान् समयपाकर ब्राह्मणकेकुलमें जन्मलेकर वेद शास्त्रके तत्त्व को जाननेवालाहोता है ८५ और वैष्णव योगको प्राप्त हो मोक्षको प्राप्तहोता है ८६ विक्रमस्वामी नामवाले विष्णु जो वहां स्थित हैं तिनको देखने से मनुष्य पूर्वोदित फलको प्राप्तहोता है ८७ इन्द्रआदि देवते और सब कामोंके फलको देनेवाले मातृगण भी तहां स्थित हैं ८८ जिनकी विधिसे भक्तिपूर्वक पूजाकरने से मनुष्य सब पापों से मुक्तहो स्वर्गलोक में प्राप्तहोता है ८९ वह नगरी ऐसे राजसिंहोंसे पालित रमणीक और नित्य प्रति उत्सवों से आनन्दित है जैसे इन्द्रकी अमरावती ९० छत्तीसग्रामोंसे विभूषित विद्वानोंके गणोंसे युक्त वेदों केशब्दोंसे शब्दित ९१ और इतिहास पुराणआदि अनेक प्रकारके शास्त्रों काव्य और कथा वहां दिनरात्र होता है ९२ ऐसे माया और गुणोंसे सम्पन्न वहां उज्जयनी नगरी है जहां महामतिवाला इन्द्रद्युम्न राजाहुआ ९३ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूत्पिसंवादे अवन्तिका-

## तेजालीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि उस पुरीमें उत्तम राज्य करने वाले इन्द्रद्युम्न राजाने सपुत्रोंकी तरह प्रजाको पालन किया १ और सत्यवादी महाप्राज्ञ शूर सब गुणों की खानि मतिमान् धर्मों में सम्पन्न शास्त्रियों में श्रेष्ठ शीलवान् चतुर और श्रीमान् परपुरोंको जीतनेवाला सूर्यके समान तेजवाला अश्विनीकुमारोंके समान रूपवाला आठ प्रकारके ऐश्वर्योंवाला और इन्द्रके समान पराक्रमवाला शरदऋतुके चन्द्रमाके समान प्रकाशित और सब लक्षणोंसे अलंकृत अश्वमेधादि सब यज्ञों का कर्त्ता और दान यज्ञ तपमें ऐसा हुआ कि उसके समान अन्य राजा न था सुवर्ण मणि मोती हाथी घोड़े आदि महाधनोंको सुन्दर योगमें ब्राह्मणोंको देनेवाला २ । ६ और हाथी अश्व रथ रत्न धन धान्यसे उत्पन्न हुये मानसे वर्जित ७ सब शुभगुणोंसे अलंकृत और सब कामोंसे समृद्ध वह राजा अकंटक राज्य करने लगा ८ निदान उसको यह बुद्धि उपजी कि सर्वयोगेश्वररूप और भुक्ति मुक्तिको देनेवाले विष्णुकी कैसे आराधना करूं ९ इसलिये वह सब शास्त्रों इतिहासों पुराणों और वेदांगों १० एवम् धर्मशास्त्रों और ऋषिभाषित आगम वेदान्तशास्त्र और सर्वविद्यास्थानोंको विचार ११ और गुरु और वेदपारग अन्य ब्राह्मणोंका यत्नसे सेवनकर और परम समयकी आराधनाकर कृतकृत्य हुआ १२

वासुदेवरूपी परमतत्त्वको प्राप्तहोकर और भ्रांतिज्ञान से अतीत बद्धमोक्षकी इच्छावाला और शांत इन्द्रियों वाला वह राजा बोला कि पीतवस्त्रोंवाले चार बाहुओंवाले शंख चक्र और गदाको धारण करनेवाले देवदेव सनातन वनकी मालाओं को धारण करनेवाले कमल के पत्रोंके समान विस्तृत नेत्रोंवाले और लक्ष्मीके चिह्न वाले मुकुट और अंगदसे विभूषित विष्णुकी मैं कैसे आराधना करूँगा निदान वह राजा स्वप्नकी तरह अ-वन्तीपुरीसे निकसकर बहुतसी सेना भृत्य और पुरोहितों के संग शस्त्रों को धारण करनेवाले योद्धाओंसे सेवित विद्यानोंके समान कांतिवाले ध्वजा पताकाओंसे शोभित पाश भाला आदिको हाथोंमें धारण करनेवाले पियादों से परिद्वत दिव्य वस्त्रोंको धारणकिये दिव्यगन्धोंसे अ-नुलिप्त अंगों शरद ऋतुके ज्वन्द्रमृके समान मुख सुन्दर मध्यभागवाला सुन्दर कुंडलोंसे अर्चित और मणि और सुवर्णसे भूषित सुन्दर असवारियों और कुटुम्बके गणों से परिद्वत और नानापुस्वासियोंके धन रत्न सुवर्ण द्वारा और परिच्छदों से परिद्वत इतिहास व सर्वशास्त्रोंके वेत्ता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्यजातियोंसे परिद्वत चला और सुवर्णकार लुहार शकुटुक मणिकार कुम्भ-कार चर्मकार अनुयाचक पण्यकार वेत्रकार सूत्रकार शिल्पी केशकार बाणकार वृत्तकार शंखकार सुधाकार वादक अपूपकार सीरनी वेचनेवाले मालाकार पर्णकार मद्यविक्रयी मत्स्यविक्रयी मांसविक्रयी अस्त्रविक्रयी ता-

म्बूलबिक्रयी पण्यजीविकावाले ऋणबिक्रयी काष्ठबिक्रयी-  
रंगोपजीवी घोबी गोपाल नापित दरजी मेढों घोड़ों  
और बकरों के रखवाले मृगपाल फल बेचनेवाले पान  
बेचनेवाले काष्ठ बेचनेवाले रस बेचनेवाले जो धान्य  
बेचनेवाले सत्तू बेचनेवाले गुड़ बेचनेवाले लवण बेचने  
वाले गवैये और नृत्यकरनेवाले मंगलपढ़नेवाले शैलूष  
और कथक पुराणोंमें निपुण पंडित और काव्य रचने  
वाले कवि और अनेक बाजोंको बजानेवाले विषको ना-  
श करनेवाले गोरुडी और अनेक शस्त्रोंके परीक्षक लुहार  
ठठरे और कांशीकार अवखटक शेषकार और वेत्रकार  
कुन्दकार और यार्चकरदनकार और तलवार बनानेवाले  
चारपुरुष जुवाखेलनेवाले और यक्ष और दूत और का-  
यस्थ और अन्यकर्म करनेवाले जुलाहे काच्यकार बर्तक  
तेली और ग्रामके जीवोंवाले तीतरोवाले मृगोंवाले गज-  
वैद्य अश्ववैद्य और बड़े चतुर नरवैद्य वृषवैद्य गौवैद्य और  
अन्य वेदवाहक आदि अनेकनगरवासी राजाके पीछे ऐसे  
चले जैसे जातेहुये पिताके अनुउत्साहवाले पुत्र १३।३८  
निदान सम्पूर्ण महाजनों ने उस श्रीमान् राजाको घेर  
लिया ३६ और हस्ती अश्व रथ पदाति सम्पूर्ण होले २  
जाके दक्षिणतटपर अनेक तरंगोंसे आकुल अनेकप्र-  
कारके रत्नोंसे रमणीक नानाप्रकार के शंखों और बहुत  
विचित्र रत्नोंसे व्याप्त महाश्चर्य्य संयुक्त और महाशब्द  
वाले तीर्थराजको गये ४०। ४३ और मेघसमूहकीसी  
कांतिवाले अगाध और मकरोंकेस्थान मत्स्य कूर्म शंख



शुक्रिका नक्रशंकु ४४ शिशुमार कीटक कीट आदि और महाविष सर्पोंसे व्याप्त हरि और शमनके स्थान और नदियोंके पति ४५ सम्पूर्ण पापोंके हरनेवाले पवित्र और इच्छितफल देनेवाले दानवोंके आश्रय दिव्य और देव योनि और अनेक आवर्त्तोंसे गम्भीर और जलोंके पति सबभूतोंको सुन्दर और प्राणियोंके जीव धारण करनेवाले पवित्रोंमें पवित्र और मंगलोंमें मंगल तीर्थोंमें उत्तमतीर्थ और अव्यय चन्द्रमा की वृद्धि क्षयकी तरह दीखतेहुये प्रतिष्ठित और सब जीवोंसे अभेद्य सब जीवोंका अमृत स्थान और उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण सदा रहने वाले और सबके उपजीवन पवित्र और नदियोंके पति लवणोद समुद्रके तीरपर निवासकिया ४६ । ५१ उस पुण्य मनोहर और सब भूमिके गुणोंसे युक्त देश कोष शाल वृक्ष कदम्ब पुन्नाग सरलवृक्ष पनस नारियल बड़हल नागकेसर ताड़ प्रियाल खजूर नारंगी विजौरा शाल आम्रालक लोधू बकुल बहुबीजक कपित्थ कर्णिकार पाटला अशोक चम्पक अनार तमाल पारिजात अर्जुन पुराने आंवले बेलपत्र प्रियंगुबट बेर क्षारक अमलतास अडवत्थ अगस्त्य जामुन महुवा कर्णिकार बहुवार तेन्दुक ठाक चन्दन कदम्ब सहोजना इंगुदी सातला भलानक ताड़ हिताल काकोल कुटज बहेड़ा कदम्ब जामुन खम्भारी शाल्मली देवदारु शाखोटक भिन्नबट कुम्भीर हरीतक गूगुल चन्दन तोत्र अगर पाटला जंबीर करुण अमली लालचन्दन आदि नानाप्रकारके

वृक्षों तथा नित्यफल देनेवाले कल्पद्रुमसे शोभित पुष्प  
 वृक्षोंपर बैठे गँजतेहुये कौकिलाओं मयूरों तोतों मैनाओं  
 भौरों पपैयों जीव और जीवक काकोल और कलविक  
 अर्थात् चिमना नामवाले पक्षी और कपोतक आदि  
 नानाप्रकारके पक्षियोंके समूहोंके शब्दोंके घोषसे कानों  
 को रमणीक करनेवाले और केतकी वनखण्ड मल्लिका  
 कुन्द यूथिका तगर कुटज बाणपुष्प अतिखिलीहुई कुंजक  
 मालती कनेर केला और कचनार और नानाप्रकारके  
 दूसरे सुगन्धिवाले और दीखनेमें सुन्दर बगीचोंमें पवन  
 से बहुतप्रकारकी उठीहुई सुगन्धिसे शोभित विद्याधरों  
 के गणोंसे युक्त सिद्ध चामरोंसे सेवित और मृग सिंह  
 बराह और भैंसोंके समूह एवम् कृष्णसार आदिक मृग  
 शार्दूल गर्ववाले हस्ती और बहुतसे वनमें रहनेवाले  
 दूसरे जानवरोंसे युक्त वनों नानाविधि के वृक्षों लताओं  
 गुल्मों तौरणों सहित उद्यानों और हंस और कारण्डवों से  
 युक्त पद्मिनीके खंडोंसे मण्डित और कलहंस चकवा और  
 बगुलोंसे शोभित एवम् सौ पत्रवाले और कल्हार कमलों  
 कुमुदोत्पल और पक्षियों जलकेजीवों और जलमें उत्पन्न  
 हुये पुष्पोंसे युक्त जल स्थलों और सुन्दर गुहाओं से  
 शोभित नानाप्रकारके कृत्योंसे युक्त नानाप्रकारके धातु-  
 ओंके उत्पादक और सम्पूर्ण आश्चर्यमय पर्वतों के  
 शिखरों और सम्पूर्ण प्राणियोंके निवासयोग्य और स-  
 म्पूर्ण औषधियोंसे युक्त उस मनको हरनेवाले और त्रि-  
 लोकीसे पूजित तीर्थको राजाने देखा ५.२ । ७५ दश

योजन लम्बा पांचयोजन चौड़ा और बहुतसे आश्चर्यों  
से युक्त वह क्षेत्र बहुत दुर्लभ है ७६ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भुवृषिसम्वादे क्षेत्रदर्श-  
ननाम त्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ४३ ॥

## चवालीसवां अध्याय ॥

मुनियोने पूछा कि हे प्रभो क्या उस पुण्यक्षेत्रमें पहले  
वैष्णवी मूर्ति नहीं थी १ क्योंकि आपने कहा कि इस  
राजाने सेना सहित वहां जाके श्रीकृष्ण बलदेव और  
सुभद्राकी मूर्ति स्थापनकी २ यह हमें महान् आश्चर्य  
है इसलिये आप सम्पूर्ण कारण कहिये ३ ब्रह्माजीबोले  
कि हे मुनियो यह पापोंको नाश करनेवाली कथा जैसे  
पहिले लक्ष्मीने पूछीथी सो मैं सम्पूर्ण कहताहूँ सुनो ४  
सुमेरु पर्वतमें सोनाकी शिखरहै जो सम्पूर्ण आश्चर्यों  
से युक्त सिद्धों विद्याधरों यक्षों और किन्नरों से शोभित  
और देव दानव गन्धर्वनागों अप्सराओं सिद्धों सौपर्णों  
और मरुतोंके गणोंसे युक्त है और वहां अनेक देवते  
कश्यप आदि प्रजाके ईश्वर और बालखिल्य आदिक  
ऋषि रहतेहैं उस शिखरपर सुन्दर कर्णिकार वृक्ष सब  
ऋतुओंमें होनेवाले पुष्पोंके समूह और सोनेके सदृश  
शोभासे शोभित और सूर्यकेसी शोभावाले शाल ताल  
आदि पुन्नाग अशोक सरल न्यग्रोध आम्रातक अर्जुन  
पारिजात आंब खैर कदम्ब बेलपत्र चम्पक धव खादिर  
ढाक शिरस आमला तिन्दुक नारियल अश्वत्थ अर्थात्

पीपल और बहुतप्रकारके लोध अनार बिजौरा राल अश्व  
 कर्ण तगर शिशम भोजपत्र नींब तथा बहुप्रकारके पुष्पों  
 की गन्धसे शोभित और देवताओं से पूजित फलों से  
 भुके वृक्ष और मालती युथिका चमेली वाणा कुरंटक  
 केनेर कमल केतकी कुंज केशू पाटला अगस्त्य कुटज  
 मन्दार आदिक बहुतप्रकारके पुष्प वृक्ष हैं जिनपर मन  
 को प्रसन्न करनेवाले बहुतप्रकारके पक्षियोंके समूह मधुर  
 स्वरसे कूजते हैं और कोकिलों मातुल और मयूरों के  
 गण बोलते हैं ऐसे अनेकप्रकारके फल और बहुतप्रकार  
 के पुष्प वृक्ष और बहुप्रकारके पक्षियों और देवतों से  
 सेवित उस स्थानमें स्थित जगन्नाथ अविनाशी जगत्  
 के रचनेवालेको देवी लक्ष्मी ने प्रणाम करके लोकों के  
 हितकेलिये प्रश्नकिया कि भूमिमें सुन्दर स्थान कौनसा  
 है ५। १८ लक्ष्मी बोली कि हे सब लोकोंके ईश मेरे  
 हृदयमें संशय है कि महा आश्चर्य्य और दुर्लभ कर्म  
 भूमि १६ मर्त्यलोक में लोभ और मोहसे ग्रसित और  
 काम क्रोध रूपी संसारसागर में पड़े जीव किसप्रकार  
 छूटेंगे इसलिये हे देवेश २० आप इसका वर्णनकरो हे  
 देवेश जो आप मुझसे प्रीति रखतेहो तो यह सम्पूर्ण  
 वर्णनकरो क्योंकि आपके सिवाय इसलोकमें मेरे संशय  
 को दूर करनेवाला कोई नहीं है २१ देवतोंकी देव जना-  
 र्दन लक्ष्मी का यह प्रश्न सुनके परमप्रीति से अमृत  
 वचन बोले कि २२ हे देवि एक बहुत सुसाध्य और  
 महाफल देनेवाला उपाय है उसे सुनो पुरुषोत्तम नामक

एक तीर्थवरहै जिसके समान त्रिलोकीमें कोई वस्तु नहीं है २३ उसके कीर्तनमात्रसे अनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे दूर होजाताहै उसे देवताभी नहीं जानते और न दानवही जानते २४ मरीचिं आदि मुनियोंसे मैंने उसे गुप्तरक्खा है २५ पर आज तेरेआगे कहताहूँ एकान्त चित्तकरके मुन २६ कल्पके अन्तमें स्थावर जंगमके नष्टहुये और दैत्य विद्याधर उरग देव और गन्धर्वोंके प्रलीन होनेके पीछे २७ यह भूमि तथा और कुछभी वस्तु नहीं रहती तब जगत् का गुरु विश्वात्मा जागताहै २८ ब्रह्मशोभा वाला तीनों मूर्त्तमय और जगत् का रचनेवाला महेश्वर और वासुदेव नामसे विख्यात योगात्मा हरि ईश्वर २९ योगनिद्राके पीछे सुन्दर कमलसे पद्मकोशके प्रकाश करनेवाले ब्रह्मा अविनाशीको उत्पन्न करताहै ३० तिसके पीछे सर्वलोक महेश्वर ब्रह्मा पंचभूत समायुक्त जगत्को हौले रचताहै ३१ स्थूलमात्रा भूतो और स्थूल सूक्ष्म चारप्रकारके स्थावर जंगम जीवोंको रचकर ३२ प्रजापति ब्रह्मा ने मनसे आत्मा को चिन्तवनकर बहुत प्रकारकी प्रजाकोरचा और ३३ मरीची आदि सत्रमुनियों देवताओं असुरों पितरों यक्षों विद्याधरों साध्यों राक्षसों उरगों किन्नरों और भूपालों सहित सात स्वर्ग चौदह भुवन सातद्वीप सातसागर और गंगा आदि नदी नर वानर सिंह और बहुतप्रकारके पक्षी और जरमे उत्पन्न होनेवाले अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले पसीने से उत्पन्न होनेवाले और जलसे उत्पन्न होनेवाले जीव ब्राह्मण

क्षत्री और वैश्य शूद्र चारवर्ण और बहुतप्रकारके अन्न और वृक्षों तथा जीवसंज्ञक तृण गुल्म कीट आदि और सम्पूर्ण चर अचर जगत् चिन्तवन करके रचा ३४। ३८ फिर दाहिने अंग में आत्मा को चिन्तवन करके और बाम में नारी द्विधापुरुष उत्पन्न किया ३९ तिससे आदिलेके मैथुन से अधम मध्यम उत्तम गूढ़ और क्षेत्र सब प्रजाहुई ४० ऐसे जलयोनि से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा चिन्तवन करके और ध्यानमें स्थित होके वासुदेव भगवान्के शरीर को प्राप्त भया ४१ ब्रह्माके ध्यानकरने से आप जनार्दनदेव तिसीक्षणमें सहस्रनेत्र सहस्रपाद और सहस्रशिरोवाले पुरुष उत्पन्नहुये जिसे लोक पितामह ब्रह्मामें देखकर आसन अर्घ्यपाद्य और पुष्पोंसे पूजाकरके सुन्दर स्तोत्रोंसे प्रसन्नकिया ४२। ४५ तब कमलसे उत्पन्नहुये ब्रह्मासे जनार्दनभगवान् कहनेलगे कि मेरे ध्यानका कारण कह ४६ ब्रह्माबोले कि हे देवेश मृत्युलोकमें दुर्लभ स्वर्गके मार्ग यज्ञदान व्रत ४७ सत्य तप और बहुतप्रकारके तीर्थ तो सुने पर इन सब को छोड़के जो सुखसाधन हैं सो कहो ४८ हे पुरुषोत्तम मृत्युलोकमें जो सब से उत्तम स्थान है सो कहो ४९ ब्रह्माके ऐसे वचनको सुनके मैंने कहा कि हे ब्रह्मन् भूमीमें मलरहित जो दुर्लभ स्थानहै उसे सुनो ५० यह सुनकर क्षेत्र सब क्षेत्रोंमें उत्तम संसार से तारनेवाला गो ब्राह्मणका हित करनेवाला पवित्र चारों वर्णों को सुख देनेवाला और मनुष्यों को भुङ्गी और

मुक्तिका देनेवाला और वसतेहुये सब मनुष्यों को प-  
 वित्र करनेवाला सनातन और विख्यात चारोंयुगों में  
 सेवित सब देवतोंका ऋषियोंका ब्रह्मचारियों और दैत्य  
 दानव सिद्ध गन्धर्व उरग राक्षस नाग विद्याधर और  
 स्थावर जंगम सब उत्तम पुरुषों का स्थानहै इससे उ-  
 सका पुरुषोत्तम नामहै ५१ । ५५ उसके दहिने किनारे  
 पर एक बड़ का वृक्षहै वह दशयोजन लम्बा क्षेत्र परम  
 दुर्लभ है ५६ कल्पके उत्पन्न होनेमें और महत्त्वर्गके  
 नाशने में वह विनाश नहीं होता और ५७ उसबड़के  
 देखने और छाया में प्राप्तहोने से ब्रह्महत्या भी दूर  
 होतीहै और पापका क्या कहनाहै ५८ उसवृक्षकी जिन  
 श्रेष्ठ पुरुषोंने प्रदक्षिणा और नमस्कारकरीहै वे सम्पूर्ण  
 पापोंसे रहितहोके भगवान् के स्थानको जाते हैं ५९  
 उसबड़के कुछ उत्तरदिशामें केशव का प्रासाद अर्थात्  
 धर्म मय स्थान स्थित है ६० जहां आप भगवान् की  
 रचीहुई मूर्ति है तिसको देख विना यत्न मेरे मनोहर  
 भुवनमें प्राप्तहोजातेहैं ६१ हे विप्रो तिनजातेहुओंको  
 देखकर एकसमय धर्मराज मेरे समीप आके और प्र-  
 णामकरके कहनेलगे ६२ कि हे भगवान् आपको नम-  
 स्कार है हे देव हे लोकनाथ हे जगत्पते हे क्षीरसमुद्रमें  
 वासकरनेवाले और हेशेष सर्पपै शयन करनेवाले श्रेष्ठ  
 रूप वर देनेवाले कर्ता अविनाशी समर्थ विश्वेश्वर अ-  
 जन्मा विश्व और सर्वज्ञ अपराजित नीलेकमलकेदल  
 के से श्याम कमलनयन शान्त और जगद्धाता अव्यय

सर्वलोक विधाता और सम्पूर्ण लोकको सुख देनेवाले पुराणपुरुष और वेद्य व्यक्त अव्यक्त और सनातन पुराण रचनेवाले और लोकनाथ जगत्गुरु और श्रीवत्सहृदामें युक्त बनमालाओंसे शोभित पीलेवस्त्र धनुष शंख चक्र और गदा धारण करेहुये ८ हारबाजसे युक्त और मुकुटधारण करनेवाले सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक्त और सब इन्द्रियोंसे वर्जित कूटस्थ अचल सूक्ष्म और ज्योती रूप सनातन भाव अभावसे निर्मुक्त और व्यापक माया से परे और जगन्नाथ सुख देनेवाले और समर्थ आपको नमस्कार है ६३ । ६६ इसी प्रकार धर्मराजने बड़के समीप बहुत प्रकारके स्तोत्रोंसे स्तुति करके प्रणाम किया ७० हे महाभागवाली लक्ष्मी अंजलीबांधे प्रणाम करते हुये उसको देखके मैंने स्तोत्रका कारण धर्मराजसे पूछा कि ७१ हे सूर्यके पुत्र महान् भुजावाले तू सब देवतों से परे है संक्षेपसे मेरे आगे कह कि किस कारण आया है ७२ धर्मराज बोला कि हे नाथ इस विख्यात पवित्र और इन्द्रनीलमटा पुरुषोत्तम स्थानमें सब कामना देने वाली मूर्ती रची हुई है ७३ तिसको देखके और एक भावसे श्रद्धा करके मनुष्य श्वेताख्य भुवनको निष्काम होके जाते हैं ७४ हे अरिसूदन इनको रोकनेकी मेरी श्रद्धा नहीं है हे देव आप प्रसन्न हो और इस प्रतिमाको हरो ७५ सूर्यके पुत्र धर्मराज का यह वचन सुनके मैं उस से कहने लगा कि हे यम इस मूर्तिको मैं बालूमें गुप्त कर दूंगा ७६ और हे देवी वह मूर्ती मैंने बालूमें गुप्त कर दी



कि सुखकी इच्छावाले मनुष्य तहां उसे न देखें ७७ फिर सुवर्ण और वस्त्रोंसे आच्छादित अपनी पुरीको धर्म-राजने दक्षिणदिशामें स्थापन किया ७८ ब्रह्माजी बोले कि हे मुनिजनो उस इन्द्रनीलकी मूर्तिको तिसविख्यात पुरुषोत्तम पवित्रस्थानमें गुप्त करनेके पश्चात् ७९ देवतोंके देव जनार्दनने जो कियाथा तिसे सम्पूर्ण लक्ष्मीके आगे कहनेलगे ८० और इन्द्रद्युम्नका गमन क्षेत्रका दर्शन प्रासाद अर्थात् महलका निर्माण अश्वमेधका यजन अर्थात् पूजन स्वप्नकादर्शन लवके उत्तरतीर्थमें काष्ठका दर्शन वासुदेवका दर्शन प्रतिमाओंका वर्णन निर्माण और विशेष करके सबका सुन्दर भुवनमें स्थापन और हे विप्रेन्द्रो यात्रा कालकल्पका कीर्तन मार्कण्डेय का चरित्र शंकरका स्थापन पांच तीर्थों का माहात्म्य शूलपाणी का दर्शन बड़का दर्शन बलदेव कृष्ण और सुभद्रा के दर्शन रत्नका माहात्म्य नृसिंहके दर्शन व्युष्टिका कीर्तन अनन्त वासुदेवका दर्शन और गुणोंका कीर्तन श्वेत माधवका माहात्म्य स्वर्गद्वारका वर्णन इन्द्रद्युम्नका दर्शन स्नान तर्पण और समुद्रके स्नानका माहात्म्य पांच तीर्थोंका फल महाज्येष्ठी अर्थात् ज्येष्ठसुदी १५ को कृष्णका स्नान पूर्णिमाकी यात्राका फल विष्णुलोकका वर्णन तथा तिस क्षेत्रका वर्णन लक्ष्मीजीसे किया ८१ । ९१ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांपूर्ववृत्तांतवर्णननामचतुः

## पैतालीसवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूँछा हे भगवन् हम उस राजाकी शेषकथा को सुनने की इच्छा करते हैं कि उस राजाने उस सुन्दर क्षेत्रमें जाके क्या किया १ ब्रह्माजीने कहा हे मुनि शार्दूलो तुम सुनो मैं उस राजाके कियेहुये कर्मों और क्षेत्रों के दर्शनको वर्णन करताहूँ २ उस राजाने उस विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्रमें जाके सुन्दरस्थानों और नदियों को देखा ३ जहां चित्रोत्पलानामसे विख्यात और सम्पूर्ण पापोंको हरनेवाली सुन्दर और पवित्र विन्ध्याचल पर्वतके पादसे निकसीहुई एक नदी है ४ जो गंगाके समान पवित्र और महा स्रोतोंवाली दक्षिण दिशा को बहतीहुई पवित्र और नदियोंमें सुन्दर ५ दक्षिणदिशा के समुद्रकी स्त्री और सौपुत्रियोंसे शोभित महानदी है तिसके दोनों किनारों पर छोटे २ ग्राम और बड़े २ नगर बसते हैं ६ जो खेतियोंसे युक्त और मनोहर दीखते हैं ७ और वस्त्र आभूषणोंसे शोभित हृष्टपुष्ट मनुष्योंसे युक्त हैं उन ग्रामों में ब्राह्मण क्षत्री वैश्य और शूद्र पृथक् २ अपने अपने कर्मों में स्थित और शान्त और शुभ लक्षणोंसे युक्त दीखते हैं ८ और नागरपानको चाबने वाले और पुष्पोंकी मालाओंसे शोभित हैं वेदोंसे पूर्ण सुखी और षडङ्गको जाननेवाले अग्निहोत्रमें रत देव उपासनामें स्थित और सम्पूर्ण शास्त्रार्थमें चतुर और यज्ञ करनेवाले और क्रोध रहित ब्राह्मण वहां बसते

हैं ११० चौपटके मागर्गों राजमागर्गों बनों और बगीचों में इतिहास पुराण वेद वेदाङ्ग और काव्य शास्त्र और कथाओंके आलापोंसे युक्त महात्मा उस देशमें स्थित हैं रूप यौवनसे गर्वित ११ । १२ सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त पतले कटि स्थलवाली कमलसरीखे और शरद-ऋतुके चन्द्रमाके समान मुखवाली दीर्घनेत्रोंवाली सुन्दर दर्शनोंवाली और सोनेके कंकणोंवाली सुन्दर वस्त्र यथा आभूषणोंसे युक्त और केलाके गाभ और पद्मके समान शोभावाली विद्याधरोंके समूहोंसे युक्त सुन्दर केशोंवाली और हारोंके भारसे युक्त स्त्रियां वहाँ हैं १३ । १६ जो वीणा मृदंग पणव और गोमुख आदि बाजोंको बजाती हैं १७ और शंख और नक्कारोंके शब्दों और बहुत प्रकार के मनोहर बाजोंसे आपसमें विलास करती हैं १८ इनके सिवाय अन्यगाने बजाने और नाचनेवाली और दिन रात्रिमें कामदेवसे मत्तस्त्रियां वहाँ स्थित हैं १९ निदान भिक्षु वैखानस शुद्ध स्नानक ब्रह्मचारी मन्त्रसिद्ध यज्ञ सिद्ध और वृत्तसिद्ध पुरुषोंसे सेवित २० उस परम सुन्दर क्षेत्रको उस राजाने देखा तिसके पीछे वह राजा विचार करने लगा कि मैं सनातन भगवान् का आराधन करूँ २१ मैंने जानलिया है कि उस जगत्के गुरु परमदेव परोंसे भी परे सर्वेश्वर अनन्त अपराजित २२ विष्णु भगवान् का यह मनरूपी पुरुषोत्तम नामवाला क्षेत्र है और कल्पके वृक्षके समान कामना देनेवाला यह बड़ वृक्ष स्थित है २३ इन्द्रनील नामवाली प्रतिमा आप

देवने गुप्त करदीहै और अन्य कोई सुन्दर मूर्ति विष्णु भगवान्की नहीं देखती २४ इसलिये मैं यज्ञ करताहूँ कि जिससे भगवान् प्रत्यक्ष मुझको दर्शनदे २५ फिर वह यह कहनेलगा कि मैं यज्ञ दान तप होम ध्यान देवार्चन और बहुतप्रकार के ब्रतोंको करके सुन्दरकर्म करूँगा २६ और अनन्यमनसे अर्थात् तिसभगवान्-हीमें मनको लगाके विष्णुका पूजन और विन्यासको मैं करूँगा २७ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भुञ्चबिसंवादेक्षेत्रदर्शननाम  
पंचचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ४५ ॥

## क्रियालीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी कहनेलगे कि वह राजा ऐसे विचारके उ-  
सने भगवान् के प्रसादकेलिये उस पुरुषोत्तमतीर्थ में  
स्थान बनवाना प्रारम्भकिया १ फिर उसराजाने स-  
म्पूर्ण उत्तमशास्त्रों को जाननेवाले गुणियों को बुलाके  
और यत्नसे भूमीको शोधिके २ शास्त्रोंके जाननेवाले  
ब्राह्मणों मन्त्रियों बलवानों और वास्तुविद्याको जानने  
वाले ब्राह्मणों ३ सहित सुन्दर मुहूर्त्तको देखकर और  
चन्द्रमा सहित सम्पूर्ण ग्रहोंसे श्रेष्ठ मुहूर्त्तमें पूजन प्रा-  
रम्भकिया ४ निदान जयमंगल शब्दों और बहुतप्रकार  
के मनोहर बाजों वेदोंके शब्दों और गीत इत्यादिसुन्दर  
स्वरों ५ एवम् पुष्प धानकीखील अक्षत गन्ध और दी-  
पकों करके और जलके भरेहुये घड़ोंसे सूर्यको अर्घ्य ६

और ब्राह्मणों को विधि से दानदेकर अन्यराजाओं से कहनेलगा ७ कि आप सब शिलालेनेजाओ और शिल्पकर्म के जाननेवाले कारीगरों को लेकर ८ बहुत विचित्र और कन्दराओं से शोभित पर्वत को छेदन करके सुन्दर शिलाओं को ९ नौका आदिकोंमें जल्द लेआवो बिलम्ब न करो उनराजाओंको जानेकी आज्ञा देकर १० फिर वह राजा अपने मन्त्रियों पुरोहितों और भृत्यों से कहनेलगा कि तुम पृथ्वीके सम्पूर्ण राजाओं के पास जाकर उन्हें मेरी आज्ञाको सुनाओ कि इन्द्र-द्युम्नकी आज्ञासे तुम सब चलो ११ । १२ निदान भृत्य राजाकी आज्ञापाकर १३ सम्पूर्ण राजाओंके पासगये वे राजा नौकरोंके वचनोंको सुनकर १४ इन्द्रद्युम्न के पास जल्द अपनी सेनासहित आये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और दो दिशाओं के बीच में रहनेवाले एवम् पर्वतों और द्वीपोंमें रहनेवाले राजे रथों अश्वों हस्तियों प्यादों और धनसेयुक्त आतेहुये तिन राजोंको देखकर इन्द्रद्युम्न अपने मन्त्री और पुरोहितों सहित बोला कि हे मुनियो मैं आप सबोंसे एक प्रश्न करता हूँ कि १५ । १६ इस भुक्तिमुक्ति के देनेवाले शुभ क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ और विष्णु का महल २० किस प्रकार से करूँ इस चिन्तासे मेरा मन युक्त होरहाहै इससे आप जैसा कहोगे तैसेही मैं करूँगा क्योंकि २१ आप सबमेरे मित्र हो उस राजाके ऐसे वचनोंको सुनकर २२ सम्पूर्ण ने प्रसन्नहो मणी और रत्नों की वर्षा की अर्थात् तिसके

लिये बहुतसा द्रव्य २३ कम्बल मृगशाला रक्तवस्त्र सुन्दर  
 विछौने मोती हीरा वैडूर्यमणि पद्मराग इन्द्र नीलमणि  
 हस्ती अश्व श्वेत सिरसम और चने उड़द मूंग तिल  
 श्यामक मधुर नीवार कुलुत्थक और बहुत प्रकार के  
 अन्न सुन्दर चावल गौआँकेघृतके भरेहुये कलशे ब-  
 हुतसा द्रव्य चन्दन इत्यादि अनेक वस्तुआँको दिया  
 तिसके पीछे उस सम्पूर्ण सामग्री यज्ञकर्मको जानने  
 वाले शास्त्रोंमें निपुण सम्पूर्ण कर्मोंमें चतुर ब्राह्मणों  
 ऋषियों महाऋषियों देवऋषियों राजऋषियों आदि  
 को देख ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ यती शुद्धब्राह्म-  
 ण और सम्पूर्ण अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मणों आ-  
 चार्यों शास्त्रों को पढ़ने पढ़ानेवालों सभाकेबैठनेवालों  
 और बहुतसे शास्त्रोंमें चतुर शुद्ध मनुष्योंको इन्द्रनील  
 राजा देखके अपने पुरोहित से कहनेलगा कि आप  
 वेदोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंको लाओ २४। ३३ और  
 अश्वमेध यज्ञ करनेको सुन्दरदेश देखो राजाके वचनों  
 को सुनके उन्होंने वैसाही किया ३४ तिसके पीछे मंत्रियों  
 सहित राजाका पुरोहित चतुर मनुष्य और यती सब  
 गये ३५ और यज्ञकर्म को जाननेवाले ब्राह्मणों को  
 आगेकरके उस पुरोहितने भौरोंसे सेवित तिस राजा  
 की यज्ञ भूमिमें इनसबोंको प्राप्त किया ३६ तिसके उप-  
 रान्त सोना और रत्नों से शोभित और सुन्दर भीतों  
 और स्नानेके थम्भोंसे युक्त मन्दिर बनवाया गया ३७  
 और रसवाली ईख यव और गौरस ३८ इत्यादि वस्तुआँ

को मँगवाके यज्ञकी आज्ञादी उस बुद्धिमान राजाकी यज्ञ में ३९ बहुतेरे राजा बहुतसे मुनियोंके गण ब्रह्मको कहनेवाले और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ४० शिष्यों सहित सब आये और राजा ने उनका सत्कार किया ४१ जब राजा सबकेसंग यज्ञशालामें स्थितहुआ तब सब राजों यज्ञकेपतियों कारीगरों और सब मनुष्योंने यज्ञकी सम्पूर्ण विधियों को राजासे कहा और राजा उनके वचन सुनकर अति प्रसन्नहुआ ब्रह्माजी बोले कि उस यज्ञके प्रवृत्त होनेपर नियमितवाणी वाले हेतु के कहनेवाले हेतुके अनुकूल चलनेवाले और वैर से रहित ४२ । ४५ वे राजे तिस इन्द्रद्युम्न राजाके बनवाये हुये मन्दिरको देखनेलगे ४६ और वहां तोरण कलश कड़ाह शय्या आस्पग और अर्द्धमानक आदि बहुतसे पात्र सम्पूर्ण सोनेकेही देखे ४७ । ४८ उन्होंने सुन्दर यज्ञके स्तम्भोंको शास्त्रोंके प्रमाणसे स्थित और सोने से शोभित देखा ४९ और जल थलके समस्त जीव पशु और पक्षी तथा गौ भैंस आदि जरायुज अण्डज स्वेदज और जल से उत्पन्न हुये जीव और पर्वतों में रहनेवाले मनुष्यों और धनधान्यसे युक्त उस यज्ञशालाको देखके वे सब अति आश्चर्यितहुये ५० । ५३ उन्होंने देखा कि ब्राह्मण और वैश्य सम्पूर्ण वस्तुओं से युक्तहैं और लाखों ब्राह्मण भोजन करतेहैं ५४ और शंख तुन्दुभी आदिके शब्दों को सुनके तिस राजाके मनमें उत्साह होरहे हैं ५५ इसी प्रकार उस श्रीमान्

राजाकी यज्ञमें पर्वतोंके समान अन्नके समूहों ५६ दधि  
के कुण्डों दूध और जलके तलावों तथा बहुतप्रकारके  
मनुष्यों और ५७ स्वस्थ चित्तवाले ब्राह्मणोंको देखा  
५८ बहुत से ब्राह्मण मणि माला और कुण्डलों को  
धारणकिये और अन्नके पात्रोंको लियेहुये फिरते ५९  
और सम्पूर्ण राजे उनको हजारों वस्तु देतेहुये दिखाई  
दिये ६० निदान सुन्दर कुलमें होनेवाले और सब  
गुणों से युक्त वेदके जाननेवाले अनेक ब्राह्मण और  
राजे ६१ एवम सुन्दर स्त्रियोंके समूह वहां प्रस्तुत दि-  
खाईदिये निदान सब दिशाओं और देशों से आये  
राजे नटों और नाचने गाने तथा स्तुतियोंको जानने  
वाले ६२ और पुष्ट और ऊँचे पयोधरों कमलके पत्र  
के समान नेत्रों ६३ और शरदके चन्द्रमा के समान  
मुखवाली सुन्दर स्त्रियोंके गणोंसे वह यज्ञस्थान अति  
शोभितभया ६४ ध्वजाओं से शोभित रत्नोंके हारोंसे  
युक्त और सुन्दर चन्द्रमाकी कांतिके समान रथोंकी  
पंक्तियों ६५ बहुत बल और पर्वतोंके समान मदवाले  
हस्तियोंके समूहों पवनके समान वेगवाले और धुक-  
धुकी युक्त श्वेत कण्ठवाले अश्वों किरोंडों मनुष्यों ६६।  
६७ संजोवावालों काखोंको बांधनेवालों बहुतप्रकारके  
शस्त्रोंको धारण करनेवालों और बहुत पियादोंसहित  
६८ यज्ञकी सम्पूर्ण वस्तुओं को राजा ने देखा और  
आनन्दहोके बोला ६९ कि हे राजपुत्रो तुम सुन्दर और  
सब लक्षणोंसे युक्त अश्वों को लाओ और फिर मेरे



अश्वको पृथिवी में विचराओ ७० वेद और धर्म के जाननेवाले ब्राह्मणोंसे यहां होमकी तैयारी कराओ और कालीवकरी और कालेमृग ७१ बैल गौ और सब पशुओंको पालनेवालों को बुलाकर यज्ञको प्रवृत्तकरो फिर विष्णु का मंदिर बनाओ ७२ और स्त्री रत्नोंके समूह ग्रामनगर ७३ सब ऋद्धियोंसे युक्त पृथिवी और बहुतसी जातके रत्न ये सबस्तु सम्पूर्ण मांगनेवालों को दो किसीको निराश न करो ७४ निदान जबतक मुझे भगवान् प्रत्यक्ष आनके न मिलें तबतक यज्ञ प्रवृत्तकरो ब्राह्मणोंसे इसप्रकार कहके उस राजाने बहुतसा सोनेका दान किया और किराड़ों आभूषणों ७५ । ७७ सहित हजारों हस्ती और अश्वोंके समूह अर्बु बैल और सोना के शृंगवाली ७८ सुन्दर कामधेनुगौ और कांसीकी दोहनी आदि अनेकवस्तु ब्राह्मणोंको दानदी और कंचुकी युक्त पुष्ट कुचाओं पतली कमर सुन्दर जंघों और पद्मके पत्रके समान नेत्रोंवाली स्त्रियां जो कण्ठमें धुकधुकी भुजाओं में कंकण पैरोंमें पाजैवै पहिने और सुन्दर वस्त्रोंको धारण कियेथीं उन्हें मांगनेवाले ब्राह्मणों को तिस हयमेघ यज्ञमें राजाने दिया एवम् खांड और पीठीके बहुतप्रकारके सुन्दर घेवर और मीठे पकेहुये पूये आदि अनेक भक्ष्य पदार्थ सब प्राणियोंको दिये और दियाहुआ धन और अन्न बढ़ताहीगया ७९ । ८५ निदान ऐसे महायज्ञ को देखके देवता दैत्य चारण गन्धर्व अप्सरा सिद्ध ऋषि और राजे दंड सब आश्चर्य्य

को प्राप्तहुये उससमय पृथ्वीतलपर कोई मलीन भूखा और अकाल मरनेवाला मनुष्य न था काटने और जहरवाले जीव और मनुष्य न रहे उस महोत्सव में सबमनुष्य हृष्टपुष्ट होगये ८७। ८६ ऐसे वह राजा उस अश्वमेध यज्ञको समाप्त किया ९० ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भुश्चविसम्बादेप्रासादकरणं  
नामषट्चत्वारिंशोऽध्यायः ४६ ॥

## सैतालीसवां अध्याय ॥

मुनिकहते हैं हे देव देवेश जो हम पूँछतेहैं सो आप कहो इन्द्रद्युम्न द्वारावेप्रतिमा कैसे रचीगईथीं १ और माधवभगवान् उसपर किसप्रकारसे प्रसन्नहुयेथे यह सब हमसेकहो हमको अति आश्चर्यहै २ ब्रह्माजी बोले कि हे मुनिशार्दूलो पुरातन और वेद संमित इस कथाको सुनो हमप्रतिमाओंकी उत्पत्तिके पुराने वृत्तान्तको कहेंगे ३ जब वह महायज्ञ प्रवृत्तहुआ और पुरुषोत्तम देवका मन्दिर रचागया तब राजाप्रतिमाके स्थापनका रातदिन चिन्तवन करनेलगां ४ किन में अम्बिकाको देखताहूँ न देवेश इन्द्रको देखताहूँ और न ब्रह्माको देखता हूँ में तो केवल एक पुरुषोत्तम भगवान्को रचना स्थिति औरसंहारका करनेवाला देखताहूँ ५ निदान वह राजा दिनरात्रि चिन्ता युक्तहो अनेक प्रकारके भोगों को त्यागबैठा ६ और सुन्दर गन्धों श्रेष्ठगायकों मदसे युक्त हस्तियों दशहजार घोड़ों ७ इन्द्रनीलमणि महानील

माणि पद्मराग सुवर्ण और हीरेआदिके आभूषणों ८  
 तोतों मेंनाओं और आकाशमें उड़नेवाले अनेक पक्षि-  
 योंसे उसका मन प्रसन्न न हुआ ९ वह इसी चिन्तामें  
 रहा कि पृथ्वीमें प्रशस्त और सब लक्षणोंसे युक्त विष्णु  
 कीही प्रतिमाहै १० और इन तीन प्रतिमाओंके प्रति  
 और देवताओंसे पूजित प्रतिमा स्थापितहो तब अग-  
 वान् प्रसन्नहों निदान इसप्रकार विचारकर और ११  
 पंचरात्री का विधानकर पुरुषोत्तम का पूजनकरके वह  
 महीपाल स्तुति करनेलगा कि १२ हे वासुदेव मोक्षके  
 देनेवाले आपको नमस्कारहै हे सर्वलोकेश जन्मसंसार  
 सागरसे मेरी रक्षाकरो १३ हे निर्मलकांतिवाले हे पुरु-  
 षोत्तम हे संकर्षण आपको नमस्कारहै हे धरणीधर मेरी  
 रक्षाकरो १४ हे पुरुषेश्वर हे रतिकान्त हे असुरान्त  
 आपको नमस्कारहै १५ हे अंजनसंकाश हे भक्तवत्सल  
 हे अनिरुद्ध आपको नमस्कारहै मुझ शरणागत आये  
 की आप रक्षाकरो १६ हे विबुधश्रेष्ठ हे कमलोद्भव हे  
 चतुर्मुख हे जगद्धाम हे प्रपितामह आपको नमस्कार  
 है मेरी रक्षाकरो १७ हे नीलमेघाभ हे त्रिदशार्चित  
 आपको नमस्कारहै मुझ भवसागरमें डूबेहुयेकी रक्षा  
 करो १८ हे प्रलयकी अग्नि के सदृश कान्तिवाले हे  
 दितिजांतक हे नरसिंह हे दीप्तलोचन आपको नमस्कार  
 है मेरी रक्षाकरो १९ जैसे पहले आपने रसातल से  
 पृथ्वीका उद्धारकियाहै तैसेही हे महावराह इस दुःख-  
 सागरसे मेरीभी रक्षाकरो २० हे कृष्ण मैंने वरके देने

वाली आपकी मूर्तिकी स्तुतकी है और आपही बल-  
 देव आदिक जुदेजुदे रूपोंसे स्थित हो २१ हे देवेश  
 गरुड आदिकभी आपकेही अंगहैं और दिक्पाल तथा  
 इन्द्र आदिक २२ आपहीके भेद बुद्धिमानोंने कहेहैं हे  
 जगन्नाथ वे भेदभी सब २३ मुझसे अर्चित और स्तु-  
 त किये हैं और तैसेही आपको नमस्कारहै २४ आप  
 मुझको धर्म काम अर्थ और मोक्षको देनेवाला वर  
 दो २५ हे हरे आपके जो संकर्षण आदिक भेद कहेहैं  
 सो तेरीपूजाके सम्बद्धके वास्तेहैं २६ हे देवेश परमार्थ  
 से आपके भेद नहींहैं और आपके अनेकप्रकारके रूप  
 किसीकिसी उपचारके वास्तेहैं २७ अद्वैतरूप आपको  
 मनुष्य द्वैत कहनेमें कैसे समर्थहैं हे हरे हे व्यापी हे  
 विश्वभाव हे निरंजन आप एकहीहो २८ और आपका  
 भावाभावसे विवर्जित परमरूप है आप निर्लेप सूक्ष्म  
 कूटस्थ अचलध्रुव २९ सर्वोपाधि से विनिर्मुक्त सत्ता-  
 मात्रा व्यवस्थित आप को देवते भी नहीं जानते हे  
 प्रभो मैं कैसे जानूँ ३० एवम् आपके पीताम्बर और  
 वस्त्रोंवाले शंख चक्र गदा ३१ मुकुट और बाजूबन्द  
 धारणकिये और श्रीवत्स चिह्न से युक्त और बनमाला  
 से विभूषित ३२ चतुर्भुजरूपको आपके आश्रय बुद्धि-  
 मानुजन पूजतेहैं ३३ हे देव सर्व हे सुरश्रेष्ठ हे भक्तोंको  
 अभय देनेवाले चारुपद्माक्ष विषयसागर में डूबेहुये की  
 रक्षाकरो ३४ त्रिषयरूपीजलसे दुष्पार रागद्वेषसे समा-  
 कल इन्द्रियोंके आवत्तोंसे गम्भीर शोकसे समाकुल ३५

निराश्रय निरालम्ब निस्सार और अत्यन्त चञ्चल  
 संसारमें मैं बहुतकालसे अमताहूँ ३६ और हजारों यो-  
 नियोंमें मैंने कईहजारबार जन्मलियाहै ३७ हे जनार्दन  
 इससंसारमें अनेकप्रकारकेजीवहैं मैंने अंगोंसहित वेद  
 शास्त्र ३८ इतिहास पुराण और शिल्पविद्यापढ़ेहैं और  
 असंतोष संतोष संचयखर्च ३९ क्षय इत्यादिकं बहुत  
 प्राप्तहुयेहैं स्त्री मित्र बन्धु आदिकावियोग तथा संगम  
 ४० और अनेक पिता माता और दुःख सुख मुझको  
 प्राप्तहुये हैं ४१ आत्मा बांधव पुत्र भ्राता आदि भी मैं  
 हो चुकाहूँ और विष्ठा और मूत्र से दूषित स्त्रियों के उ-  
 दरमें भी मैंने बासकियाहै ४२ हे प्रभो मुझको गर्भवास  
 में अति दुःखप्राप्तहुआहै बालकअवस्था यौवन और  
 वृद्धअवस्थामें जो दुःखहोतेहैं ४३ वे सब प्राप्तहुये हैं  
 और मरणसमयके दुःख और यमकेमार्ग में जो दुःख  
 होतेहैं ४४ वे सब मुझको नरककी यातनामें प्राप्त हो  
 चुकेहैं कृमिकीट पतंग हाथी अश्व मृग पक्षी ४५ महिषी  
 गौ और द्विजाती और शूद्र आदि योनियों ४६ तथा  
 धनवाले क्षत्री पवित्रजन तपस्वी नृप भृत्य तथा अन्य  
 देहधारियों ४७ के घरमें मैं बारम्बार उत्पन्नहुआ हे  
 नाथ मैं बहुतसे नृपोंकाभृत्य दरिद्री ऐश्वर्यवाला तथा  
 स्वामीहुआहूँ ४८ कितनोंको मैंने हतकिया और कितनों  
 से मैं हतकियागया अन्यांने मेरेलिये और मैंने अन्यों  
 केलिये बहुत धनदिया ४९ और पिता माता भ्राता स्त्री  
 के कर्त्तव्यमें युक्तहुआ कहीं कहीं प्राप्तहुआ निदान

देव पशु मनुष्य स्थावर जंगम ५० में ऐसा स्थान नहीं है  
 जहां मैं न गया हो हे जगत्पते कभी तो मेरा नरक में बास  
 हुआ कभी स्वर्ग में बास हुआ ५१ कभी मनुष्यलोक में  
 और कभी पशु आदिक योनियों में बास भया जैसे घट  
 बनाने में कभी तो चक्र निबन्ध नीरज्जु ऊपर को प्राप्त  
 होती है और कभी मध्य में प्राप्त होती है तैसे ही कर्मरज्जु  
 के आश्रय हुआ मैं क्रमसे नीचे ऊपर और मध्य में प्राप्त  
 हो ऐसे भयंकर रोमहर्षण संसारचक्र में बर्तता हूँ ५२ ।  
 ५४ बहुतकाल तक मैं अमा हूँ पर आपको कभी न देखा  
 व्याकुल इन्द्रियोंवाला मैं अब नहीं जानता कि क्या करूं  
 ५५ हे देव शोकदृष्टिसे युक्त हुआ मैं विचेतन हो रहा  
 हूँ और आपकी शरण हूँ ५६ हे कृष्ण संसारसागरसे  
 दुःखित मुझको आपरक्षित करो और हे जगन्नाथ मैं आप  
 का भक्त हूँ आपमेरी रक्षा करो ५७ आपके सिवाय मेरे कोई  
 बन्धु नहीं है पर हे देव ईश्वररूपी आपको प्राप्त होके मुझ  
 को कुछ भय नहीं है ५८ हे प्रभो जीवन मरणयोग औक्षेममें  
 जो अधमनर आपका पूजन नहीं करते ५९ वे संसार  
 बन्धनसे स्वर्गकी गतिको कैसे प्राप्त होवेंगे और उनको  
 कुलशीलता विद्या और जीवन से क्या है ६० जिनकी  
 भक्तिजगद्धाता केशव भगवान् में नहीं है और जो आप  
 की मायाको प्राप्त होके आपकी निन्दा करते हैं वे बार-  
 बार जन्म लेतेहुये घोरनरकमें पड़ते हैं और तिसनरका-  
 र्णवसे उनका निकसना नहीं होता ६१ । ६२ जो दुष्ट  
 चर्त्तिवाले मनुष्य आपमें दूषणनिकासते हैं वे इस सं-

सार से नहीं छूटते ६३ हे हरे कर्म निबन्धसे जहां २ मेरा जन्म हो तहां ही आपकी मुझे दृढ़ भक्ति रहे ६४ आप का आराधन करके अनेक दैत्य और नियमवाले मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त हुये हैं इसलिये हे देव आपका पूजन किसीसे अभिलषित नहीं है ६५ हे हरे ब्रह्मादिक देवते भी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं तो प्रकृति से परे आपकी स्तुति मनुष्य बुद्धिसे मैं कैसे करूं ६६ हे प्रभो अज्ञ भावसे जो कुछ मैंने कहा है उसे आपने हृदयमें दयाके कारण क्षमा करो ६७ क्योंकि हे हरे श्रेष्ठ पुरुष अपराधियोंपर भी क्षमा करते हैं इसलिये हे देवेश आप मुझपर प्रसन्न हो मैं आपका भक्त हूँ हे देवेश जो मुझको ६८ । ६९ भक्तिभाव चित्तसे कहा है वह सब सम्पूर्ण हो हे वासुदेव आपको नमस्कार है ७० ब्रह्माजीने कहा कि इसप्रकार स्तुति करने से भगवान् गरुडध्वज ने उसको सब मन बांछित बर दिया ७१ जो जगन्नाथ का पूजन करके इसस्तोत्रसे स्तुतिकरैगा वह मतिमान् पुरुषनिश्चय मोक्षको प्राप्त होवेगा ७२ और जो विद्वान् इसस्तोत्रको त्रिकाल पवित्रहोके जपैगा वह धर्म अर्थकाम और मोक्षको प्राप्त होजावेगा ७३ जो इसे पढ़े अथवा सुने सुनावैगा वह पापों से रहितहोके विष्णुके अचंचल स्थानको प्राप्त होजावेगा ७४ यह धन्य पापहर मुक्तिप्रद कल्याणरूप गुह्य दुर्लभ और पुण्य स्तोत्र ७५ नास्तिक मूर्खकृतघ्नी अभिमानी दुष्टबुद्धिवाले और अभक्तपुरुषों को न देना चाहिये ७६ इसे

तो केवल गुण और शीलसेयुक्त विष्णुभक्त शांतश्रद्धा से युक्त चतुर पुरुषों को देना चाहिये ७७ समस्तपापों के विनाश हेतु कारुण्य स्वाभाविक सुखमोक्ष और अशेष बांछित फलप्रद यह पुरुषोत्तम भगवान् का स्तोत्र कहा है ७८ जो मनुष्य उससूक्ष्मरूप विमलकांतिवाले और नित्य पुराणपुरुषका ध्यान करते हैं वे मुक्तिके अधिकारी हो विष्णुमें इसप्रकार प्रवेशहोजाते हैं जैसे आद्यमन्त्र यज्ञकी अग्निमें ७९ वह संसार के दुःख हरने वाला देव एकही है और परमपर है अन्य नहीं है वह रचना स्थिति और संहार करनेवाला विष्णु समस्त संसारमें सारभूत है ८० उन्हें गुण यज्ञ दान और उग्र तपसे क्या है जिनकी भक्ति जगत्के गुरु सुख और मोक्षके देनेवाले श्रीकृष्णमें है ८१ लोकमें वही धन्य हैं वही शुचि हैं वही विद्वान् हैं वही यज्ञ तप और गुणों में अति श्रेष्ठ हैं और वही ज्ञाता दाता और सत्यवक्ता हैं जिनकी भक्ति पुरुषोत्तम भगवान् में है ८२ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूत्पिसंवादे कारुण्यस्तव नामसप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ४७ ॥

## अरतालीसवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि हे मुनि शार्दूलो इसप्रकार सनातन और सर्वकाम फलप्रद जगन्नाथकी स्तुति और प्रणामकरके वह राजा-१ चिन्तायुक्त हो पृथ्वीपर कुशाओं और वस्त्रोंको बिछाकर बैठ गया और भगवान् में



मनलगा २ यह चिन्तवन करनेलगा कि देवदेव जना-  
 र्दन हरिभगवान् मुझको कैसे प्रत्यक्षदर्शनदे ३ निदान  
 जगत् गुरु वासुदेव ने स्वप्नेमें उसे दर्शनदिये ४ और  
 चारो हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारणकिये  
 जगत्के गुरुदेवको राजाने देखा ५ तब वह शार्ङ्गधनुष  
 और खड्गसे उग्रतेज और प्रकाशमान मण्डल तथा  
 सूर्य और नीलमणि के समान कांतिवाले ६ भगवान्  
 सुवर्ण के आसनपर बैठे और अष्टभुजी मूर्ति धारण  
 किये उस राजासे बोले कि हे महामते ७ इस श्रद्धापूर्-  
 वक दिव्ययज्ञ से मैं तुझपर प्रसन्नहुआ अब तू वृथा  
 शोचक्योंकरताहै ८ हे राजन् जो तू यहां सनातनी राज-  
 पूज्या प्रतिमाकी बांछा करताहै तो मैं उसका उपाय क-  
 हताहूँ जिससे तू अपनी बांछाको प्राप्तहोजावेगा ९  
 जब रात्रीव्यतीतहोजावेगी और निर्मलसूर्योदयहोगा  
 तब अनेक प्रकारके वृक्षोंसे शोभित समुद्रके तटके समीप  
 १० तिसलवणोदधि समुद्रसे जलबहेगा पर ११ कोला-  
 लंधीमहावृक्ष समुद्रकी बेलासे हन्यमानहुआ भी न कां-  
 पैगा १२ हे राजन् उससमय तू हाथमें कुहाडालेकर  
 गमन करियो तो अकेला विचरताहुआ तू उसवृक्षको  
 देखैगा १३ निदान इनचिह्नों को देखके अशंकित हो  
 दिव्यप्रतिमा बनाना १४। १५ ऐसे कहके जब हरि-  
 भगवान् अन्तर्द्धान होगये तब वह राजा इसस्वप्नको  
 देख परमआश्चर्यको प्राप्तहुआ १६ निदान रात्रीमें  
 तो हरिभगवान्में मनलगाये वैष्णवसूक्तका पाठकरता

रहा १७ और प्रभांतहुये यथावत् विधानसे समुद्रमें स्नानकर १८ और ब्राह्मणोंके लिये ग्राम तथा नगरों का दान दे एवम् पूर्वाह्निक कर्मकरके अकेला समुद्रके तटपरगया और अति तेजमान मोटी पेड़ी बिन और महान् शाखोंवाले १९ । २१ ऊँचे और जलकेबीचमें स्थित करड़ा मंजीठ के बर्णकेसमान कांतिवाले और अपनीजाति और नामसे विराजित २२ विष्णुके उस पुण्य वृक्षको देखकर प्रसन्न हुआ फिर सफेद कान्तिवाले और दृढ़ कुहाड़े से उसे छेदन करनेलगा २३ जब उसने बीचसे छेदन करनेकी मतिकी तब निरीक्ष्यमाण उस काष्ठमें उसे अद्भुत दर्शनहुये २४ तब तेजसे प्रकाशमान और दिव्यमाला तथा गन्ध अनुलेपनकिये २५ दो महात्मा इन्द्रद्युम्न राजाके पास आकर बोले कि हे महाराज यहाँ तू क्या करताहै २६ और किसलिये तू इस महादुर्गम निर्जन गहनवनमें २७ इस समुद्रके किनारे इस वृक्षको काटता है राजा उनके वचन सुन और प्रसन्नहो २८ चन्द्रमा और सूर्यकी नाई आये हुये उन ब्राह्मणों को देख जगन्नाथ को नमस्कार कर नीचे शिर झुकाकर बोला कि ब्राह्मणो अनादि और अनन्त जगत्पति देवदेवके आराधनके लिये मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा २९ । ३० देवदेव महात्मा भगवान् ने मुझको आज्ञादी है इसलिये मैं यहाँ आयाहूँ ३१ राजा के ऐसे वचन सुनके वे दोनों हँसके उससे बोले ३२ कि हे महीपाल तुझको धन्यहै और तेरा यह विचार बहुत

उत्तमहै कदलीदलके समान निस्सार ३३ बहुत दुःखों से युक्त काम क्रोधसे समाकुल इन्द्रियोंके आवर्त्तसे गंभीर दुस्तर रोमहर्षण ३४ सैकड़ों व्याधियोंके आवर्त्तघिरे जलके बुलबुलेके समान ३५ घोर संसार सागर से जो तंरीमति विरक्त होकर विष्णु भगवान्के आराधनमें लगी है इसलिये तुम्हको धन्यहै ३६ हे नृप शार्दूल तुम्हको धन्यहै तू अवश्य प्रजाका पालन करैगा हे महाभाग तू तो इस वृक्षकी शीतल छायामें धर्मकी कथाओंसे संश्रितहमारे संग स्थितहो और शिल्पकर्म वालोंमें श्रेष्ठ यह ब्राह्मण जो मेरे महायोगसे प्राप्त हुआ है ३७। ३८ सब कर्मोंमें साक्षात् विश्वकर्माके समान है सो तेरे उद्देशके अनुसार प्रतिमा बनादेगा ३९ उस ब्राह्मणके वचनको सुनके ४० वह सागरके तटको त्याग उसके समीप सुन्दर शीतल वृक्षकी छायामें जाबैठा ४१ और उस शिल्पसे मूर्तिकी आकृतिको वर्णनकरने लगा ४२ कि तू तीन प्रतिमाओंको बना एकतो कृष्णरूप परम शान्त पद्मके पत्रके समान विस्तारित नेत्रोंवाली श्री वत्सचिह्नसे युक्त और कौस्तुभमणि शंख चक्र गदा और पद्मको धारण कियेहुये हो ४३। ४४ श्रीकृष्णकी मूर्ति बना दूसरी गौरगौके दूधके सदृश और स्वस्तिकसे युक्त हलको धारण करनेवाली अनन्ताख्य महाबलवाले बलदेवकी मूर्ति बनाओ ४५ देव गन्धर्व यक्ष विद्याधर उरग इत्यादिकों से उसका अन्त नहीं जानागया इस वास्ते उसको अनन्तदेव कहते हैं ४६ और सुवर्ण के

समान शोभित और सब लक्षणोंसे युक्त वासुदेव श्री कृष्णकी बहिन सुभद्रा नामवाली तीसरी मूर्ति बनाओ ४७ निदान शिल्पकर्मोंको जाननेवाला विश्वकर्मारजा केवचनसुनके तिसीक्षण शुभ लक्षणोंवाली प्रतिमाओं को बनानेलगा ४८ और प्रथम उसने विचित्रकुण्डलों से अलंकृतकानों और हलसेयुक्तसुंदर हाथोंवालीशुद्ध वर्ण और शरदऋतुके चन्द्रमाकेसमान कांति तथा महा- नूकायावाली फणोंसहित विकट मस्तक और नीलशस्त्र तथा नीलवस्त्रों को धारण कियेहुये बलदेवजी की मूर्ति बनाई एक कुण्डलको धारण किये और दिव्य और सु- न्दर आभूषणोंसे युक्त नीले मेघके समान कांतिवाली दूसरी मूर्ति श्रीकृष्णकी बनाई और अलसीके पुष्पके समान कांति पद्मके पत्रके समान विस्तारित नेत्रों और पीले वस्त्रों से युक्त अति उग्र शुभ श्रीवत्सं लक्षणयुक्त चक्रसे पूर्णहस्तोंवाली और सबपापोंको हरनेवाली यह दूसरी मूर्तिबनी ४९ । ५४ तीसरी मूर्ति सुवर्णके समान कांति और पद्मके पत्रसमान नेत्रोंवाली विचित्र वस्त्रों को ओढ़ेहुये और हार बाजूबंद आदि आभूषणों को पहिने भूषित विचित्र गहनोंसे युक्त और रत्नोंके हारसे भूषित और भारी तथा ऊंची कुचाओंवाली सुभद्राकी मूर्ति उस विश्वकर्माने रची ५५ । ५६ उन प्रतिमाओं को दिव्य वस्त्रोंको पहिने अनेक रत्नोंसे अलंकृत और सब लक्षणोंसे सम्पन्न सुन्दर और मनोहर प्रतिमाओं को देख वह राजा ५७ । ५८ परमविस्मय को प्राप्तहो

बोला कि आप दोनों ब्राह्मणका रूप धारण करके अ-  
द्भुतकर्मों और देवताओंके समान आचरणवाले कौन  
हो ५९ । ६० देवहो अथवा मनुष्यहो आप दोनों किस  
विधानको धारण करनेवालेहो ब्रह्मा विष्णु अथवा अ-  
श्विनीकुमारहो ६१ मायासे संस्थित आपकी मैं शरण  
हूँ आप मेरे आगे अपनी आत्माको प्रकाशितकरो ६२ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयंभूऋषिसंवादेनामअष्ट

चत्वारिंशोऽध्यायः ४८ ॥

## उनचासवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी कहनेलगे कि फिर वे बोले कि मैं देव नहीं  
हूँ और न यक्ष दैत्य न दैत्यसट् न ब्रह्मा व रुद्रहीहूँ मुझ  
को तू पुरुषोत्तम भगवान् जान १ सब लोकोंकी पीड़ाको  
दूरकरनेवाला अनन्तबल और पुरुषार्थवाला समस्त  
भूतों से पूजनिय अनन्त २ और जो सब शास्त्रों तथा  
वेदांतमें ध्यान गम्य कहा जाताहै और योगी जिसे वा-  
सुदेव कहते हैं ३ वह मैंहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन्द्र  
और यम संयमनहूँ ४ पृथिवी आदि पञ्चमहाभूत तीन  
अग्नि और जलोंका पति बरुण धरणी महीधर ५ ये  
सब और जगत्में जो कुछ स्थावर जंगम चराचरहैं सो  
मुझसे अन्यकिंचित् भी नहीं हैं ६ हे नृप मैं तुझपर  
प्रसन्नहूँ हे सुव्रत तू बरमांग और जो तुझको बांछित  
है तिसको तो मैं अपने हृदयमें यत्नसे देखताहूँ ७ पुण्य  
से रहित पुरुषोंको मेरे दर्शन स्वप्ने मेंभी नहीं होते पर

तू दृढ़ भक्तिके कारण मुझको प्रत्यक्ष देखता है ८ हे द्विजो  
 वह राजा वासुदेव के यह वचन सुन रोमांचित हो इस  
 स्तोत्र को कहने लगा ९ हे लक्ष्मीपति पीताम्बरधारण  
 करनेवाले लक्ष्मीको देनेवाले श्रीनिवास और श्रीनि-  
 केतन आपको नमस्कार है १० हे आद्यपुरुष हे ईशान  
 हे सर्वेश सर्वतोयम् निष्कल आप पुरातन परमदेवको  
 मैं प्रणाम करता हूँ ११ आप शब्दातीत गुणातीत भाव  
 विवर्जित निर्लेप निर्गुण सूक्ष्म सर्वज्ञ सर्वभावन १२  
 वर्षा समयके मेघ समान कान्तिवाले औ गौ ब्राह्मणके  
 हित मङ्गलरूप सबके गोप्ता व्यापी और सर्वभावी १३  
 शंख चक्र गदा मशालको धारण करनेवाले देवको न-  
 मस्कार है १४ आप वर देनेवाले नीले पद्मके समान  
 कान्तिवाले नागकी शय्या पर शयन करनेवाले और  
 क्षीरसागरमें वास करनेवाले आपको नमस्कार है १५  
 सब पापों के हरनेवाले हृषीकेश हरि आपको मैं नम-  
 स्कार करता हूँ हे देवेश वरको देनेवाले विभु १६ और  
 सर्वलोकेश्वर विष्णु मोक्षके कारण आपको नमस्कार  
 है १७ इस प्रकार वह राजा उसदेवकी स्तुतिकर और  
 अंजली बांधके प्रणामकर नम्रहो पृथिवी में गिरकर  
 बोला १८ कि हे नाथ जो आप मुझपर प्रसन्नहुयेहो  
 तो मैं यह उत्तमवर मांगता हूँ कि देव गन्धर्व यक्ष रा-  
 क्षस दैत्य उरुग सिद्ध विद्याधर साध्य किन्नर गुह्यक  
 और महीभागवाले यति ज्ञानी और योग और वेद  
 केतव्यको जाननेवाले एवम् अन्यमोक्ष शास्त्रको जानने  
 वाले आपके जिस परमपदको ध्यान करते हैं १९।२१

तिसनिर्मल निर्गुण शान्त गुह्य परमपवित्र और दुर्लभ पदको मैं भी प्राप्त हूँ २२ भगवान् बोले कि हे राजन् तेरा जो बाञ्छित है वह सब मेरे प्रसादसे होजावेगा इसमें सन्देह नहीं २३ प्रथम तो तू दशहजार नौसौ वर्षतक अव्युच्छिन्न अर्थात् निष्कण्टकराज्य करेगा २४ फिर देवता और दैत्योंको दुर्लभ मेरे परमपदको प्राप्त होवेगा और तेरा मनोरथ पूर्णहोगा गुह्य अव्यय परम सूक्ष्म और निर्मल निश्चल ध्रुव बुढ़ापों और शोकसे रहित और कारणसे वर्जित अपने परमपदको मैं तुम्हको दिखाऊँगा जिस परमानन्दको प्राप्तहोकर तू परम गतिको प्राप्तहोजावेगा २५ । २७ हे राजेन्द्र तेरीकीर्ति पृथ्वीतलमें पावन चराचर लोक सूर्य चन्द्रमा और तारागण रहेंगे तबतक रहेंगी २८ समुद्र पर्वत मेघ और स्वर्गलोक में देवते ये रहेंगे २९ तबतक इन्द्रद्युम्न नामवाला और यज्ञांगसे सम्भव यह तीर्थ रहेगा ३० जहां मनुष्य एकवार स्नानकरनेसे इन्द्रके लोकमें प्राप्त होजावेंगे इस सुन्दर सरोवर तटपर जो पिंडोंका दान करेगा ३१ वह इक्कीस कुलोंको उच्चारकरके इन्द्रलोक में प्राप्तहोगा ३२ और अप्सराओं से पंज्यमान और गन्धर्वोंके गानोंसे युक्त विमानमें स्थितहो जितनेसमय चौदह इन्द्र राज्यकरेंगे तबतक स्थित रहेगा ३३ उस सरोवरके दक्षिणभागके नैऋत्यकोणमें जो एक बड़का वृक्षहै तिसके समीप एक सुन्दर मण्डपहै ३४ जो केतकीके वनसे आच्छादित और नारियल चम्पाके वृक्ष वकुल अशोक कर्णिकार पुन्नाग केशर पाटला सरल

वृक्ष चन्दन देवदारु बड़ पीपल खैर पारिजात खजूरि  
 हिंताल ताड़वृक्ष शीसम सहो जना करंजु आबहेडा आ-  
 दि वृक्षोंसे शोभितहै ३५ । ३८ आषाढमें शुक्लपक्षकी  
 पंचमीके दिन जब मघा नक्षत्र हो तबसे सातदिनतक  
 उस मन्दिरमें जो देवताओंकी सुन्दर क्रीडाओंसे स्थाप-  
 न करैंगे और नृत्य और मनोहर गीतोंको गाकर चवैरं  
 और रत्नोंसे भूषित पंखे हमारे ऊपर डुलावेंगे एवम् जो  
 ब्रह्मचारी यती पवित्र ब्राह्मण वानप्रस्थ सिद्ध तथा  
 अन्य ब्राह्मण अनेकप्रकारके मंत्रों स्तोत्रों और ऋगं  
 यजु और सामवेद के शब्दोंसे बलदेव और श्रीकृष्ण  
 की भक्तिपूर्वक प्रणाम और दर्शन करैंगे वे दिव्य द-  
 शहजार वर्षोंतक श्रीमान् हरिकेपुरमें बसेंगे ३९ । ४५  
 अप्सराओं से पूज्यमान और गन्धर्वोंके गीतोंके शब्द  
 को सुनतेहुये हरिभगवान्के अनुचरहोके भगवान् के  
 संग क्रीडा करैंगे ४६ और सूर्यके समान कान्तिवाले  
 और रत्नोंसे जड़ेहुये विमानमें बैठेहुये तीनोंलोकों से  
 उत्तम स्थानमें वासकरैंगे ४७ जब उसका तपक्षीण हो-  
 जाताहै तब ये संसारमें आके ब्राह्मणहोतेहैं और किरोड़  
 पति श्रीमान् तथा चारवेदोंको जाननेवाले होते हैं ४८  
 ऐसेवे हरिभगवान् उसको वरदेके विश्वकर्मासमेत अ-  
 न्तर्द्धानहोगये ४९ और राजाने भगवान्के दर्शनहोनेसे  
 अपनी आत्माको कृतकृत्य माना ५० फिर श्रीकृष्ण बल-  
 देव और सुभद्राको मणि और सुवर्णसे चित्रित और वि-  
 मानके समान रथमें बैठाके ५१ जय मंगल शब्दों को  
 करते भये पुरोहितों सहित लाया ५२ और अनेकप्रकार



के बाजों और वेदोंके शब्दोंसे पवित्र और मनोहरदेश में ५३ शुभतिथी और सुन्दर मुहूर्तमें ब्राह्मणों सहित प्रतिष्ठाकी ५४ और यथोक्त विधानसे दक्षिणा आदि बांटनेलगा ५५ इसप्रकार विधिवत् उसउत्तमप्रासाद अर्थात् मन्दिरमें प्रतिष्ठा और विधिदृष्ट कर्म करके स्थापनाकर ५६ अनेकप्रकारके पुष्प और सुगन्धियों से पूजन करके उस राजाने सुवर्ण मणि मोती अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र और अनेकप्रकार के दिव्य रत्न देश और अपनेपुत्र और नगरोंका दानदिया ५७।५८ इसप्रकार विधिसे बहुतकाल तक अनेक राज्यकर अनेक यज्ञोंको ठान और अमित दानदेके वह राजा कृतकृत्य हुआ और सब वस्तुओं को त्यागके परमपदमें किया इतना सुन मुनियों ने प्रश्नकिया कि हे सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम उस तीर्थमें किसकालमें जाना चाहिये और किसविधिसे पांचो तीर्थोंकी यात्राकरनी चाहिये ५९। ६१ आप एक २तीर्थके स्नान दानका जो फलहोताहै और जिस देवता के दर्शनका जो फल होताहै उसका विस्तारपूर्वक पृथक् २वर्णन कीजिये ६२ ब्रह्माजीबोले कि जो फल कुरुक्षेत्र में निराहार और जितेन्द्रिय हो सातवर्ष तक एक पैरसे तप करने में होताहै वह फल केवल एकबार द्वादशीकेदिन पुरुषोत्तम देवके दर्शनसे होताहै और उसदिन यदि उपवासकरे तो तिससे भी अधिक फलप्राप्तहो ६३।६४ इसलिये हेमुनिश्रेष्ठो स्वर्गलोककी इच्छावाले मनुष्योंको पुरुषोत्तम भगवान्के दर्शन ज्येष्ठके महीनेमें यत्नकरके करने चाहिये ६५ जो

मनुष्य शुक्लपक्षकी द्वादशीके दिन अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान् के दर्शन करतेहैं ६६ वे विष्णुके लोकमें प्राप्तहोके कदाचित् फिर पृथ्वीलोकमें नहींआते इसलिये हे द्विजो ज्येष्ठके महीने में वहां जाके पंचतीर्थों और पुरुषोत्तम भगवान् के अवश्य दर्शनकरै जो दूर स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवान् का ध्यान करतेहैं ६७।६८ वेभी दिन प्रतिदिन शुद्धात्मा होके जा विष्णुभगवान्के पुरमें प्राप्तहोतेहैं ६९ श्रद्धासे समाहित हो जो श्रीकृष्ण भगवान्की यात्राकरतेहैं वेभी सबपापों से छुटके विष्णुलोकको जाते हैं ७० जगन्नाथ भगवान्के मन्दिरपर स्थितचक्रको दूरसे देखकर जो मनुष्यभक्तिसे प्रणाम करते हैं वे तत्कालही पापोंसे छूटजाते हैं ७१ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयंभूच्छपिसंवादोनाम

एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ४९ ॥

### पचासवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी कहनेलगे कि हे मुनिश्रेष्ठो जब महाक्षय प्रवृत्तहुआ और सूर्य चन्द्रमा पवन स्थावर जंगमसब नष्टहोगये तब कल्पका अन्तहुआ १ जब प्रलयरूपी सूर्य उदयहोके प्रचण्डहुआ और उत्पातघातसे भग्न हुये पर्वतोंमें इकट्ठेहुये २ लोकों सूकेहुये पर्वतोंके अग्र भागों और समुद्र तथा नदियोंमें ३ संवर्त्तक नामवाला कालरूप अग्नि वायु सहित विचरने और सब लोकों में प्रवेश करनेलगा और पृथ्वीलोक को हननकरके रसातल में प्राप्तहो देवदानव और यक्षोंको महान्भय उत्पन्नकिया ४ । ५ निदाननागलोकको दग्धकरके जो

कुछ दृश्य पदार्थ थे तिनको भी क्षणमें नाश करदिया और बीसहजार कईसौ कोशोंकेबीचमें एकबारगी वह संवर्त्तक अग्नि और वायु दग्ध करने लगा ६।७ जिससे देवते असुर राक्षस आदि सब दग्ध होने लगे ८ फिर जब यह कल्पाग्नि महाभयंकर प्रदीप्त हुआ तब मोह फांसियोंसे छुटा हुआ और भूख तृषासे व्याकुल इन्द्रियोंवाला ९ मार्कण्डेयमुनि तिस महावह्नि को देखभयसे विङ्गलहोगया और कण्ठ ओष्ठ और तालु उसके सूखगये १० पश्चात् वह पृथ्वीमें दिशाओंके भ्रमसे युक्त विचेतन हुआ भ्रमताफिरा ११ जब उसे कहीं विश्राम न मिला तब यह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं मैं नहीं जानता कि अब किसकी शरण जाना चाहिये १२ उस पुरुषेश सनातन देवको मैं कैसे प्राप्त होऊँ और उसप्रलयकारी पुरुषोत्तम के दिव्य पदको कैसे प्राप्त होऊँ १३ ऐसे विचारके वह मुनि प्रसिद्धपुरुषेश सनातन बटराजके समीप गया और १४ उसको मल्लमें स्थित हुआ जहाँ न कालाग्नि काही भयथा और न शरीर को खेद होताथा १५ वहाँ संवर्त्तक अर्थात् प्रलयके अग्नि आदिका आगमन नहीं होता १६ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायास्वयंभूश्चबिसम्वादेमार्कण्डेयदर्शननामपंचाशत्तमोऽध्यायः ५० ॥

इक्यावनवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि फिर आकाश में महाअद्भुत संवर्त्तक नाम महामेघ प्रकटहुये और उननीले कमलके समान कान्तिवाले और कुमोदनीके समान तथा और

कमलकेसर काक तोते इत्यादिकोंके समान वर्णवाले  
 १ । २ मेघों ने आकाशको आच्छादित करके एकक्षण  
 में सब पृथ्वीजलके समूहोंसे पूर्णकरदी ३ निदान हे मुनि-  
 सत्तमों ब्रह्माजीके प्रेरित उन मेघोंने सब स्थान जल-  
 मयकरके उसघोर अग्निको नाशकरदिया ४ । ५ और  
 दशवर्षतक मूशलधार जलवर्षतारहा ६ हे द्विजो तब  
 तो समुद्रभी अपनी मर्यादा को त्यागके चला पर्वतों  
 के शिखर विदीर्णहोगये और पृथ्वीजलमें डूबगई ७  
 ऐसे जब सबजगह जल फैलगया और वायुकेवेग स-  
 माहितहोके नाशहोगये तब उस एकार्णव जलमें जहां  
 घोर स्थावर जंगम जगत्था और देव असुर नर ये सब  
 नष्ट होरहेथे और जिसमें यक्ष राक्षस आदिका अभाव  
 था ८ । ९० वह मुनि विश्रांतहुआ पुरुषोत्तम भगवान्  
 का ध्यानकरनेलगा जब उसने आंखमींचकर जलसे  
 भरीहुई पृथ्वी को देखा ९१ तो बड़कावृक्ष उसे न देख  
 पड़ा और न पृथ्वीदिशा सूर्य्य आदिही देखाईदिये ९२  
 तब उसंतमोभूत निराश्रय घोररूपी एकार्णवमें जिसमें  
 चन्द्रमा सूर्य्य पवन देवते सर्प आदि सबनष्टहोरहेथे ९३  
 डूबतेहुये मार्कंडेय मुनिने निकलनेकी इच्छाकरी और  
 जहां तहां अमताफिरा ९४ पर हे विप्रो जब उसमुनिने  
 डूबकेभी पुरुषोत्तमको न देखा तब अति व्याकुलहुआ  
 और पुरुषोत्तम भगवान् तिसको विकलदेख बोले ९५  
 कि हे वत्स तू हारगया है और बालकहै सुब्रत तू मेरा  
 भक्तहै ९६ हे मार्कंडेय तू शीघ्रही मेरेसमीप आजा और  
 मेरे आगे तू किसी बातकाभय मतकर ९७ हे मार्कंडेय

ज्ञानधीर तू बालक क्यों श्रमसे पीड़ित होरहा है यह सुनि मुनि बारम्बार विस्मितहोके कहनेलगा १८ कि यह कौनहै जोकि मेरे तपकातिरस्कार करताहै क्या मेरी हजारों वर्षोंकी १९ तपस्याका प्रचार देवताओंमें नहीं है २० मुझको तो देवेश ब्रह्माभी दीर्घ आयुवाला कहते हैं पर मेराजीवन त्यक्तहोगया यह कौनहै जो घोर तप करता है २१ और मुझको हे मार्कण्डेय कहता है यह मृत्युहोनेके लायकहै ऐसा विचारकर वह मुनि चिंताको प्राप्तहुआ २२ और विचारनेलगा कि यह मुझको स्वप्न आया अथवा मेरे मोह होगया ऐसे चिंतवन करते २ उसकी बुद्धिदुःखितहोगई २३ और उसने यह निश्चय किया कि मैं पुरुषोत्तमदेव की शरणजाऊँ निदान वह मुनि तद्वत्होके पुरुषोत्तमदेव के समीप २४ गया और जलकेऊपर सुन्दर और सुवर्णसरीखी शाखाओंसे विस्तृत अति अद्भुत और रुचिर उसबड़वृक्षपर विश्वकर्माके रचेहुये अति दिव्यहीरा मणि मूंगा आदिसेजड़े और पद्मराग आदि अन्यअलंकारों से युक्त तथा अनेकप्रकारके बिछौनों और रत्नोंसे शोभित और अनेक प्रकारके आश्चर्योंसे युक्त कान्तिकेमण्डल से मण्डित पलंगके ऊपर बालशरीरको धारणकिये कोटिसूर्य के समान कान्तिवाले और दीप्त और सुन्दरतेजवाले चतुर्भुज और उदार अंग तथा पद्मकेपत्रके समाननेत्रों वाले श्रीवत्स चिह्नसेयुक्त छातीवाले शंख चक्र गदाको धारणकिये और वनमालासेविभूषित एवम्कुण्डलधारणकियेहुये और हारकेभारसेयुक्तग्रीवा और दिव्यरत्नों

से विभूषित श्रीकृष्णदेव को विस्मय से फूलेहुये नेत्रों वाले वह मुनि देखके २५ । ३१ रोमाञ्चितहुआ और उसदेवको प्रणामकरके बोला कि अहो चराचर नष्टहुये इसएकारणवमें ३२ तू निर्मलबालक कैसे स्थितहोरहा है भूत भव्य भविष्यको जाननेवाला वह मुनि ३३ माया से विमोहित हो उसदेव को न जानसका और खेदसे बोला ३४ कि मेरे तपकावीर्य्य ज्ञान जीवन और मनुष्य जन्म ये सब वृथा अर्थात् भूठेहीहैं ३५ क्योंकि मैं पलंग पर सोतेहुये इस दिव्यबालकको नहीं जानता ऐसे चिन्तवनकरके बिचेतनहो तिरता ३६ और श्वास लेताहुआ वह अति बिङ्गल हुआ और खेद को प्राप्त होगया फिर अपनी महिमासे व्यवस्थित तिस ३७ सर्व तेजोमय बालकको अच्छीतरह देखनेमें समर्थ न हुआ और वह बालक मुनिको आते देखके ३८ हँसते २ मेघ के गर्जनेके समान बोला ३९ कि हे वत्स मैं तुझको जानताहूँ तू प्राणोंके लिये यहां आया है इसलिये जल्द मेरे शरीरमें प्रवेशहो तेरा विश्राम मेरे शरीरमें है ४० मुनि उनके वचनको सुन मोहित हुआ कछुभी न बोला मुखमें प्रवेश करगया ४१ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांमार्कण्डेयजलध्रमणंतामैक

पंचाशत्तमोऽध्यायः ५१ ॥

बावनवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले हे मुनि सत्तमो उस विप्रने उस बालकके उदरमें अनेक देशोंसे आवृत समस्त पृथ्वी १ लवण ईख मदिरा घृत दही दुग्ध जलोदधि नामक

सात समुद्रों जम्बूद्वीप शाल्मलि २ कुश क्रौंच शाक पुष्कर आदि द्वीपों भारतादिक वर्षों ३ सब रत्नोंसे युक्त सुमेरु और अनेक रत्नोंके शृंगोंसे भूषित और बहुत गुफाओंवाले कनकाचल पर्वत ४ और अत्यंत अर्थात् शूद्र चाण्डाल आदिकों और मृग वानर गीदड़ शूसे मनुष्य ५ हाथी तथा अन्य जीवों एवम् पृथ्वी के समस्त तीर्थ नगर तथा ग्रामों ६ और कृषी गोरक्ष और बाणिज्यवालों इन्द्र आदिक देवताओं ७ और गन्धर्व अप्सरा यक्ष ऋषि चारण दैत्य और दानवके समस्त एवम् नाग ८ और सिंहिकाके पुत्र देवताओंके बैरियों तथा इससंसारके समस्त स्थावर जंगम पदार्थों ९ और ब्रह्मादि पर्यंत जो कछु भूलोक भुवलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक अतल वितल पाताल सुतल तलातल रसातल महीतल और सब चराचर ब्रह्माण्डको देखकर १० । १३ हे द्विज सत्तमो उसकी मति अब्याहत होगई १४ पर तिस देवके प्रासाद अर्थात् मन्दिरकी विस्मृति न हुई और अमता हुआ इसे जगतके अन्तको १५ विष्णुके उदरमें भी न प्राप्त हुआ तब उस वर देनेवाले देवकी शरणमें गया १६ निदान वह मुनि वायुसरीखे वेगसे तिस महात्मा सुखरूप पुरुषोत्तमके मुखसे निकल गया १७ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूष्मपिसम्बादेमार्कण्डेयस्य विष्णुदरे परिवर्त्तननाम द्वापंचाशत्तमोऽध्यायः ५२ ॥

३०६ ॥ १७ ॥ तिरपनवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले हे मुनि सत्तमों फिर उस मुनिने उस

बालकके उदरसे निकसके पृथ्वीको जनोंसे रहित देखा  
 १ और यहभी देखा कि पीतवस्त्र पहिने श्रीवत्स चिह्न  
 से युक्त छाती चारभुजाओं और पद्मके पत्र समाननेत्रों  
 वाला वह पूर्वदृष्ट बालक बड़के वृक्षपर पलंगपर स्थित  
 है निदान उस विचेतनमुनिको आते देख वह बालिके  
 हँसके बोला कि हे वत्स तूने हारकर मेरे उदरमें वास  
 कियाथा पर वहां भ्रमतेहुये क्या आश्चर्य्य देखा शू  
 हे मुनिश्रेष्ठ तू मेरा भक्त और श्रांतहै इसलिये धर्ममें  
 आश्रितहुये तुझसे मैं सम्भाषण करके देखताहूँ ६ भ-  
 गवान्के ऐसे वचन सुन मार्कण्डेयनेरोमांचितहो दिव्य  
 रत्नों से अलंकृत भगवान् को देखा ७ और हे द्विजो  
 भगवान्की प्रसन्नतासे उसकी बुद्धि स्वच्छ और नि-  
 र्मलहोगई ८ तब उसने भगवान्की रक्त अंगुलियों और  
 देवताओंसे अर्चित पैरोंके तलवोंको हर्षकी गद्गद्बाणी  
 सहित भुक्कर प्रणाम किया ९ और अंजली बांधके  
 प्रसन्न और विस्मित हो बारम्बार परमात्माकी स्तुति  
 करनेलगा १० मार्कण्डेय बोले कि हे देवदेव जगन्नाथ  
 आप मायासे बालक शरीर धारणकिये हैं और हेचारु  
 पद्मके समान अक्षवाले तुम मुझ दुःखित और शरणा-  
 गत आयेकी रक्षाकरो ११ हे सुरश्रेष्ठ मैं सम्बर्त्तवद्भिसे  
 दुःखित होरहाहूँ इसलिये अङ्गारों की वर्षा के भय से  
 आप मेरी रक्षाकरो १२ जगत्के नाशकरनेवाले प्रचंड  
 वायुसे मैं शोषित बिह्वल और श्रांतहूँ इसलिये हे पुं-  
 रुषोत्तम मेरी रक्षाकरो १३ प्रलय करनेवाले सूर्योसे  
 मैं सन्तप्तहूँ और शांतिको नहींप्राप्तहोता इसलिये मेरी



रक्षाकरो १४ हे जगत्पते मैं तृषितहूं और क्षुधासे युक्त  
 हूं हे पुरुषोत्तम मैं अपनी रक्षाकरनेवाला किसीको नहीं  
 देखता आपही मेरी रक्षाकरो १५ इस घोर एकार्णव  
 में चराचर नष्टहुये पर मैं अन्तको नहीं प्राप्तहुआ इस-  
 लिये हे पुरुषोत्तम मेरी रक्षाकरो १६ हे देवेश आपके  
 उदरमें मुझको चराचर जगत् दिखाई दिया और मैं  
 अति विस्मित होगया सो आप मेरी रक्षाकरो १७ तेरी  
 मायासे मोहित हुआ मैं बहुत कालतक इस निरालम्ब  
 संसारमें भ्रमाहूं हे पुरुषोत्तम अब आप मेरी रक्षाकरो  
 १८ हे विबुधश्रेष्ठ हे विबुधप्रिय हे विबुधोंकेनाथ हे वि-  
 बुधाश्रय आप प्रसन्नहो १९ हे सर्वलोकेश प्रसन्नहो हे  
 जगत्कारणके भी कारण हे सर्वदेवेश हे भूधर आप प्र-  
 सन्नहो २० हे कमलावास हे मधुसूदन हे कमलाकांत  
 हे त्रिदशेश्वर आप कंस केशी और अरिष्ट को मारने  
 वाले हैं आप मुझपर प्रसन्नहो २१ हे दैत्योंके नाश क-  
 रनेवाले हे श्रीकृष्ण हे मथुरावासी हे यदुनन्दन आप  
 प्रसन्नहो २२ हेशक्रावरज हेवरको देनेवाले अविनाशी  
 आप प्रसन्नहो २३ हे देव पृथ्वीभी आपही हैं और जल  
 अग्नि वायु आकाश मन अहंकार बुद्धि माया और जीव  
 भी आपही हैं हे देव जगत्के बीजरूप पुरुष आपहीहो  
 और पुरुषसे भी उत्तम पुरुषहो २४ । २५ आपही सब  
 इन्द्रियोंके शब्दादिक विषयहो और आपही दिक्पाल  
 धर्म वेद और दक्षिणा सहित यज्ञहो २६ आप इन्द्रहो  
 शिवहो धर्मराजहो देवराज इन्द्रहो और राक्षसाधिपति  
 हो २७ आपही जलोंके पति वरुणहो वायुहो कुबेरहो

ईशानहो अनन्तहो गणेशहो और स्वामिकार्तिकहो २८  
 आपही वसुहो आपही रुद्रहो आपही बारह आदित्य  
 हो और आपही दैत्य दानव यक्ष तथा मरुद्गणभी हो  
 २९ पितर तथा बालखिल्या आदिक ऋषि प्रजापति  
 मुनि अग्नि और राक्षस ये सब आपहीके रूपहैं ३०  
 और अन्य जीव संज्ञक जाति और ब्रह्मासे स्तम्भप-  
 र्यंत ३१ भूतभव्य भविष्य चराचर जगत् सब आपके  
 ही रूपहैं हे देव आपको कूटस्थ अचल और ध्रुवरूप  
 को ३२ ब्रह्मा आदिकभी नहीं जानते तो स्वल्प बुद्धि  
 वालोंका क्या कहनाहै ३३ आप अव्यक्त शाश्वत नित्य  
 अनन्त और सर्वव्यापी महेश्वरहो आप आकाशसेभी  
 परेहो और अज ३४ अविनाशी विभुहो इसलिये आप  
 निर्गुण निरंजनकी स्तुति करनेमें कौन समर्थ है ३५ हे  
 देवेश मैं आपका पुत्रहूँ और मुझ अल्पबुद्धिने जो कुछ  
 कियाहै तिस सबको आप क्षमाकरनेको योग्यहो ३६ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूत्तृषिसम्बादे भगवान्

स्तवानामत्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः ५३ ॥

### चौवनवां अध्याय ॥

इस प्रकार मार्कण्डेय की स्तुति से प्रसन्नहो भगवान्  
 मेघकीसी गम्भीरबाणी से बोले कि १ हे मुनि श्रेष्ठ तेरे  
 मनमें जो कामनाहै उसे तू कह मैं तुझको बाञ्छित वर  
 दूँगा २ भगवान् विष्णुके इस वचन को सुन वह मुनि  
 बोला ३ कि हे देवेश मैं आपको और आपकी माया  
 को जानने की इच्छा करता हूँ हे भगवन् मैंने आपके  
 मुखद्वारा आपके शरीरमें प्रवेश किया ४ और वहां स्थित

होके सब जीवों को देखा हे देव आपके शरीरमें स्थित  
 देव दानव व राक्षस ५ यक्ष गन्धर्व नाग स्थावर जंगम  
 जगत् को देखतेहुये मेरीबुद्धि का नाश नहीं हो ६ ऐसे  
 कहके उसने मुखमें प्रवेश किया और उस बालकके उदर  
 में विचरतेहुये उसने अनेकप्रकारके वृक्ष लताओं और  
 भिरने आदिकोंसे युक्त तथा अनेकप्रकारके जीव और  
 आश्वर्योंसे व्याप्त व्याघ्र सिंह बराह चामर भैंसे हस्ती  
 मृग शाखामृग और अन्यजीवों से युक्त इन्द्र आदिके  
 देवतों एवम् सिद्धचारण दिव्यसर्प मुनि यक्ष अप्सरा  
 और अन्य देवताओं के भूषित और मनोहर मकान  
 सेवित सुमेरुपर्वत को देखा ७।१० और हिमवन्त हे-  
 मकूटनिषध गन्धमादन श्वेतदुर्दुर नीलकैलाश मन्द-  
 राचल ११ महेन्द्र मलय विन्ध्य पारिजात अर्बुद सह्य  
 सुक्तिमंत मेनाक चक्रपर्वत १२ एवम् और जितने पि-  
 र्वत पृथ्वीपर हैं तिनसबको भी देखा १३ कुरुक्षेत्र पां-  
 चाल केकय वाह्लीक सुरसेन काश्मीर कुलाश्वगपर्वतोंमें  
 होनेवाले और किरातजाति आदिके राजा और मनुष्य  
 भी देखपड़े १४।१५ और एकपैरवाले तीनपैरवाले और  
 अश्वसरीखे मुखवाले मनुष्योंको भी देखा १६ प्राग्ज्यो-  
 तिष कामबोज अंग वंग उत्कल उत्कोशल महाराष्ट्र  
 कलिंग केकय अर्बुद माल्यवान् द्राविड सौराष्ट्र और  
 अन्यदेशोंको विचरतेहुये उसमुनिने वहांदेखा १७।१८  
 और प्रयाग कुरुक्षेत्र नैमिषारण्य १९ गंगाद्वार कुताम्बि व-  
 दरिकाश्रम सिन्धुसागर कौकामुख शोकरव मथुरा मरु-  
 स्थली शालग्राम वायुतीर्थ मन्दार और पूर्वसागर पिं-

डारा चित्रकूट प्रभास कनखल द्वारका कोटितीर्थ महावन लोहज जंघाश्वतीर्थ और सर्वपापोंको छोड़ानेवाले कर्द्दमान् अग्नितीर्थ चामरकण्टक मोहार्गल जम्बुमार्ग सोमतीर्थ पृथूदक उत्पलावर्त्तकतीर्थ श्रीपुरुषोत्तम एकाम्बक केदारकाशी ब्रजतीर्थ कालंजर श्रीशैल गंधमादन आदितीर्थों और क्षेत्रों तथा देवताओंके स्थानों को तिसबालकके उदरमें देखा गंगा शतहृदा यमुना कौशिकी चर्मएवती क्षेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती विपाशा सवितस्ता सिन्धु गोदावरी एकसारा नलिनी पयोधमी नर्मदा ताम्रपर्णी सुभद्रामहानदी कर्तोया सुवेला कृष्णवेला ऐरावती आदि पृथ्वीपर जितनी नदीहैं तिन सब को वह हाराहुआ मुनिउसमहात्माकी कुक्षिमेंदेखा २० । २६ चन्द्रमा तथा सूर्यसे विराजित कुशलापुरी ३० और तेजोंसे प्रकाशमान् सूर्य और अग्निके समान कान्तिवाली सुवर्णसे शोभित पृथ्वीको उसनेदेखा ३१ और अनेक यज्ञों और मन्त्रों सहित पूजाकरते ब्राह्मण सुवर्णके गहनोंसे भूषित क्षत्रिय ३२ और यथा न्यायकरके खेतीको करनेवाले वैश्यों को वह मुनि उसके उदरमें देखकर शीघ्रही बाहर निकल ३३ कहनेलगा कि हे पुण्डरीकाक्ष आप अविनाशीको मैं जाननेकी इच्छाकरताहूँ यहां आप साक्षात् बालकहोके क्यों स्थित होरहेहो ३४ और इस सब जगत्का नाशकरके अपनी कुक्षिमेंरख किसवास्ते विचरतेहो हेदेवेश आपकीमाया कैसी होतीहैहेकमलपत्राक्ष आपसे इसअचिंत्य पृथिवी की मायाको मैं विस्तार सहित सुनाचाहताहूँ ३५ । ३७

उसके यह वचन सुन वह देव देव महेश्वर उसको समझाने लगा कि मुझको तत्वसे अच्छी तरह देवते भी नहीं जानते परन्तु तेरी प्रीतिके कारण मैं यह सब रचना दिखाता हूँ ३८ । ३९ हे विप्रर्षे अर्थात् ब्राह्मणों में ऋषि तू मेरा भक्त होके मेरी शरण आ गया है और मैंने तेरा महत् ब्रह्मचर्य भी देखा है इसलिये तुझको अपनी माया सुनाता हूँ ४० नारक कहते हैं जलको और अयनका अर्थ स्थान है मैं कल्पके आदि और अन्तमें जलमें निवास करता हूँ इस वास्ते मुझको नारायण कहते हैं ४१ मैं नारायण नामसे प्रसिद्ध शाश्वत और अविनाशी हूँ हे द्विजोत्तम मैं सब जीवोंका विधाता और संहर्ता हूँ ४२ मैं ही विष्णु हूँ मैं ही ब्रह्मा मैं ही सुराधिप इन्द्र हूँ और मैं ही कुबेर और प्रेताधिप यम हूँ ४३ मैं ही सूर्य तथा चन्द्रमा हूँ मैं ही कश्यप और प्रजापति हूँ और मैं ही धाता विधाता और यक्ष हूँ ४४ अग्नि मेरा मुख है पृथ्वी पैर है चन्द्र और सूर्य नेत्र हैं स्वर्ग आकाश दिशायें मेरे कर्ण हैं ४५ और दिशासहित आकाश मेरी काया है वायु मेरे मनमें स्थित है और बहुतसी दक्षिणाओंवाली यज्ञोंद्वारा ४६ मेरे लोककी इच्छा करनेवाले वैश्य मुझे पूजते हैं चारों समुद्रों पर्यन्त सुमेरु और मन्दराचल सहित समस्त पृथ्वी को ४७ मैं शेषनाग होके अकेला धारण करता हूँ हे विप्र पूर्वमें डूबी हुई पृथ्वी को बाराह रूप धारण करके ४८ मैं अपने पराक्रम से निकासता था हे द्विजसत्तम मैं बड़वाग्नि होके ४९ जलोंको पीता हूँ और फिर रत्न देता हूँ मेरे मुखसे ब्राह्मणभुजाओं से

क्षत्रियजाँघोंसे वैश्य और पैरोंसे शूद्र पैदाहोतेहैं और ऋग्सामयजु और अथर्वण वेद मुझसेही प्रकटहोतेहैं ५०।५२ और मुझमेंही लीनहोजातेहैं काम क्रोध द्वेष इत्यादिसे विमुक्त सत्वगुणमें स्थित निःसंग और निर-हंकार नित्यआत्माको जाननेवाले यतीजन ५३ मुझकोही रातिदिन चिंतवन करते हैं मैंही सम्वर्त्तक ज्योति संवर्त्तक अग्नि ५४ सम्वर्त्तक सूर्य और संवर्त्तक वायु हूँ और जितने आकाशमें तारेदीखतेहैं तिनको मेरेरोम-कूपजानों ५५ रत्नकर चौदहसमुद्रोंको मेरे बसन और निलय अर्थात् शयनस्थान जानों ५६ काम क्रोध हर्ष मोह मेरेही रूपहैं और मनुष्य जिसश्रेष्ठ कर्मसे सुन्दर स्थानको प्राप्तहोते हैं वहभी मेराहीरूप है ५७ सत्य दान उग्र तप और सब जीवों में अहिंसा मेरे शरीरमें विचरनेवाले देहधारियों के लिये मेरेही विधानसे रचे हुये हैं ५८ और मुझसे ज्ञानकी लब्धि को प्राप्तहो जीव कामनाओंकी चेष्टा नहीं करते हैं बल्कि सम्पूर्ण वेदोंको पढ़ेहुये अनेकप्रकार की यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करते हैं ५९ क्रोध को जीतनेवाले नियंतात्मा द्विजाति मुझको प्राप्त होते हैं और दुष्कर्म करनेवाले मुझको नहीं प्राप्त होसके ६० लोभसे बँधेहुये कृपण दुष्ट और अकृत आत्मावाले मनुष्योंमें मेरी मायाका बल होता है ६१ और भावित आत्मावाले पुरुषयोगोंसे निसेवित और मूढ़ों को दुर्लभ मुझको प्राप्त होजाते हैं ६२ हे मार्कण्डेय जब २ धर्मका नाश और अधर्मकी उत्पत्ति होती है तब २ ही मैं अपने आत्माको रचताहूँ ६३ और

हिंसामें रत और देवतों से अबध्य दारुण दैत्य और राक्षस जब उत्पन्न होते हैं तब मैं शुभकर्मवालोंके घर में जन्म लेताहूँ ६४ और मनुष्यदेहमें प्रवेशहोके सब को शमन कर देव मनुष्य गन्धर्व सर्प राक्षस ६५ स्थावर जंगम जीवों को अपनी माया से संहार करता हूँ एवम् कर्मकालमें देह का चिंतवन करके फिर आत्मा को रचताहूँ ६६ पापोंके नाशके लिये मैं सतयुगमें श्वेत त्रेतायुग में श्याम ६७ द्वापर में रक्त और कलियुग में कृष्णरूप धारण करताहूँ ६८ और जब दारुण प्रलय काल प्राप्त होताहै तब सब स्थावर जंगम त्रिलोकीको नाश करताहूँ ६९ मैं त्रिधर्मा विश्वात्मा और सबलोकों को सुख देनेवालाहूँ और सर्वव्यापी अनंत हृषीकेश पुरुषोत्तमहूँ ७० हे ब्रह्मन् मैं अकेला काल चक्रको प्रेरित करताहूँ और सब लोकोंका रमण और उद्यम करने वालाहूँ ७१ हे मुनिसत्तम ऐसे मैंने सब वस्तु युक्तकर रखी है और सब जीवोंमें मेरा आत्माहै पर मुझको कोई नहीं जानता ७२ हे भक्त सब लोकोंमें मुझको सब पूजते हैं और हे द्विज तुझको जो क्लेश प्राप्त हुआहै ७३ वह सब तेरे सुखके उदयके वास्ते हैं संसारमें जो कुछ तुझको स्थावर जंगम दिखताहै ७४ वह सब भूतोंको उत्पन्न करनेवाले मुझहीसे विहितहै और मैं शंख चक्र गदाको धारण करनेवाला नारायणहूँ ७५ जितने हजार बार सब युग आवते हैं उतने कालमें सब विश्व को मोहताहुआ शयन करताहूँ ७६ हे मुनिसत्तम ऐसे सब कालमें मैं स्थित रहताहूँ जब तक ब्रह्मा नहीं उ-

त्पन्न होता तबतक मैं बालकमें बालक रूपसे रहताहूँ  
 ७७ हे विप्रेन्द्र बारम्बार तुझसे प्रसन्नहो मैंने ऐसा वर  
 तुझे दियाहै जो विप्रर्षिगणोंसे पूजितहै ७८ सब एका-  
 णवहोने और स्थावर जंगम नष्टहोनेके पीछेतू मेरेजान-  
 नेकेलिये निकसा इसवास्ते तुझको यह जगत् दिखाया  
 है ७९ जब तू मेरे उदरके भीतर प्रवेश गया तब तूने  
 सब लोक देखे पर विस्मित होके मुझको न जाना ८०  
 फिर जब तू मेरे मुखसे निकसा तब मैंने तेरेलिये अ-  
 पनी आत्माका वर्णनकिया ८१ हे विप्रर्षे जबतक महा  
 तपवाला ब्रह्मा न बोधकरै तबतक तू सुखसे यहां वि-  
 श्रामकर ८२ सब लोकोंका पितामह ब्रह्मा जब उत्पन्न  
 होगा तब मैं सब जीवों के शरीरों ८३ और आकाश  
 पृथिवी अग्नि जल और संसारमें जो कुछ स्थावर जं-  
 गमहै तिसको रचंगा ८४ निदान माधव भगवान् इस  
 प्रकार उस मुनिसे कहकर जब हजारयुग पूर्ण होचुके  
 तब मेघ सरीखे गंभीर शब्दसे उससे कहनेलगे ८५  
 कि हे मुने जिसलिये तू मेरी स्तुति करताथा सो तू कह  
 और जो चाहताहै सो वरमांग मैं शीघ्रही देऊंगा ८६  
 तू सब देवताओंसे भी बड़ी आयुवाला और मेरा दृढ़-  
 भक्त है इसलिये फिर तू दीर्घ आयुवालाहो ८७ ऐसी  
 शुभवाणीको सुन और भगवान्के दर्शनकर मार्कण्डेय  
 ने प्रणाम करके कहा कि ८८ हे देवेश हे सुरोत्तम आप  
 मुझको देखें और हे अमरहरि आपके देखनेसे तत्काल  
 मेरा मोह दूरहोगया ८९ हे नाथ आपकी प्रसन्नता से  
 लोकोंके हित अनेक भावोंकी शांति ९० और आपके



भक्तोंके भेदके निषेदके वास्ते मैं इसपुण्य और निर्मल पुरुषोत्तमक्षेत्रमें स्थित रहूँ ६१ हे देव मैं परमात्माशंकर का स्थापन करूँगा इसलिये किस स्थानमें मैं शंकरको स्थित करूँ जो ९२ संसारमें हरिको और शंकरको लोग एक मूर्ति जानें यह सुन जगन्नाथ महामुनिसे बोले ६३ कि जो तेरी बुद्धि इस परमदेव भुवनेश्वर महादेव के लिंग आराधन करनेकी है ६४ तो मेरी आज्ञासे शीघ्र ही शिवालय बना उसके प्रभावसे तू सदा शिवलोक में स्थित रहैगा ६५ हे विप्र शिवके स्थापन करने से मेरा भी स्थापन होजावेगा क्योंकि हमारा और शिवका कुछ अन्तर नहीं है ६६ जो रुद्रहै सो आप विष्णु है और जो विष्णुहै सो महेश्वरहै जैसे वायुका और आकाशका अन्तर नहीं तैसे इन दोनोंका अन्तर नहीं है ६७ तू मोहित हुआ नहीं जानताहै यह गरुडध्वज है यह वृषध्वजहै यह त्रिपुरघ्नहै और यह त्रिविक्रमहै ९८ हे विप्र अपनेनामसे चिह्नित पापोंको नाशकरनेवाला शिवालय पुरुषोत्तमदेवके उत्तरदिशा में बना ९९ यह मार्कण्डेय नामक तीर्थ मनुष्यलोक में विश्रुत अर्थात् विख्यात और सब पापों का नाश करनेवाला होवेगा १०० ऐसे कहके वे सर्वव्यापी जनार्दन भगवान् तिसी जगह अन्तर्धान होगये १०१ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां मार्कण्डेयभगवत्दर्शननाम

चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५४ ॥

पचपनवां अध्याय ॥

ब्रह्माजीबोले कि इसके उपरांत अब मैं पंचतीर्थकी

विधि और उसके स्नान दान देवताके दर्शनका फल कहता हूँ १ मार्कण्डेय हृदमें स्नानकर पवित्र हो उत्तरके तर्फ मुखकरके तीनबार इसमंत्रका उच्चारणकरै २ हे भगवन् में संसारसागरमें ग्रस्त और अचेत हूँ मेरी रक्षाकरो हे त्रिपुरके नाशक आप शिवशान्त सर्व पापहरको मैं नमस्कार करता हूँ आप मेरे पातकोंको दूरकरो ३ । ४ फिर नाभिमात्र जलमें स्नानकरके विधिवत् देवता ऋषि पितरोंका तर्पण तिलोदक करके करै ५ और स्नान आचमनकर शिवालय में जा तीनबार प्रदक्षिणाकरके ६ अमोघ मूलमंत्रसे मार्कण्डेय और केशव भगवान् का पूजन करके स्तुत प्रणामकरै ७ हे विलोचन हे शशिभूषण आपको नमस्कार है हे विरूपाक्ष हे महादेव आपको नमस्कार है ८ इस प्रकार मार्कण्डेय हृद में स्नान और शिवजी के दर्शन करनेसे मनुष्य दश अश्वमेधयज्ञों के फलको प्राप्तहोता है और सब प्राप्तिसे छुटके शिवलोक में प्राप्त हो प्रलयतक श्रेष्ठ भोगों को भोगके ९ । १० इसलोकमें प्राप्तहो वेदपाठी ब्राह्मणहोता है एवम् फिर शंकर योगकरके मोक्षको प्राप्त होजाता है ११ कल्पवृक्षके समीपजा तीनप्रदक्षिणा करके इसीमंत्रसे परमभक्ति पूर्वक तिसबटका पूजनकरै १२ कि ॐ व्यक्तरूप आपको नमस्कार है महाप्रलयवासी और महेन्द्रके ऊपर स्थितहोनेवाले आपको नमस्कार है १३ महाकल्पमें आप अमर हैं और बंटके शरीरको धारण किये आप अमर रहते हैं हे बटरूपीकल्पवृक्ष मेरे पापोंको हरो आपको नमस्कार है १४ इसप्रकार भक्तिसे उस

बटकी प्रदक्षिणा और नमस्कारकरके मनुष्य एकबार पापोंसे छुटजाताहै जैसे कंचुलीसे सर्प १५ हे द्विजों तिस कल्पवृक्षकी छायामें बैठके मनुष्य राजसूय अश्वमेधयज्ञों के फलको प्राप्तहोताहै १६ और अपने कुलका उद्धारकर विष्णुलोकमें प्राप्तहोताहै कृष्णके आगे स्थित गरुड़के दर्शन करनेसे १७ सब पापोंसे निर्मुक्तहुआ मनुष्य विष्णु लोकमें प्राप्तहोताहै और बट तथा गरुड़के दर्शन जो पुरुषोत्तम भगवान् १८ और बलदेव सुभद्रा इन्हीं के दर्शन करताहै वह परमगतिको प्राप्तहोजाताहै विष्णु के मन्दिरमें प्रवेशकरके तीनबार प्रदक्षिणाकर १९ शिव के मन्त्रोंसे बलदेवको भक्तिपूर्वक पूजे और स्तुतिकरै कि हलधर हे मुशलायुध आपको नमस्कार है २० हे रतिकांत हे भक्त वत्सल हे बलियोंमें श्रेष्ठ हे धरणीधर आपको नमस्कार है २१ हे प्रलंबके अरि और कृष्णके अग्रज आपको नमस्कारहै आप मेरी रक्षाकरो ऐसे उस अनन्त अप्रमेय देवार्चित बलदेवजीकी स्तुतिकरै २२ और हे बलदेवजी आपका मुख कैलासके शिखर और चन्द्रमाकी कान्ति सरीखा और नीलवस्त्रके धारण करनेवाले और सुन्दर मस्तकवाले आपको नमस्कार है २३ महा बलवाले हलधर एक कुण्डल से विभूषित बलदेवको भक्तिकरके स्तुति करनेसे मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्तहोताहै २४ और सब पापोंसे विनिर्मुक्तहो विष्णुलोकमें जाताहै जहां प्रलयतक सुखभोग के २५ फिर पुण्यक्षीण होनेपर श्रेष्ठयोगिजनों के कुलमें जन्मलेताहै और सबशास्त्रोंको जाननेवाला ब्राह्मण

हो २६ ज्ञानको प्राप्तहो दुर्लभमुक्तिको प्राप्तहोताहै ऐसे बलदेवका पूजनकर फिर विद्वान्पुरुष श्रीकृष्णको २७ द्वादशाक्षरमंत्र से समाहित होके पूजे जो बारह अक्षरों के मंत्रसे भक्तिपुरुषोत्तम भगवान्की २८ सदाधीरहोके पूजाकरताहै वह मोक्षको प्राप्तहोताहै उस गतिको देवते और योगी भी नहीं प्राप्तहोते २९ जिसको द्वादशाक्षरमंत्र जपनेवाला पुरुष प्राप्तहोताहै इसलिये उसी मंत्र से भक्तिपूर्वक जगत् गुरु श्रीकृष्ण का पूजनकरै ३० और गंध पुष्पादिकों से पूजन और प्रणामकरके स्तुतिकरे कि हे जगन्नाथ सब पापोंको नाशकरनेवाले जयकरो ३१ हे चाणूर केशी और कंसके मारनेवाले आपजयकरो हे पद्मके पत्र समान नेत्रोंवाले और चक्र गदांधर आप जयकरो ३२ हे नीलाम्बुज श्याम हे सर्व सुखप्रद आप जयकरो हे जगत्पूज्य देव हे संसार नाशनदेव आप जयकरो ३३ हे लोकनाथ बाँझाफल को देनेवाले आप जयकरो इस घोरनिस्तार दुःखों के भागों ३४ और क्रोधरूपी ग्राहसे आकुल विषयोदक से युक्त अनेकप्रकार के वेगों की लहरोंवाले औरमोह रूपी आवर्त्तसे ३५ संसार सागरमें मैं डूबरहाहूँ इसलिये हे पुरुषोत्तम आप मेरी रक्षाकरो इसप्रकार बरके देनेवाले भक्तवत्सल देवको प्रसन्नकर ३६ जो मनुष्य सब पापोंको हरने और सब कामनाओंके फलको देनेवाले सुन्दर नासिका और बलिष्ठ भुजाओंवाले कमल के पत्रोंके समान नेत्रों और महान् उदरवाले पीतवस्त्र तथा शंख चक्र गदाको हाथमें धारणकिये सब लक्षणों

करके संयुक्त और बनमालासे विभूषित श्रीकृष्णके दर्शन अंजलीबांध और दण्डवत् करताहै ३७।३९ हजारों अश्वमेध यज्ञों के फलको प्राप्तहोता है ४० जो फल सब तीर्थोंके स्नान दान करनेसे होताहै तिस फलको मनुष्य श्रीकृष्णके दर्शन और प्रणाम करनेसे प्राप्तहोताहै ४१ जो फल यथोक्त विधिसे अपने हाथसे दान देने और यथोक्त विधिसे संन्यास करनेका होताहै ४२ उस फल को मनुष्य श्रीकृष्ण के दर्शन और प्रणाम करने से प्राप्तहोताहै ४३ हे द्विजो बहुत कहांतक कहें मनुष्य श्रीकृष्णके दर्शनसे दुर्लभ मोक्षको प्राप्तहोताहै ४४ और पापोंसे विमुक्त और शुद्ध आत्माहो किरोड़ों कल्पोंतक परमलक्ष्मी से युक्त हुआ सब गणोंके संग आनन्द करताहै ४५ और सब कामनाओंकी समृद्धि सहित सुन्दरकान्तिवाले विमानमें स्थितहोताहै कालान्तरमें जब पुण्य क्षीण होजातीहै तब वह यहां ब्राह्मणों के कुलमें जन्मले ४६ सर्वज्ञ सर्ववेदी और मत्सरतासे रहित अपने धर्ममें रत शान्त दांत और सब जीवों में हित रखनेवाला होताहै ४७ और वैष्णव ज्ञानको प्राप्तहो फिर मुक्तको प्राप्तहोजाताहै जो मनुष्य भक्ति सहित मंत्रसे अंजलीबांध प्रणामकर जो सुभद्राजीकी पूजा करके यह स्तुति करताहै कि ४८ हे सर्वगे देवि शुभ सौख्यके देनेवाली आपको नमस्कारहै मेरी रक्षा करो और हे पद्मपत्राक्षि हे कात्यायनि आपको नमस्कारहै वहजगत्धात्री और जगत्पर हितकरनेवाली बलदेवकी भगिनी सुभद्राको प्रसन्नकर ४९।५० कामना

को देनेवाले विमानमें बैठके विष्णुपुरको जाता है और प्रलयतक देवताओंकी तरह सुख भोगके ५१ फिर इस  
 १। ब्राह्मणके घर जन्मले वेदको जाननेवाला होता है और योगको प्राप्तहो फिर मोक्षको प्राप्तहोजाता है ५२  
 इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूच्चपिसम्वादे कृष्णबलदेव  
 सुभद्रादर्शनफलवर्णननामपंचपंचाशत्तमोऽध्यायः ५५ ॥

### छप्पनवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि इसप्रकार श्रीकृष्णबलदेव और सुभद्राके दर्शन और प्रणाम करनेसे मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्षको निश्चय प्राप्त होता है १ और मन्दिरसे निकसके कृतकृत्य होजाता है २ जहां इन्द्र नीलमय विष्णु भगवान् रेतसे आवृतहुये छिपाहै तिसके दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णुपुरमें प्राप्त होता है ३ जिस सर्वदेव मय भगवान् ने नृसिंहरूप धर हिरण्यकशिपु दैत्यको माराथा वही वहां स्थितहै ४ उस देवको भक्तिसे देख और प्रणामकर मनुष्य सब पापोंसे छूटजाता है ५ वह मनुष्य भक्तिकरके नृसिंहदेवका प्यारा होजाता है और उसे कुछ दुःख नहींहोता है इच्छितफल प्राप्त होता है ६ इसलिये सब यतनसे नृसिंहदेवके आश्रयहो जिससे धर्म काम अर्थ मोक्षकी प्राप्ति होजाती है ७ मुनियों ने पूँजा कि नृसिंहका महात्म्य जो आप इस पृथ्वीलोक में कहतेहो सो हमें महान् विस्मय है ८ हे देवेश उस जगत्पतिके प्रभावको हम सुनने की इच्छा करते हैं ९ जैसे नृसिंहदेव प्रसन्नहों सो हे पितामह आप अपनी प्रसन्नतासे हमारे आगे कहो १० । ११ ब्रह्माजी कहने

लगे कि नृसिंहदेवके प्रभावको सुनो यद्यपि उस अजित  
 अप्रमेय और भक्ति मुक्तिप्रद १२ देवके सम्पूर्ण गुणों  
 को कहनेमें मुझे समर्थ नहीं है तौ भी उस देवके कछुक  
 गुणोंको मैं कहता हूँ १३ जो फल मनुष्य किसी सिद्धि  
 का सेवन करके पाता है वे सब सिद्धि नृसिंहदेवके प्र-  
 सादसे सिद्ध होजाती हैं १४ और स्वर्ग मर्त्यलोक पा-  
 ताल दिशा जल आकाश आदिमें आहतगति अर्थात्  
 इन सबोंमें उसकी गति होजाती है इसमें सन्देह नहीं  
 है १५ उस नृसिंहदेवकी प्रसन्नता होनेसे चराचरलोक  
 में कछु असाध्य नहीं रहता इसलिये नृसिंहकी भक्ति  
 में सदा रहना चाहिये १६ भक्तोंके उपकारके लिये उ-  
 सके विधानको मैं कहता हूँ जिसके करनेसे यह नृसिंह  
 देव प्रसन्नहोजाता है १७ हे नर शार्दूलो आपसनातन  
 कल्पराजरूप तिस अनन्तदेवके तत्त्वको सुनो १८ सा-  
 धक को जवोंकातुष मूल फलखल दूध आदि भक्षण  
 करना चाहिये १९ और कौपीनवस्त्र पहिन भक्तिसेयुक्त  
 और जितेंद्रियहो अरण्यविजन देश अथवा पर्वत नदी  
 २० ऊषरभूमि सिद्धिक्षेत्र तथा नृसिंहके आश्रममें जा  
 नृसिंहकी प्रतिष्ठाकर फिर तिसकी पूजाविधानसेकरै २१  
 और शुक्लपक्षकी द्वादशीकेदिनव्रतकर और मनसे जि-  
 तेंद्रिय हो एकलाख बार नृसिंह के मन्त्र को जपै २२  
 तो मनुष्य उपपातक और महापातक आदिकोंसे छूट  
 जाता है इसमें सन्देह नहीं २३ फिर प्रदक्षिणाकर नृ-  
 सिंहदेव का पूजन गन्ध पुष्प धूप इत्यादिकों से करके  
 प्रणामकरै २४ और कपूर चन्दन चमेलीकेपुष्प नृसिंह

के मस्तकपर चढ़ावे तो सिद्धिहो जाती २५ और सब कार्योंमें ऐश्वर्यवाला दृढ़ और ब्रह्मा रुद्र आदिक देवताओंसे भी असह्यहो जाता है २६ दानवोंका तो क्या कथन है सिद्ध गन्धर्व मनुष्य विद्याधर यक्ष गण किन्नर दिव्य सर्प आदि सब २७ उसके सूर्य और अग्नि के समान तेजसे दग्ध होजाते हैं एकबार भी नृसिंहजी के मंत्रके जपने से सब उपद्रवों से रक्षा होती है २८ और नृसिंहकवच के पाठ करनेसे देव दानव भूत पिशाच राक्षस और चौर आदिकोंसे रक्षा होजाती है २९ दो बार कवचके पाठसे देवता और असुरोंसे अभेद्य होजाता है और द्वादशीके दिन ३० पाठ करनेसे तिसकी रक्षा महाबलवाले नृसिंहदेव करते हैं बिलद्वार में जाके तीनरात्री तक उपवासकर ३१ और ढाक आदिकों से अग्नि प्रज्वलित कर शहद और घृतसे युक्त पलाश आदि समिधोंको होमै ३२ और रकारान्तमन्त्रसे बीस हजार बार जपे तो उसी क्षण नृसिंहदेव उसके आगे प्रकटहोते हैं ३३ शङ्कासे रहितहो कवचको धारणकरके विचरै तो सङ्कट और तमका नाश होजाता है ३४ नृसिंहके स्मरण करनेसे राजमार्ग प्राप्तहोता है और पातालमें भी प्रवेश होसक्ता है ३५ जहां जाके अविनाशी नृसिंहके तत्वका पूजनकरै तो चव्वैर ढुलातीहुई हजारों स्त्रियोंसे ३६ आदरसत्कार कियाजाता है और वे साधक के हाथको ग्रहणकर ३७ दिव्यरसायन पानकरादेती हैं तिसके पीनेसे वह दिव्यदेहवाला और महाबलवाला हो प्रलयकालतक उन कन्याओंके संग रमणकरता है ३८



और जब शरीर छूटता है तब वासुदेव भगवान् में लीन होजाता है इसमें संदेह नहीं ३९ जो पाताल लोकमें बास करनेकी रुचि न हो तो वहांसे निकसके पटशूल खड्ग सुंदर मणि ४० रसायन रस खडाऊं कालीमृगछाला गुटिका कमण्डलु अक्षसूत्र संजीवनी यष्टि ४१ सिद्ध विद्या और सत्यशास्त्रको ग्रहणकर और हृदयमें अग्नि सरीखे कणकोंकी तरह प्रकाशित हो ४२ एकबारगी किरौड़ों जन्मोंके पापों को नृसिंह कवचके धारण करनेसे नाश करदेता है ४३ उस कवचको जो विषमें स्थापित करदे तो विषका नाश हो और शरीर पै धारणकरे तो दुःखों का नाश हो यह भ्रूणहत्यादिकों का नाशकर दिव्य शरीर करदेता है ४४ और महाग्रहसे ग्रहित पुरुषोंके शरीरपर इस कवचके बांधनेसे दारुण ग्रहों का नाश होजाता है ४५ बालकोंकी भुजापर बांधनेसे नित्य रक्षा होती है और गण्डरोग पिटिकारोग लूत आदि अनेक रोगोंका नाश होता है ४६ व्याधिसे पीड़ित की रक्षाके वास्ते समिधोंको दुग्धके संग इस कवचसे ४७ तीन वक्र एक महीना तक होम करनेसे सब रोगोंका नाश होजाता है और चराचर जगत्में कुछभी उसको असाध्य नहीं है ४८ जिनजिन सिद्धियोंकी वह इच्छा करता है तिन्होंहीको प्राप्त होजाता है ४९ बांबी श्मसान चौराहा इत्यादिक सातस्थानोंकी मिट्टी लेकर लाल चन्दन मिला और गौके दूधमें पीस ५० छः अंगुल प्रमाण सिंहकी प्रतिमा बना और विष और गोरौचन से भोजपत्रपर नृसिंह कवचको लिख ५१ उस मूर्तिके कण्ठमें बांधदे

और आप जलमें प्रवेशकरके ५२ और जितेंद्रियहोके सातदिन असंख्यात मंत्रजपकरै तो सब पृथ्वी सातदिन में जलसे पूर्ण होजाती है अथवा सूखे वृक्षके आगे पूजन करै ५३ और १०८ बार मंत्रजपै तो वर्षाका निवारण हो जो उसको भ्रमाके वृक्षमें बांधदे तो ५४ एक मुहूर्त्तमें महावायु चलने लगजाय इसमें संदेह नहीं यदि शीघ्र ही सातबार जलसे जपै तो वायुको धारण करलेवे ५५ जो उस मूर्त्तिको किसीके द्वारके आगे रखदे तो तिसके कुलका उच्चाटन होजाता है और हटालेतो शांति होजाती है ५६ इसलिये हे मुनि शार्दूलो उस महा पराक्रम वाले नृसिंहका पूजन सदा भक्तिसे करना चाहिये इससे सर्वकामनाओंकी सिद्धि होजाती है ५७ और सब पापोंसे विमुक्त हो मनुष्य विष्णुलोकमें प्राप्त होजाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र कोई अपनी जातिके जनों समेत जो ५८ भक्तिसे सुन्दर शरीरवाले सुरश्रेष्ठ नृसिंहका पूजनकरें तो किरोड़ों जन्मों के पापों और दुखोंसे छूटजाते हैं ५९ उस देवका पूजन करनेसे मनुष्य बांछितफलको प्राप्त होजाता है और देवता इन्द्र गंधर्व यक्ष विद्याधर ६० जो कुछ बांछा करते हैं सो नृसिंहदेवके दर्शन और नमस्कार तथा पूजन करनेसे ६१ प्राप्त होता है दुर्लभ मोक्ष तथा स्वर्ग भी इस पूजनसे प्राप्त होते हैं और नृसिंहके दर्शन करनेसे मनुष्य अतुलफलको प्राप्त हो ६२ सब पापोंसे विमुक्त हुआ विष्णुलोकमें वास करता है ६३ दुर्गम युद्ध संकट और चौर तथा व्याघ्र आदिकोंके भयमें ६४ एवम् प्राणोंको बाधा करनेवाले

दुर्गममार्गं विष अग्नि जल राजाकायुद्ध ग्रहरोगादि-  
 कोंकी पीड़ामें ६५ मनुष्य उस नृसिंहदेवका पूजनकरने  
 से सब आपदाओंसे ऐसे छूटजाता है जैसे सूर्योदयमें  
 महान् अंधेराका नाशहोजाताहै ६६ नृसिंहके दर्शनकरने  
 से सब उपद्रव बिनाशहोजाते हैं और गुटिसे जलपढ़के  
 पैरों में लेपकरना रसायन है ६७ नृसिंहदेवके प्रसन्न  
 होनेसे सब बांछा प्राप्तहोजातीहैं और अश्वमेधयज्ञोंसे  
 भी दशगुणाफलप्राप्तहोताहै ६८ फिर वह सब पापों से  
 छुट और सब गुणोंसे अलंकृतहो सब कामनाओं की  
 समृद्धिवाला और जरा मरणसे रहित ६९ होके सुवर्ण  
 के झरोखों और सब कामनाओंवाले सुन्दर और ७०  
 मध्याह्नके सूर्यकेसमान कांतिवाले मोतियों के हारोंसे  
 शोभित दिव्य सैकड़ोंस्त्रियोंसे युक्त और गंधर्वोंसे ना-  
 दित ७१ विमान में बैठ इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार कर  
 देवतोंकीतरह मोदकरताहुआ अप्सराओंसे स्तूयमान  
 हो विष्णुलोकमें प्राप्तहोताहै ७२ जहां सुन्दर भोगोंको  
 भोगगन्धर्व और अप्सराओंसे युक्तहो चतुर्भुजरूपको  
 धारणकर सुखसे प्रलयकालतक रहताहै ७३ और जब  
 पुण्यक्षीणहोजातेहैं तब यहां योगिजनोंकेकुलमें जन्मले  
 वेदवेदांगको जाननेवाला विप्रहोताहै और वैष्णव योगी  
 को प्राप्तहो मोक्षकोप्राप्त होजाताहै ७४ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां नारसिंहमाहात्म्यन्नाम

षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५६ ॥

सत्तावनवां अध्यायः ॥

ब्रह्मा जी बोले कि अनन्त नामवाले वासुदेव को

देख और भक्तिसे नमस्कार करके मनुष्य सम्पूर्ण पापों से रहित होकर विष्णुके लोकको प्राप्त होजातेहैं १ मैंने भी विष्णुका आराधन कियाहै और मेरे पश्चात् इन्द्र नेभी कियाहै तैसेही विभीषण और रामचन्द्रनेभी कियाहै तो फिर और क्यों न करेंगे २ श्वेत गंगामें स्नान करके जो मत्स्याख्य माधवके दर्शन करताहै वह श्वेत द्वीपको प्राप्त होता है ३ मुनियोंने पूछा कि हे जगन्नाथ जी तिस श्वेत नामवाले माधवका पूजन प्रतिष्ठा और सम्पूर्ण साहात्म्य विस्तार से कहिये ४ उस पवित्र क्षेत्र में श्वेताख्य नामसे विख्यात पुरुषोत्तम देव ने कैसे अवतार लिया और पहिले वहां किसने तपकिया ५ ब्रह्माजीबोले कि हे विप्रो सत्ययुग में श्वेतनामसे विख्यात एकबुद्धिमान् धर्मात्मा शूरवीर सत्यबोलनेवाला दृढसंकल्प और बलीराजाथा ६ जिसकेराज्यमें मनुष्यों की दशहजार वर्षकी आयु होतीथी सब भक्तिसे युक्त होतेथे और बालअवस्थामें कोईभी न मरताथा ७ जब ऐसे बर्तते कुछकाल ब्यतीतहुआ तो संयोगवश परम धर्ममें युक्त गौतमनामक ऋषिका पन्द्रहवर्ष का पुत्र काल का ग्रस हुआ ८ तब वह बुद्धिमान् ऋषि उस बालकको लेके राजाके समीप आया ९ राजा उस मृत कुमारको देखकर बोला कि हे विप्र मैं आपकाशिष्यहूँ और प्रतिज्ञा करताहूँ १० कि यदि सात दिनमें यमराज के स्थानसे इसको यहां न प्राप्तकरूँगा तो मैंभी प्रकाशमान चिन्तामें दग्ध होजाऊँगा ११ ऐसे कहके वह ग्यारहसै कमल के पुष्पोंसे महादेव का पूजनकर

राजविद्या को जपने लगा १२ तब राजा की अत्यन्त बढी हुई भक्तिका चिन्तवन करके जगदीश्वर महादेव पार्वतीसहित प्रसन्नहोके उसके समीप आये १३ और राजाने उन भस्मसे लेपित अंगोंवाले विरूपाक्षपरमेश्वर को शुक्लपक्षके चंद्रमाके समान प्रकाशित १४ सिंहचर्म ओढ़े और मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण किये देखके आदरपूर्वक नमस्कार कर कहा १५ कि हे प्रभो जो आप मुझ पर प्रसन्न हो और दया करते हो तो यह ऋषिका पुत्र जो कालके व्रशमें आगया है १६ फिर जीजावे मेरा यही व्रत है हे भगवन् मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे मरा है १७ हे महाेश्वर इसे आप कल्याणपूर्वक यथोक्त आयु वाला करो महादेवजी श्वेत राजाके वचन सुनके आनन्दित हुये १८ और विचार करके उस सम्पूर्ण भूतोंके क्षय करनेवालेने अपनी आज्ञा करनेवाले दुर्धर्षकाल को आज्ञा दी जिसने १९ सम्पूर्ण जगत्के कल्याण करनेवाले मृत्युके मुख में गये हुये मुनिके उस पुत्रको जिला दिया २० इस प्रकार राजाका बांछित कर पार्वती सहित महादेवजी अन्तर्द्धान होगये हे द्विजो ऐसे मुनिके पुत्रको श्वेत राजा ने जिलाया २१ मुनियों ने पूछा कि हे देव हे जगन्नाथ हे त्रैलोक्यप्रभु अब आप श्वेताख्य राजाकी सत्यताको वर्णन करो २२ ब्रह्माजी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठो सम्पूर्ण जीवोंको आनन्द देनेवाली सत्यताका कारण जो आपने पूछा है तो मैं कहता हूं सुनो २३ सम्पूर्ण पापोंके नाशक साधवके माहात्म्यको जो सुनेगा वह मनोबांछित कामनाको निश्चय प्राप्त होगा २४

हे द्विजो पहिले ऋषियोंने तो माधवका माहात्म्य सुना है पर उस दिव्य और भयशोक के दूर करनेवाले माहात्म्य को आप भी सुनो २५ पहिले तो श्वेत राजा कईहजार वर्षोंतक एकाग्रचित्तहो राज्य करतारहा फिर इस लोककी कामनाओंसे विरतहो दक्षिण दिशाके सम-णीक और स्वच्छ तटवाले समुद्रपर गया २६ । २७ और वहां जाके सौधनुष लम्बा चौड़ा एक अतिउत्तम देवमन्दिर बनवाकर उसमें चन्द्रमाके तुल्य कान्तिवाले माधवकी मूर्ति स्थापनकी २८ । २९ और प्रतिष्ठांकर-वाके उत्तम ब्राह्मणोंको बहुत दानदिया ३० और माधव के मन्दिरके समीप उसने एक धर्मशाला भी बनवाई निदान यह सब कृत्यके उपरान्त उसने ओंकार सहित द्वादशाक्षर मन्त्र ( ओंनमोभगवतेवासुदेवाय ) जपना प्रारम्भ किया ३१ और भोजन त्यागकर एक महीना तक मौनको धारणकरके जपतारहा ३२ जपके अन्तमें वह उत्तम देवकी इसप्रकार स्तुति करनेलगा ३३ कि हे देव वासुदेव आपको नमस्कारहै हे संकर्षण आपको नमस्कार है हे प्रद्युम्न आपको नमस्कार है हे अनिरुद्ध आपकोनमस्कारहै हेनारायण आपकोनमस्कारहै ३४ हे बहुतसेरूपोंवाले आपकोनमस्कारहै हे विश्वरूप आपको नमस्कारहै हे ब्रह्मारूप आपको नमस्कारहै हे बाराहरूप आपको नमस्कारहै हे वरकेदेनेवाले तथा हे सुन्दरबुद्धि-वाले आपको नमस्कारहै ३५ हे श्रेष्ठरूप तथा हे बरों के अधिष्ठाता आपको नमस्कारहै हे शरणागतकी पालनावाले तथा हे अच्युत आपको नमस्कारहै हे बाल-

रूप आपको नमस्कार है हे कमलकैसी कान्तिवाले आ-  
 पको नमस्कार है ३६ हे उदित सूर्य तथा चन्द्रमाकेसे  
 नेत्रोंवाले आपको नमस्कार है हे मुंजकेशोंवाले और हे  
 बुद्धीवाले आपको नमस्कार है हे केशव आपको नम-  
 स्कार है और हे नारायण आपको नमस्कार है ३७ हे  
 माधव हे गोविन्द हे विष्णुरूप और हे देवदेवोंको विधान  
 करनेवाले आपको नमस्कार है ३८ हे संधुर्मुदन हे शुद्ध  
 हे अस्त्रोंको धारण करनेवाले हे अनन्तरूप हे सूक्ष्मरूप  
 हे श्रीके चिह्नको धारण करनेवाले आपको नमस्कार है  
 ३९ और हे त्रिविक्रमरूप हे दिव्य पीताम्बरवाले हे  
 सृष्टिके करनेवाले हे रक्षा तथा धारण करनेवाले आपको  
 नमस्कार है ४० हे सगुण तथा निर्गुणरूप हे वामन तथा  
 हे वामनकर्म करनेवाले आपको नमस्कार है ४१ हे वामन  
 नेत्रवाले हे वामन बाहुवाले हे रमणीक हे गुह्य हे टेढ़े मुख  
 वाले आपको नमस्कार है ४२ हे अतर्क्य हे रम्य हे भयके  
 हरनेवाले हे संसाररूपी समुद्रमें नौकारूपी हे शांत सुंदर  
 रूपवाले आपको नमस्कार है ४३ हे शिवरूप हे चन्द्ररूप  
 हे रुद्ररूप हे तारणरूप हे भवभंग करनेवाले हे भवभोग  
 देनेवाले आपको नमस्कार है ४४ हे भवरूप हे भवसृष्टि  
 हृत्तरूप हे दिव्यरूप हे सोमअग्नि सरित्तरूपवाले आ-  
 पको नमस्कार है ४५ हे सोम सूर्याग्निकेशरूप हे गौ  
 ब्राह्मण हितकारी हे धामरूप तथा हे पदक्रम सुन्दर  
 रूपवाले आपको नमस्कार है ४६ हे ऋक्स्तुत तथा हे  
 ऋक्श्रेष्ठरूप और हे ऋक् धारण करनेवाले हे यज्ञरूप  
 आपको नमस्कार है ४७ हे यज्ञमें पूज्य हे श्रेष्ठ तथा हे

पशुओं के पति और हे श्रीपति हे श्रीधर हे श्रेष्ठरूप  
 आपको नमस्कार है ४८ हे श्री तथा कान्तिसे युक्त हे  
 दांत हे योगको चिन्तवन करनेवाले हे योगरूप हे साम-  
 रूप हे सामवेद की ध्वनिमें रत आपको नमस्कार है  
 ४९ हे सामर्गोंमें असास्यरूप हे सामगके जाननेवाले  
 हे सामरूप तथा हे सामके गानेवाले और हे सामको  
 धारण करनेवाले आपको नमस्कार है ५० हे सामयज्ञ  
 को जाननेवाले हे सामके करनेवाले हे अथर्वमें शिवरूप  
 हे अथर्वरूपी आपको नमस्कार है ५१ हे अथर्वरूप  
 तथा हे अथर्व के करनेवाले हे वज्रसरीखे शिरवाले हे  
 मधुकैटभके हनन करनेवाले आपको नमस्कार है ५२ हे  
 महा समुद्र में शयन करनेवाले हे वेदोंके हरनेवाले हे  
 दीप्तस्वरूप हे हृषीकेश आपको नमस्कार है ५३ हे भग-  
 वद्रूप हे वासुदेव हे नारायण हे नर्म अर्थात् क्रीड़ा में  
 हित करनेवाले आपको नमस्कार है ५४ हे मोहके दूर  
 करनेवाले हे जन्म मरणकी निवृत्ति करनेवाले हे सुगति  
 के देनेवाले हे बन्धके हरनेवाले आपको नमस्कार है ५५  
 हे त्रिलोकी के करनेवाले हे तेजस्वरूप हे योगेश्वर हे  
 शुद्धरूप हे अर्थका उद्धार करनेवाले आपको नमस्कार  
 है ५६ हे सुखको देनेवाले हे सुखरूपी नेत्रोंवाले हे सु-  
 कृतमें विचरनेवाले हे वासुदेव हे वन्द्यरूप हे बामदेव  
 आपको नमस्कार है ५७ हे संकर्षण हे प्रलम्बका मथन  
 करनेवाले हे देवताओं को बाँधित हे मेघ घोष से उतरा  
 हुए लांगल की इच्छा करनेवाले आपको नमस्कार है  
 ५८ हे सम्पूर्ण ज्ञानों में ज्ञानरूप हे नारायण हे परा-



यणरूपवाले आपको नमस्कार है आपके बिना मनुष्यों  
 का उद्धार करने में कोई भी समर्थ नहीं है ५९ इसका-  
 रणसे हे प्रणतोनतवत्सल मैंने आपकी स्तुतिकरी है मेरे  
 पापों का संसर्गहोरहा है ६० और उनपापोंका दूरकरने  
 वाला आपकेसिवा मैंने नहीं सुना इसलिये सम्पूर्णका-  
 मनाओंकोत्याग आपकेपास आयाहूँ ६१ हे विश्वज हे  
 केशव आपसे मेरा संग है और दुःपार संसार की आ-  
 पदाओं में जो कष्ट है तिसको मैं जानताहूँ ६२ तापत्रय  
 से युक्तहुआ मैं आपके शरणमें आयाहूँ मायासे मोहा  
 हुआ यह सम्पूर्ण जगत् आपकी नाभिमें स्थित है ६३  
 हे विष्णो लोभादिकों से आकर्षणकराहुआ मैं आपके  
 आश्रयहुआहूँ संसारमें देहधारीको कुछभीसुख नहीं है  
 ६४ हेपुण्डरीकाक्ष जैसे मेराचित्तआपमें है तैसेही आपका  
 भी हो और फलसेहीनको भवार्णवसेपारकरनेवाले आप  
 केसिवा अन्य नहीं है ६५ ब्रह्माजी बोले कि हे द्विजो उस  
 पवित्र और विख्यात पुरुषोत्तम युक्तक्षेत्रमें श्वेतराजाने  
 ऐसे विष्णुकी स्तुतिकी ६६ और देवदेव जगत्के गुरु  
 नीलमेघयुक्त कांतिवाले तथा पद्मकेपत्रसरीखे नेत्रवाले  
 सम्पूर्ण देवतांसे युक्त विष्णुभगवान् ६७ उसकीभक्ति  
 को चिन्तवनकरके राजाकेसमीपआये ६८ फिर श्रीमान्  
 कृष्णनेकिरणोंसे दीप्तमण्डलवाले सुदर्शनचक्रको धार-  
 णकिये क्षीरसमुद्रके जलकीनाई तेज और विमलचन्द्र-  
 माकीकांतिको धारणकिया ६९ और महाकान्तिवाले बाम  
 हाथमें पांचजन्यशंख श्रीमान् और गदा शंख असिचक्र  
 को धारणकिये और गरुड़पैचढे शोभाको प्राप्तहुये ७०

फिर भगवान् बोले हे राजन् हे अनघ तेरीबुद्धि बड़ी उत्तम है क्योंकि तूने बांछितवरको मांगा इसलिये तूभपर हम प्रसन्नहुये ७१ उस देवदेव के परम अमृतरूपी वचनसुनके शिरकोनवायके भक्तिपूर्वक बोला कि ७२ हे भगवन् जो मैं आपका भक्त हूँ तो ब्रह्माके भवनसेलेके विष्णुपद पर्यंत जो अव्यय स्थान है सोही उत्तम वर मुझको दो ७३ हे जगत्पते आपके प्रसादसे संसार में विमल और विरज तथा स्वच्छ ध्वजारूपीपदको आपकी प्रसन्नतासे प्राप्तहोने की मैं इच्छा करता हूँ ७४ भगवान् बोले कि जिसमार्गको देवते मुनि सिद्ध और योगी नहीं प्राप्तहोते सो अव्ययपद कहाता है ७५ हे राजन् तू मृत्युको दूरकरके परमपदको प्राप्तहोगा और सम्पूर्ण लोकों का अवलंघन करके फिर मेरे लोकको प्राप्तहोवेगा ७६ हे राजेन्द्र तेरीकीर्ति तीनोंलोकोंमें प्रकाशितहोगी और श्वेतगंगाका सम्पूर्ण नर तथा देवता गानकरेंगे ७७ हे राजेन्द्र श्वेतगंगाजी के जलको जो मनुष्य कुशा के अग्रभाग से स्पर्शकरेंगा सो सावधान होके स्वर्गलोक में वासकरेगा ७८ जो कोई माधव की चन्द्रमाकेसी कान्ति तथा शंख और गौ के दूध केसे तेजवाली सम्पूर्ण पापोंके नाश करनेवाली प्रतिमा को देखेगा ७९ और मेरा भक्तहोके एकबार पवित्र अक्षियोंवाली देवदेवकी मूर्तिको नमस्कार करेगा ८० वह इन सब लोकों को त्यागके मेरे लोकोंको प्राप्तहोवेगा और मन्वन्तर पर्यन्त देवकन्याओंसे युक्त रहेगा ८१ सिद्ध चारण गन्धर्व उसके अगाड़ी गानकरेंगे और मेरेसंग

अनेकप्रकार भोगोंको भोगके फिर इसलोकमेंवब्राह्मण कुलमें जन्मेगा और वेदवेदांगको जाननेवाला बुद्धिमान तथा भोगोंका भोगनेवाला और बहुत आयुवाला होवेगा ८२ हस्ती अश्व रथ माला धन धान्यसे युक्त रहेगा और शुद्ध तथा रूपवान् बहुतसेबेटे पोतोंसे युक्त रहके ८३ अन्तमें बटवृक्षकी मूलके आश्रयहोके अथवा समुद्रके तटपर इस देहकोत्याग शान्तियुक्त पदको प्राप्त होवेगा ८४ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयंभुञ्जपिसम्वादेश्वेत

माधवमाहात्म्यं नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५७ ॥

### अट्टावनवा अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि एकार्णवसमुद्रमें जो रूप पहिले स्थितथा तिस श्वेत माधव १ और वेदोंके हरनेके लिये रसांतलपर स्थित तथा सम्यक् पृथ्वीका चिन्तवन करके तिसी स्थानपर स्थित २ और आद्यअवतार मच्छ सहश माधवके रूपको देख और नम्रहो जो नमस्कार करताहै सो सम्पूर्ण दुःखोंसे छूटजाताहै ३ एवम् जहां हरिदेवहैं वहां वास करताहै और कालपाके पृथ्वीपर जन्मताहै और राजा होताहै ४ जो नर मत्स्य माधव को प्राप्त होताहै वह बड़े तेजवाला और दाता भोक्ता यज्वा तथा विष्णुभक्त और सत्य बोलनेवाला होजाता है ५ और योग को प्राप्त होके अन्तमें मोक्षको प्राप्त होजाताहै यह मत्स्यमाधव माहात्म्यहै ६ हे मुनि शार्दूलो जिस रूपको देखकर नर सम्पूर्ण कामनाओं से छुटजाते हैं ७ मुनियोंने पूँछा कि हे भगवन् इससंसार

में स्नान दानादिकों से कैसे तिरजाता है इसका फल आप कहो हमारी सुननेकी इच्छा है ८ ब्रह्माजीने कहा कि हे मुनिशार्दूलो उत्पन्न होनेवालों को मुक्ति के देने वाले पुराणहैं सो तन्मयहोकै सुनो ९ सम्पूर्ण पापों को नाश करनेवाला मार्कण्डेयहृदमें स्नान है जो सम्पूर्ण कालमें मोक्ष दाताहै और चतुर्दशीको विशेष करके १० समुद्रमें स्नान करना सम्पूर्ण कालमें कहाहै और विशेष करके पूर्णिमाको जो स्नान करते हैं सो अश्वमेध के फलको प्राप्तहोते हैं ११ मार्कण्डेयवट १ रोहिणीपुत्र २ कृष्ण ३ महोदधि ४ तथा इन्द्रद्युम्नका सरोवर यह पंच तीर्थी कही है १२ ज्येष्ठमास की पूर्णिमाको जो ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो तीर्थराज में स्नानका विशेष फल वर्णन किया है १३ कायाबाक् और मनसे शुद्ध अनन्य मन वाले और सम्पूर्ण पाखण्डसे रहित तथा राग और मत्सरतासे विगत मनुष्य कल्पवृक्षवट और जनार्दनको देख और समाहित मनसे तीन बार परिक्रमा करके १४। १५ जो विष्णुका दर्शन करते हैं वे सप्तजन्मोंके पापोंसे छूट जाते हैं और बड़े पुण्य और सुन्दर गतिको प्राप्तहोते हैं १६ हे विप्रो उस विष्णुके नाम और युगयुगके प्रमाण तथा संख्या और हृदादिक यथाक्रमसे मैं वर्णन करूंगा १७ सो सुनो बटवटेश्वर कृष्ण और पुराणपुरुष ये सत्ययुगमें बटके नाम वर्णन किये हैं १८ और तीनयोजन लम्बा चौड़ा और अर्धयोजन ऊंचा कल्प वृक्षका प्रमाण वर्णन कियाहै १९ पूर्वोक्त प्रकारसे उस वट को नमस्कार करके तीनसौ धनुष दक्षिण दिशा

को २० जहां मनको रमण करनेवाला स्वर्गके द्वारका चिह्न दीखता है और जो सागरयुक्त सम्पूर्णगुणोंवाली दिशा है गमनकरै २१ और वहां स्थित होके विष्णुको नमस्कार कर तथा बारम्बार पूजन करके सम्पूर्ण रोगादिकों और पापग्रहों से छूटजाता है २२ पहिले उग्रसेन को देख और स्वर्गद्वारसे समुद्रपर जाय आचमन कर शुद्ध होके उत्तम नारायण का ध्यान करके २३ अष्टाक्षर मन्त्रसे जो हाथों और शरीरमें न्यास करते हैं २४ तिनको और बहुतसे मनको भ्रमानेवाले मन्त्रोंसे क्या है उन्हें तो (ॐ नमो नारायणायेति) यही मन्त्र सम्पूर्ण अर्थोंको साधन करनेवाला है २५ पहिले विष्णुका जलमें स्थान था तिससे नारायण कहाते हैं २६ वेद द्विज ज्ञान क्रिया धर्म तप दान व्रत लोक सुर नित्यता परमपद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार तथा बुद्धि और भूत भव्य भविष्यत् आदि जो कुछ जीव संज्ञक और स्थूल सूक्ष्म है सो सब नारायणपर हैं २७ । ३१ हे द्विजो यहां नारायणसे भिन्न कुछ भी नहीं है उसीसे यह सब चराचर व्याप्त होरहा है ३२ अप जो जल है यह विष्णुका स्थान है और विष्णुजलों के पति हैं इससे भयके दूर करनेवाले विष्णुका नित्य स्मरण करना चाहिये ३३ स्नानकालमें जलको ग्रहण कर खड़ा हो नारायणका स्मरण कर हाथों और कायामें न्यास करै ३४ अर्थात् बायें पैरमें ॐकार दहिनेमें नकार बाईं कटिमें मीकार दहिनी कटिमें नाकार नाभि देशमें राकार बायें बाहुमें यकार ३५ । ३६ दहिनी तर्फ एाकार मस्तकमें यकार ऐसे न्यास करके और नीचे

ऊपर धीरेधीरे तथा पृष्ठपर और अगाड़ी ३७ नारायण देवका ध्यानकरके बुद्धिमान् कवचका आरम्भ करै कि पूर्वकीतर्फ गोविन्द दक्षिणकीतर्फ मधुसूदन ३८ पश्चिम की तर्फ श्रीधर तथा उत्तरकीतर्फ केशव रक्षाकरो और आग्नेयमें विष्णु तथा नैऋत्यमें माधव ३९ वायव्यमें हृषीकेश तथा ऐशान्यमें माधव सुतलमें बाराह और ऊपरको त्रिविक्रम रक्षाकरो ४० ऐसे कवचको धारणकरके फिर आत्माका चिन्तवनकरै अर्थात् शंख चक्र गदा पद्मको धारण करनेवाले नारायण देव का ध्यानकरके हृदयमें इसमन्त्रका उद्घाटन करै ४१ और यह कहे कि हे नाथ आप शत्रुओंको अग्निरूप हैं और कामके प्रकाशकरनेवाले तथा प्रधानरूप और सम्पूर्णजीवोंके प्रभुरूप अविनाशी हैं ४२ हे देव अपांपते हे तीर्थराज इसीकारण आप अरनिरूपहैं और योनिहैं मेरे दुःखको हरो आपको नमस्कारहै ४३ ऐसे हे मुनिश्रेष्ठो विधान पूर्वक उच्चारणकरके फिर स्नानकरै और अन्यथा स्नान करना श्रेष्ठ नहीं है ४४ वेदों के मन्त्रों से अभिषेक तथा मार्जन करके पश्चात् जलमें अघमर्षण मन्त्रको जपै ४५ हे विप्रो जैसे अश्वमेध यज्ञ नरोंके पापों को हरलेताहै तैसेही अघमर्षणमन्त्र सर्व पापोंको नाशता है ४६ फिर जल से बाहर निकसकर निर्मल उत्तरीय वस्त्रों को धारणकर प्राणों और वाणी का निरोध कर सन्ध्याका उपासनकरके ४७ पुष्पोंकी जलांजली ग्रहण कर ऊर्ध्वबाहु स्थित हो सूर्य का पूजन करै ४८ और पवित्र करनेवाली गायत्री देवी को अष्टोत्तरशत जपै

एवं च अन्य पवित्र मन्त्रोंको जपके समाहितहोके स्थित  
 हो ४९ फिर सूर्यकी प्रदक्षिणा और नमस्कारकर पूर्व  
 की तरफ मुखकरके प्रथमदेवता और ऋषियोंका तर्पण  
 करै ५० फिर मनुष्य और पितरों का तर्पणभी तिल  
 मिलेहुये जलकेसाथ विधिसेकरै क्योंकि समाहितहुआ  
 मनुष्य देवतोंका तर्पणकरके ५१ पितरोंके तर्पणकरने  
 का अधिकारी होताहै श्राद्धकालमें एक हाथसे विस-  
 र्जनकरै ५२ और दोनोंहाथोंसे तर्पणकरै और अन्वा-  
 रब्ध अर्थात् गोड़ेको नवाके बायेंहाथसे दक्षिणहाथमें  
 जलको डालताहुआ ५३ (तृप्यन्तां) ऐसा वचननाम  
 और गोत्रसहित कहै जो पुरुष तिलोंको हाथपर रख  
 अज्ञानसे पितरोंका तर्पणकरताहै ५४ वह जल रुधिर  
 केसमान होजाताहै और तिसका देनेवाला पुरुष पापों  
 का अधिकारी होताहै ५५ पृथ्वी में जो जल देताहै  
 और आप जलमें स्थित रहता है तिसका दियाहुआ  
 वृथाजाताहै किसीको नहीं मिलताहै ५६ जो जल से  
 बाहर स्थितहोके जलमें तर्पणकरताहै वह जल पितरों  
 को नहीं मिलताहै ५७ और जलमें जलडालके पितरों  
 के लिये तर्पण कभी नकरना चाहिये ५८ किंतु पवित्र  
 जगह स्थित हो जलसे तर्पणकरै जलमें अथवा पात्रों  
 में क्रोधकरके अथवा एक हाथसे तर्पण न करै ५९ जो  
 जल पृथ्वीमें नहीं दियाजाता वह पितरोंको नहीं मिल-  
 ता हेद्विजो मैंने पितरोंको पृथ्वीका अक्षय स्थानदिया  
 है ६० इसलिये पृथ्वीही में पितरों के तर्पण का जल  
 डालना चाहिये ६१ पितर पृथ्वीमें तो उत्पन्नहोतेहैं पृथ्वी

मेंही स्थित होते हैं और पृथ्वी मेंही लीन होजाते हैं इसलिये पृथ्वीही में जलदेना चाहिये ६२ और पृथ्वी में कुशाओंको बिछाकर मन्त्रोंसहित पितरोंका आवाहनकर पश्चिमके अग्रभागमें देवताओंका तर्पण और पूर्वके अग्रभागमें पितरोंका तर्पणकरै ६३ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भूच्छाप्रिसम्वादेसमुद्रस्नान विधिर्नामअष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५८ ॥

### उनसठवां अध्याय ॥

देवता और पितरोंका तर्पण मौन धारणकरके करै और हाथभरका चारकोन मण्डल पृथ्वीमें लीपके १ उस मण्डल में अष्टपत्र कमलको लिखे २ और फिर अष्टाक्षरविधानसे नारायण अजविभुकोलिखे ३ इसके उपरान्त उत्तम कायाशोधन कहतेहैं रेफसमन्वित अकारको हृदामें चिन्तवनकरके ४ पापोंको नाश करनेवाले प्रकाशमान मध्यस्थ आकारको मस्तकमें चिन्तवनकरै ५ सफेदवर्णवाले अमृतवर्षतेहुये और अमृतसे पृथ्वी को आच्छादन करतेहुये ईश्वरके ध्यानकरनेसे मनुष्य पापोंसे रहितहोके दिव्यदेहवाला होजाताहै ६ देहात्मावाला बुद्धिमान् पुरुष इस अष्टाक्षरमंत्र का न्यास बायें पैरसे आरम्भ करके क्रमसे सब शरीर में करै ७ और वैष्णव पंचांग और चतुर्व्यूह मूलमन्त्रसे साधक पुरुष हाथों की शुद्धि करै ८ अर्थात् एक एक वर्णको अँगुलियों में पृथक् २ वर्णोंका न्यासकरै पृथ्वी शुकु आंकार को बायें पैर में ध्यावै ९ भुवलोक तथा श्यामवर्णवाले नकार को दक्षिण पैरमें स्थित करै और



जहां लोक प्रतिष्ठित हैं तहां शिर स्थान में यकार को  
स्थापितकरै १० अथमन्त्रः उँविष्णवेनमः शिवः ज्व-  
लनायनमः शिवः उँविष्णवे नमोनमः कवचं विष्णवे  
षुच ११ दिशोबन्धाय उँर्हीफट् अस्त्रं उँशिरसि शुद्धोवासु  
देवइति उँअस्त्रात्वललाटेरक्कासंकर्षणोगरुत्मान् वह्नि  
स्तेजसआदित्यइति १२ उँग्रीवायांप्रीताप्रद्युम्नोवारिमै  
धाया उँआंहरायकृष्णो निरुद्धः सर्वशक्तिसमन्वित इति  
१३ ऐसे आत्माको चतुर्व्यूहकरके कि मेरे अगाड़ी विष्णु  
पीठपरकेशव १४ और दाहिने और बायेंतरफ मधुसूदन  
स्थित हैं ऊपरवैकुण्ठ तथा पृथिवीतलपर बाराहस्थित  
हैं १५ और अन्तरदिशाओंमें माधवस्थित हैं चलते  
हुये तथा स्थितहुये और अगाड़ी तथा सौतेमें नृसिंह  
स्थित हैं १६ और गुप्तस्थानोंमें जलमयविष्णु स्थित  
हैं और विष्णुमयहोके कर्मका आरम्भकरै १७ जैसे देह  
में तैसेही देवमें योजनाकरै और प्रणवपूर्वकं प्रोक्षण करै  
१८ और सर्वविघ्नहरनेवाला शुभफट् अक्षर पर्यंत उ-  
द्देशकरके सूर्य्य और सोमके मण्डलका चिन्तवनकरै १९  
पद्मके मध्यमें विष्णुको स्थितकरके समीपमें भानुको और  
हृदामें ज्योतिस्वरूप उँकारको स्थितकरै २० कर्णिकार  
अर्थात् कमलकी डण्डीपर स्थित सनातनज्योति और  
अष्टाक्षरमन्त्रको वृक्षकी नाई स्थितकरै २१ इससमस्त  
सामग्री और द्वादशाक्षरमन्त्रसे सनातनदेवका पूजन  
करै २२ फिर हृदामें निश्चयकरके चतुर्भुजा और महासत्व-  
रूप कोटिसूर्य्यके सीकांतिवाले भगवान् का कर्णिकाके  
बाहरन्यासकरै २३ और महायोगवाले सनातनज्योति

रूपका चिन्तवनकरके फिर क्रमसे मन्त्रका चिन्तवन करके आवाहनकरै २४ हे भीम तथा वराहनृसिंह तथा वामन और देवी तथा नारायण वरकेदेनेवाले ये मेरे अगाड़ीरहो २५ (ॐ नमो नारायणाय) यह आवहनमंत्र है हे मधुसूदन कर्णिकामें अर्थात् कमलकीडण्डी विषे सुमेरुके पैररूपी सम्पूर्ण जीवोंके हितके लिये आपका आसनकल्पितकियाहै २६ ( ॐ नमो नारायणाय ) यह स्थापनमन्त्रहै ( ॐ त्रैलोक्यपतीनांपतये देवदेवाय हृषीकेशाय विष्णवे नमः ॐ नमो नारायणाय ) २७ यह अर्घ्य मन्त्रहै ( पादयोर्देवदेवेशपद्मनाभं सनातन । विष्णो कं मलपत्राक्ष गृहाण पुरुषोत्तम ॐ नमो नारायणाय ) २८ यह पाद्यमन्त्रहै ( मधुपर्कमहादेवं ब्रह्माद्यैः कल्पितं मया ॐ नमो नारायणाय ) २९ यह आचमनीयमन्त्रहै ( त्वमापः पृथिवी चैव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च । लोकसंवृत्तिमात्रेण चारिणां म्लान्यपाम्यहं ॐ नमो नारायणाय ) ३० यह स्नानमन्त्र है ( देवत्वं वासमायुक्तो यज्ञवर्णसमन्वितः । स्वर्णवर्णाप्रभो देव वाससीतव केशवं ॐ नमो नारायणाय ) ३१ यह वस्त्रमन्त्र है ( शरीरं तेन जानामि चेष्टां चैव च केशव । माया निवेदितं नाथ प्रतिगृह्य विलिप्यतां ॐ नमो नारायणाय ) ३२ यह विलेपनमन्त्र है ( ऋग्यजुः साममंत्रेण त्रिवृत्तपद्मयोनिना । सावित्रीग्रथितं युक्त उपवीतं त्वं गृहाण च ॐ नमो नारायणाय ) ३३ यह उपवीत मन्त्रहै ( दिव्यरत्नसमायुक्तं वह्निमानुसमन्वितं । गात्राणित्वशोभंतु सालंकाराणि माधव ॐ नमो नारायणाय ) ३४ यह अलङ्कारमन्त्रहै ( ॐ नमः ॐ नमः ॐ नमः

(उंनमोनारायणाय) ३५ पृथक् मूलमन्त्रसे पूजनकरै  
 ( उंनमःपुरुषोत्तमाय ) वनस्पतिकारस है दिव्य है  
 ३६ गन्धसेयुक्त है देवतासे पूजित है और भक्तिसे मेरा  
 निवेदित किया हुआ यह धूपग्रहण करो ३७ (उंनमोना-  
 रायणाय) यह धूपमन्त्र है आपसर्ग्य है तथा ज्योतिरूप  
 है और विजली तथा अग्नी और ज्योतियोंके देव है  
 यह दीपग्रहण करो (उंनमोनारायणाय) ३८ यह दीपमन्त्र  
 है हे केशव षट्तरसों से समन्वित चार प्रकार का अन्न  
 भक्तिसे मेरा निवेदित किया हुआ नैवेद्यग्रहण करो ( उं  
 नमोनारायणाय ) ३९ यह नैवेद्य मन्त्र है पूर्वदल में  
 वासुदेवको दक्षिणमें सङ्कर्षणको पश्चिममें प्रद्युम्नको  
 उत्तरमें अनिरुद्धको और वराहको अगाड़ी ४० तथा  
 नृसिंहको नैऋतमें माधवको वायव्यमें और त्रिविक्रम  
 को ऐशान्यमें स्थित करके ४१ वेदके अष्टाक्षर मंत्रको  
 स्थित करै फिर उस देवके अगाड़ी गरुडको दहिने तर्फ  
 गदा और शार्ङ्गधनुषको स्थित करै ४२ दहिने ओर हृषी-  
 केशको और बायें और शंखको स्थित करै दहिने तर्फ श्री  
 को ४३ भीतर पुष्टिको व अगाड़ी वनमाला श्रीवत्स व कौ-  
 स्तुभको स्थित करै ४४ फिर पूर्वसे हृदयादिकोंमें चारों ओर  
 न्यास करै ४५ इन्द्र अग्नि और यमको नैऋत में और  
 वरुण और कुबेरको ईशानमें अनन्त ब्रह्मासहित अध  
 ऊर्ध्वभागमें मंत्रोंसे पूजन करै ४६ ऐसे मण्डलमें स्थित  
 देवदेव जनार्दनका पूजन करनेसे मनुष्य बांछित काम-  
 नाओंको प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं ४७ इस विधान  
 से मण्डलमें स्थित जनार्दनको जो देखता है और पूजता

है सो मोक्षको प्राप्तहोताहै ४८ और जिसने एकबारभी विधिपूर्वक विष्णुका पूजन किया है वह जन्म मृत्यु जराको तिरके विष्णुके पदको प्राप्तहोता है ४९ आलस्य त्याग के जो निरन्तर भक्तिसे नारायण का स्मरण करता है तिसके बासकेवास्ते श्वेतद्वीप कल्पितकियाजाता है ५० उंकार तथा नमस्कारसे युक्त और सब जीवों के नाम मंत्रसे इसीविधानसे गन्ध पुष्पको निवेदनकरै ५१ और यथोद्दिष्ट क्रमसे एक एकका पूजन करके विधानपूर्वकमुद्राकरै और मूलमंत्र ५२ अट्टाईस तथा एकसौ आठजपै और कामनाओं के फल प्राप्तिके लिये सावधान होके यथाशक्ति जपै पद्म शंख श्रीवत्स गदा गरुड चक्र शंख और शार्ङ्ग ये अष्टमुद्रा कहे हैं ५३ पूजनके अन्तमें यह कहके विसर्जन करै कि हे पुरुषोत्तम आप परम स्थानको जाइये जहां ब्रह्मादिकदेवहैं ५४ जो यथोदित मंत्रों से हरिके पूजनको नहींकरते उन्हें मूलमंत्रसे अच्युतका पूजन करना चाहिये ५५ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूच्छ्रिसम्बादे पूजाविधि

वर्णनो नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः ५९ ॥

साठवां अध्याय ॥

ब्रह्माजीने कहा ऐसे भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम को पूज और नमस्कारकर सागरको प्रसन्नकरै १ कि हे सरितापते हे तीर्थराज हे अच्युतप्रिय आप सम्पूर्ण भूतों के प्राणरूप हैं मेरीरक्षाकरो २ ऐसे कह सागरमें स्नान कर तटपर विष्णुका विधिवत् पूजनकरै ३ नारायण तथा रामकृष्ण सुभद्रा और सागरको जो नमस्कार करता

है वह सौ अश्वमेधोंके फलको प्राप्त होता है ४ और सम्पूर्ण पापोंसे तथा सब दुःखोंसे छूट देवतोंकी नाई श्री वाला तथा रूपयौवनसे गर्वित होजाता है ५ और दिव्य गन्धर्वोंसे शब्दित हो सूर्यकेसे तेजमान विमानपर चढ़ इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार कर विष्णुलोकको प्राप्त होता है ६ और तहां सौमन्वन्तर तक अच्छे भोगों को भोग अप्सराओंसे क्रीड़ा करता है और जरा मृत्युसे वर्जित रहता है ७ एवम् जब पुण्यक्षय होजाता है तब यहां सम्पूर्ण गुणयुक्त कुलमें जन्म ले शुभ श्रीमान् सत्यवादी और जितेंद्रिय वेद शास्त्रार्थ के जाननेवाला और यज्ञों को करनेवाला विष्णुभक्त ब्राह्मण होता है और वैष्णवयोग को प्राप्त हो मोक्षको प्राप्त होता है ९ ग्रहण संक्रांति अयन अमावास्या युगादिकों व्यतीपात दिनक्षय १० आषाढ़ और कार्तिक तथा माघ और शुभतिथीमें जो ब्राह्मणोंके लिये दान देते हैं ११ वे हजार अश्वमेधोंके फलको प्राप्त होते हैं और विधानसे पितरोंको जो पिण्ड देते हैं १२ उनके पितर अक्षयगति को प्राप्त हो निश्चय तृप्ति को प्राप्त होते हैं हे विप्रो यह सागरके स्नानका फल मैंने तुमसे कहा १३ और पिण्डदानका जो अनंतफल है सो भी कहा सागरका स्नान धर्म अर्थ मोक्ष आयु कीर्ति यश १४ भुक्ति और मुक्ति आदि सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाला धन्य दुःस्वप्नों को नष्ट करनेवाला और सम्पूर्ण पापोंको हरनेवाला है १५ हे द्विजो नास्तिकोंसे यह कथा कहना योग्य नहीं है अपने २ पर्वमें सब तीर्थ शब्दयुक्त होजाते हैं १६ जब तक मनुष्य तीर्थराजके

माहात्म्यको नहीं सुनते तबतक उसके फलको भी नहीं प्राप्तहोते १७ पृथिवीपर जितनेतीर्थ और सरित तथा सरोवरहैं तिनसबकाफल सागरमें रहताहै तिसकारण वह श्रेष्ठहै १८ सागर सब नदियोंका राजा और पति है इसकारण सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला श्रेष्ठ और सम्पूर्ण तीर्थों से अधिकहै १९ जैसे सूर्य के उदय में अंधेरा नाशहोताहै तैसेही इसतीर्थराजके स्नानकरने से सबपापोंका नाशहोजाताहै २० और इसतीर्थराजके समानतीर्थ नहुआहै और न होगा क्योंकि वहां आप विष्णुभगवान् स्थितहैं २१ इस तीर्थराजके गुणों को कहनेमें कौन समर्थहै २२ वहां ९९ कोटि तीर्थहैं इस वास्ते स्नान दान जप होम देवपूजन आदि जो कुछ वहां कियाजाताहै वह अक्षय होजाताहै २३ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भूऋषिसम्बादेसमुद्रस्नान  
माहात्म्यवर्णनन्नामषष्ठितमोऽध्यायः ६० ॥

### इकसठवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि हे द्विजश्रेष्ठो पश्चात् यज्ञांग सम्भव तीर्थमें जाके इन्द्रद्युम्न नामक पवित्र और शुभ सरोवरमें १ आचमनकर मन से हरिका स्मरण और ध्यानकर और जलका स्पर्शकरके इसमन्त्रका उच्चारण करै २ कि (अश्वमेधाङ्गसम्भूत तीर्थसर्वाघनाशन ॥ स्नानंत्वयिकरोम्यद्य पापंहरनमोस्तुते) ३ ऐसे इसमन्त्र का उच्चारणकरके विधिवत् स्नानकर देवता पितृ और ऋषि और अन्योंका तिलजलसे तर्पणकरै ४ पितरोंके लिये पिण्डदानदे पुरुषोत्तम भगवान्का पूजनकरमनुष्य

दश अश्वमेध यज्ञसेभी अधिकफलको प्राप्तहोताहै ५ और सातअगिली तथा सातपिछिली पीढीके वंशोंका उच्चारकरके देवलोंकीतरह कामग विमानमेंबैठके विष्णु लोकमें प्राप्तहोताहै ६ और वहां जबतक चन्द्रमा और तारागणहैं तबतक अनेकप्रकारके सुखभोग मृत्युलोकमें मोक्षको प्राप्तहोजाताहै ७ ऐसे पांच तीर्थोंके दर्शन और एकादशीकेदिन व्रतकर जो ज्येष्ठसुदी पूर्णमासीके दिन पुरुषोत्तम भगवान् को देखताहै ८ वह पूर्वोक्त फलको प्राप्तहो भगवान्के स्थानमें क्रीडाकरताहै जहांसे फिर निवृत्ति नहींहोती ९ मुनियोंने पूँछा कि हे प्रभो अन्य सब महीनोंको त्यागके ज्येष्ठके महीनेकीही प्रशंसाआप क्योंकरतेहो इसका कारणकहो १० ब्रह्माजीबोले कि हे मुनिशार्दूलोसुनो मैंविस्तारसे बारम्बार ज्येष्ठकेमहीनेकी प्रशंसा करताहूँ ११ और पृथ्वीपर जितनेतीर्थ नदी सरोवर तालाब बावड़ी कुंवे ह्रदहैं १२ वे सब ज्येष्ठके महीनेमें पुरुषोत्तम तीर्थ में शयनकरतेहैं और सर्वदा ज्येष्ठशुक्ला दशमीकेदिन प्रत्यक्षहोतेहैं १३ हे द्विजो इस लिये सब स्नान दानादिक और देवतां का दर्शन जो कुछ तिसकालमें वहां कियाजाताहै वह अक्षयहोजाता है १४ ज्येष्ठसुदी दशमी दशपापोंका नाशकरतीहै इस लिये इसकानाम दशहराहै १५ जो पुरुष दशमीकेदिन कृष्ण बलदेव और सुभद्राका दर्शन करताहै वह सब पापोंसे निर्मुक्तहो विष्णुलोक में प्राप्तहोताहै १६ उत्तरायण तथा दक्षिणायन में पुरुषोत्तम तीर्थ में बलदेव और सुभद्राके दर्शनकर मनुष्य विष्णुलोकमें प्राप्तहो-

जाताहै १७ जो मनुष्य फाल्गुनी नक्षत्रके दिन सवारी पर पुरुषोत्तम गोविन्दको देख पुरमें जाय १८ विधान से पांचतीर्थोंमें बलदेव और सुभद्राके दर्शन करताहै १९ वह सब यज्ञोंके फलको प्राप्तहोजाताहै और सब पापोंसेविमुक्तहो विष्णुलोकको प्राप्तहोताहै २० बैशाख सुदी तृतीयाकेदिन जो चन्दनसे विभूषित श्रीकृष्णके दर्शनकरताहै वह भगवान्के स्थानको प्राप्तहोताहै २१ और जो ज्येष्ठानक्षत्र सहित ज्येष्ठकी पूर्णमासीके दिन पुरुषोत्तम भगवान् के दर्शन करताहै वह इक्कीसकुलों का उद्धार करके विष्णुलोक में प्राप्तहोताहै २२ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भूच्छापिसम्बादेपञ्चतीर्थ-

माहात्म्यं नाम एकषष्टितमोऽध्यायः ६१ ॥

बासठवां अध्याय ॥

ब्रह्माजीबोले किंजव राशि और नक्षत्रसे युक्त महा-ज्येष्ठी अर्थात् ज्येष्ठसुदी १५ हो तब बुद्धिमान् पुरुषोंको पुरुषोत्तमतीर्थमें जानाचाहिये १ क्योंकि उसदिन श्री-कृष्ण बलदेव और सुभद्राके दर्शनसे बारहगुना फल प्राप्त होताहै २ प्रयाग कुरुक्षेत्र पुष्कर नैमिष गया गंगाद्वार कुब्जाञ्च गंगासागर संगम कोकामुख शूकर मथुरा मरुस्थल शालग्राम वायुतीर्थ मन्दार सिन्धुसागर पिण्डारिक चित्रकूट प्रभास कनखल कालञ्जर गोकर्ण श्रीशैल गन्धमादन महेंद्र मलयचल विंध्य पारिपात्र हिमालय सह्याचल मुक्तिमंत गोमन्त अर्बुद गंगा और यमुना जी के सब तीर्थ सरस्वती गोमती सप्त-ब्रह्मपुत्र तीर्थ गोदावरी भीमरथी तुंगभद्रा नर्मदा ताप्ती



पयोष्णी कावेरी क्षिप्रा चर्मणवती वितस्ता चन्द्रभागा  
 शतद्रु बाहुदा ऋषिकुल्या कुमारी दृषद्वती सरयू ग-  
 ण्डकी कौशिकी करतोया अतिश्रोता मधुवर्तिनी महा-  
 नदी वैतरणी और बिनाकही अन्य सब नदियों पृथ्वी  
 के सब तीर्थों विष्णुके मन्दिरों समुद्रों पर्वतों सरोवरों  
 आदिमें और सूर्यग्रहणमें स्नानदानका जो कुछ फल  
 होता है वही महाज्येष्ठी अर्थात् ज्येष्ठा नक्षत्रसहित ज्येष्ठ  
 की पूर्णिमाको श्रीकृष्णके दर्शन करनेसे होता है ३।१३  
 इसलिये सब यत्नोंसे इच्छित फलकी बाञ्छावाले म-  
 नुष्योंको महाज्येष्ठीके दिन पुरुषोत्तमतीर्थमें जाना चा-  
 हिये १४ वहां बलदेव श्रीकृष्ण और सुभद्राके दर्शन  
 कर मनुष्य सौकुलों का उद्धार कर विष्णुलोकमें प्राप्त  
 होता है १५ और वहां प्रलयतक श्रेष्ठभोगोंको भोगके  
 पुण्य क्षय होने के बाद इस लोकमें आके चतुर्वेदपाठी  
 ब्राह्मण होता है १६ और अपने धर्ममें निरत शांतकृष्ण  
 भक्त और जितेन्द्रिय होके वैष्णवयोगको प्राप्त हो मोक्ष  
 को प्राप्त होजाता है १७ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूच्छ्रविसम्बादे महा-  
 ज्येष्ठीप्रशंसानामद्वाषष्टितमोऽध्यायः ६२ ॥

### तिरसठवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूँछा हे भगवन् वहां किसकालमें श्रीकृष्ण  
 का स्नानहोता है और कौन करवाता है १ ब्रह्माजी बोले  
 हे मुनियो तुम श्रीकृष्ण बलदेव और सुभद्राके स्नान  
 का पुण्य जो सब पापोंको नाश करनेवाला है सुनो २  
 ज्येष्ठके महीनेमें ज्येष्ठानक्षत्र सहित पूर्णमासी के दिन

सदा हरिका स्नान करायाजाताहै ३ उसदिन भगवान् को स्नान करवा सुन्दर वस्त्र पहिनाके ध्वजाओं और पुष्पोंसे अलंकृतकरै ४ और विधिसे धूपदे इसप्रकार बलदेव और श्रीकृष्णका स्नान करावै और सफेद वस्त्र तथा मोतियोंका हार पहिनाके ५ अनेकप्रकारके बाजों और मंत्रोंसे श्रीकृष्ण बलदेव और सुभद्राका स्थापन करै ६ ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र इनसबोंसे वह पुरुषोत्तम क्षेत्र उस दिन युक्त होजाता है ७ और गृहस्थी यति-जन ब्रह्मचारी आदि सब श्रीकृष्ण और पलंगपर स्थित बलदेवको स्नान कराते हैं ८ एवम् पूर्वोक्त सब तीर्थभी पुष्प मिश्रित अपने २ जलोंसे भगवान् को पृथक् २ स्नान कराते हैं ९ निदान ढोल और भेरी तथा मृदंग और भर्भर एवम् अनेकप्रकारके अन्यबाजों तथाघंटों और स्त्रियोंके मंगल शब्दों और मनोहर स्तुतियों व अनेक प्रकारके पवित्र सामवेदके स्तोत्रोंसे यतियों सूत संज्ञक गायकों और गृहस्थों तथा ब्रह्मचारियों द्वारा भगवान्के स्नानकालके समय स्तुति कीजाती है कुचों के भारसे नई हुई सोलहवर्ष की स्त्रियांभी उस देवकी स्तुति और १०।१३ माला रत्न दिव्य कुण्डल और सुवर्णके गुच्छोंसे पूजा करती हैं १४ और सुवर्णकी दण्डी वाले चँवरोंको बलदेव और श्रीकृष्णपर सबजन डुलाते हैं १५ यक्ष विद्याधर सिद्ध किन्नर अप्सराओं के गण और परिचर्यामें स्थित देव गन्धर्व चारण आदित्य वसु रुद्र इंद्र साध्य विश्वेदेवा मरुद्गण १६।१७ और लोकपाल तथा अन्यजन उस भगवान्की स्तुति करते हैं कि हे

देवदेव पुराण पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है १८ सब कामनाओंके फल देनेवाले कृष्ण बलदेव और सुभद्रा को इसप्रकार पण्डितजन १९ प्रसन्न करते हैं और आकाशमें स्थितहुये देवते गन्धर्व और अप्सरायें गान करते हैं २० शीतल पवन चलती है और आकाशसे देवते बाजेबजाते हैं और पुष्पोंको वर्षाते हैं २१ मुनि सिद्ध चारण और इन्द्र आदिक देवते और ऋषि पितर आदि सब जयकृष्ण करते हैं २२ और प्रजापति नाग और अन्य स्वर्गवासी २३ मंत्रोंसहित अभिषेचन द्रव्योंको ग्रहणकर चढ़ाते हैं देवताओंके गणों इन्द्र विष्णु सूर्य चन्द्रमा धाता विधाता वायु अग्नि पूषा भगदेव अर्यमा त्वष्टा अश्विनीकुमार धर्मशाय वरुण एकादश रुद्र वसु इत्यादिकों से वह ईश्वर युक्त है और विश्वेदेवा मरुद्गणों साध्य संज्ञक देवतों पितरों गन्धर्वों अप्सराओं यक्षों राक्षसों पन्नगों और असंख्यात देवर्षियों ब्रह्मर्षियों और बालखिल्य मरीची भृगु आंगिरस और सवविद्या में निश्चयवाले विद्याधरों और योगिजनोंसे वह विष्णु भगवान् आवृत्त होते हैं २४।२५ ब्रह्मा पुलस्त्य पुलह आंगिरस कश्यप अत्रि मरीचि भृगु क्रतु वरुण मनु दक्ष ऋतु ग्रह तारा गण एवम् मूर्तिमान्होके नदी सनातन वेद समुद्र हृद और अनेक प्रकारके तीर्थ पृथ्वी आकाश दिशा वृक्ष और देवताओंकी माता अदिति और ह्री श्री स्वाहा सरस्वती उमा गौरी सिनीवली अनुमति राका बुद्धि और अनेक देवताओंकी स्त्रियां हिमवान् विन्ध्याचल सुवर्णके शृंगवाला सुमेरु और अनु-

चरों सहित ऐरावतहस्ती कला काष्ठा पक्ष मास ऋतु  
 अहोरात्र उच्चैःश्रवा हाहा हूहू गन्धर्व शेषनाग मृत्यु  
 धर्मराय और धर्मरायके अनुचर और अन्य देवतों के  
 गण उस देव को अभिषेचन करने के वास्ते उस दिन  
 आते हैं ३० । ३७ हे विप्रो तब वे सब देवते सरस्वती  
 और आकाशगंगाके जलसे भरेहुये कांचनके दिव्यक-  
 लशों से बलदेव और श्रीकृष्ण को आकाशसे स्नान  
 कराते हैं ३८ । ४० और दिव्यरत्नोंसे विचित्र बिभानों  
 में बैठेहुये देवतों और अप्सराओंके गण गीत और  
 वाद्यसे भगवान्को प्रसन्नकरते हैं ४१।४३ और स्तुति  
 करते हैं कि जयजयलोकपाल जयशरण्य जयपद्मनाभ  
 जयभूधरण जय जय सूर्यानुज ४४ जय योगिवर जय  
 जय योगाशय जयजय देववर जयकैटभारे ४५ जयदेव  
 वेगधर जयजय कूर्माधिपत्यायवर जय जयकमलानाथ  
 जयशैलधर ४६ जयजययोगाशय जयवेगधर जयवि-  
 श्वमूर्ति जयचक्रधर जयभूतनाथ जयधरणीधर जय  
 शेषशायिन् ४७ जयपीतवासिन जयसामकलि जयजय  
 योगेश जयजय जगदचक्षुदहन जयभ्रमवास ४८ जय  
 गुण निधान जय श्रीनिवास जयजयगरुड गमन जय  
 सुखनिवास ४९ जयजय धर्मकेतो जय जगतीनिवास  
 जय जय गहनगेह निवास जय जय योगिगम्य जय  
 मखनिवास ५० जय जय वेदवेद्य जय जय शांतिकर  
 जय जय योगिचित्य जयजय पुष्टिकर ५१ जय ज्ञान-  
 मूर्ते जय कमलाकर जय भाववेद्य जय मुक्तिकर जय  
 विमलदेह जयसत्वमिलय ५२ जयजय सृष्टिकर जय

गुणसमूह जयजय गुणविहीन जयजय मोक्षकर जयभू-  
 शरण्य ५३ जयगोविंद जयकमलासन जयजय कांति-  
 युत जयलोककारण ५४ जयजय लक्ष्मीयुत जयपङ्क-  
 जाक्ष जयजय भोगयुत जयनीलाम्बर जयजयअतसी  
 कुसुमश्यामदेह जयसमुद्र निविष्टगेह ५५ जय लक्ष्मी  
 पङ्कजभोगानिह जयभक्तिभावनलोकनाथ जयजयलो-  
 ककांत ५६ जयपरमशान्त जयजय परमसार जयचक्र-  
 धर जयशांतिकर जयजय मोक्षकर ५७ जयजयकलुष  
 हर जयकृष्ण जगन्नाथ जयसंकर्षणानुज जयपद्मपला-  
 शाक्ष जयवांछाफलप्रद ५८ जयमालावृत्तोरस्क जयचक्र  
 गदाधर जयपद्मालंयाकान्त जय विष्णोनमोस्तुते ५९  
 ब्रह्माजी बोले कि इस प्रकार इन्द्रादिक देवते और सिद्ध  
 और चारणोंकेसमूह ६० एवम् अन्य स्वर्गवासी स्तुति  
 और बालखिल्यआदि मुनि आकाशसे श्रीकृष्ण बल-  
 देव और सुभद्रा को प्रणाम ६१ स्पर्श तथा नमस्कार  
 कर अपने २ भवनकोजातेहैं ६२ उसकालमें जो मनुष्य  
 पुरुषोत्तमभगवान् बलभद्र और सुभद्राके दर्शनकरतेहैं  
 वे अव्यय परमपदको प्राप्तहोते हैं ६३ और बलदेव  
 सहित सुभद्रा और पुरुषोत्तमको मंचस्थ अर्थात् पलंग  
 केऊपर स्थितहुये ६४ जो मनुष्य देखताहै वह अविनाशी  
 स्थानमें प्राप्तहोताहै इसमें संदेह नहीं ६५ पुष्करतीर्थ  
 में एकसौगोदानों एकसौकन्यादानों तथा विधिसे भूमि  
 सुवर्ण अन्न एवम् ग्रीष्म ऋतुमें जलदान और विधिवत्  
 चान्द्रायण आदिब्रतों और नानायज्ञों एवम् वृषोत्सर्ग  
 आदिका जो पुण्य और फलहै वही फल बलदेवसहित

सुभद्रा और श्रीकृष्ण ६६।७७ के दर्शनकरनेसे प्राप्त होता है इसलिये स्त्री पुरुषों को पुरुषोत्तम भगवान् के अवश्य दर्शन करना चाहिये ७८ समस्त तीर्थोंके जलसे स्नान करानेसे और भी अधिकफल होता है श्रीकृष्णके स्नानकरानेसे बाकीरहे जलसे शरीरका सेचनकरनेसे ७९ बन्ध्या मृतप्रजा दुर्भागा ग्रहपीडिता और राक्षस आदिकोंसे ग्रसित तथा अन्य रोगोंसे युक्त ८० स्त्रियां वाञ्छित कामनाओंको प्राप्तहोजाती हैं ८१ पुत्रकी इच्छा वाली पुत्र और सौभाग्य सुखों को प्राप्तहोती हैं और धनकी इच्छावाली धनको प्राप्तहोती हैं ८२ पृथ्वीतल में जितने पवित्र हैं वे श्रीकृष्णके स्नानशेष जलकी सोलहवीं कलाको भी नहीं पहुँचते ८३ हे द्विजो इसलिये कृष्णके स्नानविशेष जलको सब गात्रोंमें लगाना सब कामनाओंको देनेवाला है ८४ जो श्रीकृष्ण को स्नान कराते हैं और दक्षिणामुखक्षेत्रको जाते देखते हैं वे मनुष्य ८५ गंगाद्वार तथा कुब्जाम तीर्थ और सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्रमें स्नान दानके फलको प्राप्तहोते हैं ८६ माघ के महीनेकी पूर्णमासीके दिन प्रयागमें और महाचैत्रीके दिन शालग्राम तीर्थमें स्नान दान करनेका जो फल होता है वह फल दक्षिणामुखमें श्रीकृष्णके दर्शनकरने से होता है ८७ ८८ गंगाद्वार गंगासारस्वत तथा अन्य क्षेत्रों ८९ ९० और सूर्यके ग्रहणमें स्नान दानका जो फल होता है वह दक्षिणामुखमें श्रीकृष्णके दर्शनकरने से प्राप्तहोता है ९१ निदान बहुत कहने से क्या है जो कुछ पुण्यकर्म यहाँ ९२ तथा वेदों भारतआदि पुराणों

और अन्य धर्मशास्त्रोंमें कहे हैं ६३ उनका फल बल-  
देव सहित श्रीकृष्ण और सुभद्रा को दक्षिणामुख क्षेत्र-  
में दर्शन करनेसे प्राप्त होता है ६४ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायास्वयम्भूच्चपितम्बादेरुष्णस्वान-

माहात्म्यन्नामत्रिषष्टितमोऽध्यायः ६३ ॥

### चौसठवां अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि गुडिचक्षेत्रमें जातेहुये रथमें स्थित  
श्रीकृष्ण बलदेव और सुभद्राके जो दर्शन करते हैं वे  
हरिके भवनको प्राप्त होते हैं १ और जो पुरुष वहां  
सातदिनतक मण्डपमें स्थित श्रीकृष्ण बलदेव और  
सुभद्राके दर्शन करते हैं वे विष्णुलोकको जाते हैं २ मुनि-  
योंने पूछा कि किसने वह गुडिचानामवाली जगत्पति  
भगवान्की यात्रा रची है वहां यात्राका क्या फल है ३  
और किसलिये सरोवरके तीर उसपवित्र और विजय  
देशके मण्डपमें ४ श्रीकृष्ण बलदेव और सुभद्रा अपने  
स्थानको त्यागके सात रात्रितक बास करते हैं ५ ब्रह्मा  
जी बोले कि हे ब्रह्मणे पूर्वकालमें इन्द्रद्युम्ननामक राजा  
ने हरिकी प्रार्थना करके कहा कि सरोवरके तीर मेरी  
यात्राहो ६ तब भुक्ति मुक्तिको देनेवाले गुडिचक्षेत्रमें  
अपने वास करनेका पुरुषोत्तम भगवान् ने बरदिया ७  
श्रीभगवान् ने कहा कि हे राजन् सरोवरके तीर सात  
दिनतक मेरी यात्राहोवेगी और गुडिचानामवाली वह  
यात्रा सबकामनाओंकी सिद्धिकरनेवालीहोगी ८ और  
जो पुरुष मण्डपमें स्थित मेरा पूजन और बलदेव तथा  
सुभद्राके दर्शन करेगा उनकी सिद्धि ९ ब्राह्मण क्षत्री वैश्य

तथा शूद्र स्त्री पुरुष जो कोई गंध दीप धूप नैवेद्य १०  
 और बहुत प्रकारके उपवास तथा प्रदक्षिणा और जय  
 शब्दस्तोत्र और मनोहर गीत बाद्य ११ सहित मेरा पूं-  
 जन करैंगे उनको कुछ भी दुर्लभ न होगा १२ हे नृपश्रेष्ठ  
 मेरे प्रसाद से वे इच्छित फलको प्राप्त होवेंगे १३ ऐसे  
 उससे कहके विष्णु भगवान् अन्तर्धान होगये और वह  
 श्रीमान् राजा कृतकृत्य होगया १४ हे द्विजोत्तमो इस  
 लिये सब यज्ञोंसे गुडिचतीर्थ में पुरुषोत्तम भगवान् के  
 दर्शन करने से सब कामना सिद्ध होती है १५ बिना पुत्र  
 वाला पुत्रको पाता है निर्धन पुरुष धनको प्राप्त होता है  
 रोगी रोगसे छूट जाता है कन्याको श्रेष्ठपति मिलता है १६  
 और आयु कीर्ति यश मेधा बल विद्या भृत्य पशु और  
 रूप यौवनकी सम्पदा मिलती है १७ पुरुषोत्तम भगवान्  
 के दर्शन करके जिन भोगोंकी इच्छा मनुष्य करता है नर  
 अथवा नारी उन्हीं भोगोंको प्राप्त होता है इसमें सन्देह  
 नहीं है १८ आषाढशुक्ल में विधिवत् गुडिचा नामवाली  
 यात्रा करके १९ श्रीकृष्ण बलदेव और सुभद्राके दर्शन  
 करनेसे मनुष्य १५ अश्वमेध यज्ञोंसे भी अधिक फल  
 को प्राप्त होता है २० और अपने सकाससे सात अगिली  
 और सात पिछिली पीढ़ियोंका उद्धार करदेता है २१ वह  
 पुरुष रत्नों से अलंकृत हो इच्छापूर्वक चलनेवाले विमान  
 में बैठ २२ गंधर्व और अप्सराओं से सेवित रूपवान्  
 तथा सुन्दर ऐश्वर्यमान् होके विष्णुपुरको जाता है २३  
 और वहां प्रलयकाल तक सुन्दर भोगोंको भोग सब  
 कामनाओंसे बड़ा हुआ बुढ़ापे तथा मरने से बर्जित हो



जाताहै २४ जब पुण्यका नाश होताहै तब वह इसलोक में आके चारोंवेदोंको जाननेवाला ब्राह्मणहोताहै और वैष्णव योगको प्राप्तहो मोक्षको प्राप्तहोजाताहै २५ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भुक्त्तपिसम्वादेगुडिचाया.

माहात्म्यं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ६४ ॥

### पैंसठवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूँछा कि हे ब्रह्मन् एक एक यात्राके पृथक् २ फलकहो १ ब्रह्माजीबोले कि हे विप्रो उसयात्रामें जिस क्षेत्रमें कि समाहित पुरुष जिसफलको प्राप्तहोताहै सो सुनो २ फाल्गुनीनक्षत्रके उत्थानमें अथवा जिसदिन शत्रिदिन समान हो तब विधानसे गुडिचामें यात्राकर श्रीकृष्ण बलभद्र तथा सुभद्राको प्रणामकरके मनुष्य अक्षयफलको प्राप्तहो जबतक चौदहइन्द्र राज्यकरै तब तक विष्णुलोकमें रहताहै ३।४ पुरुष जितनेदिन ज्येष्ठ के महीने में विधिवत् यात्राकरताहै उतनेही कल्प विष्णुलोकमें सुखभोगता है इसमें संदेह नहीं है ५ उस श्रेष्ठ और भुक्ति मुक्ति तथा सुखदेनेवाले पुरुषोत्तमक्षेत्र में ६ ज्येष्ठ में जो नरनारी अथवा यतीयात्राकरै और यथार्थ विधानकरके प्रतिष्ठाकोकरै ७ वह सबपापोंसे छूट और अनेक प्रकारके भोगोंकोभोग अन्तकालमें मोक्ष को प्राप्तहोताहै ८ मुनियोंने पूँछा कि हे देव आपसे हम प्रतिष्ठाकाविधान और भगवान् की पूजाका माहात्म्य सुननेकी इच्छा करते हैं ९ ब्रह्माजी बोले हे मुनिश्रेष्ठो प्रतिष्ठाकी विधिको तुम सुनो जिसके करने से मनुष्य इच्छितफल को प्राप्तहोते हैं १० हे द्विजोत्तमो जब बा-

रहयात्रा सम्पूर्णहोलेवे तब विधिवत् पापनाशिनी प्र-  
 तिष्ठाकोकरै ११ ज्येष्ठके महीनेमें शुक्लपक्षकी एकादशी  
 के दिन समाहितहो पवित्र जलाशय अर्थात् सरोवर  
 पर जा आचमनकर पवित्रहो १२ और सब तीर्थोंका  
 आवाहनकर नारायणका ध्यान करके विधिवत् स्नान  
 करै १३ और ऋषियों ने स्नान विधिमें जो कर्म कहा  
 है सो करै १४ फिर सम्यक्विधानकरके स्नानकर और  
 देवता ऋषि पितरों और नामगोत्रसहित अन्यों का  
 तर्पणकर १५ पवित्र कन्धा के बस्त्र धारणकर और  
 सूर्य के सम्मुखहो १६ सब पापोंको हरनेवाली पवित्र  
 और वेदोंकी माता गायत्री देवीका अष्टोत्तरशत जाप  
 करे १७ फिर पवित्र मन्त्रोंका उच्चारणकर श्रद्धासहित  
 समाहितहो सूर्यको तीनबार प्रदक्षिणाकर नमस्कार  
 करै १८ तीनोंवर्णों का स्नान और जाप वेदमें कहाहै  
 तिस विधिसे करना चाहिये और शूद्र तथा स्त्री को  
 वेदोक्त कर्म बिनाही स्नानमात्र करना चाहिये १९ फिर  
 पुरुषोत्तम भगवान् के मन्दिरमें मौनधारणकरके जाय  
 और पूजन करके २० यथा विधिसे पुरुषोत्तमभगवान्  
 के हाथ पैरोंकोस्पर्शकर प्रथम घृतसे स्नानकरावे फिर  
 दूधसे करावे २१ फिर मधु गन्ध और तीर्थकेजल तथा  
 चन्दनकेजलसे स्नानकराके दो चस्त्रोंको अर्पणकरे २२  
 और परमभक्ति सहित मल्लिकादि पुष्पोंसे पुरुषोत्तम  
 भगवान्का पूजनकरै २३ इसप्रकार उसभुक्ति मुक्ति देने  
 वालेहरिकापूजन करके अगर अथवा घृतमिश्रितगूगल  
 कीधूपदे २४ और भक्तिसहित यथाशक्ति घृतकीज्योति

प्रकाशकरके समाहितहो अन्यदीपकोंको २५ घृत अथवा तिलोंकेतेलसे पूर्णकर प्रकाशमानकरै और नैवेद्य खीर पूडेपरियां २६ मोदक और फेनी आदि सब पदार्थ और अन्यफल भगवान्के लिये निवेदनकरै ऐसेपुरुषोत्तमभगवान्का पूजनकरना चाहिये २७ फिर ( ॐ नमः पुरुषोत्तमाय ) इसमन्त्रको १०८ बारजपके पुरुषोत्तम भगवान्को स्तुतिकर प्रसन्नकरै २८ किहेलोकेश आपको नमस्कारहै हेभक्तोंको अभयदेनेवाले मुझसंसार सागर में डूबेहुयेकी रक्षाकरो २९ हे जगत्पते मैंने जो आपकी द्वादश १२ यात्राकी है वे आपकी प्रसन्नतासे सम्पूर्णताको प्राप्तहो ३० इसप्रकार देवेशकी स्तुति और दण्डवत्कर फिर पुष्प वस्त्र अन्न अनुलेपन इत्यादिकों से अपनेगुरु का पूजनकरै ३१ क्योंकि हे मुनिसत्तमो गुरु और पुरुषोत्तम भगवान् में कुछ अन्तर नहीं है फिर पुरुषोत्तम देवके ऊपर श्रद्धासहित ३२ अनेक प्रकारके पुष्पों से विचित्र पुष्पमण्डल बनाकर रात्रीमें जागरणकरै ३३ और भगवान्के गुणोंका गाना ध्यान तथा पाठ करता हुआ प्रणामकरै ३४ फिर विमल प्रभातको द्वादशीके दिन वेदके पारको जाननेवाले बारह ब्राह्मणोंको निमंत्रितकरै ३५ उन इतिहास पुराणोंको जाननेवाले जितेन्द्रिय ब्राह्मणोंको सुवर्ण छतुरी जूतीका जोड़ा धन और वस्त्रादिकोंका दानदे ३६ । ३७ ऐसे श्रेष्ठभावसे पूजित भगवान् प्रसन्नहोते हैं फिर आचार्यकेलिये गौ तथा वस्त्र सुवर्ण छतुरी जूतीका जोड़ा और कासेका पात्र दानदेवे फिरपायस अर्थात् दूधकी खीर ब्राह्मणोंकेलिये नियोजन

करै ३८।३९ और पक्वान्न भक्ष्य भोज्य गुड तथा खांड  
 से युक्त पदार्थ तिन स्वस्थ चित्तवाले ब्राह्मणोंको भोजन  
 कराके ४० बारहजलके भरे मोदक सहित कलश देवे  
 और अभिमानसे रहितहो शक्तिके अनुसार दक्षिणादे  
 ४१।४२एसे तिन ब्राह्मणों और ज्ञानके देनेवाले गुरुका  
 पूजन परमभक्तिसे करना चाहिये क्योंकि गुरु और ब्रा-  
 ह्मण विष्णुकेही तुल्यहैं ४३ सुवर्ण वस्त्र तथा गौ धान्य  
 और अनेकप्रकारके अन्य द्रव्यों से भगवानका पूजन  
 और नमस्कारकर इसमंत्रका उच्चारण करै ४४ (सर्वव्यापी  
 जगन्नाथः शंखचक्रगदाधर। अनादिनिधनो देवः प्रीयतां  
 पुरुषोत्तमः) ४५ और ब्राह्मणोंकी तीनबार प्रदक्षिणा और  
 भक्तिसहित प्रणामकरके आचार्य सहित विदाकरै ४६  
 और थोड़ीदूर साथ जाकर प्रणामकरके उन्हें विदाकरके  
 उलट आवे ४७ फिर नियमसहित अपनेबांधव तथा स्व-  
 जनके साथ भोजन करै ४८ और आयिहुये भिक्षुकों दीनों  
 और अन्नकी इच्छावालोंको भोजनकरवावे ऐसे सम्यक  
 करनेसे ४९ नरहो अथवा नारी हजार अश्वमेध और सौ  
 राजसूय यज्ञोंके फलको प्राप्त होताहै ५० और सुन्दर  
 भोग भोगके दिव्यरूपको धारणकर ५१ सब लक्षणों  
 से सम्पन्न और सब अलंकारोंसे भूषितहो आकाशमें  
 सब दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ वह महाबल  
 वाला और बुद्धिमान विष्णुलोकमें प्राप्तहोताहै ५२।५३  
 और वहां सौकल्पोंतक गन्धर्व अप्सरा सिद्ध देव वि-  
 द्याधर दिव्य सर्प ५४ और मुनियोंद्वारा प्रणितहोकर  
 सन्ताप से रहित मनबाञ्छित कामनाओंको भोगता

है पू पू और जैसे शंख चक्र और गदा को धारण करनेवाले जम्बूनाथ देव हैं तैसेही वह भी मुदित हुआ चतुर्भुजरूप को धारण करता है ५६ इस प्रकार वहां सुन्दर भोगों को भोग और अप्सराओंके संग क्रीडाकर अन्तकाल में सब कामनाओं को देनेवाले ब्रह्मा के स्थानमें प्राप्त होता है ५७ और सिद्धों विद्याधरों देवतों और किन्नरों से शोभित होता है और नब्बेकल्पतक वहां सुख भोग के ५८ सब कामनाओंको देनेवाले रुद्रलोकमें देवताओं के गणोंसे सेवित हो सैंकड़ों हजारों विमानोंसे अलंकृत और सिद्ध विद्याधर यक्ष देव दानव के आवृत हुआ अस्सीकल्पतक सुख भोगके सब भोगोंसे समन्वित गोलोकमें प्राप्त होता है ५९ और देवते सिद्ध अप्सरा आदिसे शोभित हो सत्तरकल्पतक वहां सुन्दर भोगोंको भोग ६० जितेन्द्रिय और स्वस्थचित्त हो तीनों लोकों में दुर्लभ और अति श्रेष्ठ प्राजापत्यलोकमें प्राप्त होता है ६१ और वहां गन्धर्व अप्सरा सिद्ध मुनि विद्याधरों से युक्त हो साठकल्पतक अनेक प्रकारके सुखों को भोग के ६२ अनेक प्रकारके आश्चर्यों से युक्त इन्द्रलोक में प्राप्त होता है और गन्धर्व किन्नर सिद्ध देवते विद्याधर दिव्यसर्प गुह्यक अप्सरा साध्य और अन्य स्वर्गवासियोंसे युक्त हो पचासकल्पतक सुख भोगता है ६३ फिर वह विमानोंमें चढ़के और सब देवताओंसे अलंकृत हो दुर्लभ और पवित्र स्वर्गलोकमें प्राप्त होता है ६४ और वहां चालीसकल्पतक दुर्लभ भोगोंको भोगके नक्षत्रलोकमें प्राप्त होता है ६५ और वहां तीसकल्पतक

सुन्दर भोगोंको भोगके चन्द्रलोकमें प्राप्त होताहै ६६  
जहां सब देवताओंकेसहित चन्द्रमा स्थितहै बीसकल्प  
तक वहां दुर्लभभोगोंको भोगके ७० फिर वह देवताओं  
से पूजित अनेक यज्ञमय पवित्र और गन्धर्व तथा अ-  
प्सराओं से सेवित आदित्यलोकमें प्राप्त होता है ७१  
और वहां दशकल्पतक सुन्दर भोगों को भोगके फिर  
गन्धर्वों के लोक में जाता है ७२ और वहां एक कल्प  
तक सुन्दर सुख भोगों को भोग के पृथ्वी में धार्मिक  
७३ चक्रवर्ती महान् पराक्रमवाला और सब गुणों से  
अलंकृत राजा होके श्रेष्ठ धर्म सहित राज्यकर और  
दक्षिणासहित यज्ञकर वैष्णवलोक में प्राप्तहो मोक्षको  
प्राप्तहोजाताहै ७४ है विप्रो यह मैंने उस यात्राकाफल  
कहाहै यह मनुष्योंको भुक्ति और मुक्तिको देनेवालाहै  
अब तुम क्या सुननेकी इच्छाकरतेहो ७५ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वयम्भूच्चृपिसम्बादेयात्राफल  
माहात्म्यं नामपंचषष्टितमोऽध्यायः ६५ ॥

### बाबूठवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूछा कि हे देव हम अनामय सर्वानन्दकर  
और सब आश्चर्योंसेयुक्त विष्णुलोकका वर्णन सुनने  
की इच्छाकरतेहैं १ उसलोकका प्रमाण कितनाहै और  
उसलोकके भोगक्याहैं धर्ममें तत्पर मनुष्य वहां किस  
कर्मसे प्राप्तहोतेहैं २ दर्शन स्पर्शनसे वा तीर्थ स्नान  
आदिसे अथवा अन्य किसीउपायसे सो विस्तारकरके  
कहो हमें परमआश्चर्यहै ३ ब्रह्माजीबोले कि हे मुनियो  
उस परमपद और भक्तों से प्रेरित धन्य पुण्य संसार

नाशन ४ सब लोकोंमें श्रेष्ठ सब आश्चर्योंसे युक्त और त्रैलोक्य पूजित ऐसे विष्णुलोकका वर्णन मुझसे सुनो प्र वहलोक अशोक पारिजात मंदार चम्पक मालती चमेली कुन्द बकुल नागकेशरि पुन्नाग अतिमुक्त प्रियंगु अर्जुन पाटला आंब खैर कर्णिकार नारङ्गी पनस लोध नींब अनार सर्ज दाख बड़हल खिजूर महुआ ईख कैथा नारियल ताड़ बेल कल्पवृक्ष साल चन्दन कदम्ब देवदारु और जावित्री कंकोल आदि अन्य असंख्यात गन्ध वाले वृक्षों नागरपानके समूहों और सुपारी अम्ब आदि अनेक प्रकारके फल और पुष्पोंवाले वृक्षों और मनोहर जलाशयों और बड़े सरोवरोंसे अलंकृत है जिनमें शतपत्र रक्त और नीले तथा सुगन्धवाले अनेक कल्हार कमल और जलमें उत्पन्न होनेवाले अन्य सुन्दर पुष्प लगे हैं और हंस सारस चकवा चकवी बगुले और कारण्डव तथा प्रियपुत्र जीवजीवक जातियोंके पक्षी और अन्य मधुर स्वरवाले दिव्यजलचर पक्षी अनेक प्रकारके आश्चर्योंसे समन्वित वृक्षोंपर मनोहर स्वरसे गान करते हैं ६।१७ वहलोक अनेक प्रकारसे विभूषित इच्छा पूर्वक आकाशमें चलनेवाले सुवर्णमय दिव्य और गन्धर्वोंसे नादित १८ तरुण सूर्यके समान कान्तिवाले और अप्सराओं और सुवर्णकी शय्या तथा आसनों और अनेक प्रकारके भोगोंसे समन्वित और पताकों और मोतियोंके हारोंसे युक्त और अनेक रंगके सुवर्णमय वस्त्रों और अनेक प्रकारके पुष्पों तथा चन्दन अंगर आदिसे विभूषित और अनेक प्रकारके मधुरशब्दोंसे

नादित मनोहरवायुसेयुक्त विमानोंसे शोभितहै १९।२३  
 और देवताओंकी स्त्रियों तथा अप्सराओं और चन्द्र-  
 माकेसमान कान्तिवाले मुखोंवाली अनेक अन्य मनो-  
 हर अंगनाओं एवम् गीत नृत्य और वाद्यसे प्रसन्न  
 यक्ष गन्धर्व विद्याधर और अप्सराओं के गण और  
 देवताओं और ऋषियोंके समूहोंसे उसभुवनकी शोभा  
 होरहीहै २४।२६ ऐसे तिसविष्णुलोकमें ज्ञानवान्मनुष्य  
 प्राप्तहोके अनेकप्रकारके भोगोंकोभोगतेहैं २७ दक्षिण  
 समुद्रके तटपर बटराज के समीप पुष्कराक्ष जगत्पति  
 श्रीकृष्णभगवान्के दर्शन जिन्होंने करेहैं २८ वे तपेहुये  
 सुवर्णके समान कान्तिवाले और जरामरणसे रहितहो  
 यावत् सूर्य चन्द्ररहें तबतक सब दुःखों और ग्लानिसे  
 रहितहो वनमाला से विभूषित और श्रीवत्सचिह्न और  
 शंख चक्र गदाको धारण कियेमहाविक्रम चतुर्भुजरूप  
 से तिसलोकमें अप्सराओंके संग बासकरतेहैं २९।३१  
 वहां कोईपुरुष तो नीलेकमलकेसमानकान्तिवाले कोई  
 सुवर्णके समान कान्तिवाले कोई सुवर्णके कुण्डलोंवाले  
 और कोई श्रीवत्स चिह्नवाले होजातेहैं ३२।३३ हे द्विजो-  
 त्तमो जैसा हरिभगवान्का लोक सबआश्चर्योंसे युक्त  
 है वैसा अन्यदेवताओंका लोक नहींहै ३४ और वहांसे  
 फिर और कहीं जाने आने की प्रवृत्ति नहीं होती ३५  
 तिस देव के प्रभाव से कितनेही महाप्रलय होने तक  
 पुरुषरूप यौवनसे गर्वितहुये उसपुरमें विचरतेहैं ३६ जो  
 मनुष्य श्रीकृष्ण बलदेव और सुभद्राके दर्शन करतेहैं  
 वे तरुणसूर्यके समान कान्तिवाले और संवत्नोंसेविभू-



षितहोके सैकड़ों तथा हजारों महलोंसेयुक्त एकयोजन ऊँचेसोनेके किलेमें अनेकप्रकारकी ध्वजाओंसे विचित्रित और मनोहर नक्षत्रोंसे शरदऋतु के चन्द्रमा के समान प्रकाशमान चारदरवाजोंवाले तथा अनेक प्रकारकी रक्षाओं से रक्षित और मनोहर पुष्पमें मरकत मणि इन्द्रनीलमणि और महानीलमणिसे जटित और पद्मराग तथा अनेक प्रकारके दूसरेरत्नों और सुवर्ण के अद्भुत प्रकाशवाले थंभोंसे युक्त महान् भुवनमें वास करते हैं ३७।३८ जहां सबदिशाओंके मध्यमें नक्षत्रोंसहित पूर्णमासीके चन्द्रमाकेसमान भगवान् विष्णु पीताम्बर पहिने और श्रीवत्सचिह्नसे युक्त प्रकाशमान घोर और सबपापों को नाशनेवाले सुदर्शनचक्रको दाहिनेहाथमें धारण किये प्रकाशहोते हैं जब सर्वतेजोमय हरिभगवान् सफेदकुन्द चांदी तथा गौकेदूधके समान कांतिवाले उससुदर्शनचक्र को बायेंहाथमें ग्रहणकरते हैं ३९।४७ तब हे मुनिश्रेष्ठो उसके शब्दसे सब जगत् क्षोभको प्राप्तहोजाताहै ४८ एकहाथमें सहस्र आवर्तों से भूषित पांचजन्य शंख दूसरेहाथमें क्षत्रियोंका अन्त करनेवाली भयङ्कर और दैत्य दानवों का नाश करने वाली ४९ जलतीहुई अग्निकी शिखाकेआकार और देवताओंको भी दुस्सह कौमोदकी गदा ५० और बायेंहाथमें सूर्यकेसमान कांतिवाले धनुष और बाणोंको धारणकिये विष्णुभगवान् चराचर जगत् का संहार करते हैं ५१ वह सब को आनन्दकरनेवाले सब शस्त्रों से विभूषित सब लोकोंकेगुरु और सब देवताओं द्वारा

नमस्कृत हजारशिरों हजारचरणों हजारनेत्रों हजार किरणों और हजारभुजाओंवाले और पद्मके पत्तों के समाननेत्रों और विजलीकेसमान कान्तिवाले श्रीमान् जगन्नाथ जगद्गुरुके चारोंतर्फ सुर सिद्ध गन्धर्व अप्सराओंकेगण उपस्थित रहतेहैं ५२।५५ और यक्ष विद्याधर नाग मुनि सिद्ध चारण सुपर्ण दानव दैत्य राक्षस गुह्यक और देव और सुरर्षि स्तुति करते हैं ५६ विष्णु भगवान् जहां स्थितहैं वहां कीर्त्ति प्रज्ञा मेधा सरस्वती बुद्धिमति क्षांति सिद्धि मूर्त्ति कृति गायत्री सावित्री मंगला सर्वमंगला प्रभा आदि सबस्थितहोतीहैं ५७।५८ और श्रद्धा कौशिकी देवी विजली निद्रा तथारात्री तथा अन्यदेवोंकी स्त्रियां वासुदेवभगवान् के भुवनमें प्रतिष्ठित हैं ५९ निदान बहुत कहने से क्या है सब वस्तु वहां प्रस्तुत होतीहैं और घृताची मेनका रम्भा सहस्रजन्या तिलोत्तमा उर्वशी सुरसेना मन्दोदरी सुभगा विश्वाची विपुलानना भद्रांगी चित्रसेना स्त्रस्तोना सुमनोहरा मुनिसंमोहिनी रामा चन्द्रमत्या शुभानना हंसलीलानुगामिनी मत्तवारणगामिनी बिम्बोष्ठी इत्यादिक अप्सरा और रूपयौवन से गर्वित पतलीकटी और सुन्दर मुखवाली सब अलंकारोंसेभूषित गीत माधुर्य में संयुक्त और ताललक्षण तथा गीत वाद्य विलासमें निपुण देवताओं तथा गन्धर्वों की स्त्रियां नृत्यकरतीहैं ६०।६५ वहांकोई रोगनहींहै और नमृत्य जाड़ा गरमी ६६ क्षुधा तृषा बुढ़ापा तथा विरूपताही है ६७ निदान सुख तथा परमानन्दको उत्पन्नकरने और सब कामना-

ओंके फल को देनेवाले विष्णुलोक से परे अन्यकोई लोक नहीं है ६८ और जो लोक पुण्यकर्मी पुरुषोंके वास्ते स्वर्गलोकमें सुने जाते हैं वे विष्णुलोककी सोलहवीं कला को भी नहीं पहुँच सकते ६९ ऐसे सब भोगों और गुणों से युक्त हरिकापुर और स्थान है जो सब सुखों को देने वाला और सब आश्चर्योंसे युक्त है ७० वहाँ नास्तिक विषयी कृतघ्नी चुगुलखोर और अजितेन्द्रिय पुरुष नहीं पहुँचते ७१ पर जो सदाभक्तिपूर्वक जगद्गुरु वासुदेव का पूजन करते हैं वे वैष्णव वहाँ प्राप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं ७२ दक्षिणसमुद्रके तीरपर जगन्नाथ नामसे प्रसिद्ध परमदुर्लभ क्षेत्रमें श्रीकृष्ण बलदेव और सुभद्रा का जो दर्शन करते हैं ७३ और जो कल्पवृक्ष के समीप अपना शरीर छोड़ते हैं एवम् पुरुषोत्तम तीर्थ में जो मरते हैं वे पुरुष वहाँ प्राप्त होते हैं ७४ वड़के नीचे तथा समुद्रके बीचमें पुरुषोत्तम भगवान् का स्मरण करते हुये जो पुरुषोत्तम तीर्थ में मर जाते हैं ७५ वे भी उस परम स्थानमें प्राप्त होते हैं इसमें संदेह नहीं ७६ हे मुनिश्रेष्ठो ऐसा अनामय सबको आनन्द देनेवाला और भुक्ति मुक्तिको देनेवाला विष्णुलोक कहा है ७७ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूच्चरितसम्वादे विष्णुलोककीर्तननाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ६६ ॥

सरसठवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूछा कि हे ब्रह्मन् आपने जगत्पति विष्णु के अति आश्चर्य और नित्यानन्द और भुक्ति मुक्तिको देनेवाले लोक १ और संसारमें दुर्लभ पुरुषोत्तमक्षेत्र

जहां मनुष्य शरीर त्यागके हरिके लोकमें प्राप्त होजाता है वर्णनकिया २ बड़ा आश्चर्य है कि वहां देह त्यागना मोक्षका मार्ग है वह पुरुषोत्तमक्षेत्र मनुष्योंके उपकार के वास्ते है ३ हे देवेश उस क्षेत्रमें देहको त्याग मनुष्य विष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं ४ और उस शुभक्षेत्र का माहात्म्य सुन हमें बड़ा आश्चर्यहुआ प्रयाग और पुष्कर आदिक क्षेत्रों और देवताओंके स्थानों ५ तथा पृथ्वीपर जो अन्यतीर्थ नदी और सरोवरहैं उनकी आप उतनी प्रशंसा नहीं करते ६ जैसी बारम्बार पुरुषोत्तम भगवानकी करतेहो इसलिये हे पितामह हमनेआपका अभिप्राय अब जानलिया ७ कि मुक्तिको देनेवाला पुरुषारख्य पुरुषोत्तम तीर्थही पृथ्वीभरमें सराहने योग्यहै ८ इसवास्ते आप श्रेष्ठ बुद्धिमान् बारम्बार उसकी प्रशंसा करतेहो ९ ब्रह्माजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो आपने सत्य कहा निश्चय पुरुषारख्यक्षेत्रके समान पृथ्वीमें अन्य तीर्थ नहीं है १० और जितने दूसरे क्षेत्र और देवताओं के स्थान हैं वे उस पुरुषोत्तम तीर्थ की सोलहवीं कला कोभी नहीं प्राप्तहोते ११ जैसे सर्वेश्वरविष्णु सब लोकों में उत्तमहैं तैसेही पुरुषोत्तमतीर्थभी सब तीर्थोंमें उत्तमहै १२ जैसे वसुओं में पावक रुद्रोंमें शंकर वर्णोंमें ब्राह्मण व पक्षियोंमें गरुड उत्तमहैं तैसेही सब तीर्थोंमें पुरुषोत्तमतीर्थ उत्तमहै १३ १४ जैसे शिखरोंमें सुमेरु पर्वतोंमें हिमालय हाथियोंमें ऐरावत और महर्षियोंमें भृगु उत्तम हैं तैसेही सब तीर्थोंमें पुरुषोत्तमतीर्थ श्रेष्ठहै १५ १६ जैसे इंद्रियों में मन भूतों में प्राणी १७ सेनानियों में स्कंद अर्थात्

स्वामिकार्तिक सिद्धांमें कपिल १८ वर्णों में अकार और छंदोंमें गायत्रीहै तैसेही तीर्थोंमें पुरुषोत्तम तीर्थ है १६ जैसे अश्वोंमें उच्चैःश्रवा कवियोंमें भार्गव मुनियोंमें वेद व्यास और यक्ष राक्षसोंमें कुबेर हैं तैसेही सब तीर्थोंमें पुरुषोत्तमतीर्थ श्रेष्ठहै २०।२१ जैसे सब वृक्षोंमें पीपल और व्याप्त होनेवालोंमें पवन उत्तमहै तैसेही सब तीर्थों में पुरुषोत्तमतीर्थ श्रेष्ठहै २२ और जैसे गन्धर्वोंमें चित्ररथ राक्षोंमें वज्र २३ विद्याओंमें मोक्षविद्या २४ सती स्त्रियोंमें अरुंधती २५ मनुष्योंमें राजा और गौओंमें कामधेनुहै तैसेही सब तीर्थोंमें पुरुषोत्तमतीर्थ श्रेष्ठ है २६ जैसे पदार्थोंमें घृत २७ रत्नोंमें सुवर्ण सर्पोंमें वासुकि २८ दैत्योंमें प्रह्लाद और शस्त्रधारण करनेवालों में रामचंद्रश्रेष्ठ हैं तैसेही सब तीर्थों में पुरुषोत्तमतीर्थ श्रेष्ठहै २९ जैसे मच्छोंमें मकर मृगोंमें सिंह ३० समुद्रों में क्षीरसागर ३१ देवर्षियों में नारदजी ३२ पुरोहितों में बृहस्पति संख्यामें काल ३३ ग्रहोंमें सूर्य और मंत्रों में अंकारहै तैसेही पुरुषोत्तमतीर्थ है ३४ जैसे धनों में सुवर्ण रक्षकोंमें दक्षिणा ३५ यज्ञोंमें अश्वमेध ३६ औषधियोंमें धान्य और तृणोंमें ईख श्रेष्ठ है तैसेही सब तीर्थोंमें पुरुषोत्तमक्षेत्र श्रेष्ठहै ३७ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायास्वयम्भूऋषिसम्वादेक्षेत्र  
माहात्म्यं नाम सप्तपटितमोऽध्यायः ६७ ॥

अरसठवां अध्याय ॥

हे द्विजोत्तमो सब तीर्थों क्षेत्रोंमें और जप होम व्रत तप दान इत्यादिके फल १ में कोई तिस क्षेत्रके सदृश

पृथ्वीमें नहीं दीखता बारम्बार कहनेसे क्या है २ वा-  
स्तविक वह परममहत्क्षेत्र है समुद्रके समीप उस पुरु-  
षोत्तम को एकबार देखके और ब्रह्मविद्या को एकबार  
जपके फिर मनुष्यका गर्भमें वास नहीं होता है हरिके  
समीप पुरुषोत्तमक्षेत्रमें ३।४ जो पुरुष एकवर्ष और तीन  
महीने उपवास करता है तिसे यज्ञ होम तथा महातपका  
फल प्राप्त होता है ५ और वह योगीश्वर भगवान्के पर-  
मस्थानमें प्राप्त होता है और देवताओंकी स्त्रियोंसे सम-  
न्वित हुआ अनेकप्रकारके भोगोंको भोगके ६ कल्पके  
अन्तमें मृत्युलोकमें आके योगिजनोंके घरमें ज्ञानको  
जाननेवाला उत्पन्न होता है ७ और वैष्णवयोगको प्राप्त  
हो इच्छापूर्वक हरिको प्राप्त होजाता है हे मुनियो कल्प-  
वृक्ष बलदेव श्रीकृष्ण सुभद्रा ८ और मार्कण्डेय इन्द्र-  
द्युम्न माधव भगवान् एवम् स्वर्गद्वार का माहात्म्य  
समुद्रयात्राकी विधि और यथाकालमें भागीरथी गंगा  
का समागम यह सब तो मैंने कहा अब और क्या सुनने  
की इच्छा करते हो यह इन्द्रद्युम्न और पुरुषोत्तमतीर्थ  
का व्याख्यान सम्पूर्ण आश्चर्ययुक्त ९।११ पुरातन और  
परमगुप्त है और संसारसे छुटा देता है १२ मुनियो ने कहा  
हे देव भगवत् की कथा सुनते हमें तृप्ति नहीं होती है  
इसलिये फिर भी आपको यह परमगुह्य कथा कहनी चा-  
हिये १३ हम अनन्त वासुदेवका सम्पूर्ण माहात्म्य वि-  
स्तारपूर्वक सुननेकी इच्छा करते हैं १४ ब्रह्माजीने कहा  
हे मुनिश्रेष्ठो सारसे भी सार और पृथ्वीमें दुर्लभ अनन्त  
वासुदेवका माहात्म्य सुनो १५ हे विप्रो आदिकल्पमें

मैंने देवशिल्पी विश्वकर्माको मोक्षका साधनसुनाके १६ यह कहा कि तू पृथ्वीपर पाषाणमयी वासुदेवकी प्रतिमा बना १७ जिसको विधिवत् भक्तिपूर्वक पूजनकरके इन्द्र आदिकदेवते और मनुष्य दैत्य दानव और राक्षसोंके भयको त्याग १८ स्वर्गको प्राप्तहों और सुमेरुपर्वत के शिखर पर वासुदेव का आराधन करके बहुत कालतक निर्भयहोके बासकरें १९ ऐसामेरा वचनसुन विश्वकर्मा ने शंख चक्र और गदा को धारण करनेवाले अनन्त वासुदेवकी प्रतिमा बनाई २० और सब लक्षणोंसेयुक्त कमलसरीखेनेत्रों और श्रीवत्स और वनमालासेयुक्त छातीवाली मुकुट तथा बाजूबन्दको धारण किये और पीलेवस्त्र पहिने ऊँचेकाँधोंवाली और कुण्डलोंसे भूषित उस प्रतिमाको मैंने कालपाकेगुह्य अर्थात् श्रेष्ठमंत्रोंसे प्रतिष्ठितकिया २१।२३ तब देवताओं सहित इन्द्र ऐशवंत हस्तीपर चढ़के ब्रह्मलोकमें आया २४ और उस मूर्तिको और मुझको बारम्बार प्रसन्नकरके अपनीपुरी में लेगया २५ और उसको वाणी और मनके निरोध से आरोपणकर क्रूरवृत्र और नमुचि आदिक भयंकर दैत्योंका नाशकरके चिरकालतक स्वर्गादिकोंका भोग करतारहा और दूसरे त्रेतायुगमें राक्षसोंका ईश्वर और महान् पराक्रमवाला प्रतापवान् रावणहो परमदुश्चर और अति उग्रतपका आचरण करनेलगा २६ । २८ और मैंने उसपर प्रसन्नहो सबदेवताओं दैत्यों सर्पों और राक्षसों से अवध्य वर दिया २९ निदान वह शाप उग्र शस्त्र और धर्मरायके किंकरों से अवध्यवरको प्राप्त हो

के ३० और कुबेरको जीत इन्द्रके जीतनेका उद्यम करने लगा ३१ और इन्द्र आदिक देवताओंके संग महाघोर युद्धकरके इन्द्रको जीत लिया ३२ इन्द्रकी हार सुनके प्रतापवाले मेघनादने अमरावतीपुरीमें जाके ३३ देवराज इन्द्रके घरमें अंजन सरीखी कांतिवाली उस प्रतिमाको देखा जो सब रत्नोंको छोड़ शुभलक्षणों से युक्त श्रीवत्स चिह्न व भूषण धारणाकिये बनमाला मुकुट तथा ब्राजूबन्दसे भूषित शंख चक्र गदादि चारों भुजाओंमें लिये और पीतवस्त्र पहिने और सबकामनाओंके फल को देनेवाली पद्मसरीखे नेत्रोंवाली उसमूर्तिको ग्रहण किया ३४ ॥ ३७ और पुष्पक विमान में रख शीघ्रही लंकामें स्थापित किया पुरका अध्यक्ष ३८ रावण का छोटाभाई और मन्त्री विभीषण जो नारायण में तत्पर था इन्द्रके भुवनसे आईहुई उस दिव्यप्रतिमाको देख के ३९ रोमांचित होगया और विस्मयको प्राप्तहो प्रसन्नमन से उसदेवको प्रणामकरके ४० कहनेलगा कि अब मेराजन्म और तप सफल हुआ ४१ निदान वह धर्मात्मा बारम्बार प्रणाम करके अपने बड़ेभाईके आगे अंजलीबांधके कहनेलगा ४२ कि हे राजन् इसप्रतिमा को आप प्रसन्नकरो ४३ इस जगन्नाथके आराधनकरनेसे संसाररूपी सागरसे छुटकाराहोताहै भाई के यह वचनसुन रावण उससेबोला ४४ किहे वीर यह प्रतिमा ब्रह्माकी बनाईहुईहै इससे मुझेक्याहै मुझेतो सबभूतोंके उत्पन्न करनेवाले महादेव का केवल आसराहै ४५ निदान भाईका यह उत्तर सुन महाबुद्धिमान् विभीषण



उससुन्दरप्रतिमाको १०८ वर्षतक आराधन करतारहा ४६ और उसके प्रभावसे अजर अमर पदको प्राप्तहो अणिमादिकेश्वर्योंसे युक्तहो लंकाके राज्यको प्राप्तहो यथेप्सित भोगोंको भोगताहै ४७ मुनियोंने पूजा हे देव अनन्तवासुदेवका यहपरमअमृतमाहात्म्य सुनकरहमें बड़ा आश्चर्य्यहुआ ४८ इसलिये हे देव हमसम्पूर्णवृत्तान्तविस्तारसे सुननेकी इच्छा करतेहैं और आपकहने को योग्यहो ४९ ब्रह्माजी कहनेलगे कि निदान वह क्रूर राक्षस देवों गन्धर्बों दानवों लोकपालों मनुष्यों मुनियों और सिद्धोंको जीतके ५० अपनी लंकापुरीमें राज्य करनेलगा फिर सीतापर मोहितहो राक्षसीमायासे सुवर्णकामृग रचकर सीताजीको हरलेगया ५१ और लक्ष्मणसहित रामचन्द्रजी रावणके बध के लिये मनसरीखे वेगवाले बाली को मार और ५२ सुग्रीव को राजतिलकदे बालीकेपुत्र युवाअवस्थावाले अंगद ५३ हनुमान् नील नील जाम्बवान् गवय गवाक्ष पनसआदि परमबलवानों और अन्य बहुतसे वानरोंकी सेनाले और ५४ ५५ अगमसमुद्रमेंसेतुबांधपारउतरे ५६ वहाँ राक्षसोंकेसंग महायुद्ध हुआ और रामचन्द्रजी यम हस्त प्रहृष्ट निकुम्भ कुम्भ ५७ नरान्तक महावीर्य यमांतक मालाढ्य माणिकाढ्य ५८ इन्द्रजीत और कुम्भकर्ण सहित रावणको मार और सीताजीको अग्निसे शोध तथा विभीषणको राज्यदे ५९ और वासुदेवको पुष्पक विमानमें स्थापनकर अपनी लीला करके आतृसे पालित अयोध्यापुरी में आये ६० निदान छोटेभाई भ-

रत और शत्रुघ्नने राजाधिराजवत् रामचन्द्रको अभि-  
 षेक अर्थात् राजतिलक किया ६१ और रामचन्द्र  
 अपनी पुरातन मूर्तिका आराधनकर ११००० वर्ष ६२  
 सागरपर्यन्त पृथ्वी को भोगके वैष्णवपदमें प्रवेशकर  
 गये ६३ रामचन्द्रने उस प्रतिमाकोभी समुद्रके जलमें  
 डुबोकर कहा कि आप धन्य हैं यहां जलमें स्थित हो  
 जगत्की रक्षाकरनेवालेहो ६४ पश्चात् उस जगत्पति  
 देवनेद्वापरयुगमें पृथ्वीकेअनुरोध और भारके शैथिल्य  
 कारणसे ६५ वसुदेवके घरमें अवतारलियां और कं-  
 सादिकोंके वधकेलिये बलदेवसहित विचरनेलगे ६६  
 निदान सबवाञ्छाओंके फलको देनेवाली उसप्रतिमा  
 को समुद्रसे निकाल श्रीकृष्ण भगवान्ने सबमनुष्योंके  
 हितकेलिये ६७ उसपुण्य सुन्दर और दुर्लभ पुरुषोत्तम  
 क्षेत्रमें स्थापितकिया ६८ तबसे सबकी पीड़ादूर करने  
 और सब कामनाओं और मुक्तिको देनेवाले वह अनन्त  
 देव उस क्षेत्रमें स्थित हैं ६९ और जो सर्वेश्वर देवको  
 बाणी मन और कर्मसे नित्यसंश्रय करते हैं वे परमगति  
 को प्राप्त होते हैं ७० एकबार उस अनन्त देवको देख  
 पूजन और प्रणामकरने से राजसूय और अश्वमेध  
 यज्ञोंसे दशगुणा फलहोता है ७१ जो कोई उस देवका  
 पूजन करताहै वह सब कामनाओंके देने बहुत चलने  
 और सूर्यके समान वर्णवालेकिंकिणी जालियोंसे युक्त  
 विमानमेंबैठ ७२ और इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धारकरदि-  
 व्य स्त्रियोंसे सेवित और गंधर्वोंसे उपगीयमान हुआ  
 विष्णुपुरमें प्राप्तहोता है ७३ और वहां जरामरणसे र-

हितहो और सुन्दरभोगोंको भोग दिव्यरूप धारणकिये प्रलयकालतक ७४ स्थित रहताहै फिर पुण्यक्षीणहोने के बाद यहां पृथ्वीमें आके चतुर्वेदी ब्राह्मणहोताहै ७५ और वैष्णवयोगको प्राप्त हो मोक्षको प्राप्तहोजाताहै हे मुनिसत्तमो उस अनन्तदेवका यह मैंने संक्षेप कीर्तन किया है ७६ सम्पूर्ण वर्णन तो सैकड़ों वर्षों मेंभी कोई गुणवान् नहीं करसक्ता ७७ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायास्वयम्भुश्चपित्तवादेअनन्तवासु-  
देवमाहात्म्यं नामाष्टपष्टितमोऽध्यायः ६८ ॥

### अनन्तरवां अध्याय ॥

ब्रह्माजीनेकहा कि ऐसा अनन्तदेवका माहात्म्य और भुक्ति मुक्तिको देनेवाला पुरुषोत्तमक्षेत्र है १ जहां शंख चक्र और गदाको धारणकिये और पीताम्बरपहिने कंस और केशीको मारनेवाले श्रीकृष्ण स्थितहैं २ वहां जो दैत्य और देवताओंसे नमस्कृत श्रीकृष्ण बलदेव तथा सुभद्राको देखतेहैं वे धन्यहैं इसमें सन्देहनहींहै ३ त्रिलोकीका अधिपति तथा सब कामनाओंको देनेवाला श्रीकृष्णका जो ध्यानकरते हैं वे मुक्तहोजाते हैं इसमें सन्देहनहीं ४ और जो श्रीकृष्णमें राति दिन रतरहते हैं और रात्री में स्मरण करके जो उठते हैं वे शरीरको त्यागके श्रीकृष्णमें प्रवेशहोतेहैं जैसेमन्त्रसे होमाहुआ घृत अग्निमें लीन होजाता है तैसेही वे लीनहोजाते हैं हे मुनिश्रेष्ठो इसलिये मोक्षकी इच्छावाले पुरुषों को उस क्षेत्र में यत्नकरके कमललोचन श्रीकृष्ण के दर्शन करने चाहिये ५ । ६ जो बुद्धिमान् पुरुष शयनोत्थापन

में श्रीकृष्ण का स्मरण और बलदेव सुभद्रा के दर्शन करते हैं वे निश्चय हरिके स्थानमें प्राप्त होते हैं ७ जो पुरुष भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवान् बलदेव और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे विष्णुलोकमें प्राप्त होजाते हैं ८ और जो चतुर्मास तथा वर्ष पर्यन्त पुरुषोत्तमतीर्थ में वास करते हैं वे सब तीर्थोंकी वार्षिकयात्राके फल को प्राप्त होते हैं ९ जो बुद्धिमान् मनुष्य जितेंद्रिय होके पुरुषोत्तमतीर्थ में सदा वास करते हैं वे क्रोधसे रहित कियेहुये तपके फलको प्राप्त होते हैं १० अन्य तीर्थोंमें दशहजारवर्षतक तप करके जो फल प्राप्त होता है वह फल पुरुषोत्तमक्षेत्रमें एक महीना तपकरने से होता है ११ स्त्रीसंग त्यागकरके ब्रह्मचर्य तपकरने से जो फल प्राप्त होता है वह फल वहांके वाससे प्राप्त होता है १२ सब तीर्थों में स्नान दानका फल पुरुषोत्तमक्षेत्रके दानादिकोंसे होता है १३ और सस्यक्प्रकारके व्रत तथा नियम करने का फल पुरुषोत्तमक्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होता है १४ अनेकप्रकारके यज्ञोंका फल वहां एकदिन जितेंद्रियहोके वास करनेसे होता है १५ और स्वाध्याय अभ्यासका फल पुरुषोत्तमक्षेत्रमें साधारण प्राप्त होता है १६ जो पुरुष पुरुषोत्तमक्षेत्र १७ तथा बड़ के नीचे वा सागरके मध्यमें शरीर छोड़देते हैं वे परमदुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होजाते हैं इसमें संदेह नहीं १८ कल्पवृक्षके समीप इच्छासे रहितहोके जो प्राणोंको त्यागता है वह दुःखोंसे छूटके मुक्तिको प्राप्त होजाता है १९ और जो कृमि कीट पतंग इत्यादिक तिर्यक्योनि गत वहां देह

छोड़ देते हैं वे भी परमगतिको प्राप्त होते हैं २० हे मुनियो मनुष्यकी अन्य सब तीर्थोंमें आंति है क्योंकि पुरुषोत्तम तीर्थका फल सबसे अधिक है २१ जो श्रेष्ठकर्म करने वाला श्रद्धासहित पुरुषोत्तमतीर्थमें जाता है वह हजारों पुरुषोंमें उत्तम है २२ जिसे पुराणोंमें प्रकृतिसे परे कहते हैं और वेदांतमें जो परमात्मा कहाता है २३ वह सर्वके उपकारके लिये वहां स्थित है इसलिये वह पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाता है २४ पुरुषोत्तमक्षेत्रके मार्ग श्मशान गली तथा अन्य कहीं जो इच्छा करता हुआ अथवा बिना इच्छासे शरीर छोड़ देता है वह मोक्षको प्राप्त होता है २५ हे द्विजोत्तमो इसलिये सब यत्नसे मोक्षकी इच्छावाले मनुष्योंको वहांहीं शरीरका त्याग करना चाहिये २६ पुरुषोत्तमक्षेत्रके सम्यक् माहात्म्य कहनेमें कौन समर्थ है २७ जो मनुष्य वहां बड़े दर्शन करता है वह ब्रह्महत्याको दूर कर देता है २८ और बहुतसे क्षेत्र तथा पवित्र स्थान हैं परन्तु पुरुषोत्तमक्षेत्रकी सदृश ब्रह्माजी कहते हैं कि मैं अन्यक्षेत्रको नहीं देखता जहां मनुष्य देहको त्यागके दुर्लभ मुक्तिको प्राप्त हो २९ । ३० उसे गुणोंका एकदेश क्षेत्र कहा है उसके गुणोंको सैंकड़ों वर्षोंमें भी कहनेको कोई समर्थ नहीं ३१ हे मुनिश्रेष्ठो जो तुम मोक्षकी इच्छा करते हो तो उस पवित्रक्षेत्रमें वास करो ३२ वेदव्यासजी बोले कि वे मुनि अन्यक जन्मवाले ब्रह्माके वचन सुन वहां निवास करके परमपदको प्राप्त हुये ३३ जो तुम भी मुक्ति की इच्छा करते हो तो उस क्षेत्रमें वास करो ३४ ॥

सत्तरवां अध्याय ॥

वेदव्यासजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो सब जीवोंको सुख और धर्म अर्थ काम मोक्षके फल देनेवाले उस पुरुषोत्तमक्षेत्रमें १ कंडुनामक एक महातेजवान् परमधार्मिक सत्यवादी चतुर और सब जीवोंमें हित करनेवाला ऋषि हुआ २ जो जितेन्द्रिय क्रोधको जीते हुये और वेदवेदांगको जाननेवाला उसक्षेत्रमें परमसिद्धिको प्राप्त हुआ ३ और अन्यभी अनेक ऋषि मुनि जितेन्द्रिय सब भूतोंमें हित रखनेवाले क्रोध और मत्सरतासे रहित होके वहां सिद्धिको प्राप्त हुये ४ मुनियोंने पूछा कि कण्डुनामक ऋषि कौन था और वहां कैसे सिद्धिको प्राप्त हुआ हम यह सुननेकी इच्छा करते हैं ५ ब्रह्माजी कहने लगे कि हे मुनि-शार्दूलो उस मनोहर कथाको तुम सुनो हम विस्तार सहित उसका वर्णन करते हैं ६ पवित्र मनोहर और वि-जन तथा कन्द मूल फल और पुष्पोंके मध्यमें शोभित गोमतीके तीरपर ७ अनेक प्रकारकी लताओंसे आ-कीर्ण पुष्पोंसे शोभित अनेक प्रकारके पक्षियोंके शब्दोंसे रमणीक अनेक भांति के मृगोंके गणोंसे युक्त और केलेके खंडोंसे मण्डित ८ ९ क्षेत्रमें वह मुनि व्रत उपवास नियम स्नान और मन्त्रों से तप करने लगा १० और ग्रीष्म ऋतुमें पंचाग्नि तपके वर्षा ऋतुमें स्थंडिल अर्थात् चौतरे पर शयन करके और हेमन्त समयमें गीले वस्त्र पहिर करके उस ऋषिने परम अद्भुत तप किया ११ नि-दान उस मुनिके तपको देखके देव गन्धर्व सिद्ध विद्या-धर आदि सब विस्मित होगये १२ और हे मुनियो उस

कंडुऋषिने पृथ्वी आकाश और त्रिलोकीको अपने तप के बलसे सन्तापित करदिया १३ तब उसको तपमें स्थित देखके देवते कहनेलगे कि अहो इसका परम धैर्य और परमतपहै १४ निदान इन्द्रसहित सबदेव-तोंने भयसे उद्विग्नहो उसके तपमें विघ्नकरने की इच्छा से सलाहकी १५ और त्रिभुवनके ईश्वर इन्द्रने उनके अभिप्राय को जानके रूप यौवन से गर्वित और सब लक्षणोंसे सम्पन्न सुन्दरकटि जांघ और उदर तथा कुचाओंवाली प्रम्लोचा अप्सरासे कहा कि हे प्रम्लोचे हे शुचिस्मिते जहां वह मुनि तपताहै वहां तू उसके तप के विघ्नके लिये शीघ्रजा १६।१८ प्रम्लोचा कहनेलगी कि आपके वाक्यको मैंने कभी नहीं टाला परन्तु इसमें मेरे जीवनेकी शंकाहै १९ हे विभो वह मुनि ब्रह्मचर्यमें नित्य स्थित अति उग्र तपकरताहै और अग्नि तथा सूर्यके समान कांतिवाला है २० मुझको विघ्नके लिये आई जानके शापदेदेवेगा २१ इसलिये उर्वशी मेनका रुभा घृताची पुंजिका स्थली विश्वाची सहजन्या पूर्व-चित्ति तिलोत्तमा अलंबुषा सुकेशी शशीलेखा वरांगना आदि अन्य जो रूप यौवनसे गर्वित सुन्दरमुख और कडी तथा ऊंचीकुचोंवाली और कामदेव प्रधानवालि-योंमें कुशल अनेक अप्सरा हैं उन्हें आप वहां भेजिये २२।२४ उसके यह वचन सुन शचीपति इन्द्र बोला कि हे शुभे उनकुशल अन्य अप्सराओंको रहनेदो मैं तेरी सहायके लिये कामदेव वसन्तऋतु और वायुको भेजूंगा २५ हे सुश्रोणि जहां वह मुनि है तहां तिनके संग नू

जा इन्द्रके यह वचनसुन उस सुन्दरनेत्रोंवाली अप्सरा  
 ने कामदेव आदिकोंके संग आकाशमार्गसे मुनिके आ-  
 श्रममें जाके उसे देखा २६।२७ और तपसे दीप्त और  
 पापसे रहित उस मुनिके आश्रममें उसने नन्दनवनके  
 समान सब ऋतुके पुष्पोंसे युक्त और शाखामृगगणों  
 सहित पवित्र पल्लव आदिकोंसे शोभायमान बगीचा  
 देखा और प्रीति उत्पन्न करनेवाले सुन्दर शब्दोंको बो-  
 लते और कानोंको रमणीक करते पक्षियोंके मधुर रकल  
 रवको सुना २८।३२ सब ऋतुओंके पुष्पों तथा फलोंसे  
 युक्त आंब आँवला नारियल टेंडु मुखविंद अनार विजो-  
 रा पनस बड़हल कदम्ब शिरीष फालसे भिलावे इंगुदी  
 कनेर हर बहेरा ३३।३६ तथा अशोक पुन्नाग केतकी  
 चम्पा सातला कर्णिकार मालती पारिजात अमलतास  
 मन्दार पाटला और देवदारु शाल ताड़ तमाल वृक्ष ज-  
 लवेत और अन्य रचेहुये अनेक फलों और पुष्पोंवाले  
 वृक्षोंपर ३७।३८ चकोर मयूर भौंरे कोकिला राजहंस  
 हारीत जीवजीवकपक्षी प्रियपुत्र पपैये तथा अनेकप्र-  
 कारके और पक्षी मधुरस्वरसे कानोंको रमणीक करते  
 हुये स्थितथे ३९।४० और सुन्दर जलवाले सरोवरों  
 में कुमुद पुण्डरीक नीलेकलहार कमल चारोंतर्फ शो-  
 भितथे ४१ और बगुले चकवा चकवी कुञ्ज आदिक  
 पक्षी ४२ तथा कारण्डव सञ्ज्ञक पक्षी हंस कछुवे मगर  
 मच्छ और अन्य जलचारी जीवोंसहित ४३ उस वन  
 में वह अप्सरा फिरनेलगी और उस परमअद्भुत वन  
 को देख ४४ आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्रोंवाली ही वायु



बसन्त और कामदेवसे कहनेलगी कि ४५ आप सब जुदे जुदे मेरी सहायकरो ऐसे कहके और अपनी शक्ति के क्षोभसे गर्वितहोके बोली ४६ कि अब मैं वहां जातीहूँ जहां वह देहको प्राप्तकरनेवाला इन्द्रियरूप अश्वका यन्ता अर्थात् नहीं रोकनेवाला मुनिहै ४७ वनरूपी शस्त्रसे तिस इन्द्रियरूपी अश्वकी रश्मि अर्थात् रस्सीको मैं काटूंगी ४८ और यदि ब्रह्मा विष्णु अथवा रुद्रभी उसकाहितकरेंगे तोभी मैं अबकामबाणसे इसको क्षीणकरूंगी ४९ ऐसे कहके जहां वह मुनि स्थितथा गई और उस मुनिके तपके प्रभाव से श्वापद जीवोंके प्रशान्तरूप आश्रय ५० उस नदीके किनारेपर कोकिलोंकेसे मधुरस्वरसे बोलनेलगी ५१ फिर किंचित्काल ठहरके मधुर २ स्वर से गानेलगी बसन्त ऋतुकासा समाबंधगया ५२ मधुर स्वरसे कोकिला बोलनेलगी और मलयाचल पर्वतसे स्पर्शकरती ५३ और हौले २ पवित्र पुष्पोंकी सुगन्धकोलिये सुन्दरवायु चलनेलगी निदान उसने कामदेवकी सहायतासे मुनिको क्षोभित किया और वह मुनि गीतध्वनि सुनके विस्मितहो कामबाणसे अतिपीडितहुआ जहां वह अप्सराथी ५४ ५६ गया और उसको देखके आश्चर्यसे उसकेनेत्र उत्फुल्लितहोगये उत्तरीयवस्त्र उतरगया और रोम खड़ेहोगये ५७ तब वह उस अप्सरासे कहनेलगा कि हे सुभगे हे सुश्रोणि हे सुन्दर हासवाली तू किसकी स्त्री है सत्य कह हेसुमध्यमे तूतो मेरे मनको हरती है ५८ प्रम्लोचा कहनेलगी कि हे मुने मैं तेरेही काम करनेको यहां आई

हूं पुष्प आदि लानेका जो कामहो मुझको जल्द आज्ञा दे कि मैं उसे कियाकरूं ५६ ऐसे उसके वचन सुनके वह मुनि धैर्यको त्याग मोहितहुआ उसका हाथ पकड़ अपने आश्रमको लेगया ६० और काम वायु और बसन्तऋतु जैसे आयेथे तैसेही कृतकृत्यहोके स्वर्ग को चलेगये ६१ पश्चात् इन्द्रदेव उस अप्सरा और हरिका सम्यक्चेष्टित वृत्तान्तसुनके प्रसन्नहुआ ६२ और कण्डु ऋषि उस अप्सराके संग अपने आश्रममें प्रवेश कर तपकेवलसे मदनकी आकृति दिव्यवस्त्रोंको धारणकिये और दिव्यमाला और गन्धसे भूषित सब भोग तथा उपभोगोंसे सम्पन्नहुआ जिसे देख प्रम्लोचा अति मुदित हो कहनेलगी कि अहो इसके तपका पराक्रम है ६३ ६५ निदान स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय देवता का पूजन व्रत उपवास नियम ध्यान आदिको त्यागके मुदितहुआ वह मुनि राति दिन उसकेसंग रमण करने लगा ६६ और कामसे आसक्तहो परमतपको भूलसंध्या दिन पक्ष मास वर्ष ६७ विषयभोगमें लगारहा और उस अप्सराने भी काम आदिकों के भारसे उसे त्याग न किया ६८ निदान उस सुन्दर कटिवालीके संग कण्डु ऋषिने सौवर्षोंसे भी अधिक रमणकरके ६९ मन्दराचल पर्वतकी गुफामें ग्राम्यधर्म स्वीकारकिया तब वह अप्सरा बोली कि हे महाभाग मैं स्वर्गमें जानेकी इच्छा करतीहूं ७० आप प्रसन्नहोके मुझको आज्ञादेँ उसके ऐसे वचन सुन उसमें आसक्तमनवाला वह मुनि ७१ बोला कि कुछदिनतो यहांही ठहरना चाहिये यहकहनेके

बाद सौवर्षसे अधिक फिर वह कोमलांगी अप्सरा उसके संग अनेक भोग भोगके ७२ कहने लगी कि हे भगवन् आप आज्ञा दें तो अब मैं स्वर्गलोकको जाऊँ ७३ उसके वचन सुन फिर वह मुनि कहने लगा कि अभी तो ठहरना चाहिये ७४ निदान फिर जब भोगविलास करते डेढ़सौ वर्ष बीते तब वह शुभानना कहने लगी कि हे ब्रह्मन् अब मैं स्वर्गलोक को जाऊँगी ७५ तब वह मुनि नेत्रोंको फैलाय कहने लगा कि हे सुभ्रु तू क्षणभर और स्थित रह ७६ यह सुनके डरती हुई वह अप्सरा कुछकम दोसौवर्षतक उसके पास ठहरीरही ७७ निदान जब २ यह स्वर्गलोक जानेको कहती तब २ वह मुनि ठहरनेको कहताथा ७८ और वह उसके शापके भयसे पीड़ितहुई कुछभी न कहसक्ती ७९ निदान उसके संग बसताहुआ वह महर्षि दिन प्रतिदिन कामदेवमें आसक्तमन कियेहुये नवीन २ प्रेम बढ़ातारहा ८० एक समय वह मुनि अपनी कुटीके इधर उधर डोलताथा ८१ तब वह अप्सरा बोली कि कहांजाते हो यह सुन वह मुनि बोला कि ८२ हे शुभे मैं संध्योपासन करूंगा क्यों कि क्रियाके लोपसे अन्यथा होजाताहै ८३ तब वह अप्सरा हँसके मुनिसे कहनेलगी कि हे सर्वधर्मज्ञ आज के दिन क्या कोई बड़ापर्व है ८४ वा आजका दिन तेरे बहुत वर्षोंके भोगका परिणामहै क्योंकि इतने काल तक आपने कुछ नहीं किया यह बड़ा आश्चर्य है ८५ नौसै सातवर्ष छःमहीने और तीनदिन बीतचुके हैं ८६ ऋषि बोला हे भीरु तू सत्य कहती है अथवा हास्यहै मैं तो

तेरे संग वास करतेहुये एकही दिन मानताहूं ८७ प्र-  
 म्लोचा बोली हे ब्रह्मन् मैं क्या आपके आगे भूठबो-  
 लतीहूं और इष्टकालको जाननेवाले आप नहींजानते  
 ८८ वेद व्यासजी बोले कि हे मुनिसत्तमो वह मुनि उ-  
 सके वचन सुनके अपने आपको धिक्कारकरके ८९ बोला  
 कि मेरे तप नष्टहो गये और ब्रह्मवेत्ताओंका धन और  
 विवेक हरलियागया यह स्त्री मोहके वास्ते किसने रची  
 है ९० ब्रः उर्मियों में अतिगत और आत्मासे विज्ञेय  
 ज्ञातब्रह्मगति जिसने हनन करदी उस महा ग्रहरूपी  
 कामको धिक्कारहै ९१ मेरे व्रत वेद और सबकर्म ग्राम्य  
 मार्गसे कामदेवने हतकरदिये ९२ ऐसे वह धर्मज्ञमुनि  
 अपनी निंदाकरके उस अप्सरासे बोला कि ९३ हेपापे  
 तेरी इच्छाहो तहांजा देवराजका कार्य तो तूने करदिया  
 ९४ मैं तुम्हको क्रोधरूप तीव्रअग्निसे भस्म तो न क-  
 रूंगा क्योंकि तेरे संग मैंने भोग और प्यारकियाहै ९५  
 अथवा तेरा इसमें क्या दोषहै तुम्हपर मैं क्या क्रोधकरूं  
 इसमें तो सब मेराही दोषहै क्योंकि मैं अजितेंद्रिय हो-  
 गया ९६ तूने इन्द्रके प्यारसे मुझे महामोहित करदिया  
 इससे तुम्हको धिक्कारहै ९७ वेदव्यासजी बोले कि उस  
 विप्रर्षिके वचन सुन वहसुमध्यमा अप्सरा पसीनेसे नहा  
 उठी और कांपनेलगी ९८ पश्चात् उस कांपती हुई  
 खिन्नगात्रा और नतासे क्रोधितहो वह मुनिबोला कि च-  
 लींजा २ निदान्त उसमुनिके घुड़कनेपर वह अप्सरा उस  
 आश्रमसे निकसपसीनेको पोंछते आकाशमार्गकी रस्ता  
 लिया ९९ । १०० जब उसने फिरतेहुये पसीनेको वृक्षों

के पत्तोंसे पोंछा तो ऋषिने जो उसमें गर्भस्थापित किया था १०१ वह रोमोंके द्वारा स्वेदरूपहोके निकसा और उन वृक्षोंने उसे ग्रहणकिया निदान वह गर्भ हौलें २ बढ़नेलगा १०२ और वृक्षों के सुन्दर नेत्रोंवाली एक कन्या पैदा भई जो प्राचेतसोंकी भार्या और दक्षकी माता हुई १०३ इधर कण्डुऋषि तप क्षीण होजानेपर विष्णु के आराधनके लिये पुरुषोत्तमतीर्थको गया १०४ और दक्षिण समुद्रके किनारे मुक्तिको देनेवाले पृथ्वी में दुर्लभ उस परमक्षेत्रको देखा १०५ कि सुन्दर महलोंसे युक्त केतकीके बनसे शोभित अनेक प्रकारके वृक्ष और लता आदिकोंसे आकीर्ण और अनेकभांतिके पक्षियों के शब्दसे कूजित तथा सबजगह सुखके संचारसे युक्त और मनुष्यों को सब प्रकारके सुख देनेवाला है और धन्य और गुणों की खान और भृगु आदिक मुनिवरों गन्धर्वों किन्नरों यक्षों तथा अन्य मोक्षकी इच्छा करने वाले पुरुषोंसे सेवित सब देवताओं से अलंकृत एवम ब्राह्मण आदिक वर्णाश्रमों से सेवित हरिभगवान् विराजमान हैं १०६ । १०९ पुरुषोत्तम देवके दर्शन कर उसने अपने आत्माको कृतकृत्य माना ११० और एकाग्र मनसे ब्रह्मपारका जपकरताहुआ हरिका आराधन १११ और ऊर्ध्वबाहुसे स्थित महायोगी होके तप का आचरण करनेलगा ११२ मुनियोंने पूछा हे भगवन् हम परमशुभ ब्रह्मपारको सुननेकी इच्छा करतेहैं जिससे कण्डुऋषिने केशव भगवान् का आराधनकिया ११३ वेदव्यासजी कहनेलगे कि वह ब्रह्मपार पार है और पर है

विष्णुहै अपार पारहै परोंसेभी परे है परमात्मारूप है परपारभूतहै और परोंकेभी पारपरहै ११४ वह कारण सहित और कारणके संश्रितहै और हेतु तथा परपार के हेतुहै वह कर्मकर्ता है और अनेकरूपोंसे सबसंसार की रक्षाकरताहै ११५ वह ब्रह्म प्रभुहै और सबकी उत्पत्ति ब्रह्मसेही है प्रजाकापति अच्युत अव्यय नित्य विष्णुरूप और सम्पूर्ण अपक्षयादिक संगोंसे रहितहै ११६ जैसे अज और नित्य वह पुरुषोत्तम है तैसेही मेरेभी रागादिक दोष शांतिको प्राप्तहों ११७ पुरुषोत्तम पारब्रह्मकी ऐसी स्तुति सुनके वह परम तथा दृढ़ भक्ति और प्रीतिसे ११८ भक्तवत्सलदेवके समीपजाके मेघसरीखे गंभीर नादसे दिशाओं को नादित कराता हुआ स्तुति करनेलगा ११९ और उसकी भक्तिदेख गरुड़पर असवार भगवान् वहां आके कहनेलगे १२० कि हे मुने तेरे मनमें जो परमकामनाहै उसे कह हेसुब्रत मैं वरदेनेवाला प्रस्तुतहूँ तू वरमांग १२१ उसदेवदेव चक्री भगवान् का यह वचन सुनके उसने एकबार नेत्र मीच आगे हरिको देखा कि १२२ अलसीके पुष्प सरीखी कान्ति और पद्मका पत्रके समान नेत्रोंवाले भगवान् चतुर्भुज शंख चक्र और गदाको हाथमेंलिये मुकुट तथा बाजूबन्द को पहिने पीले वस्त्रोंको धारण कियेहुये श्रीवत्सचिह्न और बनमालासे विभूषित सब लक्षणों संयुक्त सब रत्नोंसे विभूषित और चन्दनआदिकों से लिप्त मूर्तिसे विराजमान हैं ऐसे भगवान् के दर्शनकरके वह अति आश्चर्यित और रोमांचितहो

दण्डवत् प्रणामकरनेलगा १२३। १२६ और बोला कि  
 अब मेरा जन्म सफल हुआ और अब तप भी सफल  
 हुये ऐसा कहके उसने स्तोत्रका प्रारम्भ किया कि हे  
 नारायण हे कृष्ण हे श्रीवत्स चिह्नवाले हे जगत्पते ज-  
 गद्धाता जगद्धाम और जगत्साक्षि आपको नमस्कार है  
 १२७। १२८ हे अव्यक्त हे जेता हे उत्पत्ति करनेवाले हे  
 प्रधान हे पुरुषोत्तम हे पुण्डरीकाक्ष हे गोविन्द हे लोक-  
 नाथ आपको नमस्कार है १२९ हे हिरण्यगर्भ हे श्री-  
 नाथ हे पद्मनाभ हे सनातन हे भूगर्भ हे ध्रुव हे ईशान  
 हे हृषीकेश आपको नमस्कार है १३० हे अनाद्य हे अमृत  
 हे अजेय हे अजित हे अखण्डल हे कृष्ण हे श्रीनि-  
 वास आपको नमस्कार है १३१ हे योगात्मा हे सर्व  
 मायात्मा हे लोकात्मा हे सनातन हे कूरस्थ अवल दु-  
 विज्ञेय और कुशेशय आपको नमस्कार है १३२ हे वरे-  
 ण्य हे गुणाकर हे प्रलय उत्पत्ति और योगके ईश हे  
 वासुदेव आपको नमस्कार है १३३ हे पर्जन्य हे धर्म  
 कर्ता हे दुष्पार हे दुरधिष्ठित हे दुःखार्तिनाशन हे हरे  
 हे जलशायी आपको नमस्कार है १३४ हे विश्वात्मा हे  
 परमात्मा हे चन्द्र सूर्य और वायुरूप हे शुचिश्रवा हे  
 शुचिवर हे लीलवन आपको नमस्कार है १३५ हे यज्ञा  
 हे यज्ञधाता हे अभयप्रद हे यज्ञगर्भ हे हिरण्यांग हे  
 पृथ्वीगर्भ आपको नमस्कार है १३६ हे वरेण्यवरद हे  
 अनन्त हे ब्रह्मयोनि हे गुणाकर हे प्रलयउत्पत्ति और  
 योगके ईशभूत हे तत्त्वों से अनाकुल १३७ हे भूताधि-  
 वास भूलात्मनू हे भूतगर्भ आपको नमस्कार है १३८

हे स्थूल तथा सूक्ष्मरूप शुद्ध और अभयंकर आपको  
 नमस्कारहै १३९ हे क्षेत्रज्ञभूत क्षेत्रज्ञ क्षेत्रहा क्षेत्रवित्  
 क्षेत्रात्म क्षेत्ररहित और क्षेत्रसृष्टा आपको नमस्कारहै  
 १४० हे गुणालय हे गुणावास हे गुणाशय हे गुणावह  
 हे गुणभोक्ता हे गुणाराम हे गुणत्यागी आपको नम-  
 स्कारहै १४१ हे भगवन् आपही विष्णुहो और आप  
 ही हरि चक्री और जेता तथा जनार्दनहो आपही व-  
 षट्कार भव्य और प्रभुहो १४२ और आपही भूतकृत्  
 मध्य भूतभृत् भूतभावनदेव और शुभरजनीहो १४३  
 आपही अनन्तहो कृतज्ञहो कृतिहो और वृषाकपिहो  
 आपही रुद्रहो दुराधर्षहो और अनाद्य ईश्वरहो १४४  
 आपही विश्वकर्माहो जिष्णुहो शम्भुहो और वृषाकृति  
 हो और आपही उशना सत्य और तपोधनहो १४५  
 आपही विश्वरेताहो आपही शरण्यहो आपही अक्षर  
 हो और आपही शम्भु स्वयम्भू ज्येष्ठ और परायणहो  
 १४६ आपही आदित्यहो आपही अंकारहो आपही  
 प्राणहो आपही तमिश्रहाहो आपही मेघहो और सुरे-  
 श्वरहो १४७ और आपही ऋग् यजु और सामयेहो  
 आपही अग्निहो आपही पवनहो आपहीजलहो और  
 आपही पृथ्वी हो १४८ आपही श्रेष्ठ तथा भोक्ता हो  
 आपही होताहो आपही हविहो और आपही यज्ञरूप  
 हो आपही प्रभुहो श्रेष्ठविभुहो लोकपतिहो स्तुतहो १४९  
 लोकहो धर्महो धारणाहो सर्वदर्शनहो श्रीमान्हो १५०  
 और आपही दिन तथा रात्रीहो आपहीको प्रण्डितजन  
 वर्ष कहते हैं आपही काल हो कला हो काष्ठाहो और



मुहूर्त्तहो १५१ और आपही बाल तथा वृद्ध और पु-  
 मान् स्त्री तथा नपुंसक हो आपही विश्वयोनि और  
 वभ्रुस्थाणु तथा शुचिश्रवा हो १५२ आपही शाश्वत  
 अजित उपेन्द्र और उत्तमहो आप सर्वहो चित्सुखद  
 हो वेदांगहो और अविनाशी हो १५३ और आपही  
 वेदविध्याहोताहो विधाताहो और आश्रितहो आपही  
 जगन्निधि मूल धाता और पुनर्वसुहो १५४ और आ-  
 पही वेत्ता धृतात्मा और यतीन्द्रियगोचर अग्रणी ग्रा-  
 मणी सुपर्ण और आदिमान् हो १५५ आपही संग्रह  
 तथा संग्रहकृतहो धृतात्मा और अच्युतहो यमहो नि-  
 यमहो प्रांशुहो और चतुर्भुजहो १५६ आपही आत्मा  
 और परमात्मा हो और आपही चारमुखोंवाले ब्रह्मा  
 हो इन्द्र हो और अग्रज हो १५७ आपही गुरु हो  
 और आपही गुरुत्तम हो आपही बास हो और आ-  
 पही दक्षिण हो आपही पिप्पल हो आगम हो १५८  
 हिरण्यदेवाभहो देवेशहो प्रजापतिहो और अनिर्देश्य  
 बपुधृक् हो आपही यम और सुरारिहा हो संकर्षणदेव  
 हो सनातन कर्त्ता हो १५९ और आपही वासुदेव हो  
 अमेयात्माहो गुणवर्जित हो आपही ज्येष्ठ हो वरिष्ठहो  
 विभुहो माधवहो १६० और सहस्रशीर्षादेवहो अव्यक्त  
 हो सहस्रदृक्हो हजार पैरोंवाले हो और विराट् तथा  
 सुराट् प्रभु हो १६१ हे देव आप दशांगुलमें स्थित  
 रहते हो और क्षांतरूपहो शक्रहो इन्द्रहो १६२ वाच्य  
 हो ईशानहो मृत तथा अमृतहो और आपहीसे लोक  
 मोहको प्राप्त हो रहा है आपही उत्तम पृथ्वीपालहो १६३

आपही अतिवृद्ध पुरुषहो और हे देव आपही दशप्रकारसे स्थितहो आपही विश्वभूत चतुर्भाग हो १६४ आपही नरभागहो आपही स्वर्गमें अमृतरूपहो और आपही सनातन पुरुषके सब भाग आकाशमें स्थितहैं १६५ और दोभाग आपके पृथ्वी में स्थित हैं आपके तेजसे जगत्का व्यष्टिकारण होताहै १६६ आपही से विराट् उत्पन्न होता है और आपही जगत् को प्रसन्न करनेवाले पुरुषहो आप अपने तेजसे पृथ्वी में सबके ईशहो १६७ आपही से देवताओं की उत्पत्ति हुई है और ग्राम्य अरण्यमें होनेवाली औषध पशुमृगादिक येभी आपही उत्पन्न हुये हैं १६८ और आपही ध्येय हो आपही ध्यानपरहो आपही कृतवान्हो आपही देव देव और कालारूयहो और दीप्तविग्रहहो १६९ स्थावर जंगम चराचर जगत् सब आपहीसे उत्पन्न हुआहै और आपही में प्रतिष्ठित है १७० हे देवसर्व हे सुरश्रेष्ठ हे सर्वलोकपरायण हे अरविंदाक्ष हे नारायण मेरी रक्षाकरो आपको नमस्कार है १७१ हे भगवन्विष्णो आपको नमस्कार है हे पुरुषोत्तम हे सर्वलोकेश हे कमलाशय आपको नमस्कार है १७२ हे गुणवर्जित हे गुणरूप आपको नमस्कार है हे गुणालय हे गुणाकर आपको नमस्कार है १७३ हे वासुदेव हे सुरोत्तम हे जनार्दन हे सनातन आपको नमस्कार है हे योगवास हे योगियोंकोगम्य आपको नमस्कार है १७४ हे गोपते हे श्रीपते हे जिष्णो हे मरुत्पते हे जगत्पते और हे ज्ञानियोंकेपति आपको नमस्कार है १७५ हे दिवस्पते हे

महीपते हे मधुको मारनेवाले हे पुष्करेक्षण आपको  
 नमस्कार है १७६ हे कैटभारे हे सुब्रह्मण्य हे महासीन  
 हे श्रुतिपृष्ठधर हे अच्युत आपको नमस्कार है १७७  
 हे समुद्रमलिनक्षोभ हे पद्मजाह्लादकारण आपको नम-  
 स्कार है १७८ हे अश्वशीर्षि हे महास्वन हे महापुरुष  
 विग्रह हे मधुकैटभकेहन्ता हे तुरगानन आपको नम-  
 स्कार है १७९ हे महाकच्छरूप पृथ्वीके उद्धारकरनेवाले  
 और हे विभूत अद्रिस्वरूप हे महाकूर्म रूप आपको  
 नमस्कार है १८० हे महाबाराहरूप पृथ्वी को उद्धार  
 करनेवाले हे श्वादिवराह विश्वरूप वेधस आपको न-  
 मस्कार है १८१ हे अनन्त सूक्ष्म मुख्यवर परमात्मस्व-  
 रूप योगिगम्य आपको नमस्कार है १८२ हे कारण  
 रूप हे योगेन्द्र चित्तालय हे मुर्भेद क्षीरार्णवमें आश्रित  
 महासर्पपर शयनकरनेवाले और सुवर्ण तथा रत्नोंके  
 कुण्डलोंको धारणकरनेवाले आपको नमस्कार है १८३  
 वेदव्यासजीबोले कि इसप्रकार उसकी स्तुतिसुन भग-  
 वान्बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ जो तू मुझसे चाहता है उसको  
 जल्दसांग १८४ कण्डुमुनि कहनेलगा कि हे जगन्नाथ इस  
 दुस्तर और लोमहर्षण और अनित्य दुःख विशेषवाले  
 कदलीदलसन्निभ १८५ निराश्रय निरालम्ब जलके  
 बुलबुलेके समान सर्वोपद्रव संयुक्त और अतिभयंकर  
 संसार में मैं भ्रमता हूँ १८६ सो हे देव आपकी माया  
 से मोहित हुआ मैं बहुत कालतक विषयासक्तरहा पर  
 इस संसारके अन्त को नहीं पहुँचा १८७ हे देवेश मैं  
 संसारके भयसे पीड़ित हुआ स्तुतिकरके आपकी शरण

हुआ हूँ इसलिये आपजल्द इस संसाररूपी समुद्रसे मेरा उद्धार करो १८८ हे भगवान् आपके सनातन परम-पदको जानेकी मैं इच्छाकरता हूँ जहांसे फिर आवृत्ति नहो और जो दैत्यदानवांसे दुर्लभ आपका पद है १८९ श्रीभगवान् बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ तू मेरा भक्त है और इस क्षेत्रमें तूने मेरा आराधन किया इसलिये जो तू चाहता है उस मोक्षपदको मेरे प्रसादसे प्राप्त होवेगा क्योंकि १९० मेरे भक्त क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री तथा चाण्डालादिकभी परमसिद्धिको प्राप्त होजाते हैं हे द्विजोत्तम फिर तेरा क्या कहना है १९१ वेदव्यासजी बोले कि वे भक्त बत्सल देव और दुर्विज्ञेय गतिवाले विष्णु उससे ऐसे कहके अन्तर्धान होगये १९२।१९३ हे मुनिश्रेष्ठो उनके जानेके पीछे प्रसन्न मनवाला कंडु ऋषि सब कामनाओंको त्याग स्वस्थचित्त हो १९४ सब इन्द्रियोंको रोक और ममता और अहंकारसे रहित हो एकाग्रमन से उस पुरुषोत्तम भगवान्को जान १९५ निर्लेप निर्गुण शान्त सत्तामात्र व्यवस्थित और देवताओंको भी दुर्लभ मोक्षको प्राप्त हुआ १९६ जो पुरुष इस कण्डु महात्माकी कथाको कहेगा और सुनेगा वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकको प्राप्त होजावेगा १९७ हे मुनिश्रेष्ठो यह मैंने कर्मभूमि और परममोक्षका क्षेत्र पुरुषोत्तम देवका व्याख्यान कहा है १९८ जो मुक्ति देनेवाले पुरुषोत्तम भगवान्का दर्शन नमस्कार और ध्यान करेंगे वे मनुष्य सुन्दर भोगों और स्वर्गमें दिव्यसुखोंको भोगकर समस्त दोषसे रहित हरिके अव्यय स्थानको प्राप्त होंगे १९९॥

लोमहर्षणजी बोले कि हे द्विजोत्तमो व्यासके वचन सुन बारम्बार विस्मित और प्रसन्न हो १ मुनियों ने कहा हे भगवन् अहो भारतवर्ष के आपने अपूर्व गुण कीर्तनकिये और श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रका उत्तम माहात्म्य सुनके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ हमारे हृदामें चिरकाल से एक संदेह है २।३ पर हे लोमहर्षणजी महाराज आपके सिवाय इस संशयको दूर करनेवाला पृथ्वीपर कोई नहीं है ४ बलदेव श्रीकृष्ण और सुभद्राकी उत्पत्तिका वृत्तांत हम आपसे पूछते हैं ५ बलदेव और श्रीकृष्ण वसुदेवके घर किसलिये उत्पन्नहुये और सुभद्रा वहां क्यों उत्पन्नहुई ६ उन्होंने साररहित दुःखरूप पापरूप चंचल जलके बुदबुदेके समान भयंकर ७ और लोमहर्षण मर्त्यलोक में विष्ठा और मूत्रके स्थान संकटरूप और दुःखदायक घोरतर गर्भवासकी रुचि कैसे की ८ पृथ्वीपर उत्पन्नहोके उन्होंने जो २ कर्मकिये तिनको आप विस्तारसे कहो ९ जिनके अद्भुत चरित्रहैं वे सुरेश सुरसत्तम विष्णु भगवान् १० वसुदेवके कुलमें गोपभावको कैसे प्राप्तहोगये और देवताओंसे आवृत और पुरयात्मा पुरुषोंसे अलंकृत ११ देवलोकको त्यागके इस लोकमें वे क्यों आये १२ देव तथा मनुष्यों में न युक्त होनेवाले आत्मा मनुष्य शरीरमें कैसे युक्तहुये १३ और जो अनामयरूपहोके मनुष्योंके चक्रको वर्तारहे हैं उन चक्र गदाधर भगवान् ने मनुष्य शरीरमें कैसे बुद्धिकी १४ जो सब जगत्की रक्षा करते हैं वे विष्णु स्वर्ग में

रहके गोपपना कैसे करनेलगे १५ और जो भूतात्मा महाभूतोंको धारणकरते हैं वे श्रीगर्भ भगवान् स्त्री के गर्भमें कैसेआये १६ जिसने देवताओंकेलिये तीनपैड़ों से क्रमसे तीनोंलोक जीतके कर्म के मार्ग त्रिवर्ग और त्रिप्रवर रचदिये १७ जो अन्तकालमें जगत्को त्याग जलमय शरीरधारणकर दृश्यादृश्यमार्गसे लोकोंको एकार्णव करदेते हैं १८ जो पुराणात्मा बाराहरूपको धारणकर अपने मुखके अग्रभागसे पृथ्वी को लाये १९ जिन्होंने पुरुहूत अर्थात् इन्द्रके लिये इस अव्यय त्रिलोकीको दैत्योंसे जीता २० जिसने आधासिंहका और आधा मनुष्यका शरीर धारणकर महान् पराक्रमवाले हिरण्यकशिपु दैत्यको मारा २१ जिसने उर्वसे संवर्तक संज्ञक अग्निहोके पातालस्थसमुद्रके जलको पीलिया २२ जिसे हजार चरणोंवाला हजारकिरणोंवाला और हजार शिरोवाला कहते हैं २३ जिसकी नाभिसे एकार्णवलोकहुये पीछे ब्रह्माका घररूप पंकज अर्थात् कमल पैदाहुआ २४ जिसने तारकामययुद्धमें सर्वदेवमय और सब शस्त्रोंको धारणकरनेवाला शरीर धारणकरके दैत्यों का नाशकिया २५ और गरुड़पर सवारहोके कालनेमि दैत्यमारा २६ जो उत्तर समुद्रके अन्तमें क्षीरसागर में शाश्वतयोगको प्राप्तहो शयनकरते हैं २७ जो सुरारणि अर्थात् देवताओंकी माता दिव्यके गर्भमें दैत्योंके गणों को मारके इन्द्रकी रक्षाकरनेके लिये प्राप्तहुये २८ और तीनोंलोकोंमें व्याप्त होनेवाले पैरों को फैला दैत्यों को पाताललोकमें भेज देवताओं और इन्द्रको स्वर्ग का

ईश करते हैं २६ जो गार्हपत्य विधिसे और अन्वाहार्य कर्म से अग्नि आहवनीय वेदीचार दीक्षा ३० और प्रोक्षणीय ध्रुव आवभृथ्य अवाक आदि यज्ञमें हव्य विभागको करते हैं ३१ और जो हव्यको ग्रहण करने वाले देवतां और पितरोंको भागके लिये यज्ञविधि से यज्ञकर्ममें प्रवृत्त कराते हैं ३२ जो यज्ञपात्र दक्षिणा दीक्षा क्षमस उलखल धूप शमी श्रुवा सोम पवित्रा आदिको युक्तकरते हैं ३३ और जो यज्ञियद्रव्य यज्ञअग्नि और श्रेष्ठ यजमानों को प्रस्तुत कराते हैं ३४ जिसने पहले श्रेष्ठ कर्मों से इनका विभागकिया और युगों के अनुसार रूपधरके लोकों में क्रमसे ३५ क्षण निमेष काष्ठा कला त्रिकाल मुहूर्त्त तिथी मास दिन वर्षकोरचा ३६ जिसने ऋतुकाल योग अनेकप्रकारके प्रमाण आयुक्षेत्र लक्षण रूप सुन्दरता ३७ तीन लोक तीन देव तीनअग्नि त्रिकाल तीन कर्म तीनवर्ण तीनगुण ३८ सब मनुष्योंसे पहलेही रचदिये जो सब भूतोंकी गति सर्वभूतगुणात्मक ३९ और मनुष्योंके इन्द्रियरूपहोके रमण करते हैं जो गताऽगतयोगसे ईश्वर ४० और जो धर्मयुक्तोंकी गति पापकर्मवालोंकी अगति और चारो वर्णोंकी उत्पत्ति और रक्षा करनेवाले हैं ४१ जो चार वर्णोंको जाननेवाला चातुराश्रमके संश्रय और दिशा आकाश पृथ्वी वायु जल अग्नि ४२ और चन्द्र सूर्य की ज्योतिरूप और युगेश वे भगवान् हैं जो परमज्योति और परमतप सुनेजाते हैं ४३ और जो परसेभी परे और आत्मवान् हैं ४४ जो आदित्योंका देव और दैत्यों

का नाश करनेवाला और युगान्तकहै तथा जो लोकोंका अन्त करनेवाला ४५ और लोकसेतु अर्थात् मर्यादामें मर्यादारूपहै जो पवित्रकर्म करनेवालोंमें पवित्र वेदके जाननेवालोंमें वेद्य और प्रभवात्मावालोंमें प्रभुहै ४६ और जो सौम्योंमें सोमरूप अग्निसरीखे तेजवालोंमें अग्निरूप इन्द्रियोंके ईश तपस्वियों में तपरूप ४७ नयवृत्तिवालोंमें विनयरूप तेजवालोंमें तेजस्वी और आकाश प्रभव वायु बाहु प्राण अग्निरूप है ४८ जो देवताओंको हवनसे ग्रहण कियाहुआ प्राण और जो प्राणअग्नि है वह मधुसूदन भगवान् है ४९ बसा से शोणित पैदा होताहै शोणितसे मांस मांससे मेद मेद से अस्थि ५० अस्थिसे मज्जा मज्जा से वीर्य और वीर्यसे गर्भ पैदाहोताहै ५१ जहां सोर कर्म रूप रस मूलहै प्रथमभाग अर्थात् वीर्य तो सोमराशिहै ५२ दूसराभाग ग्रीष्मसे सम्भव हुआहै उसमें पहलाभाग वीर्य सोमात्मकहै और आर्त्तव अग्निरूपहै ५३ ऐसे उनके रसके अनुसार चन्द्रमा और अग्नि इज्य अर्थात् पूजितहैं ५४ फलवर्गमें वीर्य स्थितहै पित्तवर्ग में शोणितहै कफका हृदय स्थानहै और पित्त नाभिमें प्रतिष्ठितहै ५५ देहके मध्यमें जो स्थानहै सो मानस कहाताहै और कोष्ठ स्थानमें अग्नि देव स्थितहै ५६ मन प्रजापतिहै कफ सोमहै और पित्त अग्निरूप है और अग्नि सोमात्मक जगतहै ५७ ऐसे प्रवर्तित और बुदबुदाके समान गर्भमें वायु परमात्माके संसर्गसे अपना प्रवेश करताहै ५८ और शरीरमें पांच प्रकारसे



स्थित होजाताहै ५६ प्राण अपान समान उदान और  
व्यान प्राणवायु आत्माको बढ़ाताहुआ शरीरमें बर्त्तता  
है ६० अपान वायु शरीरके पृष्ठभाग में और उदान  
वायु कण्ठमें स्थितहै व्यानवायु सर्वशरीरव्यापीहै ६१  
और समानवायु नाभिमें स्थितहै तिसीसे सबभूतोंकी  
उत्पत्ति होतीहै ६२ पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि  
इन पांच तत्त्वोंसे उत्पन्नहुये शरीरमें इन्द्रिय अपना २  
योग करतीहैं ६३ देह पार्थिवहै प्राणवायु आत्मारूप  
है छिद्र आकाशतत्त्वहै राल आदिक जलका भिरना  
जल तत्त्वका विकारहै ६४ और नेत्रों में तेज अग्नि  
तत्त्वहै इनसबका आत्मा मनहै और विषय ग्रामहै ६५  
ऐसे इनसबप्रकारके सनातन पुरुषोंको रचतेहुये विष्णु  
भगवान् इसमृत्युलोकमें कैसे प्राप्तहोतेहैं ६६ हे ब्रह्मन्  
हमें यह बड़ा संशय और आश्चर्यहै कि मनुष्य शरीर  
की गतिको वे भगवान् कैसे प्राप्तहोगये ६७ हे महा-  
मुने विष्णुकी उत्पत्ति ६८ और उन विख्यात बलवीर्य  
अमित पराक्रमवाले और कर्मसे आश्चर्यरूप विष्णु  
के तत्त्व को आपवर्णनकरो ६९ क्योंकि देवताओं की  
पीड़ा दूरकरनेवाले उस सर्वव्यापी देव जगन्नाथ सर्व-  
लोकमहेश्वर ७० और रचना स्थिति संहारकेकरनेवाले  
और सर्वलोकोंको सुख देनेवाले अक्षय शाश्वत अन-  
न्त क्षय वृद्धिविबर्जित निर्लोप निर्गुण सूक्ष्म निर्वि-  
कार निरंजन सब उपाधियोंसे निर्मुक्त सत्तामात्र व्यव-  
स्थित अविकारी विभु नित्य परमात्मा सनातन अचल  
निर्मल नित्यतृप्त निरामय विश्वम्भर और हरिके कर्मों

की गति अति गम्भीर है ७१ । ७५ वह अनन्तात्मा प्रभव और अव्यय भगवान् नारायण सनातनहरि हैं ७६ ब्रह्मा रुद्र धर्म शुक्र बृहस्पति आदि सबोंको उस प्रधानात्मा ने पहले ब्रह्माहोके रचा ७७ और उसी भगवान् ने पूर्वकल्पमें प्रजापतियोंको रचा था ७८ फिर वे सर्वलोक महेश्वर भगवान् यदुकुलमें क्यों पैदा हुये ७९ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां स्वयम्भूष्णविसम्वादे ऋषिप्रदं  
कथननामैकसप्ततितमोऽध्यायः ७१ ॥

### बहत्तरवां अध्याय ॥

वेदव्यासजी बोले कि उस सुरेश विष्णु प्रभु विष्णु पुराण पुरुष शाश्वत अव्यय चतुर्व्यूहात्मा निर्गुण स-  
गुण वरिष्ठ गविष्ठ वरेण्य श्यामरूप भगवान्को नम-  
स्कार है १ सम्पूर्ण यज्ञके अंगोंवाले और देवताओं से  
स्तुत भगवान्को नमस्कार है २ जिससे अन्य और जि-  
ससे बड़ा कोई नहीं है ३ जिससे जगत्की व्याप्ति और  
संक्षय होती है और जिस दृष्ट अदृष्ट विलक्षण भाववाले  
४ ब्रह्मरूप देवको समाधिमें नमस्कार करके जान लेते  
हैं तिसको नमस्कार है ५ उस अविकाररूप शुद्ध नित्य  
परमात्मा सदैकरूप विष्णु जिष्णु देवको नमस्कार है ६  
हिरण्यगर्भ देव हरशंकर वासुदेव रचना स्थिति संहार  
को करनेवाले अनेक तथा एकस्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म  
रूप और अव्यक्त व्यक्तरूप मुक्तिके हेतु और जगत्में  
रचना स्थिति और संहारके मूल परमात्मा विष्णु को  
नमस्कार है ७। १० संसार के आधारभूत सर्वभूतस्थ  
अच्युत पुरुषोत्तम ज्ञानस्वरूप अत्यन्तनिर्मल आत्म-

स्वरूपसे सबजगह स्थित ११ और संसारकी स्थिति तथा रचनाकरनेवाले जगत्के ईश अज अव्यय और अनादि प्रभु १२ को प्रणाम करके मैं पहिले हुई कथा को कहता हूँ पहिले दक्ष आदिक श्रेष्ठ मुनियोंद्वारा पूछे हुये ब्रह्माजी कहनेलगे १३ कि ऋक् साम और यजुर्वेदोंको मुखसे उगलके त्रिलोकी को पवित्र करनेवाले जिस एक परिपूर्णरूप ईश्वरके १४ यज्ञको दैत्य लोप करते हैं उस अव्यक्त जन्माब्रह्मको मैं कहूंगा १५ और जिसने सृष्टिके उद्देशके वास्ते धर्म आदिक प्रकटकिये हैं तिस ईश्वरके जन्मको मैं कहता हूँ १६ तत्त्वके जानने वाले मुनियों ने जलोंका नाम नाराकहा है १७ सोही पहिले उस भगवान्का अयन अर्थात् स्थान था इस वास्ते वे सर्वव्यापी भगवान् नारायण कहेजाते हैं १८ वह सगुण निर्गुण ईश्वर चारप्रकारसे स्थित है मूर्तिमान्को बुद्धिमान्जन शुक्लदेखते हैं १९ और अग्निकी लटाओं से बढे हुये अंगवाली दूरस्थ और समीपमें स्थितहुई मूर्तिको योगिजन देखते हैं २० वासुदेव नाम वाली निर्मलमूर्तिका रूप आकाशके समानहै २१ वह सदा शुद्धहै और अपनी प्रतिष्ठासे एकरूपवाली है दूसरी पृथ्वी को मस्तकपर धारण करनेवाली शेष नाम वाली मूर्तिहै २२ जो तिर्यक्योनिके विस्तारसे तामसी है तीसरी मूर्ति प्रजापालनके कर्म करती है २३ और सत्त्वगुणमें युक्त और धर्मकी स्थिति करनेवाली है और चौथी जलके मध्यमें शेषशय्यापर शयनकरती है २४ जो रजोगुणवाली और सृष्टिकी रचना करती है ऐसी

जो हरिकी मूर्ति प्रजापालनमें तत्परहै २५ वह पृथ्वी पर धर्मका प्रचार और नियम करती है धर्मका लोप करनेवाले बड़ेहुये दैत्योंको मारती है २६ देव गन्धर्वों की पालना करती और धर्ममें तत्परहै जब २ धर्म क्षीण होताहै २७ तब २ दैत्योंकावे भगवान् नाशकरतेहैं और देव गन्धर्वोंकी पालना और धर्मकी रक्षाकरते हैं २८ और जब अपने आत्माको रचते हैं तब धर्मकोभी बढ़ाते हैं उस भगवान्ने पहले बराहरूप धारणकर २९ अपने मुखके अग्रभागसे पृथ्वीका उच्चारकिया नृसिंहरूप धारणकरके हिरण्यकशिपुको मागा प्रचित्ति आदि धर बलिको वंशधर लक्ष्मण देवोंका जीत त्रिलोकी नापली और बुधशंकर पन्नहो प्रतापवान् परशुराम रूपसे ३० कोसिद्धि दानवोंको मारा और उसी देवने प्रह्लादको मारा रामहोके ३३ त्रिलोकी को भय देनेवाले शवणको युद्धमें मारा जब आप एकार्णव समुद्र में स्नान करते थे ३४ तब सहस्रयुगों तक विभु ब्रह्मा आपकी योगनिद्राको प्राप्तहो आपकी महिमामें स्थित रहनेवाले जंगम त्रिलोकी को अपने उदरमें करके जनलाकरी प्राप्तहुये सिद्धों द्वारा स्तूयमान ३६ ईशानकी नाभि में सुन्दरमण्डित और अग्नि तथा सूर्यमान कांतिवाला ३७ और सुमेरु पर्वतकी कांतिके शिर कमलकेशरोंवाला पितामहका घर अर्थात् कस्यदाभया ३८ जब वह चारमुखोंवाला ब्रह्मा उत्पन्नहुया तब विष्णुके कानके मैलसे उत्पन्नहो

मधुकैटभ नामक ३९ महान् पराक्रम और महान् वीर्य वाले दो दैत्य ब्रह्माको मारनेके वास्ते उद्योग करनेलगे ४० और उन दुराधर्ष दैत्योंको भगवान् ने शयनसे उठ के मारा इसी प्रकार अनेककर्म उस भगवान् ने किये ४१ उन जगत्पति भगवान् ने मथुराजीमें नियमकिया ४२ देवयोनि मनुष्ययोनि तथा तिर्यक्योनि में वे वासुदेव भगवान् सदा इच्छा करके श्रेष्ठस्वभावको ग्रहण करते हैं ४३ और इच्छित कामनाओंको देते हैं ४४ हे द्विजोत्तमो इस प्रकार मैंने विष्णु भगवान् का यह प्रभाव सुनाहै अब मनुष्य शरीरमें प्राप्त हुये विष्णु के चरित्रोंको सुनो ४५ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यासऋषिसम्वादे

चतुर्व्यूहनामद्वाससतितमोऽध्यायः ७२ ॥

तिहत्तरवां अध्याय ॥

वेदव्यासजी बोलें कि हे मुनिशार्दूलो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये हरिने जो अवतार लिये लोको में विस्तारपूर्वक कहूंगा १ जब २ अधर्म प्रवृत्त होताहै तब २ धर्मकी कामनासे २ जनार्दन भगवान् साधुओं और धर्मकी रक्षा ३ और दुष्टों और दैत्योंके नाशके वास्ते युग युगमें अवतारलेते हैं ४ ५ हे विप्रो पूर्वकालमें भारसे पीड़ितहुई पृथ्वी सुमेरुपर्वतपर देवताओंके समाजमें गई और ब्रह्मा आदिक देवताओंको प्रणाम करके करुणा सहितबोली ६ कि सुवर्णका गुरु अग्निहै अग्निका गुरु सूर्य है और सब लोकोंके गुरु नारायणहै ७ अब कालनेमि आदिले दैत्य मृत्युलोकमें प्राप्तहो रातिदिन प्रजा

को बाधादेते हैं ८ क्योंकि विष्णु भगवान् ने जो काल-  
नेमि दैत्यको माराथा वह उग्रसेनका पुत्र महा असुर  
कंस नामसे विख्यात हुआ है ९ और अरिष्ट धेनुक प्र-  
लम्ब नरक और बलिका पुत्र बाणासुर १० तथा अन्य  
राजाओंके भुवनोंमें महापराक्रमवाले अन्य दुरात्माओं  
को मैं नहीं सहसक्ती ११ महाबलवाले दुष्ट दैत्यों की  
अक्षौहिणी सेनाके १२ भारसे पीड़ितहो मैं उनको नहीं  
सहसक्ती इसलिये आप मुझको धारणकरो यह आप  
को विज्ञापन करातीहूँ १३ हे महाभाग मेरा यह भार  
उतारो कि मैं अतिविक्लहो रसातलको न प्राप्तहूँ १४ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांव्यासऋषिसम्वादा

नामत्रिसप्ततितमोऽध्यायः ७३ ॥

### चौहत्तरवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि सब देवताओं ने पृथ्वी के यह  
वचन सुन उसका भार उतारने के वास्ते ब्रह्मासे कहा  
तब ब्रह्माजी ने कहा हे देवताओ पृथ्वी जो कहती है  
सो सत्य है मैं शिव तथा आप सब नारायणात्मक हैं  
और उसकी जो विभूति है १।३ तिसमें परस्पर आधि-  
क्यता न्यूनता और मध्यभाव बाधकतासे वर्तते हैं ४  
इसलिये हमसब क्षीरसागरके उत्तरतटपर चलके हरि  
का आराधन करके उसे सम्पूर्ण विज्ञितकरें ५ तो वह  
सर्वात्मा जगन्मयदेव अपने अंशसे पृथ्वी में अवतार  
लेके धर्मकी स्थितिकरेगा ६ व्यासजी बोले कि ऐसेकह  
के ब्रह्माजी देवताओं सहित वहां गये और सावधान  
मनसे गरुडध्वज भगवान् की स्तुति करने लगे ७ कि

हे सहस्रमूर्ति सहस्रबाहु तथा सहस्रमुख और सहस्र  
 पैरोंवाले और जगत्की रचना स्थिति और संहार क-  
 रनेवाले पर तथा अप्रमेय आपको नमस्कार है ८ हे  
 सूक्ष्मसेभी अतिसूक्ष्म और बड़ोंसे बड़े हे बुद्धि और  
 इन्द्रियों में प्रधान हे परात्मा हे भगवन् आप प्रसन्न  
 हो ९ हे भगवन् यह पृथ्वी महान् असुरोंसे पीड़ितहो  
 आप जगत् के परायण और अपारपार देवकी शरण  
 अपना भार उतारनेके वास्ते आई है १० और ये सब  
 देवते अश्विनीकुमार वरुण रुद्र वसु सूर्य पवन आदिक  
 सबके ११ संग मैं आपके पास इस पृथ्वीके भार उतारने  
 के वास्ते आया हूँ इसलिये आप ऐसी आज्ञा दें कि हम  
 दोषरहितहोके बसैं १२ व्यासजी बोले कि इस प्रकार  
 स्तुति किया हुआ वह परमेश्वर भगवान् श्वेत और  
 कृष्ण दोकेशोंको अपने शरीरसे उखाड़ते भये १३ देव-  
 ताओंके प्रति बोले कि ये मेरे केश पृथ्वीमें अवतारलेके  
 पृथ्वीका भार उतारेंगे और क्लेशकी हानि करेंगे १४  
 आप सब देवतेभी अपने अंशसे पृथ्वीमें उतरो और  
 पहले उतरेहुये महान् असुरोंके संग युद्धकरो १५ तब  
 सब दैत्य पृथ्वीतलमें क्षयको प्राप्त हो जावेंगे १६ मेरा  
 यह केश वसुदेवकी पत्नी देवकी के आठवांगर्भ होगा  
 १७ और कालनेमिरूप कंसको मारेगा ऐसे कहके हरि  
 भगवान् अन्तर्धान हो गये १८ और उत सब देवतों ने  
 उस ईश्वरको प्रणाम करके सुमेरु पृष्ठसे उतर पृथ्वीतल  
 में अवतार लिया १९ इधर कंससे नारदमुनिने कहा कि  
 देवकीके आठवें गर्भमें धरणीधर भगवान् पैदा होवेंगे २०

तब कंसने नारद से यह सुनके कुपितहो देवकी और वसुदेवको अपने घरमें रोकरकखा २१ निदान वसुदेव जी ने उत्पन्न हुये बालकको कंसके अर्पण किया २२ हिरण्यकशिपुके विख्यात पुत्र षड्भको विष्णुभगवान् से प्रेरीहुई निदाने क्रमसे गर्भमें प्रवेशकिया २३ और योगनिद्रा महाभाया जो सबको मोहमें प्राप्त करदेतीहै तिससे भगवान् ने कहा २४ कि हे माये मेरी आज्ञासे तू पाताललोकमें जाके तिन छःगर्भोंको एकएक करके देवकीके उदरमें प्रवेशकर २५ जब वे मारेजावेंगे तब सातवांगर्भ उसके उदरमें मेरा शेषाख्यअंश प्राप्तहोवेगा २६ इसलिये हे देवी गोकुलमें तू वसुदेवकी भार्या रोहिणीके गर्भमें प्राप्तहो २७ तो संसारके मनुष्य कहनेलगजावेंगे कि यह देवकीका सातवांगर्भ कंसकेभयसे गिरपडा २८ गर्भ के संकर्षण होनेसे उसको लोकमें संकर्षण कहेंगे और वह सफेद पर्वतके समान कान्ति वाला संकर्षण इस संज्ञाको प्राप्तहोजावेगा २९ पश्चात् में देवकी के गर्भ में उत्पन्न होऊँगा और तुम्हको यशोदाके गर्भमें प्राप्तहोनाचाहिये इसमें कुछबिलंब न करना ३० कालान्तरमें कृष्णपक्षकी अष्टमी को महा-रात्रीको मैं जन्मलूँगा और नवमीको तू जन्मलेगी ३१ और मेरीशक्तिसे प्रेरित वसुदेव मुम्हको तो यशोदाके घर पहुंचावेगा और तुम्हको देवकीके घरपै लेआवेगा ३२ हे देवि फिर कंस तुम्हको ग्रहणकरके शिलापर पटकैगा और तू आकाशको प्राप्तहोवेगी ३३ फिर मेरे गौरवसे तुम्हको सहस्र नेत्रोंवाला इन्द्र प्रणाम कर शिर



नवाके अपनी भगिनी अर्थात् बहेन बनावेगा ३४ और शुम्भ निशुम्भ आदि हजारों दैत्योंको मार तू पृथ्वीके सम्पूर्णस्थानों को मण्डित करेगी ३५ कीर्त्ति क्षांति द्यौ पृथ्वी द्युति लज्जा पुष्टि माया एनसा ३६ आर्या दुर्गा देवि गर्भविके भद्रा भद्रकाली क्षेम्या क्षेमंकरी आदि नामोंसे मनुष्य तेरी स्तुतिकरेंगे ३७ और प्रातःकाल तथा अपराह्नमें जो नम्रहोके तेरीस्तुतिकरेंगे तिनकी मनोकामना मेरेप्रसादसे होजावेगी ३८ जो तुझको मदिरा मांस मक्ष्य भोज्य इत्यादिक उपहारों से पूजेंगे तिनकी सम्पूर्णकामना तू पूरीकरेगी ३९ और वे सब मेरी प्रसन्नतासे संदेहसे रहितहो इच्छितफलको पावेंगे हे निद्रे अब तू जा ४० ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांअंशावतारेयोगनिद्रासमाज्ञापन-  
ब्रामचतुःसप्ततितमोऽध्यायः ७४ ॥

### पचहत्तरिवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि जैसे उस जगद्धात्री देवीसे भगवान् ने कहाथा तैसेही उसने यथाक्रमसे षड्गर्भों का आकर्षण किया १ जब बलदेव रोहिणीके गर्भमें प्राप्त होचुके तब त्रिलोकीके उपकारके वास्ते देवकीके गर्भमें आपभगवान् ने प्रवेशकिया २ और जिसदिन भगवान् ने जन्मलिया उसीदिन जैसे कहाथा उसीप्रकार यशोदाके गर्भसे योगनिद्राभी उत्पन्नहुई ३ उससमय सब ग्रहोंकेगण श्रेष्ठ रीतिसे विचरनेलगे और जब विष्णु का अंश पृथ्वीमें प्राप्तहुआ तब ऋतुभी सुन्दरहोगई ४ देवकीमें ऐसा तेजहोगया कि किसीसे देखीनगई और

ऐसी प्रकाशमान हुई कि उसके देखनेसे चकचौंधी प्राप्त होती थी ५ जब वह ऐसी प्रकाशमान होगई तब उसके समीप देवता आके रातिदिन उसकी स्तुति करनेलगे ६ कि हे देवी तूस्वाहाहै स्वधाहै विद्याहै सुधाहै ज्योतिहै और तू सब लोकोंकी रक्षाके वास्ते पृथ्वीपर उतरीहै ७ हे देवि प्रसन्नहो सब मनुष्योंमें शुभकर और जिस ईश्वर ने सब जगत् धारण कररक्खाहै तिसको धारण कर ८ व्यासजीबोले कि इसप्रकार देवताओंसे स्तुति हुई देवकीने जगत्के रक्षक पुंडरीकाक्ष भगवान्को गर्भमें धारणकिया ९ और कमलरूपी सबजगत्केसूर्यरूपी वे महात्मा भगवान् देवकीसे उत्पन्नहुये १० अर्द्धरात्रीमें जब जनार्दनभगवान् उत्पन्नहुये तब मेघ मन्दमन्द गर्जनेलगे और स्वर्ग से पुष्पोंकी वर्षा होनेलगी ११ फूलेहुये कमलकेसमान कांतिवाले और चारबाहु तथा सुदर्शनचक्र को धारणकिये श्रीवत्सचिह्नवाले भगवान्की वसुदेव स्तुति करनेलगे १२ और अनेक श्रेष्ठबाणियोंसे स्तुतिकरके यह याञ्चाकिया कि मैं कंससे भयमानताहूँ १३ इसलिये हे शंख चक्र गदाधरदेव आप मुझको जानके इसअपने दिव्यरूपको अपनी प्रसन्नतासे दूरकरो १४ क्योंकि हे देव इसमेरेभुवनमें उत्पन्नहुये आपको कंस जानके मेरा अभी घातकरदेवेगा १५ देवकी कहनेलगी कि आप अनन्त और अखिल विश्वरूपहो अपने गर्भमें लोकों को धारण करलेते हो आपअपनी मायासे बालकरूपहो मुझपर प्रसन्नहो १६ हे सर्वात्मन् इस चतुर्भुजरूपको आप अंतर्द्धानकरो और आपनेमुझ

में क्यों अवतारलिया सो कहो १७ भगवान् कहनेलगे कि पहले तूने पुत्रकी बांझासे मेरी स्तुति कीथी और मैंने बर दिया था सो सफल होगया क्योंकि मैं तेरे उदरमें उत्पन्नहुआ १८ वेदव्यासजी बोले कि हे मुनि सत्तमो ऐसे कहके भगवान् चुपहोगये और वसुदेव उन्हें लेके वहांसे चले तो १९ योगमाया के प्रभावसे मथुराके द्वारपाल निद्रासे मोहितहोगये और २० मेघ वर्षनेलगे शेषनाग फणोंसे आच्छादन करतेहुये वसुदेवको मिले २१ और सैकड़ों आवर्त्तों से युक्त अति गम्भीर यमुनाजी गोडोंमात्र होगई २२ पार उतरकर वसुदेवजीने देखा कि कंसका वार्षिक करलिये यमुनाके किनारे नन्दादिकगोप प्रस्तुतहैं २३ पर वह उनसे बेमिले गोकुलचलेगये जहां यशोदानेभी योगनिद्रासे मोहित हुई कन्याको जनाथा २४ निदान अतुल कान्तिवाले वसुदेव उस बालकको यशोदाकी शय्यापर सुला और उस कन्याकोले शीघ्रही लौटआये २५ पश्चात् यशोदा जागी तो नीलेकमलकी कांतिकेसमान पुत्र उत्पन्नहुआ देख अतिप्रसन्नहुई २६ और उधर वसुदेवने उसलड़की को अपने भुवनमेंला देवकीकी शय्यापै स्थितकर चुपके होरहे २७ बालकके रोनेका शब्दसुन रक्षाकरनेवालोंने शीघ्रही उठके देवकी के बालक उत्पन्नहोने का हाल कंसको जा सुनाया २८ और कंसने शीघ्रही आके उस कन्याको छीनलिया तबदेवकी उसे कंठसेलगाके वारण किया और छोड़ २ कहा २९ लेकिन कंसने उसे शिला पर पटकदिया और वह कंस के हाथसे छूटके महान्

कान्ति और शस्त्रों आठभुजाओंवाली होके अतिक्रो-  
धितहो ३० ऊँचेस्वरसे हँसके कंससे बोली कि हे कंस  
मेरेफेंकनेसे क्याहै तेरेमारनेवालेने तो जन्मलियाहै ३१  
जो देवताओंका सर्वस्वरूपहै इसलिये तूअपनीआत्मा  
काहित जल्दकरले ३२ ऐसे कहके वहदेवी दिव्यमाला  
और गन्धोंसेभूषितहुई सिद्धोंसेपूजितहो कंसकेदेखते २  
आकाशमें चलीगई ३३ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांकृष्णजन्मकथननाम

पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ७५ ॥

### षिहत्तरवां अध्याय ॥

व्यासजीबोले कि तबतो कंसने उदासीनहो प्रलंब  
केशीआदि सब दैत्योंको बुलाके कहा कि १ हे प्रलम्ब  
महाबाहुओंवाले हे केशिन् हे धेनु पूतना और अरिष्ट  
आदिक अन्यसब दैत्योंको मेरेवचन सुनाओ २ मुझे  
को हतकरनेमें कौनधैर्य नहीं करता मैं अपनी बाहुओं  
के बलसे संसारकी पालना करताहूँ ३ और देवताओं  
में भी जो मेरीआज्ञा नहींमानता उसको मैं हननकरता  
हूँ ४ परन्तु तोभी उनदुष्ट देवताओं की अधिकताका  
मुझे नाशकरना चाहिये ५ देवकीके गर्भसे उत्पन्नहुई  
कन्याने कहाहै कि जिससे मेरीमृत्यु होनाहै वह उत्पन्न  
हुआहै ६ इसवास्ते पृथ्वीपर उत्पन्न सब बालकों का  
ऐसा यत्न करनाचाहिये कि जहां कोई बालक जन्मा हो  
वहीं मारदियाजाय ७ दैत्योंको ऐसी आज्ञादे कर कंस  
अपने घरको चलागया और वसुदेव तथा देवकी को  
कैदसे छोड़ ८ कहनेलगा कि मैंने जो तुम्हारे बालक

वृथा मारेहैं यह मैंने बड़ा अन्याय कियाहै ९ पर खेद करनेसे क्याहै अवश्य यहीभावीथी तुम्हारे बालक मैंने मारदिये १० ऐसे कंस तिनको समझाके और कैदसे छोड़के अपने महलोंमें चलागया ११ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांव्यासऋषिसम्वादेवालचरित्रं  
नामपट्टसप्ततितमोऽध्यायः ७६ ॥

### सतहत्तरवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि फिर वसुदेव वहांसे छूटके जहां नन्दगोपका डेराथा गये और वहांजा अपने भ्राता नन्द को १ आदरसे मिलके बोले कि हे नन्द वृद्धअवस्थामें जो आपके यह पुत्रहुआहै सो बड़ा मंगलहुआ २ और आप सबोंने राजाका वार्षिककर देदिया है अब बहुत देर न ठहरनाचाहिये ३ निदान वे महाबलवाले गोप उस कार्यको करके अपने गाड़ों में बरतनोंको लादकर वहांसे चले ४ उधर कंसकी आज्ञापाकर बालघातिनी पूतना गोकुलमें पहुंच सोते बालकोंको रात्रीमें दूध पिलानेलगी ५ और जिसको दूध पिलाया उसके प्राण क्षणमें नाशहोगये ६ इसीतरह वह श्रीकृष्णकोभी पिलानेगई और उन्होंने उसकी चूचियोंको हाथोंसे पकड़ क्रोधयुक्तहो प्राणोंसहित पीलिया ७ तब वह पृथ्वीपर गिरपड़ी और महान्शब्द करती हुई प्राणों को त्याग दिया ८ तब उस कानोंको त्रास पहुंचानेवाले नादको सुन गोप जागे तो उन्होंने पूतनाको श्रीकृष्णको गोद में लिये पड़ीहुई देखा ९ हे द्विजो संत्रस्तहुई यशोदाने तब कृष्णको उठाकर उसपर गौ की पूंछभ्रमाई १० और

नन्दगोपने गोबरको उसके मस्तकपर लगाके रक्षाकरते हुये यह उच्चारणकिया कि ११ महानृईशों और भूतों में जो श्रेष्ठहै और जिसकी नाभीसे उत्पन्नहुये कमलसे जगत् पैदा हुआहै वह तेरी रक्षाकरें १२ और जिसने बराहरूप धारणकर अपने दंष्ट्राके अग्रभाग से पृथ्वी का उद्धार करदिया वह केशव तेरी रक्षाकरें १३ जिस भगवान् ने नृसिंहरूप धारणकर अपने नखोंसे हिरण्यकशिपुकी छातीको छेदन कियाथा वह सर्वात्मा केशव भगवान् तेरी रक्षाकरें १४ और जो एक क्षणमें त्रिविक्रमरूप और त्रिलोकीमें दीप्तशस्त्रोंवाले होगये वे वामनजी तेरी रक्षाकरें १५ तेरे शिरकी रक्षा गोविन्दकरें और कण्ठकी केशव गुदा तथा उदरकी विष्णु पैरोंकी जनार्दन १६ मुख बाहु और सब इन्द्रिय तथा ऐश्वर्यों की रक्षा नारायणकरें १७ दिशाओंमें वैकुण्ठभगवान् तेरी रक्षाकरें और विदिशाओंमें मधुसूदन भगवान् रक्षाकरें १८ हृषीकेश अम्बरमें और महीधर पृथ्वीमें तेरी रक्षा करें १९ ऐसे उसबालकको नन्दगोपने स्वस्त्ययनकरके शकट अर्थात् गाड़े के नीचे पलंग पर सुलादिया २० और सबगोप मरीहुई पूतनाके शरीरको देखके संत्रस्त हो अति आश्चर्यितहुये २१ व्यासजीने कहा कि एक समय शकटके नीचे सोतेहुये मधुसूदन भगवान् दूध के लिये रोते २ पैरोंको ऊपरको फेकनेलगे २२ जिनके प्रहारसे वह गाड़ा मों धा गिरपड़ा और उसमें धरे हुये सब भांडे बिखरगये २३ गिरनेका शब्दसुन सब गोप गोपीजन हाहाकार करतेहुये आये और बालकको सोता

देखके २४ कहनेलगे कि यह गाड़ा किसने गिरादिया तब अन्यबालक कहनेलगे कि इसीने रोवते २ अपने पैरमारकर मोंधा पटकदियाहै और अन्यका कियाहुआ यह कृत्यनहीं है २५।२६ फिर नन्दआदि गोपोंने अति विस्मितहो उस बालकको उठालिया २७ और यशोदाने उस गाड़ेमें सब बरतनोंको रखके दही पुष्पआदिसे उसका पूजनकिया २८ निदान वसुदेवके प्रेरणहूये गर्गमुनिने गोकुलमें आ अन्य गोपों से गुप्तही उन दोनों बालकोंका संस्कारकराया २९ और बड़ेका नाम राम और छोटेका कृष्ण रक्खा ३० निदान थोड़ेही काल में वे महा नियमवाले दोनों बालक खेलते और हाथों पैरों से घिसलते हुये बड़े हुये ३१ और राख आदिकों से लिप्तअंगों जहां तहां भ्रमनेलगे और यशोदा और रोहिणी रोकनेमें असमर्थ होगई ३२ वे गौओंके मध्यमें क्रीड़ा करते और बच्चोंमें डोलतेहुये गौओंकी पूंछें खींचते ३३ और अतिचंचलतासे खेलतेथे ३४ एकसमय यशोदाने श्रीकृष्णको ऊखलसे बांधकर कहा ३५ कि यदि तू चंचलहै और समर्थ है तो अबचल ऐसे कहके वह कुटुम्बिनी तो घरके काममें लगगई ३६ और कृष्णने ऊखलको खींचके ऊंची शाखोंवाले यमलार्जुन वृक्षोंको उखाड़डाला ३७ तब वे कातर ब्रजके गोप कटकटा शब्द सुनके वहांआये ३८ और स्कन्द तथा शाखाभग्न हुये और पृथ्वीमें गिरेहुये उन वृक्षों और उनके मध्यमें कुछ हँसतेहुये ३९ रस्सीमें बँधे उस बालकको देख उसका नाम दामोदर रक्खा ४० नन्द आदि सब वृद्ध

गोप उन महान् उत्पातोंसे अति डरगये और उद्विग्न हो सलाह करनेलगे कि ४१ इसस्थानमें अब हम बास न करेंगे क्योंकि यहां नाशके हेतु बहुतसे उत्पात दीखते हैं ४२ पूतनाका निवास गाड़ेका विपरीत गिरना और वायु आदिकके बिना वृक्षोंका पड़ना ४३ ये बड़ेभयंकर उत्पातहुये हैं इसवास्ते जबतक यह महान् उत्पात शान्त न होवें तबतक हम सब वृन्दावनमें जाके बासकरेंगे ४४ ऐसे वे सब ब्रजवासी सलाह करके क्षणमात्रमें वहांसे चले ४५ और ब्रजवासियों का स्थान कागोंके मण्डल से युक्तहोगया वे गोपअपने कुलके लोगोंसे कहनेलगे कि जल्दगमनकरो ४६ और गाड़े और गोधनसे युक्त हो अपने बच्चोंको गिनतेहुये वहां से चले ४७ और अछिष्टकर्म करने और गौओंमें शुभबुद्धि रखनेवाले श्री कृष्णसे वृन्दावन शोभित होगया ४८ निदान वहांवास करते जबश्रीष्मऋतु व्यतीत होगई तब वर्षाऋतुआई और वे सब ब्रजवासी वृन्दावनमें ४९ अपने गाड़ोंको अर्द्धचन्द्राकार स्थितकरके बासकरनेलगे और बलदेव तथा दामोदर बच्चोंके पालकबनकर ५० गौओंकेस्थान में अपनी बाललीलाकरने लगे ५१ मयूरके चन्दोंका मुकुट और सुन्दर पुष्पोंके गहने पहिने और गोपवेष धारण किये ५२ काकपक्ष समान शिरके बालों और अग्निके समान कांतिवाले वे दोनों कुमार उसमहान् बनमें क्रीड़ाकरते ५३ कहीं आपसमें हैंसते और कहीं गोपोंके लड़कोंके संग बच्चोंको निवारण करतेहुये विचरते थे ५४ इसीप्रकार काल व्यतीत होनेसे वे सात



४१२ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

वर्षके हुये ५५ निदान अति प्राचट्काल आया और  
मेघोंके समूहों से अम्बर क्षुभित होके ऐसा जल वर्षा  
मानों सब दिशा एक होगई ५६ नवीन शाखाओं से  
युक्त वृक्षों और तीजसंज्ञक वर्षाके जीवोंसे पृथ्वी ऐसी  
शोभित होगई मानों पद्मरागसे विभूषित मरकतमणि  
हो ५७ और भीलोंमें जल भरनेसे पृथ्वी ऐसी होगई  
मानों भयंकर मनुष्योंको नवीन लक्ष्मी प्राप्तहुईहो ५८  
और महाबलवाले श्रीकृष्ण और बलदेव गोपों के सङ्ग  
ऐसे रमण करतेथे जैसे देवताओं के संग इन्द्र ५९ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांव्यासऋषिसम्वादेवाले

क्रीडाचरितं नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ७७ ॥

अठहत्तरवां अध्याय ॥

व्यासजीने कहा कि एक समय श्रीकृष्णचन्द्र अकेले  
वृन्दावनमें गये और वनकेपुष्पोंसे उज्ज्वलहुये गोपोंके  
सङ्ग विचरते २ लोकोंके पाप हरनेवाली यमुनाजी पर  
पहुँचे तो वहाँ १।२ महाभयंकर विष और अग्निरूपवाण  
छोड़ताहुआ कालियनाग को देखा ३ विषरूप अग्नि  
से तीरके महान् वृक्षोंको दग्ध करताहुआ और बायुसे  
उड़ते जलके स्पर्श से पक्षियों का नाशकरताहुआ ४  
अतिभयंकर और दूसरा सृष्ट्युरूप उस कालियनागको  
मधुसूदन भगवान् देखके चिन्तन करनेलगे ५ कि  
विषरूप शस्त्रोंवाला यही दुष्ट कालियहै जिसेमैंने पहले  
जीतके पयोनिधि समुद्रसे निकास था ६ इसने यह  
यमुना दूषित करदी और तृषासे पीड़ित गौभी इस  
विषको पीजातीहैं ७ इसवास्ते इससर्पका मुझको दमन

करना चाहिये जिससे सब ब्रजवासीजन सुखसे विचरें  
 ८ मैंने इसीवास्ते मनुष्यलोकमें अवतार लियाहै कि  
 ऐसे दुष्टात्माओंको दण्डदूँ ९ वस मैं इसऊँचे शाखाओं  
 वाले कदम्बपर चढ़के इस हृदमें कूटूँगा १० ऐसे चिन्त-  
 वनकर और कड़ा कड़गताबांध श्रीकृष्ण उस महाहृदमें  
 कूदे तो ११ सर्पराज और श्रीकृष्णके वेगसे चलायमान  
 हुआ जलकिनारे के वृक्षोंमें लगा १२ और उस दुष्ट  
 विषरूप अग्निसे तप्तहुये जलके लगनेसे वे वृक्ष तत्काल  
 जलनेलगे और सब दिशाओंमें अग्नि व्याप्तहोगया  
 १३ फिर श्रीकृष्ण उस नागके हृदमें अपनी भुजाओंको  
 बजानेलगे तब शब्दको सुनके वह सर्पभी सन्मुखआया  
 १४ और क्रोधसे लालनेत्रकिये विषाग्निसे युक्त चिन-  
 गारियों से आवृत और अग्निके समूहरूप महावृष  
 और अश्वोंसे युक्त सैकड़ों नागपत्नियोंसे शोभित और  
 हलतेहुये कुण्डलों की कान्ति से सुन्दर शरीरवाला  
 वह सर्प अन्य सर्पोंके सहित प्रसन्नहो अपने शरीरको  
 फैलानेलगा और वे अन्यसर्प विषरूप अग्निके मुखों  
 से श्रीकृष्णको देखने लगे १५ । १७ श्रीकृष्णको उस  
 नागके शरीरपर पड़ाहुआ देखके गोपब्रजमें आके शोक  
 पूर्वक पुकारनेलगे १८ कि कृष्ण मोहको प्राप्तहो का-  
 लियहृदमें डूबगया और सर्पराज उसको भक्षणकरता  
 है सो आप सबआके देखो १९ वज्रपातके समान इस  
 वचनको सुन सब गोप और यशोदाआदि सबगोपियां  
 शीघ्रही उस हृदपर गये २० हाहाकार करतीहुई गोपी  
 विकलहोगई और यशोदाको मूर्च्छा आगई २१ नन्द

आदि गोप अद्भुतपराक्रमवाला बलदेव सहित कृष्ण  
 के दर्शनकी लालसासे शीघ्रही यमुना के किनारे पर  
 एकत्रथे २२ सर्पराजके वशमें निष्प्रयत्न और सर्पसे  
 लिपटाहुआ श्रीकृष्णको देख २३ नन्दगोप और यशो-  
 दा चेष्टासे रहितहोगये २४ और अन्यगोपियां शोक  
 से कातरहो रोतीहुई श्रीकृष्णको देखनेलगीं और भय  
 से गद्गदवाणी सहित श्रीकृष्णजीसे कहनेलगीं २५ कि  
 हे कृष्ण यशोदा आदि हम सब इसहृदमें प्रवेशकरके  
 तेरे संग इससर्प से लिपटेंगी २६ क्योंकि जैसे सूर्य  
 बिना दिन चन्द्रमा बिना रात्री और वृष बिना गौ हों  
 ऐसेही श्रीकृष्ण बिना ब्रज है २७ इसलिये कृष्ण के  
 बिना हम गोकुल में न जावेंगी महाबलवाले बलदेव  
 जी गोपियोंके वचन सुन २८ और नेत्रोंमें जलभरे गो-  
 पोंको अतिदीन और पुत्रमें अतिदृष्टिलगाये नन्द और  
 मूर्च्छासे आकुल यशोदाको देख और श्रीकृष्णके मा-  
 हात्म्य को जान २९ बोला कि हे देव देवेश तूने यह  
 क्या भार कररखाहै क्या तू अपनी आत्मा और अ-  
 न्यजनोंका बोध नहींकरता ३० आपही जगत्के रक्षक  
 हो आपही कर्ताहो आपही त्रिलोकीके अपहर्ताहो ३१  
 हे कृष्ण यहां अवतार लेनेसे गोपही आपके बांधव हैं  
 आप अपने बंधु गोपोंके खेदको क्यों नहीं देखते ३२  
 आपने मनुष्यभाव दिखालिया और बालकपनकी च-  
 पलताभी दिखादी ३३ अब हे कृष्ण इस दुरात्मासर्प  
 को दमन करनाचाहिये ३४ व्यासजी बोले कि यह सु-  
 नके किंचित् हँसते हुये लाल ऐसे होठोंवाले श्रीकृष्ण

ने ३५ फुरना करके अपनी देह को सर्पके शरीरसे छु-  
 टाया और अपनी भुजाओंसे उसको नीचे दबाय ३६  
 और उसके शिरपर चढ़ नृत्यकरनेलगे श्रीकृष्णके च-  
 रणोंकी धमकसे उसके शिरमें ब्रण होगये ३७ और  
 उसके ऊंचे शिरको जब श्रीकृष्णने दमनकिया तब वह  
 नाग मूर्च्छित होगया ३८ श्रीकृष्णके पैरों और हाथों  
 के दंड लगनेसे बहुतसा रुधिर बहा ३९ और उसकी  
 यह दशा देखके नाग की पत्नी मधुसूदन भगवानकी  
 शरण होगई ४० नागपत्नी कहनेलगी कि हे देवदेवेश  
 हे सर्वेश आप सबसे उत्तम और परम अचिंत्यज्योति  
 परमेश्वरके अंशहो ४१ आपकी स्तुति करने में देवते  
 भी समर्थ नहीं हैं तो आपके रूपका वर्णन हम स्त्री कैसे  
 करेंगी ४२ सम्पूर्ण पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और  
 ब्रह्मांडकल्प ये सब जिसके अंशहैं तिसकी स्तुति हम  
 कैसे करसकें ४३ हे जगत्स्वामी आप प्रसन्नहों और  
 यह नाग प्राणोंको त्यागता है सो आप यह भर्तारूप  
 भिक्षा हमकोदो ४४ व्यासजी बोले कि जब ऐसे उन्होंने  
 ने कहा तब दुःखित देहवाला नाग भी हौले २ बोला  
 कि हेदेव आप प्रसन्नहों ४५ हेनाथ आपके स्वाभाविक  
 आठ प्रकारका ऐश्वर्य रहता है आपकी स्तुति मैं क्या  
 करूं ४६ आप परहो और परकेभी आद्यहो परत्व और  
 परात्मकहो और परसेभी परमहो आपकी मैं क्या स्तुति  
 करूं ४७ जैसे आपने इस जातीको रचाहै तैसेही अपने  
 स्वभावसे यह मेरा सब चेष्टितहै ४८ हे देव जो मैं अन्य  
 तरह बर्त्तताहूं तो मैं दंड देने लायकहूं ४९ परन्तु तो

भी मेरे जो आप जगत्स्वामी ने दण्डपात किया सो यह आपका प्रसाद है और आपका दण्ड देना ठीक है ५० मैं अब वीर्य और बलसे हत हो गया हूँ और आपने दम दिया है तो जीवन भी दो और यह आज्ञा दो कि मैं क्या करूँ ५१ भगवान् बोले हे सर्प तुम्हको इस यमुनामें न रहना चाहिये तू अपने भृत्यों और कुटुम्बसमेत समुद्र में चला जा ५२ हे सर्प तेरे मस्तकपर मेरे पैरोंके चिह्न देख पन्नगारि गरुड़ तुम्हको न मारेगा ५३ व्यासजीने कहा कि भगवान् हरिने ऐसे कहके सर्पराजको छोड़ दिया और वह सर्प कृष्णके प्रणाम करके ५४ सबके देखते हुये अपने भृत्यों बांधवों और स्त्रियोंसहित अपने हृदको त्याग समुद्रको चला गया ५५ जब वह सर्प चला गया तब गोपों ने श्रीकृष्णको मानों मरके फिर पाया हो तैसे नेत्रोंके जलसे सींचा ५६ और अछिष्टकर्मवाले श्रीकृष्णको देख विस्मित चित्तवाले अन्यगोप अति प्रसन्न हो स्तुति करने लगे ५७ फिर गोपीजनों से गीयमान हुये और गोपालोंसे स्तुत हुये श्रीकृष्ण ब्रजको आये ५८ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यासऋषिसंवादे वालचरित  
कालियदमननाम अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ७८ ॥

### उन्नासीवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि एकदिन बलदेव और श्रीकृष्ण गौचराते हुये रम्य ताड़वनको गये १ जहां धेनुकनाम गदा की आकृतीवाला और नर मनुष्य और गौ के मांसका आहार करनेवाला राक्षस रहा करता था २ पके हुये फलोंसे युक्त उस ताड़वनको गोपों ने देखके कहा

कि३ हे राम हे केशव यहवन सदा धेनुकदैत्यसे रक्षित कियाजाता है इसलिये यहां के श्रेष्ठफल अवश्य लेने चाहिये ४ फिर उन ताड़फलों को देखके प्रसन्न हो वे कहनेलगे कि हम पड़ेहुये इनफलों के लेने की इच्छा करतेहैं जो आप कहो तो लेलें ५ गोपोंके कुमारों के यहवचन सुन बलदेव और श्रीकृष्ण उनफलोंको पृथ्वीपर गिरानेलगे ६ निदान गिरतेहुये फलोंके शब्द को सुन उसदैत्यने क्रोधकरके वहांआ ७ पिछलेपैरोंसे बलदेवकी छातीमें दुलत्ती मारी ८ पर बलदेवने उस के दोनों पैरोंको पकड़कर घुमाया तब वह प्राणोंसे रहितहोके उसीजगह वेगसे गिरपड़ा ९ गिरतेसमय उस दैत्यने ताड़के अग्रभागके अनेकफलोंको गिराया १० और उसकी जातीके जो अन्य गर्दभथे तिनकोभी बलदेव और श्रीकृष्णने अपनी लीलासे ताड़पर पटक के मारा ११ निदान क्षणभरमें ताड़के पकेहुये फलोंसे पृथ्वी पूरितहोगई और पड़ेहुये उस दैत्यरूप गर्दभकी देह शोभित हुई १२ उसदैत्यके नाशहोनेसे उसताल वनमें बाधासे रहितहो गौर्वे विचरने और सुखसे नवीनतृण और पत्रआदिकों को चरनेलगीं १३ व्यास जीबोले कि जब वहदैत्य अनुचरोंसहित मरगया तब गोपकुमारोंसे सेवित यहवन रमणीक होगया १४ और वे दोनों वसुदेवके पुत्र धेनुकदैत्यकोमार प्रसन्नहो भांडीरवनको गये १५ गाते बजाते वृक्षांको ढूँढते गौवों को चराते और नामलेकर बुलातेहुये १६ आपस में कंधेपर हाथरक्खे वनमालासेविभूषित वे दोनोंमहात्मा

ऐसे शोभितहुये मानों छोटे २ शृंगवाले बच्छे हों १७  
 सुवर्ण तथा अंजन के चूर्ण के समान कांतिवाले और  
 इन्द्रके धनुषकी कांतिसे जैसे सफेद और कालेबादल  
 हों तैसे वे दोनों प्रकाशमान हुये १८ लोक में प्रसिद्ध  
 क्रीड़ाकरते और आपसमें खेलतेहुये सम्पूर्ण लोकनाथों  
 के नाथ पृथ्वीमें प्राप्त हुये १९ वे कभी मनुष्यधर्म को  
 प्राप्तहो सब मनुष्योंको मनुष्यभाव दिखाते २० और  
 कभी गोपजातिके गुणोंसे युक्तहो क्रीड़ाकरते बनमें वि-  
 चरते थे कभी आपसमें डौली आदिकी तरह ललेके  
 चलते २१ कभी कसरत करते और कभी आपसमें प-  
 थर आदि फेंकते थे २२ निदान उन दोनोंके खेल में  
 प्रलम्ब नामकदैत्य चुपकेसे गोपवेष धारणकरके आया  
 २३।२४ और उनके छिद्र देखनेकी इच्छासे उसने श्री  
 कृष्णसे पहले बलदेवके मारनेका मनोरथकिया २५ जब  
 श्रीकृष्णने क्रीड़न नामसे सब बालकोंको क्रीड़ा करने  
 को कहा तब सब बालक दो दो इकट्ठे होके दौड़नेलगे  
 २६ श्रीदामा गोपके संग श्रीकृष्ण प्रलम्बके संग ब-  
 लदेव २७ और अन्य गोपोंके संग अन्य गोपालदौड़े  
 श्रीदामाको श्रीकृष्ण और प्रलम्बको बलदेवने जीता २८  
 और कृष्णके पक्षवाले गोपोंने अन्यगोपोंको जीतलिया  
 ऐसे आपसमें दौड़ते और भांडीरवृक्षके डालोंको छूते  
 हुये २९ जब वे लौटते तब प्रलम्बदानव बलदेवको कांधे  
 पर बैठाके दौड़ा ३० पर जब वह बलदेवके हरने की  
 इच्छाकरके चला और उनके बोभको वह नसहसका ३१  
 तब उसने वर्षाकालके बादलके समान अपनी कायाको

बढ़ाया और बलदेवने काले पर्वतके समान आकृति  
 वाला ३२ लंबी माला पहिने और मुकुटको मस्तकपर  
 धारणकिये भयंकर और चक्रके समान और पैरों को  
 फैलाता हुआ देख ३३ कहा कि हे कृष्ण इस पर्वतके  
 समान उग्रमूर्तिवालेने ३४ गोपाल वेषका छल करके  
 मुझे हरलिया अब हेमधुसूदन मुझको क्या करना चा-  
 हिये ३५ यह दुष्टात्मा वेगसे चलाजाताहै ३६ व्यास  
 जी कहनेलगे कि तब हँसते और होठोंको जुदेर फर-  
 कातेहुये ३७ महात्मा बलदेवके बलवीर्यको जाननेवाले  
 श्रीकृष्णने कहा कि यह मनुष्यभाव तुमने क्यों प्रकट  
 कररक्खाहै ३८ हे सर्वात्मन् सब गुह्योंके गुह्यात्मारूप  
 से आप स्मरण करें कि आप सब जगत् के कारण हैं  
 ३९ जब एकार्णव जगत् होजाता है तब हे विश्वात्मन्  
 आप और मैं तत्त्वरूप एकही कारण हैं ४० इस पृ-  
 थ्वी में जगत्के भेदके वास्ते हम दोनों व्यवस्थित हैं हे  
 अप्रमेयात्मन् तुमको यह स्मरण करना चाहिये ४१  
 इसदानवकोमारो क्योंकि मनुष्यभावको प्राप्तहोके बंधु-  
 ओंकाहित करना चाहिये ४२ व्यासजीबोले कि जब म-  
 हात्मा श्रीकृष्णने इसप्रकारस्मरण कराया तब बलदेव  
 ने प्रलम्बको पीडादे क्रोधसे लालनेत्र करके मस्तकमें  
 मारा जिस प्रहारसे उसकेनेत्र बाहिरको निकलपड़े ४३।  
 ४४ और मुख से रुधिर फेंकनेलगा महापराक्रमवाले  
 बलदेव से निहतहुआ प्रलम्बको देख सबगोप प्रसन्न  
 हो स्तुति करने और साधुसाधु कहनेलगे ४५ । ४६  
 फिर गोपों से संस्तूयमानहुये बलदेवजी श्रीकृष्ण सं-



हित गोकुलको लौटआये ४७ व्यासजी बोले कि इस प्रकार बलदेव और श्रीकृष्ण ब्रजमें खेलते रहे जब वर्षासमयसे निवर्त्तहुई स्थली कमलनीकी तरह होगई ४८ और आकाश निर्मल नक्षत्रोंसे युक्त होगया तब श्रीकृष्णनेदेखा कि इन्द्रके यज्ञके आरम्भमें सब ब्रजवासीलगेहैं ४९ उन उत्साहवाले गौपोंकोदेख महामति श्रीकृष्णने आश्चर्य से उन वृद्धोंसे पूछा कि जिससे आप सबको हर्ष होरहाहै वह इन्द्रका उत्सव क्या है कृष्णको पूछतेदेख नन्दगोपनेकहा कि ५०।५१ मेघोंका ईश शतक्रतु इन्द्रहै तिसके अरेहुये मेघ जलमय रस को वर्षातेहैं ५२ और वृष्टिसे खेतीउत्पन्नहोतीहै जिसको भोगते हुये हम देवता आदिकों का तप आचरण करतेहैं ५३ और दूध तथा बच्छोंवालीगौवें तुष्ट और पुष्ट रहतीहैं ५४ जहां वर्षावाले बादल दीखतेहैं वहां अन्न और तृणसे रहित भूमि और क्षुधासे पीड़ित मनुष्य नहींहोते ५५ सूर्यकी कांतिसे मेघ सब लोकोंके सुख और गौओंके दूध बढ़ानेकेवास्ते वर्षतेहैं ५६ इसलिये वर्षाकालके पीछे प्रसन्नहुये सब राजा और हमभी सुरेश इन्द्रका पूजनकरतेहैं ५७ व्यासजी बोले कि इन्द्रके पूजनके विषय नन्दगोपका यह वचन सुन इन्द्रपर क्रोधकरके श्रीकृष्ण कहनेलगे ५८ कि हम कृषिकर्म करनेवाले नहींहैं बल्कि वाणिज्य जीविकावालेहैं इसलिये हे तात गौही हमारीपरमदेवतहैं क्योंकि हम वनचरहैं ५९ जैसे आन्वीक्षिकी त्रयीवार्त्ता दण्डनीतिआदि विद्याचारहैं ६० तैसेही खेतीव्यवहार पशुपालनआदि

कर्मभी हैं इसलिये हे महाभाग ये वार्त्ता भी वृत्तिके आश्रयहैं ६१ जैसे खेतीकरनेवालोंकी कृषिवृत्तिहै और बाणिज्यआदि करनेवालोंकी पण्यवृत्तिहै वैसेही वार्त्ता के भेदसे हमारी अन्यहीवृत्तिहै ६२ इसलिये जो जिस वृत्तिको करताहै उसका वही परमदेवतहै वही पूज्यहै और वही जीविका है ६३ और जो अन्य के फलको ग्रहण करताहै और अन्यका पूजनकरताहै वह यहां और अन्यलोकमें भी शोभा को नहीं प्राप्तहोता ६४ खेतीसे सीम विख्यातहै सीमकाअन्त वन कहाहै और वनका अन्त पर्वतहैं और वेही सब हमारी परमगति हैं ६५ इसलिये गिरियज्ञ गोयज्ञ प्रवर्त्त करनाचाहिये हमको इन्द्रसे क्याहै हमारे देवते गौ और पर्वतहैं ६६ विप्रमन्त्र यज्ञमें तत्परहैं सीमयज्ञवाले कृषिक अर्थात् खेतीकरनेवालेहैं और गिरिगोयज्ञमें तत्पर हमहैं क्यों-कि हम पर्वत और वनके आश्रयहैं ६७ इसवास्ते आप को अनेकप्रकारके पूजनोंसे पर्वतकापूजन करना चा-हिये इस विधानसे पशु हननकरके अर्चन और युक्त करनाचाहिये ६८ और सब ब्रजका दूध एकत्र करके ब्राह्मणों और अन्य भूखोंको जिमाओ ६९ यहपूजन करके जब सब द्विजाती भोजनकरचुकें तब ७० शरद ऋतुके पुष्पों के मुकुटों से शोभितकर सब गौओं के समूह को इकट्ठेकरके उनका पूजनकरो ७१ मेरा तो यहीमतहै यदि इसे प्रीतिसहित करोगें तो गौओंका कल्याणहोगा ७२ कृष्णचन्द्रके यह वचनसुन प्रीतिसे उत्फुल्लमुखवाले नन्दआदिक सबगोप साधु २ अर्थात्

बहुत अच्छा है २ कहने लगे और बोले ७३ कि हे वत्स जो तेरा मत श्रेष्ठ है तो गिरियज्ञ ही हम प्रवृत्त करेंगे ७४ निदान उन ब्रजवासियों ने वैसे ही गिरियज्ञ अर्थात् गोबर्द्धन का पूजन किया और पर्वत को दही दूध मांस आदिकी भेट दे ७५ हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और गौ तथा पर्वत का पूजन करके प्रदक्षिणा की ७६ हे द्विजो तब श्रीकृष्ण ने उसी रूप से गोपों के संग पर्वत के शिखर पर स्थित होके गोपों का दिया हुआ बहुत प्रकार का भोजन किया ७७ और दूसरा शरीर धारण करके उसे सबके संग आप भी पूजा ७८ निदान वे गोपवरो को प्राप्त होके जब श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये तब अपने घरों को आये ७९ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां स्वयम्भूऋषिसम्वादे वालचरिते  
गिरिमाहात्म्यनाम नवसप्ततितमोऽध्यायः ७९ ॥

### अस्सीवां अध्याय ॥

वेदव्यासजी बोले कि जब इन्द्र का यज्ञ प्रतिहत हो गया तब वह कोपित हो सम्बर्त्तक नामवाले मेघों से बोला १ कि हे मेघो मेरे वचन को सुनके और निस्सन्देह होके मेरी आज्ञा को शीघ्र करो २ खोटी बुद्धिवाला नन्द गोपने अन्य गोपों सहित कृष्णके आश्रय हो मेरे यज्ञ को नष्ट किया है ३ इसलिये उन गोपों का परम आजीवन जो गौ हैं तिनको हमारे कहने से वर्षा करके नष्ट कर दो ४ मैं भी पर्वतके शिखरके समान हस्ती पर चढ़कर और वायुको वेगसे चलाके तुम्हारी सहाय करूंगा ५ व्यासजी बोले कि हे ब्राह्मणो इन्द्रकी यह आज्ञा पाके मेघ

गौओंके नाशके लिये महाभयानक बातयुक्तवर्षा करने लगे ६ और उस बातवर्षासे दुःखितहो गायें जहां तहां शिरको हिलाहिलाके प्राणोंको त्यागनेलगीं ७ हे ब्राह्मणो कितनी गायें छातीके नीचे अपने बछड़ोंको दबा के खड़ीहोरहीं और कितनी जलकी पूर्णता होनेसे बछड़ोंसे रहित होगई ८ वायुसे कम्पायमान ग्रीवा और दीनमुखवाले दुःखित बछड़े ऐसेखड़ेथे मानों यहकहते हैं कि हे कृष्ण हमारी रक्षाकरो ९ निदान गोपी गोपोंसहित सम्पूर्ण गोकुलको दुःखितदेख श्रीकृष्णचन्द्र रक्षा करनेका चिन्तवन करनेलगे १० कि यह सम्पूर्ण कर्म यज्ञके नष्टहोनेमें विरोध करनेवाले इन्द्रने करा है इस लिये मुझे अब इस सम्पूर्ण गोकुलकीरक्षाकरनी योग्य है ११ और मैं इस पर्वतको अपने बलसे उखाड़के सम्पूर्ण गोब्रजकी रक्षाके वास्ते छत्रकीतरह धारणकरूंगा १२ ऐसा निश्चयकरके श्रीकृष्णने गोवर्द्धन पर्वत को उखाड़कर एक हाथपर धारणकरलिया १३ और गोपों से बोले कि मैंने वर्षाका निवारण करदिया इसमें आप सब प्रवेश करो १४ क्योंकि न तो यहां वायु का वेगहै और न पर्वतके गिरने का भयहै वर्षासे पीड़ित गोप और गोपियोंने कृष्णके यह वचनसुन गाड़ोंमें बर्तनों कोधर गायों सहित गुफामें प्रवेशकिया १५।१६ और आश्चर्ययुक्त नेत्रोंवाले ब्रजवासियोंको आनन्दपूर्वक दीखनेवाले कृष्णजी उस अचलपर्वतको हाथपर धारण कियेरहे १७।१८ इन्द्रके प्रेरणहये मेघोंने सातरात्रि तक गोपोंके नाशकरनेवाली वर्षाकी १९ पर जब पर्वत

धारणकरके श्रीकृष्णने सम्पूर्ण गोकुलकी रक्षाकी तब भूठीप्रतिज्ञावाले इन्द्र ने बलसेनष्टही मेघोंकोनिवारण किया २० जब इन्द्रकी प्रतिज्ञा भूठीहोगई और आकाशस्वच्छहोगया तब कृष्णने सम्पूर्णगोकुलको अपने अपने स्थानों में भेजा २१ और सबको निज स्थानों में देख श्रीकृष्णजीनेभी उस अचल पर्वत को उतारा २२ वेदव्यासजी बोले कि जब श्रीकृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत धारणकरके सम्पूर्ण गोकुलकी रक्षाकी तब इन्द्र ने श्रीकृष्णके दर्शन करनेकी इच्छाकी २३ और ऐरावतहस्तीपरचढ़ वहांआके सम्पूर्णअमृतके अधिष्ठाता श्रीकृष्णको गोवर्द्धनपर्वत पर २४ गोपोंके बालकों सहित सम्पूर्ण जगत् के दुःखोंको निवारण करते और गौओंको हटाते गोपकेशरीरको धारणकरेहुये श्रीकृष्ण को देखा २५ और दोनोंपंखोंसे हरिके मस्तकपर छाया किये पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़जी को भी देखा २६ तब ऐरावतहस्तीसे उतरके एकान्तमें अति विस्तार युक्त नेत्रोंवाले मधुसूदन भगवान् से बोला कि हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाबाहो आपके समीप जिस कार्यके लिये मैं आयाहूँ सोसुनो २७। २८ और सुनके अन्यथा चिन्तन न करना हे परमेश्वर इस पृथिवीके भारउतारनेके वास्ते सम्पूर्ण जगत्का आधार आपका अवतार है २९ यज्ञ भङ्गहोनेसे मैंने गोकुलकेनाशकरनेवास्ते मेघोंको आज्ञादीथी तब उन्होंने यह कर्म किया ३० पर जब आप ने पर्वत उठायेके गायोंकी रक्षाकी तबमें आपके सुन्दर शूरवीरपने के कर्मसे प्रसन्नहुआ ३१ हे कृष्ण आपने

देवतोंका मनोरथ सिद्ध किया है इसको मैं मानता हूँ क्योंकि यह पर्वत आपने एक हाथपर धारण किया ३२ हे कृष्ण आपने अच्छे विधानसे गोब्रजकी रक्षाकी इससे गायोंका प्रेराहुआ मैं यहां आयाहूँ ३३ हे कृष्ण गायोंके वचनसे प्रेराहुआ मैं आपका अभिषेक करूंगा और आप उपेन्द्र और गोविन्द संज्ञावाले नामों को प्राप्त होंगे ३४ निदान इन्द्रने सुन्दर जल और ऐरावत हस्तीकी घंटालेके पूर्ण जलकी धारा से विष्णुका अभिषेक किया ३५ जब इन्द्रने विष्णुका अभिषेक कर लिया तब ऊपरने मुखवाली गायोंने भिरतेहुये दूधसे पृथ्वीको गीली कर दिया ३६ और इन्द्र गायोंके वचन से प्रसन्नहो मधुसूदन भगवानका अभिषेक करके बोला ३७ हे महाभाग मेरे वचनको सुनो गायों के वचन से भार उतारनेके वास्ते यह कर्म आपने किया है ३८ पृथिवीपर मेरा अंश पुरुषोंमें सिंहरूप अर्जुननामसे विख्यात आपसे रक्षितहुआ भारके उतारने में आपकी सहाय करेगा ३९ इसलिये हे मधुसूदन अपने आत्मा की तरह आपको अर्जुनकी रक्षा करनी चाहिये ४० भगवान् बोले कि भारतखण्ड में जो तेरे अंशसे उत्पन्न और अर्जुन नामसे विख्यात है उसे मैं जानताहूँ और जबतक पृथ्वीपर रहूंगा उस अर्जुनकी सहायता करूंगा ४१ हे शत्रुओंके दमनकरनेवाले इन्द्र जबतक मैं पृथ्वी पर स्थित रहूंगा तबतक मेरी तरह युद्धमें अर्जुन जीतेगा ४२ हे देवेन्द्र कंस नामवाला महादैत्य अरिष्टदैत्य केशी कुबलयापीड हस्ती तथा नरकासुर और अन्य

दैत्य जब मारे जावेंगे तब घोर युद्ध होगा ४३ हे सहस्राक्ष मैंने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये जन्म लिया है तू जा और पुत्रके लिये संदेह मत कर ४४ मेरे अगाड़ी अर्जुनका कोई शत्रु न रहेगा और जब भारतयुद्ध निवृत्त हो जावेगा तब युधिष्ठिरादिकोंसे कुंतीको पुत्रवाली कर दूंगा ४५।४६ वेदव्यासजी बोले कि जब भगवान् ने ऐसे कहा तब इन्द्र ऐरावत हस्तीपर चढ़के स्वर्ग को चला गया ४७ और श्रीकृष्ण भी गायों और गोपालों सहित ब्रजमें आये ४८ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराणभाषायां बालचरिते गोवर्द्धनोद्धरणं  
नाम अशीतितमोऽध्यायः ८० ॥

### इक्यासीवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि जब इन्द्र चला गया तब अकृष्ट कर्म करनेवाले श्रीकृष्णसे प्रसन्न होके गोपाल कहने लगे कि हे कृष्ण तैने अचल पर्वतको धारण किया १ हे महाभाग तैने पर्वत धारण करके इस बड़े भयसे हमारी और गायों की रक्षा की २ हे कृष्ण यह तुम्हारी बालक्रीड़ा बड़ी अतुल है इसको प्राप्त होनेकी गोपाल भी इच्छा करते हैं आपके कर्म अति आश्चर्य्य हैं ३ क्योंकि आपने जल के बीच में कालिय सर्प का दमन किया प्रलम्बासुरको मारा और गोवर्द्धन धारण किया इसलिये हमारे मनको शंका होती है ४ हे कृष्ण आप सत्य सत्य कहो आपको हम सौगन्द दिलाते हैं हम आपके पराक्रमको देख आपको मनुष्य नहीं मानते ५ हे कृष्ण सम्पूर्ण ब्रजकी स्त्रियें बालकों सहित इस आप

के कर्म को देखके प्रसन्न हुई और यह तुम्हारा कर्म देवतों से भी असह्य है ६ हे अमेयात्मन् इस आपके बालकपन के अत्यन्त पराक्रम को देखके हम सबोंका मन शंका को प्राप्त होता है ७ आप कोई देव हैं अथवा दानव हैं यक्ष हैं गन्धर्व हैं अथवा हमारे बांधव हैं जैसे आप हैं आपको नमस्कार है ८ हे द्विजोत्तमो जब गोपोंने ऐसे कहा तब श्रीकृष्ण नम्रहोके गोपोंसे बोले ९ कि हे पापियो मेरेसम्बन्धसे तुम्हें लज्जानहीं होती किन्तु श्लाघाही होती है फिर विचारने से क्या प्रयोजन है १० जो तुम्हें मुझमें प्रीति है और मैं तुमको श्लाघनीय हूँ तो मुझमें बान्धवोंकीसी प्रीतिकरो ११ हे गोपो मैं देव नहीं हूँ और न गन्धर्व यक्ष वा दानवही हूँ मैं तो तुम्हींमें उत्पन्न हुआ हूँ इसलिये अन्यथा मेराचिन्तन मतकरो १२ निदान वे महाभाग सम्पूर्ण गोप शान्तिवाले कृष्णका कोपयुक्त वचन सुनके और मौन को धारणकरके वनमें चलेगये १३ और कृष्णने आनन्दित दिशाओंमें खिलेहुये कुमोदनीके पुष्पोंसहित शरद्व्युक्त चन्द्रमा की चांदनी और निर्मल आकाश को उसरात्रीमें देख १४ पक्षियोंसे गूँजतेहुये वनमें गोपियोंसे क्रीड़ाकरनेका मनमें निश्चयकर १५ बलदेवसहित वृंदावनकी स्त्रियोंको प्यारे कोमलपद गानेलगे १६ गायन शब्द सुनके गोपियां अपने घरोंको छोड़ जहां मधुसूदनथे वहां चलीं १७ कितनी तो हौले २ कृष्णकी आमिलीं कितनी भागके आईं कितनी मनमें स्मरण करनेलगीं १८ और कितनी हे कृष्ण २ कहतीहुई



लज्जाको प्राप्तहुई कोई गोपी तो प्रेमसे कृष्णको आ मिली कोई बहुतदेरमें गई १९ और कोई गृहकृत्यसे निवृत्तहोके बाहर गयेहुये कृष्णको देख उनमें लीनहो उनका ध्यान करनेलगी २० मनको रमानेवाले शरद् युक्त चन्द्रमावाली रात्रिमें गोपियोंसहित रासक्रीडाके आरम्भ में उत्साहवाले गोविन्द तिस वनमें जापहुँचे २१ और सब गोपियां शुद्धहोके कृष्णसे मिलीं जब कृष्ण अन्यदेशमें चलेजावें तब वे वृन्दावनके भीतर विचरतीफिरें २२ निदान वे कृष्णके वियोगसे व्यग्रहो रात्रिमें भयभीतहोकर उनके चरणोंका ध्यानकरनेलगीं और दर्शनों की आशा से निराश होकर यमुनाजी के निकट जाके उनके चरित्रोंको वर्णनकरनेलगीं २३।२५ जब उन्होंने त्रिलोकीकीरक्षाकरनेवाले खिलेहुयेकमलके समानमुखवाले कृष्णको आतेदेखा २६ तब कोईगोपी तो कृष्णको आतेदेख अति आनन्दितहुई कोई कृष्ण कृष्ण कहनेलगी २७ कोई हरिके कमलरूपी मुखको देख पात्ररूपी भृकुटियोंसे अमृतको पीनेलगी २८कोई नेत्रोंको मीच गोविन्द को देखनेलगी कोई योगारूढ़ कृष्ण और बलदेवका ध्यानकरनेलगी २९ और कोई गोपी प्रियवचन कहके अपनी भृकुटियों से कृष्णको देखनेलगी और कृष्ण ने उनके हाथ पकड़लिये ३० और उनअप्रसन्नचित्त गोपियोंसे आदरपूर्वक रमण करनेलगे ३१ उस रासमण्डल के मध्यमें एकान्तमें स्थित होनेवाले कृष्णने गोपीजनोंके समीप प्राप्तहोके ३२ नेत्रों को मीच एक एक गोपिका को स्पर्श किया

तब जैसे शरदऋतुमें कवियोंके आनुपूर्वक गायेहुये गीतोंसे ध्वनिहोतीहै तैसे उस रासमण्डलमें चलायमान कंगनोंके शब्दोंकी प्रक्षतीहुई ३३ और शरदऋतुके चन्द्रमा और खिलीहुई कौमोदनी तथा कमलोंके पुष्पोंकीतरह मुखवाले राम कृष्णकेगुण गोपियां बारम्बार गानेलगीं ३४ फिर कंगनोंसे आलाप करनेवाली किसीगोपीने कृष्णके कांधेपर अपनी बाहुलताको रखदिया ३५ और किसी सुन्दर बाहुओंवाली गाने तथा स्तुतिकरनेमें निपुण गोपीने मधुसूदनको चुम्बन दिया ३६ गोपियोंके कपोलोंके संश्लेष से उठेहुये रोमोंवाले और पसीनोंसे युक्त राम और मधुसूदन उस समय अति शोभाको प्राप्तहुये ३७ हरिभगवान् उस समय तारतरकी ध्वनिवाला गान गानेलगे और गोपियां कहनेलगीं कि हेकृष्ण अच्छागानहुआ हेकृष्ण अच्छा गानहुआ ३८ जब कृष्ण चलतेथे तो वे उनके साथ चलतीथीं और बलसे सन्मुख होतीथीं और जैसे वे फिरे वैसेही वेभी फिरतीहुई गोपोंकीकन्या हरिको प्राप्त होतीथीं ३९ कृष्णभी उनकेसंग रात्रिमें रमणकरतेरहे और बहरात्री एक क्षणमात्रकीनाई ब्यतीतहोगई ४० माता पिताओं तथा पतियों और भ्राताओंसे निवारण कीहुई वे गोपोंकी अङ्गना रात्रिमें रतिमें सुखदेनेवाले कृष्णसे रमण करतीरहीं ४१ और अमेयात्मा और किशोर अवस्थावाला मधुसूदनभी उनकेसंग रमणकरतारहा ४२ सम्पूर्ण भूतोंकाईश्वर और सब आत्माओं में एकरूप गोविन्द उन गोपियों और उनके पतियों

में वायुकी तरह व्याप्त होके स्थित हुआ ४३ जैसे समस्त भूतोंमें आकाश अग्नि पृथिवी जल और वायुसे युक्त जीवात्मा स्थित रहता है तैसेही आत्मारूप परमेश्वर सबमें स्थित हुआ ४४ व्यासजी बोले कि किसीसंमय प्रदोषयुक्त अर्द्धरात्रिमं जनार्दन भगवान् जब रासक्रीडामें आसक्त होगये तब गोपोंको त्रास देता हुआ अरिष्टनामक दैत्य ४५ जलसे युक्त बादलोंकी छायाके रङ्गका पैने शृंगोंवाला और सूर्यके तेजकेसे नेत्रोंवाला वहां आके खुरोंके अग्रभागसे पृथ्वीतलको खोदने लगा ४६ और जिह्वासे बारम्बार अपने ओष्ठोंको चाटता और कठिन स्कंधोंके वेगसे इधर उधर पूँछको मारता हुआ ४७ ग्रीवाको उठाये वह प्रमाणके पराक्रमका उल्लंघन करनेवाला अर्थात् अति पराक्रमवाला और गोबर मूत्रसे लिपे हुये अङ्गवाला अरिष्टदैत्य गायोंमें उद्देग करने लगा ४८ जब वह लम्बे उदर और वृक्षोंके घिसनेसे चिह्नित मुखवाले दैत्य बैलके रूपको धारण किये गायोंके गर्भगिराने लगा ४९ और सबको दुःख देता हुआ इधर उधर प्रकाशमान हुआ फिरने लगा तब उस घोरनेत्रोंवालेको देख गोपियां अति भयभीत हो कहने लगीं ५० कि हे कृष्ण हे कृष्ण हम हतहुई गोपियोंकी यह दशा देख सिंहकासा शब्द करके श्रीकृष्णने तालीबजाई ५१ तब वह दैत्य तिस शब्दको सुनके दामोदरके सन्मुख आया और कृष्णके मुखके आगे सींगोंको रोपके टेढ़े नेत्रोंसे देखने लगा ५२ पर उस वृषभरूप दैत्यको देख अवज्ञात लीलावाले महाबल कृष्ण चलायमान न हुये ५३ ५४ बल्कि उ-

सको पकड़के उसकी कुक्षिमें लातेंमार उसे व्याकुलकर दिया ५५ निदान उसदैत्यके गर्वको हननकर ५६ और उसका एक शृंग उखाड़के उसीसे मारनेलगे तब उसके मुखसे रुधिर निकसनेलगा ५७ जैसे इन्द्रने जब जंभ दैत्य माराथा तब देवगणोंने इन्द्रकी स्तुति करीथी-तैसेही कृष्णने जब वृषभ दैत्य को मारा तब सब गोप गोपी कृष्णकी स्तुति करनेलगे ५८ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांव्यासऋषिसम्बादेबालचरिते  
नामैकाशीतितमोऽध्यायः ८१ ॥

### बयासीवां अध्याय ॥

वेदव्यासजीबोले किजब रिष्टनामक दुष्टदैत्य धेनुक दैत्यऔरप्रलम्बदैत्यको कृष्णनेमारदिया गोवर्द्धनपर्वत को उठालिया १ कालियनागको दमन किया यमलार्जुन वृक्षको उखाड़डाला पूतनाको मारा और गाड़ा उलटा-दिया २ तब नारदजीने कंसकेपासजाके यहसंपूर्ण वृत्तांत क्रमसे कहा और यहभी कहा कि यशोदा और देवकी का गर्भ बदल दियागया है ३ कंसने इस सब वृत्तांत को देवदर्शन नारदसे सुनकर वसुदेव पर अति क्रोध किया ४ और सभामें आके सब यादवोंकी निंदाकरने लगा फिर वह यह चिन्ताकरनेलगा ५ कि बलदेव और कृष्ण दोनों बालकोंको बलवान् होनेके पहिलेही मरवा डालनाचाहिये क्योंकि यौवन होनेके बाद नहीं मरेंगे ६ इसलिये महान् बलवान् चाणूर और मुष्टिक इन दोनों से युद्ध करवाकर मैं इन्हें मरवाऊंगा ७ अथवा धनुष-यज्ञके छलसे बुलवाकर जैसे उनका नाशहोवेगा तैसेही

करूंगा ८ व्यासजी बोले कि वह दुष्टात्मा ऐसे विचार के अक्रूरसे कहनेलगा ९ कि हे अक्रूर यहांसे रथ में बैठके तू गोकुल में जा १० जहां वसुदेवके पुत्र विष्णु के अंशसे उत्पन्न हुये हैं और मेरे नाश के वास्ते बढे हैं ११ उन्हें यहां बुलाला क्योंकि मेरे यहां चतुर्दशी के दिन होनेवाले धनुषयज्ञ में १२ मल्लयुद्ध में चतुर चाणूर और मुष्टिकके संग उन दोनों का युद्ध होवेगा और सब मनुष्य देखेंगे १३ कुबलयापीड हस्ती महामत्यसे प्रेराहुआ पापी वसुदेवके उन पुत्रों को मारेगा १४ और उन्हां को मारके दुर्मति वसुदेव व नन्दगोप और दुर्मति उग्रसेन पिता को मारूंगा १५ और मुझ से द्वेष करनेवाले समस्त दुष्ट गोपों के समग्र गोधनों को हरूंगा १६ हे अक्रूर इन यादवों के बध के वास्ते मैं अनुक्रमसे यत्न करूंगा १७ और उनसेरहितहोके निष्कण्टक राज्य करूंगा हे वीर इस वास्ते तुझे मेरी प्रीतिसेवहांजाना चाहिये १८ और उनगोपोंसे यह कहना चाहिये कि मैंसकाघृत औरदहीलेके तुमजल्द आवो १९ व्यासजी बोले कि कंसका प्रेराहुआ बलसे उग्र केशी दैत्य पहिले कृष्णकी मृत्युकी इच्छा करके वृन्दावनमें आया २० और खुरोंसे पृथ्वीको खोदता नाडके बालों से बादलोंको चलायमान करता चन्द्रमा तथा सूर्यको आच्छादित करता और मार्ग को रोकताहुआ २१ गोपोंको भयभीत करनेलगा निदान गौओं के भयसे दुःखीहुये वे गोविंदकी शरणगये २२ और कहनेलगे कि हमारी रक्षाकरो रक्षाकरो ऐसे उनके वचन सुनके

गोविन्दमेघके गर्जने सरीखा गंभीर शब्द करके बोले २३ कि हे गोपालो क्या आप गोपजातियों को केशी दैत्यका भय होरहाहै २४ इस अल्प पराक्रमवाले हिंसक भयंकर और बलसे रहित अश्वरूपी दुष्टदैत्यका क्या भयहै २५ फिर केशी से बोले कि मैं कृष्णहूँ आ तेरे शिरको मैं गिराऊंगा और तेरे दांत मुखसे बाहर निकालूंगा २६ ऐसे कह श्रीकृष्ण दौड़के केशी के सम्मुख आये और वहभी श्रीकृष्णके पीछे मुख फाड़के दौड़ा २७ तब श्रीकृष्णने अपनी बाहु को उस दुष्टके मुखमें डालदिया २८ केशीदैत्यके मुखसे सफेद बादलों के समान दो दांत गिरपड़े २९ हे द्विजो केशी दैत्यके मुखमें पड़ीहुई श्रीकृष्णकी बाहु उपेक्षित व्याधिकी तरह बढ़तीगई ३० और फेनों और रुधिर सहित केशी का होठ फटगया दोनों आंखें बाहर निकलआई ३१ और वह पेशाब और लीढ़ करताहुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा तब उसका शरीर पसीनेसे तर और निर्यत्न होगया ३२ और उसने महारौद्र मुख फाड़दिया वह श्रीकृष्ण की भुजासे द्विधाभूत हुआ पृथ्वीमें ऐसे गिरा जैसे वायु से वृक्ष ३३ और उसके दो पैर दोपीठ आधीपूँज एक कान एकनेत्र और एक तर्फकी नासिका द्विधाभूत हो अंगके टुकड़े २ होगये ३४ निदान श्रीकृष्ण केशीदैत्य को मार मुदितहुये गोपोंके संग हैंसतेहुये वहीं संस्थित रहे ३५ और गोपी और गोप केशी दैत्यके मारने से विस्मितहो मनोहर वचनोंसे श्रीकृष्णकी प्रशंसा करने लगे ३६ षड्चाल नारदमुनि वहां आ प्राप्तहुये और केशी

दैत्यको मारा देख मनमें हर्षकर ३७ कहने लगे कि हे ज-  
गन्नाथ यह बहुत अच्छा किया कि देवताओंको भी दुःख  
देनेवाले केशी दैत्य को मारा ३८ पर उग्रसेनका पुत्र  
कंस जब अनुचरों सहित मारा जायगा तब आप पृथ्वी  
में भारको उतारनेवाले होंगे ३९ हे जनार्दन वहां अ-  
नेक राजाओंके चरित्र आपके करेहुये मुझको देखने  
हैं ४० इसलिये मैं आपके करे हुये इस महत्कर्म को  
गाऊंगा आपसे पूजित हुआ अब मैं जाता हूँ आपका  
कल्याणहो ४१ स्वर्ग से आकर मैंने यह नरबाजी का  
महानयुद्ध देखा है यह अपूर्व आश्चर्य मैंने देखा ४२  
हे मधुसूदन आपने अवतारोंमें जो कर्म किये हैं उनसे  
मेरे मनको विस्मय हुआ और इस कर्मसे मैं अतिप्र-  
सन्न हुआ ४३ हे कृष्ण नाडके वालोंको कैपानेवाले हि-  
नहिनातेहुये और आगेको देखतेहुये इस अश्वसे इंद्र  
और देवतेभी डरतेथे ४४ हे श्रीकृष्ण आपने जो इस दु-  
ष्टात्मा केशी दैत्यको मारा है इसवास्ते आप संसारमें  
केशव नामसे विख्यातहोंगे ४५ आपकी स्वस्ति हो  
मैं तो अब कंसके युद्धमें जाता हूँ हे केशिनिषूदन मैं प-  
रसों के दिन आपसे मिलूंगा ४६ व्यासजी बोले कि  
जब नारद चलेगये तब गोपों सहित श्रीकृष्ण गोकुल  
में आये ४७ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यास ऋषिसम्वादे केशिवधो

नामद्वयशीतितमोऽध्यायः ८२ ॥

तिरासीवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि कंस की आज्ञा पाकर अक्रूरभी

शीघ्रगामी रथमें बैठ कृष्णके दर्शनके लिये आसक्तहो  
 नन्दके गोकुलमें आये १ रास्तेमें अक्रूर ऐसे चिन्तवन  
 करने लगे कि मेरे समान कोई धन्य नहीं है क्योंकि मैं  
 अंशसे उतरेहुये चक्रीभगवान्के दर्शनकरूँगा २ अब  
 मेरा जन्म सफलहुआ और श्रेष्ठप्रभात और रात्रीभी  
 सफलहुई क्योंकि आजदिन कमलसदृश विष्णुके मुख  
 को मैं देखूँगा ३ जो पुरुषों के पापको नाशताहै और  
 संकल्पनामसे प्रसिद्धहै तिस कमलसरीखे नयनोंवाले  
 विष्णुके मुखको मैं देखूँगा ४ जो अनन्तरूप भगवान्  
 इस पृथ्वीको धारणकरतेहैं उन्होंने पृथ्वीके भार उतारने  
 को अवतारलियाहै सो मुझको अक्रूर कहेंगे ५ पितृ  
 पुत्र सुहृत् आता बन्धुमयी मायारूपीनाल जिसने जं-  
 गलमें फैलारक्खाहै तिसको नमस्कारहै ६ जो हृदयमें  
 अविद्याका विस्तार कर रहेहैं और यह मेरा अपत्यहै  
 ऐसी माया फैलारहेहैं तिस विद्यात्माको नमस्कारहै ७  
 जो यज्ञकरनेवालोंसे यज्ञपुरुष यादवोंसे वासुदेव वेदा-  
 न्तियों से विष्णु कहाजाता है तिसको नमस्कार है ८  
 ब्रह्माने जो २ सत् और असत् रचाहै वे दोनों तिसके  
 साम्यहैं ९ और जिस पुरुषके स्मरण करने से मनुष्य  
 सब कल्याणोंका पात्र होजाताहै तिस अर्ज नित्य हरि  
 की मैं शरणहूँ १० व्यासजी बोले कि इसप्रकार भक्ति  
 से नम्रहोके विष्णुका चिन्तवन करताहुआ जब अक्रूर  
 गोकुलमें आया तो सूर्य कुंठहींवाकी रहाथा ११ इस  
 लिये उसने श्रीकृष्ण को गोदोहनमें देखा बच्छोंके मध्य  
 में गताफूलेहुये नीले कमलसरीखी कान्ति और खिले



हुये कमलसरीखे नेत्रोंवाले श्रीकृष्णको अक्रूरने श्री-  
वत्सचिह्नसे अङ्कित बड़ीछाती लम्बीबाहु और नासि-  
का और विशाल और सस्मित मुखपंकज को धारण  
करतेहुये देखा जिसको सब वेद और वेदाङ्ग प्राप्तहो  
रहेहैं १२।१४ उसदेवताओंके परमधाम भगवत्के पीले  
वस्त्रोंको धारणकिये पीले पुष्पों की माला पहिने और  
सचिकन नीली लंताके समान हाथमें सफेद कमलके  
पुष्पोंके गहनों को धारणकिये १५ । १६ नीलाम्बरमें  
हंस और चन्द्रमाके समान सफेद दांतोंवाले श्रीकृष्ण  
को देखकर फिर अक्रूरने यदुनन्दन बलदेवको देखा  
१७ गौओंके थानमें प्रकाशमान मुखपंकज को ऊपर  
कियेहुये मेघ मालासे परितृत कैलासपर्वतके समान  
कान्तिवाले १८ बलदेव और श्रीकृष्णको देख अक्रूर  
के सब अङ्गमें रोमाञ्चितहोगये १९ और यह विचा-  
रनेलगा कि यह भगवत् का परमधाम और परमपद  
वासुदेवांश द्विधा व्यवस्थितहै २० अब मेराजन्म स-  
फल है क्योंकि मैं भगवत्के प्रसादसे अच्छीतरह श्री  
कृष्णसे मिलूंगा २१ और श्रीमत्अनन्तमूर्तिश्रीकृष्ण  
मेरी पीठपर पद्मरूपी हाथधरेंगे जिनकी अङ्गुलियोंके  
स्पर्शनमात्रसे सब दौषभी सिद्धिको प्राप्तहोजातेहैं २२  
जिस भगवान् ने आकाश अग्नि विजली इत्यादिकों  
से उग्र अपने चक्रसे अनेक दैत्योंको मारा २३ और  
जिस भगवान्की कृपासे बलिराजा मनवाञ्छित भोगों  
को प्राप्तहो पाताललोकमें स्थितहुआ और मन्वन्तर  
में देवताओं का पति इन्द्र होवेगा २४ वह भगवान्

मुझको कंसका भेजाहुआ जानके दोषदृष्टिसे मौननहो  
 २५ क्योंकि ज्ञानात्मा अमल सत्त्वराशि और दोषसे  
 रहित सदा स्फुट भगवान् समस्त पुरुषों के हृदयकी  
 बातोंको जानते हैं २६ इसवास्ते मैं भक्तिसे नम्रचित्त  
 कियेहुये उस अज आदि मध्यान्तसे रहित विष्णु के  
 सर्वेश्वर अवतारकी शरणहूँ २७ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां अक्रूरगमननाम

त्र्यशीतितमोऽध्यायः ८३ ॥

चौरासीवां अध्याय ॥

वेदव्यासजी बोले कि ऐसे चिन्तवन करताहुआ  
 वह गोविन्दके पास पहुँच श्रीकृष्ण के चरणों में शिर  
 रखकर बोला कि मैं अक्रूरहूँ और श्रीकृष्ण ने ध्वजा  
 और चक्रसे चिह्नित अपने हाथोंसे स्पर्शकरके प्रीति  
 सहित अच्छीतरह अक्रूरसे मिलकर उसे अपने घर  
 लेगये और अति आदर सत्कारपूर्वक भोजनकराया  
 तब अक्रूरने जैसे कंस देवकीको झड़काकरताथा और  
 वसुदेवको दुर्वचनकहता तथा जैसे उग्रसेनसेवर्त्तताथा  
 और जिस कार्यके उद्देशसे अक्रूरको भेजाथा १० ॥ इ  
 तिस सम्पूर्ण वृत्तान्तको केशव भगवान्से विस्तारसे  
 कहा और उसे सुनकर भगवान् बोले कि हे अक्रूर यह  
 सम्पूर्ण हमने जानलिया ७ हे महाभाग कंसका मैं अब  
 उपायकरूँगा आपयहीजानो कि मुझसे कंस हतहोवे  
 गा अन्यथानहीं ८ हम और बलदेव कलकेदिन मथुरान  
 पुरीमें आवेंगे और बहुतसी भेंटलेके वृद्धगोपभी आ  
 वेंगे ९ हे वीर यह रात्री योंहीं बितानी चाहिये क्योंकि

चिन्ताकरनी योग्य नहीं है मैं तीन रात्रिके भीतर अनुचरोंसमेत कंसको मारूँगा १० व्यासजी ने कहा कि इसप्रकार बातचीत करके अक्रूरजी कृष्णके संग सब गोपों और बलदेवको आज्ञासुनाकर नन्दके घरमें रातको सुखसे सोये ११ और प्रभातहोतेही बलदेव और श्रीकृष्ण अक्रूरकेसंग मथुरापुरी में जानेको उद्यतहुये १२ तब गोपी दुःखार्त्तहो इवासै भरनेलगीं और उनके हाथके कंकण ढीलेहोगये वे आपसमें कहनेलगीं १३ कि अब श्रीकृष्ण मथुरामें जाके गोकुलमें क्यों आवेंगे शहरकी स्त्रियोंके गान अच्छीतरह कानोंसे सुनेंगे १४ और नगरकी स्त्रियोंके विलासमें रंचाहुआ इसकाचित्त फिर यहां ग्रामवाली गोपियोंमें कैसे लगेगा १५ हाय सब गौओंके मक्खनआदिको हरनेवाला हरि बलदेवकेसंग निर्दयीहुआ अन्यजगह जाताहै १६ हाय स्थ में बैठके गोविन्द तो जाताहै हम अपनी प्रार्थना गुरुलोगोंके मध्यमें कैसे करें १७ और विरहअग्निसे दग्धहुई हमारा ये बडेमनुष्य क्याकरेंगे हाय नन्दआदि गोपभी जानेको उद्यत होरहेहैं १८ ऐसा कोईनहीं जो कृष्णके जानेकेसमय गौओंका उद्यमकरे यहरात्री मथुराकी स्त्रियोंकोही सुप्रभाता भई १९ जो अच्युत अर्थात् श्रीकृष्णके संग भोजनकरेंगे और जो कृष्णकेसंग जावेंगे वेही धन्यहैं २० हमें गोविन्द का मुख देखनेकी अति इच्छाहै ऐसा कौनभाग्यहै कि जिससे हम कृष्णकेसंगजावें २१ २२ विस्तारित तथा कांतिवाली श्रीकृष्णकेनयनोंको हम नित्यदेखेंथी अहो निर्दयी

विधाता तूने २३ महानिधिरूप श्रीकृष्णको दिखाके फिर हरलियाहै इसके जानेसे हमारे शरीर तथा २४ हाथों और कङ्कणों में शिथिलता होगईहै और यह क्रूरहृदयवाला अक्रूर रथके घोड़ोंको जल्दी भगाताहै २५ हाय हम पीड़ितहुई अबलाओंपर किसीको दया नहीं आती इसप्रकार रथमें बैठेहुये श्रीकृष्णके मुखको वे गोपी देखरहीथीं २६ और जब वे दूरचलेगये तब बांसुरीकाशब्द सुनतीरहीं २७निदान इसप्रकार गोपियोंकेदेखते बलदेव और श्रीकृष्ण ब्रजभूभागकोत्याग २८ बेगसे चलनेवाले अश्वोंपर अक्रूरसहित मध्याह्न समय यमुनाके किनारेपहुँचे २९ तब अक्रूरने कृष्णसे कहा कि जबतक मैं यमुनामें आद्विक कर्म करूं तब तक आप यहां स्थित रहो ३० ऐसे कहके जब वह महामति यमुनामें स्नानकरके जलमें प्रवेश हो परब्रह्मका ध्यान करनेलगा ३१ तो वहां उसने हजार फणों सहित कुंद सरीखी कान्ति और कमलोंकेपत्रसरीखे नेत्रोंवाला वासुकि आदि महान् सर्पों से युक्त और संस्तूयमान और सुगंधित बनमालाओंसे विभूषित कालेवस्त्रों को पहिने कुण्डल आदि गहनों को धारण किये हुये बलदेव को जलके भीतर स्थित देखा और उनकी गोदमें ताम्रायन नेत्रों चार बाहुओं उदार अंगोंवाले श्रीकृष्णको चक्रायुधसे विभूषित पीले वस्त्रोंको धारण किये और विचित्र मालाओंको पहिने इन्द्र धनुष तथा विजली सहित विचित्रित मेघोंके समान शोभित श्रीवत्ससे चिह्नित छाती सुन्दर बाजूबंद उज्ज्वल मुकुट और पुंडरीक कमलको

घारण कियेहुये सनकादिक मुनियोंसे स्तूयमान देखा  
 ३२।३८ नासिकाके आगे नेत्रोंकी दृष्टि किये संचित्य-  
 मान अकूरने उनको बलदेव कृष्ण जानके ३९ यह चिं-  
 त्वन किया किये यहां कैसे आगये पर देखतेहुये जनार्दन  
 भगवानने उसे मूक कर दिया और उसने ४० जलसे बाहर  
 निकल कर उसी जगह रथमें बैठेहुये दोनोंको देखा ४१  
 निदान बलदेव और कृष्णको पूर्ववत् बैठे देख अकूर  
 ने फिर जलमें गोता मारा तो फिर भी वैसेही देखा ४२  
 गन्धर्वोंसे संस्तूयमान और मुनि सिद्ध दिव्यसर्प आ-  
 दिकोंसे स्तुत उनके भावको जान ४३ अकूर सर्ववि-  
 ज्ञानमय ईश्वरकी स्तुति करने लगा कि हे तन्मात्ररूप  
 हे अचिंत्यमहिमा और ४४ अनेकरूपोंमें व्याप्त होने  
 वाले आपको नमस्कार है हे सत्त्वरूप हे अचिंत्य हे  
 हविर्भूत आप प्रकृतिसे परे और विभु हैं आपको नम-  
 स्कार है ४५ हे भूतात्मा इन्द्रियात्मा प्रधानात्मा आत्मा  
 और परमात्मा आपही एक पांच प्रकार करके स्थित  
 हो ४६ हे सर्व सत्त्वात्मन् हे क्षराक्षर हे महेश्वर आप  
 प्रसन्न हो आपही ब्रह्मा विष्णु और शिव कल्पनाकरके  
 कहे जाते हो ४७ हे अनाख्ये हे यस्वरूपात्मन् हे अना-  
 ख्येय प्रयोजन हे अनाख्येयाभिधान आपको मैं नम-  
 स्कार करता हूं ४८ जहां नाम जात्यादिकी कल्पना नहीं  
 है सो तत्परमब्रह्म नित्य अविकार और अज आपही  
 ४९ आपके बिना कुछभी कृत्यता नहीं है इसवास्ते हे  
 कृष्ण आपकी अच्युत अनन्त विष्णु आदि संज्ञा है ५०  
 सर्वात्मा अज देवाद्य अखिल जगत् और सर्व विश्व

आपही हो और है विश्वात्मन् अति विकारहीन सब विकारोंसे रहित आप हो ५१ आपही ब्रह्मा पशुपति सूर्य तथा विष्णुहो और इन्द्र वायु अग्नि वरुण कुबेर आदि जगत्में आपहीके भेद हैं ५२ आपही विश्वको रचते हैं आपही पालना करते हैं और आपही संहार करते हैं और विश्वमयी आपका रूप है ५३ जिसमें यह जगत् स्थित है जिससे उत्पन्न हुआ है और जिसमें लीन होता है तिसको नमस्कार है ५४ वासुदेवको नमस्कार है और संकर्षण और प्रद्युम्नरूप अनिरुद्धको नमस्कार है ५५ वेदव्यासजी बोले कि इस प्रकार अक्रूर ने जलके भीतर स्तुति करके फिर सर्वेशको धूप और मनोहर पुष्पोंसे पूजा ५६ और सबजगहसे मनको दूर कर उसीमें प्रवेश किया फिर ब्रह्मका बहुत काल तक ध्यानकरके स्मरणकर ५७ आत्माको कृतकृत्य मानता हुआ यमुनासे निकल रथके समीप आ ५८ यमुनाके जलमें जो आश्चर्य देखा था तिससे विस्मित और उत्फुल्ल नयन हुआ बोला ५९ कि हे अच्युत श्रीकृष्ण जलके भीतर जो मैंने आश्चर्य देखा सो इसी जगह मूर्तिमान् स्थितहुये आपको देखता हूँ ६० हेकृष्ण आप के रूपका परम आश्चर्य है यह मैंने जान लिया ६१ हे मधुसूदन ऐसे समर्थहोके आप मथुराका क्यों परिश्रम करते हो और परपिंडोपजीवी कंससे क्या भय करते हो ६२ ऐसे कहके रथके घोड़ोंको फेरते भये संध्यासमय वे मथुरापुरीमें प्राप्त भये ६३ तब अक्रूरने कहा कि आप दोनों पैदल चले आओ मैं अकेला जाता हूँ पर

आप वसुदेवके घर मतजाना ६४ क्योंकि आपके कारण वसुदेवको कंसने बांधरक्खाहै और नित्य भिड़ता है ६५ व्यासजीनेकहा कि ऐसे कहके अक्रूर मथुरापुरी को गये और पीछे २ बलदेव और कृष्णने भी प्रवेश किया ६६ तब मथुरापुरी में स्त्री पुरुष उनके दर्शनसे अति आनन्दहुये ६७ निदान वे दोनों शूरवीर बालक अपनी लीलासे गजकी चाल चलेजातेथे कि उन्होंने एक धोबीको देख उससे सुन्दर मनोहर वस्त्रोंको मांगा ६८।६९ तब वह रजक प्रमादसे बहुत निन्दित वचन ऊंचे स्वरसे बलदेव और कृष्णसे कहनेलगा ७० और श्रीकृष्णने अपने हाथके प्रहारसे तिस दुरात्माका शिर पृथ्वीमें गिरादिया ७१ और उसे मारके वस्त्रोंको छीन नीले और पीतवस्त्रोंको पहिन बलदेव और कृष्ण प्रसन्नहुये मालाकारके घरगये ७२ खिले हुये नेत्रोंवाले तिन दोनोंको देख मालाकार विस्मितहो चिंता करने लगा कि ये किसके पुत्रहैं ७३ फिर उनको पीले तथा नीलाम्बरको धारण किये सुन्दर और मनोहर देख तर्कणाकरनेलगा कि पृथ्वीमें देवतेआयेहैं ७४ फिर खिले हुये कमलसरीखेमुखोंवाले वे दोनों उससे पुष्प मांगने लगे तब वहमालाकार पृथ्वीमें अपनाशिर रखकेबोला ७५ किहे नाथ आपने बड़ी कृपाकी जो मेरे घरआये और मैंधन्यहूं जो आपका पूजनकरूंगा ७६ ऐसे कहके प्रसन्नहो उसने इच्छापूर्वक विचित्र २ पुष्प उन्हें दिये ७७ और नरोत्तम जान बारम्बार प्रणाम करनेलगा ७८ तब प्रसन्नहो श्रीकृष्णने मालाकारको वरदिया कि

मेरे संश्रय से तुम्हको लक्ष्मी कभी नहीं त्यागेगी ७९  
हेसौम्य तेरे बलकी हानि तथा धनहानि कभी न होवेगी  
और तेरी सन्तति पृथ्वीमें कल्पतक रहेगी ८० तू ब-  
हुतसे भोगोंको भोग अन्तमें मेरे प्रसादसे मेरा स्मरण  
कर दिव्यलोकको प्राप्तहोवेगा ८१ वेदव्यासजी बोलें  
कि ऐसे कहके श्रीकृष्ण बलदेवके संग मालाकारसे पू-  
जितहुये उसके घरसे चले ८२ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यासऋषिसंवादे रजकवच  
मालाकारवरप्रदानं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ८४ ॥

### पचासीवां अध्याय ॥

व्यासजी कहनेलगे कि वहांसे चलकर श्रीकृष्णने  
राजमार्गमें अनुलेपनलिये नवयौवन कुब्जाको आते  
देख १ बोले कि यह अनुलेपन किसका है हेवरलोचने  
तू किसकेवास्ते इसे लेजाती है सत्यकह २ ऐसे सकाम  
वचनसुन प्रीतिसे देखतीहुई कुब्जा बोली ३ हे कान्त  
आप नहीं जानते कि मैं नैकवक्रानामसे विख्यात कंस  
को अनुलेपन कर्म करनेमें नियुक्तहूँ ४ पर ये अनेक  
प्रकारके सुन्दर अनुलेपन आपकी प्रसन्नताके वास्ते  
हैं उसके यह वचनसुन श्रीकृष्ण बोले कि यह अनु-  
लेपन तो राजाओंके लायक है हमारे गात्रसदृश अनु-  
लेपन हमें देना चाहिये ५ ६ व्यासजी कहनेलगे कि कृष्ण  
के ऐसे वचनसुनके कुब्जा आदरसे बोली कि अच्छा  
लो ७ निदान वे पुरुषोत्तम अपने अंगोंमें चन्दनादिक  
लगाके काले और सफेद मेघकेसमान विराजमानहुये  
८ और कुब्जाकी ठोड़ी पकड़ ऊपरको उठाके ९ और



नीचेसे पैरोंको खींचके उसे कोमल और श्रेष्ठ स्त्री कर दिया  
 १० तब तो वह विलासिनी प्रेमसे बस्त्र ग्रहणकर गो-  
 विन्दसे कहने लगी कि आप मेरे घर चलो ११ और हरि  
 भगवान् हँसते हुये बोले कि तेरे घर हम फिर आवेंगे ऐसे  
 कहके उसे विदा किया और उसका मुख देखके हँसने लगे  
 १२ इस प्रकार भक्तिपूर्वक कुब्जासे अनुलिप्तांगहो नी-  
 लपीताम्बरको धारण किये और विचित्र मालाओं से  
 शोभित वे दोनों धनुःशालामें गये १३ और रक्षकोंसे  
 विना पूछे ही धनुषको उठाके श्रीकृष्णने खींच लिया १४  
 निदान बलसे चढ़ानेसे वह धनुष जत्र टूट गया और  
 सारी मथुरापुरीमें महाघोर शब्द भया १५ तब रक्षकों  
 को भालूम भी न हुआ और वे धनुःशालासे निकस गये  
 १६ इधर अक्रूरके आगमन और धनुषके टूटनेका  
 हाल सुनकर कंसने चाणूर और मुष्टिक आदि मत्तोंसे  
 कहा कि दोगोपालदारक जो यहां आये हैं वे मेरे प्राणों  
 के हरनेवाले हैं इस वास्ते तुम उनको मल्लयुद्ध करके  
 मारो १७ १८ यदि तुम युद्धमें उनको मारके मुझे प्रसन्न  
 करोगे तो मैं तुमको मनोवाञ्छित द्रव्य दूँगा १९ न्याय  
 से हो अथवा अन्यायसे हो उन दोनोंको अवश्य मारना  
 चाहिये तब मेरा मनोरथ होवेगा २० ऐसे मत्तोंको  
 आज्ञादे फिर महावतसे ऊँचेस्वरसे कहने लगा कि तुम  
 को मल्लसमाजके आगे हाथी खड़ा करके २१ कुबलयान-  
 पीड़द्वारा रंगद्वारमें आते हुये उन दोनोंको मरवा डालना  
 चाहिये २२ इस प्रकार उनको आज्ञादे बिछे हुये सब  
 मंचोंको देखने लगा २३ साधारण मंचोंपर नगरके

मनुष्य मिलेहुये बैठे राजमंचों पर भृत्यों सहित राजे बैठे २४ और रंग मध्यके समीप ऊँचामंच बिछवाकर आप स्थितभया २५ महलके भीतरकी स्त्रियोंकेवास्ते जुदेमंच बिछायेगये वेश्याओंकेवास्ते जुदे और नगर की स्त्रियोंकेवास्ते जुदे बिछगये २६ नन्दआदिक गोप अन्यमंचोंपर स्थितहुये अक्रूर और वसुदेव एकमंच परबैठे २७ और नगरकीस्त्रियोंके बीचमें पुत्रकी लालसा करनेवाली देवकी भी यह विचारतीभई बैठी कि अन्तकाल में मैं पुत्रका मुख देखूंगी २८ निदान जब बाजे वजनेलगे और चाणूर और मुष्टिक ने खड़ेहोके अपनी भुजा बजाई तब मनुष्योंमें हाहाकार मचगया २९ बलदेव और श्रीकृष्णनेभी प्रीलवानद्वारा प्रेरहुये कुवल्यापीड हस्ती को मार सुगन्ध से लिप्तांग दोनों हाथोंमें हस्तीके दांतोंकोलिये ३० मृगोंकेमध्यमें वनके गर्वित सिंहकेसमान देखतेहुये जब उस महान् रंगशालामें प्रवेश किया ३१ तो महान् हाहाकार होनेलगा और लोगों को यह आश्चर्य्य होगया कि यही कृष्ण और बलदेव हैं ३२ जिन्होंने घोर पूतनाको माराथा गाड़ा फेंकदियाथा और यमलार्जुन वृक्ष तोड़दियाथा ३३ इसीबालकने कालियनागके मस्तकमें नृत्यकियाथा इसीने सातरात्रितक महान् गोवर्द्धनपर्वतको उठालियाथा ३४ और अपनी लीलाकरके केशी और धेनुक दैत्योंको माराथा ऐसे दुष्ट जिसने मारदिये सो तो अच्युत भगवान्ही दीखताहै ३५ यह महाबाहु बलदेव इसका बड़ाभाईहै जो लीलाकरके गमन करताहुआ

स्त्रियोंके नयनोंको आश्चर्यित करताहै ३६ यह वहहै जोकि स्वर्गलोकका अवलोकनकरनेवाले पंडितोंद्वारा ऐसे कहाजाताथा कि यह गोपाल यादवोंके मग्नवंशका उच्चारकरेगा ३७ और यह सर्वभूतमय अतुल तेजवाले विष्णुके अंशसे पृथ्वीका भार हरनेकेवास्ते उतराहै ३८ पुरवासी मनुष्यों के ऐसे कहतेहुए बलदेव और श्रीकृष्णको देख देवकीके पयोधरों से दूध भिरनेलगा ३९ और बसुदेव अतिहर्ष को प्राप्तहो पुत्रोंके मुखको देख वृद्धअवस्थासे युवाअवस्थाको प्राप्तहोगया ४० राजा केमहल और पुरकी स्त्रियोंमें आपसमें चर्चाहोनेलगी ४१ कि हे सखियो लालकमलसरीखे नेत्रोंवाले कृष्ण के मुखकोदेखो कि युद्धके श्रमसे पसीनेमें कैसा सुन्दर होरहाहै ४२ इस खिलेहुए शरदऋतुके कमलसरीखे मुखको देखके जन्मसफल करलेनाचाहिये ४३ श्रीवत्स चिह्नसे अंकित और जगद्धाम और श्रेष्ठ भुजाओंवाला श्रीकृष्णके दर्शन अवश्य करनेचाहिये ४४ मैं देखतीहूँ कि कमलकी डांडीके समान सफेद मुखवाला और नीले वस्त्रोंको धारणकिये यह बलदेव ४५ बलवान् मुष्टिक दैत्यकेसंग युद्धकेवास्ते तैयार है यह बलदेवका हास्यही होवेगा ४६ हे सखिदेखो चाणूरकेसंग युद्ध करनेकेवास्ते यह श्रीकृष्ण जाताहै क्या यहाँ यथार्थविधि कहनेवाले वृद्धनहींहैं ४७ कहां यहयौवनवाला कठिनरूप महान् असुर और कहां सुकुमारअवस्थावाले श्रीकृष्ण ४८ इन दोनोंसुलभवर्ण और नवयौवनवालोंकेसन्मुख ये अति दारुणदैत्यनरोपनेचाहिये ४९ विशेषयुद्धप्राप्तिवाले इन

पुरुषोंमें जो बालकोंकेसंग दैत्योंका युद्धदेखाजाताहै सो अतिबुराहै ५० व्यासजी बोले कि पुरकी स्त्रियोंके ऐसे कहतेहीकहते श्रीकृष्णभगवान् और बलदेव हर्षसहित भुजाओंको फरकाते ५१ ललित कटिवंधबांध पृथ्वी में युद्धकेलिये उतरे ५२ अमित पराक्रमवाले श्रीकृष्ण चाणूरकेसंग युद्धकरनेको उद्यतहुये और युद्धमें कुशल मुष्टिकदैत्यकेसंग बलदेवजी युद्धकरनेलगे ५३ निदान क्षिपणी मुष्टिछातीमें कीलोंका निपातन ५४ पादोद्भूत इत्यादि पेचोंसे कृष्ण और चाणूरका महान् युद्धहुआ और शस्त्रों से रहित महाघोर मल्लयुद्धभी भया ५५ उस समय जितनाबल पराक्रम चाणूर दैत्यमेंथा उससे हरिकेसंग युद्ध करनेलगा ५६ और जब युद्ध करते २ चाणूरको प्राणोंकी हानि ज्ञात होनेलगी तबभी जगन्मय श्रीकृष्ण लीलाकरके उससे युद्धकरतेही रहे ५७ अतिश्रमसे चाणूरके स्वेदआगया ओष्ठ फरकनेलगे और बलक्षयहोगया पर श्रीकृष्णमें बल बढ़ताहीजाता था ५८ यह हालदेख कोपयुक्तहो कंसनेतूर्य और मृदंगादि बाजोंको बंदकरदिया ५९ तब आकाशमें स्थितहुए देवते अनेकप्रकारके बाजे वजानेलगे ६० और कहनेलगे कि हे गोविन्द तुम्हारी जयहो इस चाणूर दैत्यकोमारो ६१ निदान चाणूरदैत्यके संग बहुत काल तकश्रीकृष्ण क्रीड़ाकरके तिसको उठा और भ्रमाके बध करनेको उद्यतहुए ६२ और सौगुना घुमाकेउसेआकाशमें ऐसाफेंका कि उसके ६३ सौ टुकड़े होगये और रक्त बहनेलगा ६४ उसीसमय बलदेवनेभी मुष्टिक दैत्यके

संग युद्ध करतेकरते ६५ उसे मुष्टिका और लातोंसे मार  
 पृथ्वी में गिराके पीसडाला और प्राणों से रहित कर-  
 दिया ६६ फिर श्रीकृष्ण ने बायीं मुष्टिके प्रहारसे तो-  
 शकल मल्ल को पृथ्वी में गिराके मारडाला ६७ जब  
 चाणूर मुष्टिक और तोशकल दैत्य मरगये तब सब  
 मल्ल वहांसे भागे ६८ और कृष्ण और बलदेव अपनी  
 अवस्थाके गोपोंके संग हर्षितहुये क्रीडा करनेलगे ६९  
 यह दशा देख क्रोधसे रक्त नेत्र किये ऊंचे स्वर से कंस  
 बोला कि ये दोनों गोपाल यहांसे निकला देनेयोग्यहैं  
 ७० पापीनन्दको बँडियोंसे बांधदो और जवानोंको देने  
 लायिक कडादंड वसुदेवको दो ७१ कृष्णके संगके इन  
 गोपोंकोभी निकलादो और इनकी गौ आदिकोंको छीन  
 लो ७२ ऐसे आज्ञा देतेहुये कंसको देख मधुसूदनभ-  
 गवानूने कूदके मंचपर चढ़ और उसके शिरके बालों  
 को खींच उसका मुकुट पृथ्वीपर गिरादिया और उसी  
 समय उसकोभी पटकदिया ७३।७४ हे द्विजो निःशेष  
 जगतके आधार श्रीकृष्णने जब उग्रसेनके पुत्र कंसके  
 प्राण निकाललिये ७५ और उसकीदेह अन्य लोगोंपर  
 गिरनेलगी तब उसके बालोंको महाबलवाले श्रीकृष्ण  
 प्रकंडके रंगसमाजमें खींचलाये ७६ और अति जोरसे  
 खींचनेसे उसकी देह छिलगई ७७ निदान कंसको मार  
 बलदेव सहित महाबाहु श्रीकृष्ण देवकी और वसुदेव  
 केपैरोपडे ७८।७९ और देवकी और वसुदेव श्रीकृष्णको  
 पैरोसे उठा पूर्वजन्मका स्मरणकर श्रीकृष्णसे बोले ८०  
 कि हे देवदेवेश हे देवताओं में श्रेष्ठप्रभो आप प्रसन्न हो

मैं आप दोनों के प्रसाद से कृतार्थ होगया ८१ मैंने जो तुम्हारा आराधन कियाथा इसवास्ते आप दोनों ने मेरे घर अवतार लियाहै खोंटा व्यवहार करनेवालों की आप मृत्युहो आपको नमस्कारहै ८२ आपने हमारा कुल पवित्र करदिया आप सब जीवों में विचरनेवाले हो और आपसेही सब जीव पैदा होते हैं ८३ यज्ञमें त्वं पदसे आपका सेवनहोताहै आपही यज्ञहो आपही यज्वाहो आपही यष्टाहो और आपही परमेश्वरहो ८४ मेरा मन जो आपमेंहै और देवकीके पुत्रहो यहप्रीति अत्यन्त बिड़म्बना है ८५ सब भूतोंकेकर्त्ता अनादि निधन ऐसे आपको हे वत्स हे पुत्र ऐसे यह जिज्ञा कहतीहै ८६ हे जगन्नाथ जिससे यह सम्पूर्णजगत् पैदा होताहै तिस मायासे मेरे मोहहै ८७ जिसमें स्थावर तथा जङ्गम जगत् स्थितहै वह मनुष्यके उदरमें कैसे उत्पन्नहोवे ८८ हे ईश्वर आप प्रसन्नहो और विश्वकी रक्षाकरो अंग अवतार चरणआदि से आप मेरे पुत्र नहींहो ८९ ब्रह्मासे लेके सब जगत् आपकी मायासे मोहित होरहाहै ९० और मायासे विमोहित दृष्टिसे आपमुझको पुत्रदीखतेहो कंसका अतितीव्रभय होनेसे आपको मैं गोकुलमें पहुँचाआयाथा तहां आप वृद्धि को प्राप्तहुयेहो ९१ हे ईश आपके दर्शनोंसे सौयज्ञों का फलहोताहै आपविष्णु जगत्के उपकारकेहेतु बास करतेहो और मुझे मोहित कररक्खाहै ९२ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांव्यासऋषिसंवादेबालचरित्रे

कंसबधःनामपंचाशीतितमोऽध्यायः ८५ ॥

## द्वियासीवां अध्याय ॥

वेदव्यासजी बोले कि फिर श्रीकृष्णभगवान् देवकी और बसुदेवके ज्ञानकी उत्पत्तिजान १ मोहके वास्ते अपनी वैष्णवी मायाको फैलाकर बोले कि हे मात हे तात आपसे मैंने बहुतकालसे कहरकखाथा २ कि कंस का भय हमारा कब दूरहो सो अब तुम्हारे पूजनकरने के बिना यहकाल व्यतीत हुआजाताहै ३ जिनका श्रेष्ठ पुत्रोंसे पूजन नहीं कियाजाता उन मनुष्यों का भाग्य भी व्यर्थहीहै ४ गुरु देव ब्राह्मण माता पिता आदिका पूजनकरनेसे मनुष्यका जीवन सफलहोताहै ५ हे पिता जी मैंने जो विपरीत कियाहो वह सब आप क्षमाक्रीजिये ६ व्यासजीबोले कि ऐसे कहके और प्रणामकरके कृष्ण और बलदेवने यथावत् पूजनकिया ७ इधर कंस की माताने शोकसे दुःखितहो पृथ्वीको लीपकर कंस को लिटाया ८ और श्रीकृष्णने विलाप करतीहुई तिनको बहुत प्रकार समझा और आपभी आंशुओं से युत नेत्रकरके तिनको शिक्षादी ९ पश्चात् मधुसूदन भगवान्ने उग्रसेन को बन्धसे छुटाया और अभिषेक करके उनको राज्यपर बैठाया १० श्रीकृष्णद्वारा राज्याभिषिक्तहोकर उग्रसेन मृतकोंकी प्रेतक्रियाकी ११ और ऊर्ध्वदैहिक क्रियाकरनेकेबाद श्रीकृष्णने उग्रसेनसे कहा कि हे विभो मुझको अब आप आज्ञादो १२ क्योंकि हमारा यदुवंश तो ययातिके शापसे राज्य के लायक नहींहै और यदि मैं तुम्हारेआगे भृत्यहोकर रहूँगा तो देवताओंका प्रयोजन न होगा १३ ऐसे कहतेहीथे कि

श्रीकृष्णके आगे उसीक्षण वायु आया तब कार्यमानुष भगवानने उससे कहा १४ कि हे वायु तू इन्द्रके पास जाके यह कह कि हे इन्द्र तुम्हको यह सुधर्मा सभा उग्रसेनके वास्ते देनी चाहिये १५ श्रीकृष्ण ने कहा है कि इस सुधर्मारूय सभामें राजाओंके लायक रत्न हैं १६ व्यासजी बोले कि कृष्णके यह वचन सुनके वायुने जाके इन्द्रसे सब हालकहा और इन्द्रने वायुको सुधर्मा सभा देदी १७ तब वायुद्वारा प्राप्तकी हुई उस दिव्य और सबरत्नोंसे युक्त सभामें सबयदुपुंगवोंने गोविंदकी भुजाके आश्रयहो प्रवेशकिया १८ फिर सम्पूर्ण विज्ञान को जाननेवाले और सर्वज्ञानमय बलदेव और कृष्ण ने शिष्य आचार्यकर्मको विख्यातकिया १९ काशीमें शीक्षित और अवंतीपुरवासी सांदीपनि आचार्य के पास बलदेव और श्रीकृष्ण शास्त्र पढ़नेके वास्ते गये २० और उसके शिष्यहोके अपने पराक्रमको प्रचार करतेहुये विचरनेलगे २१ निदान चौंसठदिनके भीतर उन्होंने ने सब रहस्य और धनुर्वेद आदि पढ़लिया हे द्विजो यह बड़ा आश्चर्य हुआ २२ फिर सांदीपनी आचार्यने उनके असम्भाव्य और अमानुष कर्म जानकेउनको चन्द्रमा और सूर्यमाना २३ जबउन्होंने सम्पूर्ण अस्त्रविद्या सीखली तब गुरुसेबोले कि महाराज आप कुछ दक्षिणामांगो २४ और आचार्य ने उनके देवकर्मजानके लवणसमुद्रमें मरेहुयेपुत्रकोमांगा २५ निदान गुरुदक्षिणाके लिये वे दोनों अपने अस्त्रों को ग्रहणकर समुद्रके पासगये और श्रीकृष्णने समुद्र



४५२ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

से कहा कि सांदिपनी का पुत्र तूने क्यों हरलिया २६ तब समुद्र कहनेलगा कि मुझमें एक पांचजन्य नाम वाला शंखरूपी दैत्यहै उसने वह बालक माराहै और वह शंख इसीजलमेंहै २७ यह सुनके श्रीकृष्णने जल में गोतामार पांचजन्यको मार उसमें उत्पन्नहुये शंख को ग्रहणकिया २८ जिसके शब्दसे दैत्यों के बलकी हानिहो देवताओं का तेज बढ़ताहै और अधर्म का नाशहो २९ फिर उस पांचजन्य शंखको बजा श्रीकृष्ण और बलदेवने धर्मरायके पुरमें जा यमको जीत ३० उस बालकको उसीशरीरसे सापुष्टकर उसके पिता सां- दीपनीको दिया ३१ इसकेउपरान्त वे उग्रसेनसे पाली हुई मथुरापुरी में आये और ३२ अस्ति और प्राप्ति नामिनी कंसकी स्त्रियोंने जरासंधके आगे जा कृष्ण द्वारा भर्ताके मरणका समाचार सुनाया ३३ तब मगध देशके पति जरासन्ध राजा ने यादवों सहित कृष्णको मारनेकेलिये ३४ तेईस अक्षौहिणी सेनालेकरके मथुरा कोघेरलिया ३५ और थोड़ेसे यादवोंको लेकर बलदेव और कृष्ण बाहर निकलके समस्त सेनाके योद्धाओंके सङ्ग युद्ध करनेलगे ३६ कृष्ण और बलदेव ने पुराने शस्त्रोंके चलानेकी सम्मतिकी ३७ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांगुरुपुत्रानयनंजरासन्धो  
द्यमंचनामषडशीतितमोऽध्यायः ८६ ॥

सत्तासीवां अध्याय ॥

व्यासजी कहनेलगे कि अक्षय बाणोंवाले धनुषको तो श्रीकृष्णने चढ़ाया और हल तथा मूसलको बलदेव

जी चलाने लगे १ और उन दोनोंने युद्धमें जरासन्धकी सेनाको जीतके मथुरापुरीमें प्रवेश किया २ जब श्रीकृष्ण जीतके लौट आये तब सेनासे युक्त हो जरासन्ध फिर युद्ध करनेके वास्ते आया ३ और हे द्विजोत्तमो फिर भी बलदेव और कृष्णने उसे जीत लिया ऐसे ही जब उसे सत्रह बार जीत लिया तब अठारह वीं बार भी वह दुर्मद राजा ४ कृष्ण आदि यादवोंके सङ्ग युद्ध करनेको उद्यत हुआ पर यादवोंने उसे फिर भी युद्धमें हरा दिया ५ तब हारा हुआ जरासन्ध थोड़ी सी सेनाको लिये उसी तरह मनुष्य देह की चेष्टा को करता हुआ ६ अपनी लीला से जगत्में स्थित होनेवाले कृष्णके सङ्ग युद्ध करने लगा ७ मनुष्य धर्ममें लीन जगतोंके पति चक्रधारी विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुये कृष्णके माहात्म्यको कौन जानता है ८ और जो अनेक प्रकारके शस्त्रोंको छोड़ता है और जगत्की रचना तथा संहार करता है उसके पराजित करनेमें कौन समर्थ है ९ तथापि जो मनुष्य धर्मोंके अनुसार वर्तते हैं वे बलवालोंके सङ्ग युद्ध भी करते हैं १० और साम दाम दण्ड भेदको भी करते हैं और कहीं भाग भी पड़ते हैं ११ वेदव्यासजीने कहा कि एक समय गोशालामें बैठे हुये गार्गेय अर्थात् गर्गकुलमें होनेवाले ब्राह्मणको उसके शालेने १२ कहा कि यह नपुंसक है इसपर सब यादव हैंस उठे १३ और वह गार्गेयद्विज क्रोधयुक्त हो दक्षिणमें जाकर उत्तमतप करने लगा जिससे यादवोंको दुःख हो १४ उसने महादेवका आराधन करते बहुत दिनोंकेवल लोहाके चूर्णको ही भक्षण किया तब प्रसन्न होकर शिवजी ने

बारहें वर्ष उसे बरदिया १५ निदान एकसमय किसी  
 यवनेश्वर राजाने उस ब्राह्मणको भोजन कराया और  
 इस द्विजके सकाशसे उस यवनकीस्त्रीके बज्जकेसमान  
 एक पुत्रहुआ १६ तब उस यवनेश्वरने उसका काल-  
 यवननाम रक्खा और उसको राजदेके आप वनमें च-  
 लागया १७ निदान वीर्य तथा मद से उनमत्त काल-  
 यवन पृथ्वीके बलवान् राजाओं को पूछनेलगा और  
 नारदने यादवोंको बतलाया १८ नारदसेऐसासुनकोटि  
 सहस्रम्लेच्छों और हस्ती अश्व रथ पियादे आदिकोंसे  
 युक्तहो वहयादवोंकी तरफ १९ वायुकीतरह दिन प्रति-  
 दिन वेगसे आकर मथुरापुरीके नजदीकआया २० तब  
 श्रीकृष्णने यादवोंकोक्षीणहोते और मागधसेनापतिके  
 सङ्ग यवनेश्वरको यादवोंको मारनेकेलियेआतेदेख यह  
 विचारकिया कि २१ २२ इसमें यदुवोंकेवास्ते एकऐसा  
 दुर्जयदुर्ग बनाऊँ २३ जहां स्त्रीभी युद्धकरलेवें यादवोंका  
 तो कहनाही क्या है और मैं यदि मद में हों अथवा  
 सोताहूँ वा विदेशगयाहूँ तबभी यादवों का तिरस्कार  
 बलाधिक दुष्ट न करसकें २४ गोविन्दने ऐसे चिन्तवन  
 करके समुद्र से बारह योजन पृथ्वी द्वारकापुरी रचने  
 के वास्ते मांगी २५ और उसपर महान् बर्गीचों ऊँची  
 खाहीं सैकड़ों तलावों और किलेसेयुक्त ऐसी पुरीरची  
 मानों इन्द्रकी अमरावतीपुरीहो २६ निदान मथुरावासी  
 मनुष्यों को वहां बसाकर जब कालयवन के आनेका  
 समय समीपआया तब आप मथुरापुरीमें आये २७  
 और मथुराके बाहर सेना इकट्ठीहोनेके समय शस्त्रोंके

विना मथुरासे बाहरनिकले २८ तब कालयवन उन्हें देख और वासुदेव श्रीकृष्णजान उनकीतरफचला जो योगियोंके चित्तकोभी नहीं प्राप्तहोते २९ फिर श्रीकृष्ण और वह दोनों चलते २ एक महान्गुहामें पहुँचे जहां एक अति पराक्रमवाला राजा सोरहाथा ३० निदान वह दुर्मति कालयवनभी उनके पीछे २ गया और उस राजाको कृष्णजानके एकलात मारी ३१ जिससे वह राजाजागउठा और उसके देखनेहीसे कालयवन उसके क्रोधकी अग्निसेजलके क्षणमें भस्महोगया ३२ क्यों-कि उस राजाने देवतां और दैत्योंके युद्धमें दैत्योंको जीतके देवतां से यह वरमांगाथा कि मैं सोऊँगा ३३ और देवताओंने यह वरदान दियाथा कि तुम्हको सो-तेहुये जा उठावेगा वह तेरे शरीरसे उपजी अग्निसे तत्कालही भस्महोजावेगा ३४ ऐसे उसपापीको दग्ध कर और श्रीकृष्णकोदेख वह बोला कि तू कौनहै तब श्रीकृष्ण बोले कि मैं चन्द्रवंशमें जन्माहूँ ३५ वसुदेव का पुत्रहूँ और यदुवंशमेंहूँ यह सुनके मुचकुन्दभी गर्ग के वचनांका स्मरणकर ३६ इससर्वेश्वर हरिको प्रणाम कर कहनेलगा कि मैंने आपको जानलिया आपविष्णु के अंशसे उपजेहुये परमेश्वरहो पहले गर्गजीने कहा था कि अष्टाविंशति युगके ३७ द्वापरके अन्तमें यदु-वंशमें हरिकाजन्म होवेगा सो आपमेरे उपकार करने वाले प्राप्तहुयेहो इसमेंसंदेह नहींहै ३८ आपके महान् तेजसे मैंपूर्णहूँ ३९ मेघकेशवदसरीखा नादवाला आपका वाक्यहै और आपके पैरोंसे पीड़ित पृथ्वी नीचे

को नमती है ४० जैसे देवतां और दैत्योंके महान् युद्ध में मेरे तेजको दैत्यसेनाके योद्धान सहसके तैसेही आप के तेजको मैं नहीं सहसक्ताहूँ ४१ आप संसारके पति हो और जीवोंके रक्षकहो मेरे ऊपर प्रसन्नहोके मेरे पापों को हरो ४२ आपही समुद्रहो और आपही पर्वत तथा नदियां हो पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि मन ४३ बुद्धि आत्मा हित प्राण ये सब तुम्हारेही रूपहैं और आप विशेषकरके पुमानहो और जो २ परतरहैं व्याप्य तथा जन्म विकल्प हैं ४४ शब्दादि हीन अजर और क्षयसे रहित ममता ये सब आपहीहो और आपहीसे देवते पितर यक्ष गन्धर्व किन्नर ४५ सिद्ध अप्सरा मनुष्य पशु पक्षी सर्प बीजू मृग ये सब उत्पन्नहोतेहैं ४६ जो भूत भविष्यत्किंचित् चराचरहै तथा जो कुछमूर्ति सेरहित वा मूर्तिमान् स्थूल सूक्ष्महै ४७ सो सब आप हीहो आप जगत्के कर्ताविना कुछभी नहीं है संसार चक्रमें भ्रमतेहुयेमेरे ४८ तीनप्रकारके सन्तापोंको दूर करनेवाले आप मिले हो मुझको मूढदृष्टि से दुःखही सुख दीखतेहैं ४९ हे नाथ मैंने दुःखरूप सेना खजाना मित्र पक्षवाद पुत्र ये सबसंग्रह कररक्खे हैं ५० हे प्रभो भार्या भृत्यजन शब्दादि विषय ये सब मैंने सुख बुद्धि सेग्रहणकरलिये हैं ५१ और हे देवेश परिणामसे यह सब मेरे प्राणपातात्मक होरहे हैं हे नाथ मैं देवलोकगति को प्राप्तहोगया और देवगणों ने ५२ कहीं २ मुझसे सहायली पर हे परमेश्वर आपके आराधनविना ५३ अचल निवृत्ति न प्राप्तहुई तुम्हारी माया से मूढ हो

जन्म मृत्यु और जराको प्राप्तहो मनुष्य धर्मराय को देखता है ५४ और तुम्हारे रूपको जाने बिना सैकड़ों क्रियाओं से युक्त दारुण नरकमें दुःखभोगताहै ५५ मैं अत्यन्तविषयी और आपकी मायासे मोहितहूँ हे परमेश्वर ममतारूपी मकानकेभीतर मैंभ्रमताहूँ ५६ इसलिये मैं आप परम ईशरूपी आपकी शरणहूँ तुम्हारे परमपदके शरणहोने से मनुष्य संसार श्रमके तापसे छूटजाताहै ५७ वेदव्यासजीनेकहा कि इसप्रकार बुद्धिमान् मुचुकुन्दसे स्तुतहो सब भूतोंके ईश अनादि हरि भगवान् बोले कि ५८ मेरे प्रसादसे हे राजन् तू जैसे दिव्य लोकोंकी वाञ्छा करताहै उनमें अव्याहत परम ऐश्वर्यवालाहो ५९ दिव्यभोगोंको भोग महान् कुल में उत्पन्नहोवेगा और मेरे प्रसाद से तुम्हको वहाँ भी स्मरणरहेगा पश्चात् मोक्षको प्राप्तहोजावेगा ६० वेदव्यासजी बोले कि यह सुनके वह नृप जगत्तोंके ईश भगवान्को प्रणामकर ६१ उसगुप्तगुफासे बाहरनिकल और छोटैरमनुष्योंको देख ६२ कलियुग आया जान नरनारायणके स्थानमें गन्धमादन पर्वतको चलागया ६३ और श्रीकृष्णने उस शत्रुकोमार और उसक्रीसेना को ले मथुरामें होतेहुये हस्ती अश्व उज्ज्वल रथ ६४ सब लाके द्वारकापुरीमें उग्रसेनको अर्पण किये तबसे यादवोंका कुल पराजयसे निःशंकहोगया ६५ ब्रह्माजी ने कहा कि हेविप्रेन्द्रो फिर जब सबबिग्रह शान्तहोगये तब बलदेवजी जीतिके बंधुओंके दर्शनकी उत्कण्ठा से गोकुलमें आये ६६ और गोपी व गोप उनसे बड़ेप्रेमसे

मिले ६७ कोई गोपी गृहकार्यको त्यागके मिली और  
 कोई बलदेवकेसंग हासकरनेलगी ६८ हलायुध बल-  
 देव गोपोंसे अनेक प्रियवचन कहनेलगे और गोपीभी  
 प्रेम से कुपित ईर्ष्यासहित टेढ़े वचन बोलनेलगीं ६९  
 गोपियोंने पूछा कि शहरके मनुष्यों से प्यारकरनेवाला  
 और प्रेममें लीन कृष्णतो सुखसे है ७० और हमारी  
 इसदशाको सहनकरके कभी मथुरा नगरकी स्त्रियोंको  
 सौभाग्यमान करताहै ७१ वह कभी प्रीतिके साथ अपने  
 कुलकाभी स्मरण करताहै और कभी अपनी माताके  
 दर्शनकरनेकोभी एकवार आवेगा ७२ अथवा तिन अ-  
 पने आलापोंकी कथाको फिरभी कभी सुनावेंगे कि नहीं  
 माता पिता आता भर्ता बन्धुजनोंको त्याग हमेंतो वहीं  
 प्रियथा ७३ पर वह अकृतज्ञहै तोभी अपने आलापों  
 का यहां सङ्गम करेगा कि नहीं कृष्ण जो करता है सो  
 आप सत्य २ कहो ७४ वह दामोदर मथुराकी स्त्रियोंमें  
 आसक्त मनकिये हमारी प्रीतिकी क्या दुर्दशा कर रहाहै  
 ७५ व्यासजी बोले कि फिर वे गोपी हे कृष्ण हे दामो-  
 दर तू आमन्त्रितहै ऐसे कहके ऊँचेस्वरसे हँसनेलगीं  
 ७६ फिर श्रीकृष्णके अमित मनोहरप्रेमसे गर्वित सं-  
 देशोंसे वे बलदेव को समझाने लगीं ७७ और पहले  
 की तरह मनोहर हास और विचित्र कथाओंसे रमण  
 करती रहीं ७८ व्यासजी बोले कि इसप्रकार चन्द्राव-  
 नमें विचरते और गोपियों के संग रमणकरते मनुष्य  
 रूप से ढकेहुये शेषरूप ७९ बलदेव के अति उपभो-  
 गके वास्ते ८० बरुणजीने अपनी बारुणीसे कहा कि

हे शुभे तू अनन्तके उपभोगके वास्ते गमनकर ८१ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांबलदेवसहगोप्यालापनंनाम  
सप्ताशीतितमोऽध्यायः ८७ ॥

### अट्ठासीवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि कुबेरकी आज्ञापाकर बारुणीवृ-  
न्दावनमें कदम्बके कोटरमें उत्पन्नहुई १ और बलदेव  
जीने विचरतेहुये मदिराकी गन्धपाके पुरातन हर्षको प्रा-  
प्तहो २ कदम्बको मध्यसे काटा और उसमेंसे निकलती  
हुई मदिराको देख परमआनन्दको प्राप्तहुये ३ निदान  
मदिराको पानकर गोपगोपियोंकेसंग आनन्दसे अति  
सुन्दर गीतगाते तथा वाद्यबजातेहुये ४ कलीकी तरह  
खिलेहुये बलदेवने यमुनानदीको अपने समीप बुलाया  
पर यमुनाने उनका वचन नहीं माना ५ तब क्रोधसे हल  
को ग्रहणकर और भद्रसे विह्वल हो बलदेव ने बड़के  
समीप तिसनदीको खींचा ६ और यह कहा कि अब  
इस पापसे आवेगी कि नहीं इस प्रकार बलदेव द्वारा  
खींचीहुई यमुना मार्गको त्याग ७ जहां बलदेवथे तहां  
बहनेलगी और शरीरको धारणकर त्राससे विह्वल हो  
८ यह कहनेलगी कि हे हलायुध आप प्रसन्नहो और  
मुझको छोड़दो तब बलदेवजी बोले कि तू मेरे बलको  
नहीं जानती है ९ इसवास्ते मैं तुझको हलसे हजारों  
प्रकारसे नवाऊंगा १० व्यासजीने कहा कि जब यमुना  
नदी अति त्रासितहुई ११ तब बलदेवजीने पृथ्वीमें  
छोड़के उसे फैलादिया और उसमें स्नानकरनेसे महा-  
त्मा बलदेवकी अति काजित हुई १२ निदान वरुण ने



आकर बलदेवको आभूषण कमल कुण्डल निर्मल कमलोंकी माला समुद्रके जलमें धोयेहुये नीलेवस्त्र १३ और लक्ष्मीभेटकी तब वह बलदेवजी आभूषणों और सुन्दर कुण्डल से भूषितहो नीलाम्बर तथा मालाको धारणकिये कान्तिसे युक्त अति शोभितहुये १४ और ब्रजमें रमणकरते दोमहीने वासकर पश्चात् मथुरापुरी में लौटआये १५ और रैवतराजा की पुत्री रेवती को प्राप्तहो रमण करतेरहे १६ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांयमुनाकर्षणं नाम

अष्टाशीतितमोऽध्यायः ८८ ॥

नवासीवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि विदर्भदेश के कुण्डिनपुरके राजा भीष्मकके रुक्मीनामक पुत्र और रुक्मिणी पुत्रीथी १ सुन्दर हास्यवाली रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण के विवाह की इच्छाकी पर रुक्मी के वैरसे उसका सम्बन्ध श्रीकृष्ण के साथ राजाने स्वीकार नहींकिया २ जरासन्धकी प्रेरणासे शिशुपालसे उसके विवाहकीठहरी और रुक्मी कीभी यही सलाहहुई ३ निदान विवाहकेवास्ते जरासन्ध आदि सब राजे शिशुपाल के हित की इच्छासे भीष्मककेपुरमें आये ४ और श्रीकृष्णभी बलदेवआदि यादवोंसहित विवाह देखनेके वास्ते कुण्डिनपुरमें आगये ५ विवाहसे एकदिन पहले हरिभगवान् उसकन्या को हरके बलदेवआदि क्षत्रबंधुओंमें आमिले ६ और पौंड्रराजा दन्तवक्रविदूरथ शिशुपाल जरासन्ध और शाल्वआदिक राजे येहालसुन ७ कुपितहो हरिके मार-

नेका उद्योगकरने और यह कहनेलगे कि बलदेव आ-  
दिक यादवोंसेहारेहुये हम कुण्डिनपुरमें न प्रवेशकरेंगे  
पहले कृष्णको मारेंगे यह प्रतिज्ञाकरके वे श्रीकृष्णको  
मारनेदौड़े ९ पर चक्रीभगवान् ने अपनी लीलाकरके  
अश्व पियादे रथ इत्यादिक सेनाकोमार १० रुक्मिणी  
से राक्षसविवाहकिया ११ और उससेकामदेव के अंश-  
वालावीर्यवान् प्रद्युम्न पैदाहुआ जिसको पहले शम्बर  
दैत्यहरलेगयापरपीछेसेउसनेशम्बरकोमारडाला १२॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायाकृष्णचरित्रेरुक्मिणीहरणं  
प्रद्युम्नोत्पत्तिनामैकोनवतितमोऽध्यायः ८६ ॥

### नब्बेवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूछा कि शम्बरदैत्यसे हतहुये प्रद्युम्न ने  
फिर महापराक्रमवाले शम्बरको कैसेमारा १ वेदव्यास  
जीनेकहा कि शम्बरदैत्य यहमानके कि यह मुझे मारने  
वाला है जन्म से छठे दिन सूतिका घरसे प्रद्युम्न को  
उठालेगया २ और बहुत दूर लेजाकर समुद्र में फेंक  
दिया जहां उस मकरालय समुद्रमें उसे ३ एकमत्स्यने  
लीललिया निदान उस मच्छको एक व्याध ने और  
मच्छोंकेसाथ पकड़ ४ शम्बरकोदिया और सबगुणों से  
युक्त ५ रतीनामवाली शम्बरदैत्यकी स्त्रीने उस मत्स्य  
केउदरको फाड़ा ६ तो उसमें एक अतिसुन्दर बालक  
को देख आश्चर्य करनेलगी ७ कि यह कौनहै और म-  
च्छके उदरमें कैसेआया उसीअवसर में नारदमुनिने  
आकर उससेकहा ८ कि यहसब जगतोंकी स्थिति तथा  
संहार करनेवाले श्रीकृष्ण का पुत्रहै शम्बर ने इसको

सूतिका घरसेलाके समुद्रमें डालदियाथा ६ और इस  
मच्छने निगललियाथा अब यह तुम्हको प्राप्त हुआहै  
इसलिये इस नवीन रत्नको तू विश्वास से रहितहोके  
पाल १० व्यासजीनेकहा कि नारदसे यहसुन वह उस  
बालकको पालनेलगी और उसकी बाल्यअवस्था के  
रूपरागसे अतिमोहित हुई ११ जत्र वह यौवनसे भू-  
षित अंगवालाहुआ तब रती अभिलाषासहित गज-  
गामिनीभई १२ और उस महात्माकेलिये अपनी सब  
मायाको देहदयमें कुछ इच्छाकरनेलगी १३ और वह क-  
मलसरीखे नेत्रोंवाला प्रद्युम्न उसप्रेमिनीसे कहनेलगा  
कि तू माताभाव त्यागके ऐसेअन्यथा क्योंवर्त्ततीहै १४  
वह बोली कि तू मेरापुत्र नहींहै तुम्हको तो कृष्णकेघर  
से कालरूप शम्बरने हरलाकर १५ समुद्रमें फेंकदिया  
था और एकमच्छके उदरसे मैंने तुम्हेप्रायाहै तेरीमाता  
तो अतिवत्सला रुदन करतीहोगी १६ व्यासजीनेकहा  
कि यह सुनकर प्रद्युम्नक्रोधसे आकुलहो शम्बरकेसंग  
युद्धकरनेलगा १७ और सबसेनाका हननकरके अपनी  
मायासे शम्बर दैत्यको आश्विन महीनेकी अष्टमीके  
दिनमार १८ रतीसहित अपनेपिताकेपुरमें आया रती  
केसंग आतेप्रद्युम्नको देख १९ कृष्णकी सबस्त्री प्रसन्न  
भई २० और रुक्मिणी प्रेमसे अश्रुपूर्ण दृष्टिसहित आ-  
नन्दितहोवोली कि मैं धन्यहूँ क्योंकि मेरेऐसापुत्रहै २१  
और इसअवस्थामें जो मेरा प्रद्युम्नपुत्र जीताहै हे पुत्र  
में भाग्यवती हूँ और तुम्हसे विभूषितहूँ २२ इस अ-  
वस्थामें ऐसे स्नेहवाले हरिका तू पुत्रहोवेगा २३ वेद-

व्यासजी ने कहा कि इसके अन्तर कृष्णकेसर्ग नारद मुनिआये और महलकेभीतर रुक्मिणीको हर्षितकरते बोले २४ कि हे सुभ्रु तेरापुत्रअब अपनेपुरमें आयाहै जिसने तेरे घरसे यह बालक हराथा २५ उसकी यह मायावती भार्या तेरेपुत्रकीभार्याहै शम्बरकी भार्या नहीं है २६ मन्मथके अनुगमनसे उसकी उत्पत्तिमें परायण इसरूपिणीने शम्बरको मायारूपसे मोहितकिया २७ और विवाह आदिक उपभोगों में अपने शुभरूपको मायासे दिखाया २८ परइस रतिस्त्री का पति यहतेरा पुत्रहीहै और यह शोभनातेरी पुत्रवधूहै २९ यहसुन हर्षयुक्तहो केशवभगवान् और समस्तनगरी रुक्मिणी को साधुसाधु कहनेलगे ३० और चिरकालकेवियोगी पुत्रकोदेख रुक्मिणी और द्वारकापुरीके सब मनुष्यविस्मयको प्राप्तहुये ३१ व्यास ने कहा कि फिर रुक्मिणीके चारुदेषण सुदेषण चारुदेहसुषेण चारुगुप्त भद्रचारुचारुविन्द सुचारु चारुरुच आदिपुत्र और चारुमतीकन्या उपजे ३२ और कृष्णकी अन्यभार्याभी अतिशोभना हुई मित्रविन्दा कालिन्दी सत्या नाग्निजिती ३३ देवी जाम्बवती सदातुष्टा रोहिणी भद्र राजसुता सुशीला अतिमंडना ३४ सात्राजिती सत्यभामालक्षणा चारुहासिनी आदि सोलहहजारस्त्री श्रीकृष्णकेथी ३५ महान् पराक्रमवाले प्रद्युम्नने स्वयम्बर में रुक्मिणीकी पुत्रीको बरा ३६ तिससे महान्पराक्रमी अनिरुद्धनामक बैरियों को शान्तकरनेवालापुत्र पैदाहुआ ३७ तिसको रुक्मी की पोती विवाहीगई ३८ और उसके विवाह में बल-

देव आदिक यादव कृष्णके संग रुक्मी के नगरमें गये  
 ३९ जब अनिरुद्धका विवाह होचुका तब कलिगराज  
 आदिराजे रुक्मीसे कहनेलगे ४० कि बलदेवजी पासे  
 खेलनेमें चतुर नहीं हैं पर महान् व्यसनवाले हैं इस-  
 लिये इनको हम जूवेमें हरावेंगे ४१ व्यासजीने कहा  
 कि यह सलाहकर बलसे युक्तहो रुक्मी सभा में बल-  
 देवकेसंग जूवाखेलनेलगा ४२ और हजारभार सोना  
 रुक्मीने बलदेवसे प्रथमही जीतलिया फिर दूसरेबार  
 हजारभार और जीतलिया ४३ तब दशहजार भार  
 सोना एकदांवपर बलदेव ने लगाया जीत लिया तब  
 द्यूतविशारद रुक्मी ४४ मंदोन्मत्त हुआ मूढ़की तरह  
 हँसताहुआ बोला कि ४५ बलदेव विद्यासे रहित है  
 और पासोंके खेलने में चतुर नहींहै ४६ कलिगराज  
 रुक्मीको हँसते और खोटेवचन कहतेदेख हलायुधने  
 क्रोध किया ४७ और रुक्मी पासों को फेंक ऊँचेस्वर  
 से कहनेलगा कि मुझे बलदेवने जीतलिया ४८ ऐसे  
 ही अनेक उक्तियोंसे जब रुक्मीने कहा कि मुझको ब-  
 लदेवने जीता ४९ तब बलदेवने कहा कि तूने भूठ  
 वचनकहकर दांवलियाहै यहअच्छानहींहै ५० तब अ-  
 तिगम्भीर बलदेवके अभिमानको बढ़ातीहुई आकाश  
 वाणी हुई ५१ कि बलदेव जीताहै और रुक्मी भूठ  
 बोलताहै पर कहनेसे नहींहोता कर्म तो करनेसे होता  
 है ५२ निदान बलदेव ने क्रोधसे खड़ेहोके आठलातें  
 रुक्मीकोमारीं और पकड़कर ५३ जिनदांतोंसे वह हँसा  
 था उन्हें तोड़डाला एवम् महान् हलको ग्रहणकर ५४

जोर उसके पक्षके राजेथे उन्हेंभी मारा और वे हाहा-  
कार करतेहुये वहां से भागे ५५ इसप्रकार जब बलदेव  
के क्रोधसे वह राजमण्डल हतहुआ तब रुक्मीके मारे  
जानेका हालसुन ५६ श्रीकृष्ण भगवान् रुक्मिणी और  
बलदेवके भयसे कुछभी न बोले ५७ और बलदेवजी  
अनिरुद्ध का विवाह करवा के श्रीकृष्ण और यादवों  
समेत द्वारकाको लौटआये ५८ ॥

श्रीआदिब्रह्मपुराणेऽनिरुद्धविवाहेरुक्मीबंधानवतितमोऽध्यायः ९०

### इक्यानबेवां अध्याय ॥

व्यासजी ने कहा उनके द्वारकामें लौटआने के प-  
श्चात् त्रिभुवनेश्वर इन्द्र ऐरावतहस्तीपर चढ़के द्वार-  
कापुरी में श्रीकृष्ण से मिलनेके वास्ते आया १ और  
श्रीकृष्ण से मिलकर बोला २ कि हे श्रीकृष्ण आपने  
मनुष्यशरीरसे स्थितहुये सब देवतोंके दुःखोंकी शांति  
करदी ३ तपस्वीजनोंकेनाशकरनेवाले अरिष्टदैत्यधेनुक  
प्रलम्ब केशी आदि सबको हनन किया ४ और कंस  
कुबलयापीड हस्ती बालघातिनी पूतना आदि जगत्  
के अन्य उपद्रव आपने शांत करदिये ५ आप त्रिलोकी  
में रक्षा करनेवाले हो और यज्ञके अंशरूप तुमसे दे-  
वतोंकी तृप्ति होती है ६ हे जनार्दन जिस निमित्त अब  
मैं आया हूं उसको सुनके उस बैरका बदला लेने को  
आप समर्थहो ७ हे अरिंदम प्राग्ज्योतिषपुरका ईश्वर  
नरकासुर सब प्राणियों का तिरस्कार करता है ८ देव  
सिद्ध नपआदिको जीतके उसने अपने मन्दिरमें उनकी  
कन्या रोकररखी हैं ९ और कांचनसावि व्रत्रको उसने

वरुणसे छीनलिया मन्दराचल पर्वत के शिखरको हर  
लिया १० अमृतखावी दिव्य अमृतनामवाले कुंडलों  
को हरलिया और अब सेरावतहस्ती लेने की बाञ्छा  
करता है ११ हे गोविन्द उसकी यह दुर्नीति मैंने कही  
है अब जो कर्त्तव्यहै वह आप विचारो १२ वेदव्यास  
जी कहनेलगे कि यह सुनके देवकीसुत भगवान् हँसके  
इन्द्रका हाथ पकड़ बरासनसे उठे १३ और इन्द्रको वि-  
दाकर आप आकाशगामी गरुड़पर चढ़ सत्यभामा को  
संगले प्रागज्योतिषपुरमें गये १४ जो चारोंतरफ से सौ  
बोजनथाँ और उसके चारोंतरफ १५ १६ दैत्योंने फाँसी  
बनारकलीधीँ ऐसे तिसपुरकोदेख भगवान्ने सुदर्शन-  
चक्रको फेंका १७ और मरुदैत्यकोमार अनेक राजाओं  
की १८ सातहजार कन्याओं को छुड़ाया जब उनदैत्यों  
को चक्रधारासे टीड़ियों की तरह भगवान्ने मारा १९  
तब महानहयग्रीव पंचनदआदि दैत्य प्रागज्योतिषपुर  
कोत्यागकेभागे २० और नरकासुरसहित उसकीसेना  
के संग श्रीकृष्णका युद्ध होनेलगा निदान श्रीकृष्ण ने  
अनेक दैत्योंको मार २१ अपने चक्रसे भौमासुर और  
नरकासुरदैत्योंकोभी हननकिया २२ नरकासुर भौमासुर  
दैत्योंके हतहोनेकेपीछे पृथ्वी दितिके कुण्डलोंको ग्रहण  
कर जगन्नाथ श्रीकृष्णके सामनेआकर कहनेलगी कि  
२३ हेजगन्नाथ जब शूकररूप धरके आपने मुझको  
उच्चारकियाथा तब तुम्हारे स्पर्शसे यहपुत्र पैदाहुआ  
था २४ आपने यह पुत्र दियाथा और आपहीने हर-  
लिया तो अब इनकुण्डलोंको ग्रहणकरो और इसकी

सन्तानको पालो २५ हे प्रभो भारतारनेकेलिये देव  
अंशसे आप मेरीही प्रसन्नताकेवास्ते उतरेहो २६ और  
कर्ता विकर्ता हर्ता प्रभु अविनाशी और जगत्तोंके स्व-  
रूप आपहीहो २७ आपव्यापीहो व्याप्यक्रियाकेकर्ता  
हो और कार्यभीहो सो सर्वभूतात्मभूत आपकी क्या  
स्तुतिकरिये २८ आपपरमात्माहो आत्माहो भूतात्माहो  
और अविनाशीहो और आपकीस्तुतिकरनेमें नहीं आ-  
तीहै २९ हे सर्वभूतात्मनः आपप्रसन्नहो और नरकासुर  
ने जो कियाहै उसे आपक्षमाकरो उसकेलिये यही कर्तव्य  
था इसवास्ते आपने मारा ३० इतनीकथा कह व्यास  
जीने कहा कि भूतभावन भगवान्ने पृथ्वीकी यह प्रा-  
र्थना सुन कहा कि ऐसेही होगा ३१ पश्चात् अतुल  
पराक्रमवाले श्रीकृष्णभगवान्ने नरकासुरकेभुवनमेंजा  
सौलहहजारएकसौ कन्याओं ३२ चतुर्दशगज छःहजार  
अश्व और काम्बोजदेशके इक्कीसलाखअश्वों ३३ को  
देख उनकन्याओंको नरकासुरकेकिंकरोंकेसाथ द्वारका-  
पुरीमें पहुँचाया ३४ और वरुणके छत्र और मणि प-  
र्वतको गरुड़पर आरोपण कर ३५ सत्यभामा सहित  
दितिके कुण्डल देनेकेवास्ते स्वर्गकोगये ३६ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यास ऋषिसंवादे कृष्णचरिते

नरकवधो नाम एकवतितमोऽध्यायः ९१ ॥

वानवेवां अध्याय ॥

व्यासजीने कहा कि जब गरुड़जीने वारुणछत्र मणि  
पर्वत और भार्यासहित श्रीकृष्णको अपनी लीलासे  
स्वर्गको पहुँचाया १ तब स्वर्गके द्वारपरजाके श्रीकृष्ण



ने अपने शंखको बजाया और शंखकी ध्वनिसुन इन्द्र  
 आदिक देवते भगवान्के पास आप्राप्तहुये २ देवताओं  
 से पूजितहो श्रीकृष्णने देव माता अदितिके भोडरके  
 समान सफेद मकानोंको देखे ३ इन्द्रकेसमेत प्रणामकर  
 उत्तम कुण्डलोंको दिया और नरकासुरके बधकाहाल  
 कहा ४ यह वृत्तान्तसुन प्रसन्नहुई जगन्माता अदिति  
 शुद्धमनसे जगद्धाता हरि की स्तुति करनेलगी कि हे  
 पुण्डरीकाक्ष भक्तोंको अभयकरनेवाले आपकोनमस्कार  
 है हे भूतात्मन् हे सर्व्वात्मन् भूतभावन ५।६ हे प्राणभू  
 आप मन बुद्धि और इन्द्रियोंके गुणात्मकहो हे त्रिगु-  
 णातीत हेनिर्द्वन्द्व शुद्ध और सर्वहृदिस्थित ७ हे सम्पूर्ण  
 कल्पनाओं से वर्जित जन्मादिकों से असंस्पृष्ट और  
 स्वप्नादि परिवर्जित ८ सन्ध्या रात्री दिन भूमि आकाश  
 वायु जल अग्नि मन बुद्धि ये सब आपकेही रूपहैं ९  
 सृष्टि स्थिति और विनाशके कर्त्ताहो कर्त्तृपतिहो और  
 ब्रह्मा विष्णु शिवआदि आख्यातियोंवाले आत्ममूर्ति  
 ईश्वर हो १० हे भगवन् मैंने अपने पुत्रके बैरियोंके  
 पक्षके नाशके वास्ते आपका आराधन किया है मोक्ष  
 के वास्ते नहींकिया ११ कल्पद्रुमसे यदि कोपीनआदि  
 वस्त्रोंकी बाँझा कीजाय तो यह अपराध सहित दोषज  
 पुण्यक्षीणका लक्षण है १२ आप सब जगत्तोंपर माया  
 से मोह करनेवाले हो मुझपर प्रसन्न हो हे भूतेश मेरे  
 अज्ञानका नाश करो १३ और हे शंख चक्र शार्ङ्ग और  
 गदा हस्त हे विष्णो आपको नमस्कार है १४ स्थूल  
 चिह्नसे उपलक्षित आपके इस रूपको मैं नहीं जानती

आप प्रसन्न हो १५ इतनी कथा सुनाकर वेदव्यासजी बोले कि ऐसे अदिति द्वारा स्तुतहोके विष्णु भगवान् सुरारणि से बोले १६ कि हे मातर्देवि तू हम पर प्रसन्नहो और वर देनेवाली हो १७ अदितिने कहा कि ऐसेही होवेगा आप देवतों और असुरोंसेभी अपनी मायाद्वारा अजेयहोगे और मृत्युलोकमें पुरुषोंमें सिंह रूपहोगे १८ फिर इन्द्रसहित अदितिको सत्यभामाने बारम्बार प्रणामकरके कहा कि तू प्रसन्नहो १९ अदिति कहनेलगी कि हे सुभ्रू मेरी प्रसन्नतासे तुझे बुढ़ापा न आवेगा और तू सुन्दर अङ्गवाली और सर्वकामनाओं को सिद्धकरनेवालीहोगी २० वेदव्यासजी कहनेलगे कि अदितिसे कृतानुज्ञहुये देवराज इन्द्र ने फिर श्रीकृष्ण को बहुमानसे पूजनकिया २१ और श्रीकृष्ण और सत्यभामाने देवताओंके सबसमूहोंको देख २२ सुगन्ध और मंजरियोंके समूहोंसेयुक्त नन्दनवनआदि बगीचों और सुन्दर प्रकारके ताश्रसमान पत्तोंसेयुक्त वृक्षों २३ और यक्षनाग राक्षस सिद्ध पन्नग कूष्माण्ड पिशाच गन्धर्व मनुष्यजाति २४ बीछू सर्प गुजे वेल और सबप्रकारके तृणको देखा २५ तब स्थूल सूक्ष्म अतिसूक्ष्म देह भेद और माया के आश्रयसे उत्पन्नहुये २६ वृक्ष बोले कि हे ईश्वर परम मोहिनी यह आपकी अज्ञात माया है २७ जैसे मूढ़जन अनात्मामें अधिष्ठान आत्मा का निरोध करताहै और अहंकारसे पुरुषोंमें भार पैदाहोरहाहै २८ और जो कुछहै सो हे जगन्नाथ आप कीही माया है जो अपने धर्मसे आपका आराधन क-

रते हैं वे आत्मविमुक्तिके वास्ते सब मायासे पार उतरते हैं २९ ब्रह्माआदिक सबदेव मनुष्य और पशु सब मायामोहके अन्धतमसे आवृत हो रहे हैं ३० हे ईश्वर आपकी मायासे मोहित पुरुष आपका आराधन कर नाशमान कामनाओंकी इच्छा करते हैं ३१ हे भगवान् इस प्रकार आपकी माया फैल रही है ३२ हे जगन्नाथ जब अमृत मथा गया था तब उसकी विंदुसे सुवर्णके समान बर्कलवाला यह कल्पवृक्ष आपकी ही मायासे पैदा हुआ था ३३ उस वृक्षको सत्यभामादेखके गोविन्दसे कहने लगी कि आप इस वृक्षको द्वारकाको क्यों नहीं ले चलते ३४ जो तुम्हारे वचन सत्य हैं और सत्यके वास्ते आप यत्न करते हो तो यह वृक्ष मेरे घरके वास्ते ले चलना चाहिये ३५ हे कृष्णजी आपने पहले कहा था कि मुझको जैसी तू सत्याप्रिया है तैसी जाम्बवती और रुक्मिणी नहीं है ३६ सो हे गोविन्द यह तो सत्य है परन्तु आपने कुछ उपचार नहीं किया इसलिये यह कल्पवृक्ष मेरे घरका आभूषण करना चाहिये ३७ कि इस वृक्षकी मंजरीको मैं केशोंमें धारण करती हुई आपकी सपत्नियोंके मध्यमें शोभित रहूँ ३८ कि यह सुन भगवान् ने जब उस कल्पवृक्षको गरुड़पर आरोपण किया ३९ तब बनकी रक्षा करनेवाले कृष्णसे कहने लगे कि इंद्राणीके पतिने इंद्राणीके वास्ते इसे स्थित कर रखा है इसलिये हे गोविन्द इसको आप मत हरो ४० इंद्राणीके भूषणके वास्ते देवताओंके अमृतमथन समयमें यह उत्पादन किया गया था इसे लेके तू क्षेमसे घर न जावेगा ४१ देवराजके मुखको देखके मूढ़-

पनेसे तू क्षेमकी इच्छाकरताहै और घरजानेको समर्थ नहींहै ४२ हेकृष्ण तू निश्चय इंद्रद्वारा तिरस्कारको प्राप्त होगा जबइन्द्र हाथमें बज्रउठाताहै तब देवतेभी इन्द्र के सङ्ग होजाते हैं ४३ और सम्पूर्ण देवताओं से युद्ध करके कुछभलानहीं बुद्धिमान् मनुष्यको ऐसाकर्म न करनाचाहिये ४४ यह सुनकर उनसे अतिकोपवाली सत्यभामाबोली कि ४५ इस कल्पवृक्षकी मालिकशची कौनहै और इन्द्रकौनहै यह अमृततो सबकेवास्ते सामान्यसे पैदाहुआहै ४६ देवते किससे पैदाहुये हैं जो अकेलाइंद्र इसेग्रहणकररहाहै जैसे सबदेवतेविशेषकर किसीके नहींहैं ४७ तैसेही यह कल्पवृक्षभी सामान्यसे सबकाहै अपनेभर्त्ताका भाग बतानेवाली शचीसे ४८ कहदेना कि क्षांतिमतकर सत्यभामा इसवृक्षको हरवा के लियेजातीहै ४९ यदि तू अतिगर्ववालीहै और तेरा भर्त्ता तेरेवशमेंहै तो ५० मेरेभर्त्ताको वृक्षहरतेहुये निवारणकरे स्वर्गकेपति उसकेभर्त्ताको मैं जानतीहूं ५१ और इसकल्पवृक्षकी कथाकोभी जानतीहूं इसलियेमें मानुषी इसको हरवातीहूं ५२ व्यासजीने कहा कि यह सुनके बनरक्षा करनेवाले ने शचीसे जाकर सब हाल और शचीने इन्द्रसे उत्साह बढ़ाकेकहा ५३ तब इन्द्र सबदेवताओंकी सेनासे युक्तहो कृष्णसे कल्पवृक्ष लेनेके वास्ते युद्धकरनेको आया ५४ इन्द्रको इसप्रकार सुसज्जितहो युद्धकेवास्ते आतादेख श्रीकृष्णने दशोंदिशाओंमें व्याप्तहोनेवाले शङ्खका शब्द किया ५५ और सैकड़ों हजारों बाणोंके समूहोंकोछोड़ सब दिशाओंको

बाणोंकी दृष्टिसे पूर्णकरदिया ५६ निदान सब देवतेभी अनेकप्रकारके शस्त्र अस्त्रोंकोले एकएकशस्त्रको हजारों वार छोड़नेलगे ५७ तब मधुसूदन भगवान्ने अपनी लीलासे उन्हें छेदनकिया वरुणकी फांसीको गरुड़जीने तोड़ा ५८ और धर्मरायके प्रेरेहुये दण्डको देवकीसुत भगवान्ने अपनीगंदासे खण्डितकरके पृथ्वीमें गिरादिया ५९ फिर भगवान्ने कुबेरके प्रेरेहुये शिविरशस्त्रको अपनेचक्रसे खण्डितकर ६० और सूर्यको अपनी दृष्टिसे देख हतपराक्रम करदिया और सैकड़ों बाणोंसे भेदनकर अग्निको दशों दिशाओं से भगादिया ६१ चक्रसे कांधे छेदनकर रुद्रोंको पृथ्वीमें गिरादिया और साध्य विश्वेदेवा मरुद्गण गन्धर्व इत्यादिकोंको बाणोंसे व्याकुल करदिया ६२ निदान शार्ङ्गधनुषसे प्रेरित हाथों से श्रीकृष्णने और मुख और पक्षोंसे गरुड़ने ६३ सब देवताओंको ताड़नादी और विदारणकिया तब इन्द्र और मधुसूदन ने ६४ आपसमें ऐसा बाणयुद्ध किया मानों धारासहित मेघ वर्षताहो सरावत हस्तीके संग गरुड़ युद्धकरनेलगा ६५ और सब देवतांसमेत इन्द्र के संग श्रीकृष्ण युद्ध करनेलगे जब सब शस्त्र कटगये तब ६६ इन्द्रने वज्रको और कृष्णने सुदर्शनचक्रको ग्रहणकिया और संवचराचरलोक हाहाकारकरनेलगा ६७ वज्रको ग्रहणकरे इन्द्रकोदेख हरिभगवान्ने इन्द्रके वज्रको छीनलिया ६८ और चक्रको न छोड़के कहने लगे कि तू नष्टवज्रवाला और गरुड़से हतबाहनवाला है ६९ भागने में तत्पर इन्द्रको देख सत्यभामा कहने

लगी कि हे त्रिलोकीके बलसेयुक्त इन्द्राणीके भर्ता ७०  
 बिना कल्पवृक्षके ले गये हुये वह शची तुम्हको कैसे प्राप्त  
 होगी अर्थात् कैसे आदर करेगी ७१ हे इन्द्र वह शची  
 कल्पवृक्षके देखे बिना प्राणों से हीन हो जावेगी ७२ हे  
 इन्द्र तू खाली मत जा इस कल्पवृक्षको लेता जा और  
 देवते भी व्यथासे रहित हो जावें ७३ पतिके गर्वसे ग-  
 र्वित शचीने बहुत मान बढ़ाके मुझे घरमें आने पर भी  
 न देखा ७४ पर हे इन्द्र मैं स्त्री भावसे गम्भीर चित्त  
 वाली नहीं हूँ इस वास्ते तेरे संग मैंने यह युद्ध कराया ७५  
 मैं इस कल्पवृक्षसे तुम्हें तेरी भार्या शची भर्तृबलसे  
 गर्वित थी इस वास्ते यह विश्रह हुआ ७६ इतनी कथा  
 कह व्यासजी बोले कि जब सत्यभामाने ऐसे कहा तब  
 इन्द्र निवृत्त हो सत्यभामासे बोला कि हे चंडि अतिवि-  
 स्तृत खेदोंसे मैं तुम्हें ७७ रचना स्थिति और संहार  
 के कर्तासे हारनेमें मुम्हको क्या लज्जा है ७८ जिसमें  
 यह जगत् लीन होता है और जिस अनादि मध्यवाले  
 बिना कुछ पैदा नहीं होता उस उत्पत्ति प्रलय और पा-  
 लनके कारणरूपसे हारनेमें हे देवि कैसे लज्जा हो ७९  
 सकल भुवनकी मूर्ति सूक्ष्मरूप और सब वेदों से भी  
 अविदित एवम् जिसकी आद्य नहीं जानी जाती उस  
 अज अकेश ईश शाश्वत स्वेच्छा से वर्तमान आद्य  
 भगवान्को जाननेमें कौन समर्थ है ८० वेद व्यासजीने  
 कहा कि इस प्रकार देवराजसे संस्तुत हो केशव भगवान्  
 ने गम्भीर भाव हो इन्द्रसे हँसके कहा ८१ कि आप देव-  
 राज इन्द्र हो और मैं मृत्युलोकवासी मनुष्य हूँ इसलिये

मैंने जो अपराध किया है तिसको आप क्षमा करो ८२ और यह कल्पवृक्ष शचीके स्थानको लेजावों मैंने तो सत्यभामाके कहनेसे इसेग्रहण करलियाथा ८३ हे इंद्र यह जो तेरा वज्र गिरपड़ा है उसको तू ग्रहणकर क्योंकि बैरियोंको विदारण करनेवाला यह अस्र तुभेही सोहत है ८४ इंद्र कहनेलगा कि हे ईश मैं मनुष्य हूं ऐसे कहके क्या आप मुझको मोहते हो मैं ऐश्वर्यवाले आपको जानता हूं हमभी सूक्ष्मविदहैं ८५ हेनाथ जो आपहो वहीं हो आप जगत्की रक्षा करने में संस्थितहो आप इस कल्पवृक्षको लेजाओ ८६ और द्वारकापुरी में स्थापित करो आपके सिवाय अन्यपुरुष इसको मर्त्यलोकमें नहीं स्थापित करसक्ता ८७ इतनी कथा सुनाकर व्यासजीबोले कि फिर हरिभगवान् ने इंद्रसे यह कहके कि ऐसे ही हो सिद्ध गन्धर्व ऋषि आदिकों सहित पृथ्वीतल परआके द्वारकापुरीमें प्राप्तहो अपने शंखको बजाया और द्वारकावासियोंको अतिहर्षित किया ८८ ८९ फिर सत्यभामासहित गरुडसे उत्तर उस कल्पवृक्षको स्थापन किया ९० जिसके समीपआके सब मनुष्य पूर्वजातिको स्मरण करलेतेहैं और जिसके पुष्पोंकी गति पृथ्वीमें नहीं गिरती है ९१ सब यादवोंने उस वृक्षमें गन्धर्व मनुष्य आदि सबोंको देखा ९२ नरकासुर के स्थान से किंकरोंद्वारा लायेहुये हस्ती अश्व और स्त्रियोंको श्रीकृष्णने ग्रहण कर ९३ शुभकाल आनेसे उनकेसंग विवाह किया ९४ गोविन्द भगवान् ने उनके पृथक् २ गोत्रधर्म होने के कारण अनेकरूप धरकर एकहीवेर उनका पाणिग्रहण

किया ९५।६६ और उन एकएक कन्याओंने यह जाना कि गोविन्दने मेरेहीसाथ विवाहकिया ६७निदान विश्व के रूपको धारणकरनेवाले हरि शत्रियों में उनकेघरोंमें वास करनेलगे ९८ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांकृष्णावतारचरितंपारिजातानयनं नामद्विनवतितमोऽध्यायः ९२ ॥

### तिरानबेवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि प्रद्युम्न आदि पुत्र रुक्मिणीके हुये भानु और भौमनिक संत्यभामाकेहुये १ दीप्तिमन्त प्रपक्ष आदि रोहिणी के पुत्रहुये महाबलवाले साम्ब आदिक बाहुशालिन २ पुत्र भद्रविन्दाके हुये नाग्नि-जितिके महाबलवाले कईपुत्र पैदाभये सैव्यामें संग्रामजित् प्रधानपुत्र पैदाभया ३ सदा तुष्टाआदि स्त्रियों से अन्यपुत्र पैदाभये और लक्ष्मणा और कालिंदी इत्यादिक स्त्री भी पुत्रोंको प्राप्तभई ४ ऐसे उन आठों रानियोंमें हजारोंपुत्र पैदाभये तिनमें सबसेबड़ा पहले रुक्मिणीकापुत्र प्रद्युम्नभया ५ प्रद्युम्नसे अनिरुद्धपैदा हुआ और तिससे बज्रनामवाला पुत्रहुआ ६ महाबल वाले अनिरुद्धने बलिकी पोती बाणासुरकी पुत्री को विवाहा और वहां हरि और शिवका घोरयुद्धहुआ ७ तब भगवान् ने बाणासुरकी हजार बाहुओं का छेदन किया ८ मुनियों ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मन् ऊषाके वास्ते शिव और कृष्णका युद्ध कैसेहुआ और हरिने बाणासुरकी बाहुओंका कैसे छेदनकिया ९ हे महाभाग यह सम्पूर्ण हमसे कहिये हमें इसकथाको सुनके बड़ा



आश्चर्य्यहुआ १० व्यासजीने कहा कि वाणासुरकी पुत्री ऊषा शिवजीसे पार्वती को क्रीडाकरतीहुई देख तदाश्रयहो बड़ी इच्छाकरनेलगी ११ तब सबके चित्तों को जाननेवाली पार्वती उससे बोली कि तू संन्ताप मतकर तुम्हको रत्नरूपी भर्ता मिलेगा १२ यह सुन उसने पूछा कि कब और कौन भर्ता मिलेगा तब पार्वती बोली १३ कि वैशाखकृष्ण द्वादशी के दिन जो तुम्हे स्वप्नमें दीखेगा वही तेरा भर्ताहोगा और तू राजपुत्री होवेगी १४ निदान जैसे पार्वतीने कहाथा तैसेही उसतिथीको उसे स्वप्नहुआ और वह उससे बातेंकरने लगी १५ पर जंन जागउठी तब उस पुरुषको न देख निर्लज्जहो सखीसे बोली कि तूकहांगया १६ वाणासुरके कुम्भांडनाम मंत्री की चित्रलेखानाम पुत्री जो वहांथी बोली कि तू किससे बातेंकरती है १७ तबऊषा ने लज्जासे आकुल होके जो कुछ स्वप्नमें इसके आगे बार्ताकहीथी तिसका १८ विदित अर्थ उससे कहा और पार्वतीने जोकहाथा सोभीकहा १९ तब चित्रलेखासखी ने सब देवताओं दैत्यों और मनुष्योंके चित्रोंको पट्टे पर लिखके उसे दिखाया २० और ऊषा ने गन्धर्वों दिव्य सर्प देवताओं दैत्यों को त्याग के मनुष्यों में दृष्टिदे अन्धक और यादवोंमें दृष्टिलगाई २१ निदान बलदेव और कृष्णको देखके वह लज्जा युक्तहुई और प्रद्युम्नको देख लज्जासे व्याकुलहोगई २२ फिर जबप्रद्युम्नकेपुत्रकोदेखा तो अतिखिलके और लज्जासे व्याकुलहो २३ बोली कि यही मेरापति है उसकी यहवात

सुन योगगामिनी चित्रलेखा ऊषाकोसमभाके द्वारका-  
पुरीकोगई २४ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांस्वप्रदर्शननाम

त्रिनवतितमोऽध्यायः ६३ ॥

चौरानवेवां अध्याय ॥

इतनीकथासुनाकर वेदव्यासजी बोले कि एकसमय  
बाणासुरने शिवजीको प्रणामकरके कहा कि हे देव युद्ध  
केविना मैं हजारबाहुओंसे दुःखीहूँ १ कोई मनुष्यमेरी  
इनबाहुओंको सफलभी करेगा युद्धकेविना तो मेरी  
यहभुजा भारहीहैं २ बाणासुरकी यहबातसुन शिवजीने  
कहा कि हे बाणासुर जबतेरी मयूरकी ध्वजा टूटजावेगी  
तब तू आनंदको प्राप्त होवेगा ३ निदान शिवको प्रणाम  
करबाणासुरअपने घरलौटआया और टूटीहुईध्वजाको  
देख अतिप्रसन्न हुआ ४ तिसीसमय योगविद्यावाली  
चित्रलेखा अप्सरा अनिरुद्धको द्वारकासे लेआई ५  
और महलमेंऊषाकेसङ्गरमणकरतेहुये अनिरुद्धको रक्षा  
करनेवालोंनेदेखके राजासेजाकहा ६ किंकरोंसे यहसुन  
बाणासुर लोहकामूसललेके अनिरुद्धके मारनेको आया  
७ और उसके बधके वास्ते उद्यतहो रथमें बैठ अपनी  
बाहुओंके बलसे युद्ध करनेलगा ८ और मंत्रीकी प्रेरणा  
से बाणासुरने अनिरुद्धको नागपाशमें बांध लिया ९  
निदान उस समय द्वारकापुरी की जाते नारदमुनि ने  
अनिरुद्धकी बाणीसुनके यादवों से जाके कहा कि बा-  
णासुरने अनिरुद्धको बांधरक्खा है १० तब अनिरुद्ध  
को मायावीविद्यासे लेगयेहुये शोणितपुरमें सुनके ११

हरिभगवान् गरुडपर चढकेवलं देव और प्रद्युम्नसहित  
 वाणासुरके पुरमें आये १२ और वहां पहुंचके श्रीकृष्ण  
 भगवान् शिवजीके गणोंके संग युद्ध करनेलगे जब वा-  
 णासुरकी पुरीके समीप उनका नाशहुआ १३ तब तीन  
 पैरों और तीन शिरोवाला शिवजीका रचा हुआ ज्वर  
 वाणासुरकी रक्षाके वास्ते हरिके संग अत्यंत युद्धकरने  
 लगा १४ और उसने श्रीकृष्णके संग युद्धकरके उनके  
 शरीरसे उपजे ज्वरको हर लिया १५ नारायणकी भु-  
 जाओंके आघातसे उपज औरों को पीड़ाकरनेमें युक्त  
 विष्णुके ज्वरको देखके १६ ब्रह्मा बोले कि इस ज्वरको  
 शांतकरो तब विष्णुभगवान्ने तिस ज्वरको शांतकिया  
 १७ पर शोणितपुरकी पांचों अग्नियोंका नाशकरदिया  
 १८ पश्चात् जब श्रीकृष्णभगवान्ने अपनी लीलासे  
 दैत्योंकी सेनाका नाशकिया १९ तब हरिभगवान्के संग  
 शिवजी युद्ध करनेलगे और हरि और शंकरका दारुण  
 युद्ध हुआ २० निदान जब शिवजीके शस्त्रोंसे दुःखित  
 हुये सब लोक क्षोभको प्राप्तहुये और सबदेवतोंने ऐसा  
 निश्चय करलिया कि सम्पूर्ण जगत्का काल आगया  
 २१ तब गोविन्द भगवान्के जंभणअस्त्र द्वारा शिवजी  
 को जंभाई आनेलगीं २२ और दैत्य और शिवजीके  
 गण चारोंतर्फ नाशको प्राप्तहुये तब जंभाइयों से युक्त  
 हो शिवजी रथके उपस्थमें जाबैठे २३ और छिष्टकर्म  
 करनेवाले श्रीकृष्णके संग युद्ध करनेमें असमर्थ होगये  
 २४ और गरुडद्वारा क्षतबाहुवाला प्रद्युम्नके अस्त्रोंसे  
 पीड़ित और कृष्णकी हुंकारसेकांपताहुआ स्वामिका-

र्तिकभी हारगया २५ जब शंकर जैभाई लेनेलगे दैत्य  
 सेनानष्टहोगई और स्वामिकार्तिक जीतलियागया २६  
 तब नन्दीद्वारा लायेहुये महान् रथमें आरूढहोके २७  
 बाणासुरदैत्य कृष्ण और यादवोंकीसेनाकेसंग युद्धक-  
 रनेकोआया और महान् पराक्रमवाले बलदेवने बाणा-  
 सुरकीसेनाको अनेकप्रकारके २८ बाणोंसे वेधा हलके  
 अग्रभागसे खींच और मूसलसेकूटा २९ निदान सेना  
 के सङ्गतो बलदेव युद्ध करनेलगे और श्रीकृष्णका बा-  
 णासुरके सङ्ग महान् युद्धहोनेलगा ३० कार्याकोछेदन  
 करनेवाले और दीप्तबाणोंको श्रीकृष्णने छेदनकरदिया  
 और श्रीकृष्णके छोड़ेहुये बाणों को बाणासुरने छेदन  
 करदिया ३१ केशव भगवान्को बाणासुरने बाँधदिया  
 और बाणासुरको चक्रधारी भगवान्ने बाँधदिया ३२  
 और आपसमें जीतने और मारनेकी इच्छाकरनेवाले  
 बाणासुर और श्रीकृष्ण शस्त्रोंको छोड़नेलगे ३३ सब  
 शस्त्रछिद्यमानहोतेदेख हरिभगवान्ने जब विशेषकरके  
 बाणासुरके मारनेको मनकिया ३४ और सैकड़ोंसूर्यों  
 के समान तेजवाले अपने सुदर्शनचक्रको छोड़नेको  
 ग्रहणकिया ३५ तब कोटरानामवाली बाणासुरकीमा-  
 ता नङ्गीहोके भगवान्के आगे खड़ीहोगई ३६ और  
 उसकोआगे नंगीखड़ीहुईदेख हरिभगवान्ने नेत्रमीच  
 के बाणासुरकेबाहु छेदनकरनेको सुदर्शनचक्रको छोड़ा  
 ३७ और अच्युत भगवान्का छोड़ाहुआ सुदर्शनचक्र  
 क्रमसे बाणासुरकी बाहुओं को छेदनकरताहुआ ३८  
 हाथ में आया तब मधुसूदन भगवान् उसे बाणासुर

को मारनेकेवास्ते छोड़नेकोही थे ३९ कि शिवजी गो-  
विन्दको वाणासुरके छेदनकरनेवाला शस्त्र छोड़तेदेख  
कहनेलगे ४० कि हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे पुरुषोत्तम  
आपके पराक्रमको हम जानतेहैं आप परेश परमात्मा  
अनादि निधनपर ४१ देवकी पशु मनुष्य आदिकों में  
शरीर ग्रहणात्मिका लीला है और सब भूतों में आप  
कीही चेष्टाहै ४२ हे प्रभो आप प्रसन्नहो और वाणा-  
सुरको अभयदो मैंने जो यह वचन कहाहै सो मिथ्या  
नहींहै ४३ हे अविनाशी मेरे आश्रयसे बढाहुआ जो  
अपराधहै और मेरे दिये वरवाला यहद्वैत्यहै इसलिये  
मैं आपसे क्षमामांगताहूँ ४४ व्यासजीबोले कि गोविन्द  
शिव के यह वचनसुन प्रसन्नमुखहो और दैत्योंपरसे  
क्रोधत्याग शूलपाणि उमापति शिवसे कहनेलगे ४५  
कि हे शङ्कर आपसे वरदियाहुआ वाणासुरजीवे और  
आपके कहनेसे मैंने त्रक निवृत्तकरलिया ४६ आपने  
जो इसको अभयदेदियाहै इसवास्ते मैंभी इसको अभय  
देताहूँ हे शङ्कर मुझसे भिन्नआत्मा आपको न जानना  
चाहिये ४७ जो मैं हूँ सो आप हैं और देवते मनुष्य  
दैत्य सब अविद्याके मोहसे भिन्न२ देखते हैं ४८ ऐसे  
कहके श्रीकृष्ण अनिरुद्धके पासगये और गरुडद्वारा  
नागपाश को छेदनकरवा ४९ ऊषासहित अनिरुद्धको  
गरुडपर बैठाकर बलदेवआदिक यादव द्वारकापुरी में  
आये ५० ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांकृष्णचरित्रेऊप्राप्परिणयनोनाम

चतुर्नवतितमोऽध्यायः ९४ ॥

पंचानवेवां अध्याय ॥

मुनियोंने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठो श्रीकृष्णभगवान् ने मनुष्यशरीर धारणकरके जो महान्कर्मकिये इन्द्र शिव और देवतोंकेसङ्ग अपनीलीलाकरके युद्धकिये १ अन्य दिव्यचेष्टाकी और राजाओंका बधकिया सो कहिये यह हमें परम आश्चर्यहै २ व्यासजीने कहा हे मुनिश्रेष्ठो मुझसे आपनरावतारमें श्रीकृष्णने जैसे काशीपुरीदग्ध करीहै सो आदरसे सुनो ३ एकसमय वसुदेव का पुत्र पौंड्रराजा पृथ्वी पर गमनकरता अज्ञानसे मोहितहो बोला कि मैं अवतार हुआ हूँ ४ निदान पौंड्रराजाने ऐसे नष्टस्मृतिहो कहा कि मैं वासुदेव हूँ ५ श्रीकृष्णके पास अपनेदूतद्वारा यह कहलाभेजा कि हे कृष्ण मेरे चक्रादिकचिह्न और नाम आदि छोड़दे ६ हे मूढ़ यदि तू अपना जीवन चाहता है तो वासुदेवात्मक सब त्याग दे उस दूतके यह वचन सुन ७ जनार्दन भगवान् दूतसे हँसके बोले कि हम अपने चिह्न और चक्रको तेरे कहनेसे न त्यागदेंगे ८ हे दूत तू पौंड्रकके आगे जाके कह दे कि तेरा वचन हमने जान लिया तेरे किये जो करा जावे सो कर ९ मैं जब तेरे पुरमें इन चिह्नों को ग्रहण कियेहुयेही आऊंगा तभी इसचक्रका त्यागकरवाऊंगा १० तूने जो आज्ञापूर्वक मुझे बुलवाना चाहाहै तो मैं तेरे इस कहेको करूंगा ११ और तेरी शरणहोके मुझे तुझसे किंचित् भी भय न हो तैसेही करूंगा १२ ऐसे कहके हरिभगवान्ने उस दूतको बिदाकिया और गरुड़ पर चढ़के आप भी जल्द उसके पुरमें पहुंचे १३

पौंड्रराजा केशव भगवान्का शब्दसुन अपनी सबसेना  
 सहित उनकेसन्मुख युद्धके वास्ते आया १४ और उसे  
 गदा शंख धनुष और चक्र हाथमेंलिये १५। १६ सुवर्णकी  
 मालापहिने छातीमें श्रीवत्सचिह्न धारणकिये १७ मुकुट  
 और कुंडल पहिने और पीले वस्त्रोंसे भूषित गम्भीर  
 भावसे रथमें बैठे देख मधुसूदन भगवान् हँसे १८ और  
 उसकी सेनाके संग गदा शूल शक्ति धनुष इन्होंको धा-  
 रण कियेहुये १९ शार्ङ्ग धनुषके अग्नि शिखाके समान  
 उपमावाले बाणोंसे युद्ध करनेलगे और गदा और चक्र  
 का निपात करके उस राजाके बलका नाश करदिया  
 २० जनार्दन भगवान् मूढ़ और आत्मामें चिह्नका उप-  
 क्षण करनेवाले पौंड्रराजाका बल क्षीणकरके बोले कि  
 हे पौंड्रक तूने जो कहाथा तो अब यह मेरा चक्र तुझ  
 को बल दिखावेगा और तेरेचिह्नोंको छुड़ावेगा २१। २२  
 तूने जो यह चक्र बनारखाहै इसको मेराचक्र काटेगा  
 और तेरे गरुड़को मेरागरुड़ छेदनकरेगा २३ ऐसे क-  
 हके श्रीभगवान्ने जब चक्रसे पौंड्रराजा को विदारण  
 किया और गदासे उसके सब अंग भग्न करदिये ए-  
 वम् भगवान्के गरुड़ने उसके गरुड़को छेदनकिया २४  
 तब सबमनुष्य हाहाकार करनेलगे और काशीका राजा  
 मित्रके बदले श्रीकृष्णके संग युद्ध करनेलगा २५ नि-  
 दान श्रीकृष्ण ने शार्ङ्गधनुष के बाणोंसे उसके शिरको  
 काटकर लोकोंको आश्चर्यदिखातेहुये काशीपुरीमें फेंक  
 दिया २६ और द्वारकापुरीको लौटआये २७ भगवान्का  
 फेंकाहुआ वह शिर जब काशीमें जाके गिरा तो काशी-

राजका पुत्र उसे देख पुरके मनुष्यों से पूँछनेलगा २८ और श्रीकृष्णका कराहुआ कर्म जान पुरोहित सहित होके शिवको प्रसन्नकरनेका यत्नकर २९ अविमुक्त महाक्षेत्र में उग्र तप करनेलगा शिवजी महाराज उसकी भक्तिसे प्रसन्नहो बोले कि वरमांग ३० तब उसने यह वर मांगा कि हे भगवान् मेरे पिता को बध करनेवाले श्रीकृष्णके मारनेके वास्ते आप अपनी कृत्या अर्थात् मायाको उठावो और ३१ शिवने कहा ऐसेही होवेगा शिवजीके यह वरदेनेके पश्चात् दक्षिणाग्निके अनंतर उनके नेत्रके निवेश करनेसे महाकृत्या उठी और ३२ अग्निकी तरह केशवाली करालरूप कपाली प्रकाशमान वह कृत्या कृष्ण कृष्ण कहती और कोप करतीहुई द्वारकापुरीको चली ३३ जिसे देख सबमनुष्य त्रासित हो जगत्तों के कारण मधुसूदन भगवान्की शरण जाके ३४ कहनेलगे कि हे नाथ काशीराजके पुत्रने शिवजीका आराधन करके महाकृत्याको उत्पादन किया है ३५ इसलियेबहिकी लटाओंसे युक्त इस कृत्याको आप नाशो उनसे यह हाल सुन चौपड़ खेलने में आसक्त हुये भगवान्ने ३६ अपनी मायासे उस अग्निमाला सेजटिल और भयंकर कृत्याके पीछे अपना सुदर्शनचक्र छोड़ा ३७ और वह चक्र उसके पीछे चला निदान माहेश्वरी कृत्या चक्रके बेग से गिरके ३८ शक्ति हत होगई और वह सुदर्शनचक्र उसके पीछे चलाही गया ३९ जब वह कृत्या विष्णुके चक्रसे प्रतिहत हो काशीपुरी पहुंची तब काशीकी सेना और शिवजी के



पारिषदोंके समूह ४० शस्त्रों को धारणकरके सुदर्शन-  
चक्रके सम्मुखआये और उस चक्रने अपने बलसे ब-  
हुतसे शस्त्रोंको दग्धकर ४१ कृत्याके पीछे २ गमनकिया  
और कृत्याके गर्भ एवम् बहुतसे भृत्य और पुरके आ-  
दमियोंके घरोंसे युक्त ४२ देवताओं को भी देखने में  
असमर्थ काशीपुरी को ४३ जलतीहुई ध्वजा और म-  
हलों सहित दग्धकर ४४ वैरियों को नाश करनेवाला  
और साध्यसाधनका स्थान वह दीक्षिमान चक्र विष्णु  
के हाथमें आगया ४५ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां कृष्णचरित्रे पौंड्रकवासुदेववयो-  
नामपंचनवतितमोऽध्यायः ९५ ॥

### ज्ञानवेदां अध्याय ॥

मुनियोंने कहा कि हे मुने हम बुद्धिमान् बलदेवके  
पराक्रमोंको भी सुननेकी इच्छाकरते हैं और आप उ-  
नके वर्णन करनेको समर्थ हो १ वेदव्यासजी ने कहा  
हे मुनियो अनन्त अप्रमेय धरणीको धारण करनेवाले  
भगवान् शेषावतार बलदेव ने जो कर्म किये हैं उन्हें  
सुनो २ जब दुर्योधन राजाकी पुत्रीके स्वयंस्वरमें जा-  
म्बवर्तके पुत्र साम्बने उसे हरा ३ तो महान्पराक्रम  
वाले कर्ण दुर्योधन भीष्म द्रोण आदिकने साम्ब को  
युद्धमें जीतके बांधलिया ४ यह समाचार सुन सब या-  
दव दुर्योधन आदिकों पर क्रोध कर उनको मारने के  
लिये महान्उद्योग करनेलगे ५ तब उनको वर्जके ब-  
लदेवने कहा कि वे मेरे कहनेसे साम्बको छोड़देंगे इस-  
लिये मैं अकेलाही कौरवोंको निवारण करदूंगा ६ ऐसे

कहके बलदेवजी ने हस्तिनापुर को गमन किया और वहां पहुंच पुरकेबाहर बगीचोंमें जा बैठे बलदेवकेआने का समाचार सुन दुर्योधन आदि कौरव पूजाके वास्ते अर्घ्यजल आदिलेकर उपस्थितहुये ७।८ और बलदेव जीने उसे विधिवत् ग्रहणकर उनसेकहा कि उग्रसेन ने यह आज्ञादीहै कि साम्बको जलदछोड़दो ९ भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधनआदिक बलदेवके यह वचनसुनके क्रोधकर १० एकवारगी बोले कि हम यादवोंका मूसल युद्ध देख के निवृत्त होवेंगे ११ हे बलदेव तुमने यह क्या वचन कहा ऐसाकौन यादवहै जोहम कुरुवंशीको आज्ञादेवेगा १२ उग्रसेनभी यदि कौरवों को आज्ञा देवेगा तो नृप योग्य अलंकृत पांडवोंका क्या राज्यहै १३ हे बलदेव तू चलाजा उग्रसेनकी आज्ञासे हम साम्बको नछोड़ेंगे १४ हमने जो भृत्यरूप उनको प्रणतिकी है तो क्या उनकी आज्ञाकीहै १५ तुम गर्वमें युक्तहो देवताओं के समान हो रहेहो तो ऐसा क्यादोषहै कि प्रीतिसे हम न देखें १६ हमने जो यह तेरेलिये अर्घ्य निवेदन कियाहै सो प्रेम से कियाहै पर हमारे कुलको तुम्हारे लिये अर्घ्य देना उचित नहीं है १७ व्यासजीने कहा ऐसे सब कौरवों ने कहके हरिके पुत्र साम्बको नहींछोड़ा १८ और सब एक निश्चय करके अपने हस्तिनापुरको चलेगये १९ निदान कौरवोंके यह वचन सुनकर बलदेवजीने क्रोध से अपने नेत्रोंको आघूर्ण करके एड़ीसे पृथ्वीको हनन किया और उनके पैरसे बिदारित हुई पृथ्वी दशोंदिशाओंमें शब्दसे पूरितहोगई २०।२१ तब बलदेवजीने

अति लाल नेत्र करके कुटिल मुखसे कहा कि मैं दुष्ट कौरवोंके महान्बलका उपायकरूंगा २२ अब कौरवोंके राज्यका नाश आचुका क्योंकि ये उग्रसेनकीभी आज्ञा नहीं मानते २३ जिसकी आज्ञाको धर्मसे देवतां समेत इन्द्रभी मानताहै और जो इन्द्रकी सुधर्मासभामें स्थित रहताहै २४ उसके आगे इनसैकड़ों मनुष्योंके उच्छिष्ट नृपासनपै बैठनेवालोंको धिक्कार है २५ जिस उग्रसेन के भृत्योंकी स्त्री पारिजातवृक्षकी मंजरीको धारण करती हैं सो इन सब भूपालों का राजा उग्रसेन सदा स्थित रहो २६ अब मैं पृथ्वी को कौरवोंसे रहितकर द्वारकापुरीको जाऊंगा और कर्ण दुर्योधन भीष्म द्रोण बाह्लिक दुःशासन भूरि भूरिश्रवा सोमदत्त शल्य भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव आदि २७।२८ सब कौरवोंको इनके अश्व रथ हस्ती सहित मार और साम्बको स्त्री सहितले द्वारकापुरीमेंजा उग्रसेनआदिक बांधवोंकोदेखूंगा समग्र कौरवों समेत इस नगरीका २९।३० भार उतारनेकेलिये इन्द्रका प्रेरणहूआ मैं इस हस्तिनापुरको जलद गंगाजीमें डुवोऊंगा ३१ व्यासजीने कहा कि ऐसे कहके बलदेवने मदसे रक्तनेत्रकर नीचे मुख कियेहुये हस्तिनापुरकी खांही और किलेको मूसलको ग्रहणकिये हुये खींचा ३२ जिसे देख चलायमान हृदयवाले सब कौरव अति दुःखितहो ३३ कहनेलगे कि हेराम हेमहावाहो आपको क्षमाकरनी चाहिये हे मूसलायुध आपको कोप दूरकरना चाहिये आप प्रसन्नहो ३४ साम्बको पत्नीसहित लेजावो और आपके प्रभाव न जानने

वाले हमें अपराधियों पर क्षमा करो ३५ व्यासजीने कहा कि ऐसे कहके सब कौरवोंने पत्नी सहित साम्बको प-  
हुं चा दिया और अपने पुरसे बाहर निकल बलदेवके संग चले ३६ तब भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदिसे बलदेवने प्रणाम करके कहा कि मैं तो क्षांतही हूँ ३७ व्यासजीने कहा कि हे द्विजो अबभी वह हस्तिनापुर घूर्णित आकार अर्थात् कोड़ाहुआ दीखताहै ऐसा बलदेवके बल वीर्यका प्रभावहै ३८ इसप्रकार कौरवोंने साम्बका पूजनकर और धन और भार्या समन्वितकर बलदेवके संग बिदाकिया ३९ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां कृष्णचरित्रे बलदेवमाहात्म्यं

नामषणवतितमोऽध्यायः ९६ ॥

### सत्तानवेवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि हे मुनिजनो बलदेवजीके अन्य चरित्रोंकोभी आप सबसुनो द्विविदनामक वानर देवतोंसे बैररखता था १ कृष्णके सकाशसे बल गर्वसहित नरकासुरके मारेजानेको देख वह सब देवतोंके विपरीत कर्म करने लगा २ कभी तो वह यज्ञोंका विध्वंसकरता कभी मनुष्योंको मारता ३ कभी श्रेष्ठपुरुषोंकी मर्यादाओंका भेदनकरता और कभी चपलरूपहोके देश पुरग्राम इत्यादिको दग्धकरता ४ कभी पर्वतोंके फेंकनेसे वृक्षोंका चूर्णकरता और कभी पत्थर उखाड़ उखाड़के समुद्रमें डालता ५ हे द्विजो फिर वह समुद्र पर क्रोध करने लगा और क्रोधसे उसे रोक ६ समुद्रके तीरके ग्राम और पुरोंको भगाने लगा फिर उसने कामरूपी और

महासारवाली ऐसी सौगन्द अर्थात् प्रतिज्ञाकी ७ कि मारनाभ्रमावना पीडन करना तथा चूर्णकरना इत्यादि-  
 ककर्मोंसे सम्पूर्ण जगत्को दुःख देनेलगा ८ और ब्रा-  
 ह्मणोंके पढ़नेपढ़ाने तथा वषट्कार शब्दोंको न सुनता  
 निदान एकसमय रैवत पर्वतके वनमें हलको धारणकर  
 बलदेवजी ९ महाभागवाली रेवती तथा सुन्दर रूप-  
 वाली दूसरी स्त्रियोंकेसङ्ग रमणकरनेकोचये और संयो-  
 गवश वह वानरभी उधरजा निकला बलदेवजीको वहां  
 देख उसने उनकाहलछीन और मूसललेके शब्दकरना  
 प्रारम्भकिया १० ११ और स्त्रियोंके सन्मुख हैंसनेलगा  
 १२ फिर उसने मदिरा से पूर्ण कलशे को उठाके फेंक  
 दिया और कोपयुक्तहोके बलदेवको भिड़कनेलगा १३  
 निदान बलदेवजीने उठके मूसलको ग्रहण किया १४  
 और द्विविदनेभी भयानकशिलाको ग्रहणकर बलदेव  
 केऊपरफेंका तब बलदेवजीने मूसलसे शिलाके हजार  
 टुकड़े कर दिये १५ और वह शिला टूटकर पृथ्वी पर  
 गिरपड़ी और बलदेवका मूसल समुद्रमें गिरपड़ा १६  
 शिला टूटनेपर द्विविदने वेगसेआके कोपयुक्तहो बल-  
 देवकी छातीमें एकमूकामारा और बलदेवने भी कोप  
 युक्तहोके उसके मस्तकपर बहुत मूकेमारे १७ जिससे  
 वह पृथ्वीपर गिरपड़ा और उसके मुखसे रुधिरनिकल  
 कर प्राणोंसे रहितहोगया फिर पर्वतके शिखर के टुकड़े  
 की तरह उसके शरीरके १८ मुनियोंने सौ टुकड़ेकरके  
 दग्धकरदिया और देवतोंने बलदेवजीके ऊपर पुष्पों  
 की वर्षाकी १९ और उनके कर्म को साधु साधु कहके

सराहनेलगे कि इस दुष्ट वानरने दैत्यों और यक्षों का उपकारकर २० जगत्को दुःखीकरदियाथा पर हे वीर यह मङ्गलकी बातहै कि अब यह नाशहुआ २१ व्यास जी बोले कि शेषरूप और धरणीको धारण करनेवाले बुद्धिमान् बलदेवके पर पुरुषोंको आनन्द देनेवाले अनेकप्रकारके कर्महैं २२ बलदेवकी सहायसेही कृष्णजी ने दुष्टराजाओं का नाशकिया और अर्जुनकेसंगहो २३ कई अक्षौहिणी सेनाओंके सम्पूर्ण राजाओंकावध ब्राह्मणोंके शापकेमिससे यदुकुलका क्षयकर पृथ्वीका भार उतारा २४ । २५ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायाद्विविदबधोनाम

सप्तनवतितमोऽध्यायः १७ ॥

अट्टानवेवां अध्याय ॥

व्यासजी ने कहा कि हे द्विजो फिर श्रीकृष्णजी ने द्वारका को त्याग और मनुष्य देह को छोड़ विष्णुमय अपने अंशमें प्रवेशकिया १ मुनियोंने पूँछा कि हे भगवन् श्रीकृष्णने विप्रोंके शापसे अपनेकुलका संहार कैसे किया और मनुष्यदेहको कैसे त्यागा २ व्यासजी बोले कि पिंडारकतीर्थमें स्थित विश्वामित्रकण्वनारद आदि महाभागवालोंके आगे ३ उन्मत्त यादवों के कुमारों ने भावीवश जाम्बवतीके पुत्रको स्त्रीका वेष बनाके ४ खड़े होके कहा कि आपको नमस्कारहै यह स्त्रीपुत्र या कन्या क्या जनैगी ५ उनके ऐसे कपटके वचन सुनके दिव्य ज्ञानसे युक्त और कुमारोंके वचनोंसे विप्रलब्ध अर्थात् मिथ्यावचनसे दुःखितहो दोष दूरकरनेको ६ कोपयुक्त

होके मुनिजन बोले कि यह स्त्री मूशलको जन्मेगी और हे कुमारो जैसाहो तैसा तुम देखोगे ७ फिर उग्रसेनसे कहनेलगे कि साम्बके मूशल पैदा हुआहै और उग्रसेनने तिस मूशल को चूर्णकर ८ समुद्र में फेंक दिया निदान हे द्विजो वह चूर्ण समुद्रके लहरोंसे किनारे पर जा लगा ९ और एक मच्छली उसको निगल गई १० फिर उस मच्छलीको एक लुब्धक पकड़ ले गया और परमार्थके जाननेवाले मधुसूदन भगवान्ने ११ विधिके रचेके अन्यथा करनेकी इच्छानकी तब देवतोंका भेजा हुआ दूत कृष्णको नमस्कारकर एकान्तमें वचनबोला १२ कि हे प्रभो मैं दूत हूँ वसु अश्विनीकुमार मरुत् आदित्य चन्द्रमा साध्य आदिकों सहित १३ इन्द्रने दिव्य बाणीसे कहाहै कि सौवर्षसे अधिक हो चुके पृथ्वी का भार उतारनेके लिये १४ आपने कृष्णका अवतार लिया और खोटीवृत्तीवाले दैत्योंको मार पृथ्वीका भार आपने उतारा १५ हे जगन्नाथ स्वर्गमें देवते आपसे सनाथहैं अब सौवर्षसे अधिक काल हो चुकाहै १६ जो आपको रुचै तो स्वर्गमें चलो और जो आपकी यहांही रुची है तो पक्षी मनुष्य जीवरूप होके देवते भी यहीं बासकरेंगे १७ भगवान् बोले कि हे दूत जो तूने कहा सो सम्पूर्ण मैंने जान लिया १८ यह सब प्रारब्धकृत है यादवोंका भी क्षय प्राप्त हुआ पर अबतक पृथ्वीका भार नहीं उतरा १९ इसलिये मैं द्वारकामें जाके सात रात्रि पर्यंत समुद्रके किनारे पर रहूँ २० यादवोंका संहार करके इस मनुष्य देहको त्याग बलदेवकी सहाय

से स्वर्गलोकमें आऊंगा २१ इन्द्र तथा देवतोंका कहा हुआ वचन मैं मानता हूँ मुझको स्वर्गमें प्राप्त हुआ ही मानो पृथ्वी का भार उतारनेके लिये जरासन्ध आदि राक्षसोंको तो मार चुका हूँ २२ अब कुमारों सहित यदु जो पृथ्वीपर महाभार हैं तिनको मारके २३ स्वर्गलोकमें आऊंगा इन्द्रादिकोंसे तू जाके यह कह देना व्यास जी बोले कि हे द्विजो वासुदेवके यह वचन सुन वह दूत नमस्कार करके २४ स्वर्गको गया और इन्द्रसे सबहाल कहा इधर भगवान् द्वारकापुरीका नाशके लिये उद्यत हुये और पृथ्वी आकाशमें २५ उत्पातोंको रातदिन देख घादवोंसे बोले कि इन दारुण उत्पातोंको देखो २६ और इनकी शांतिके लिये समुद्रपर चलो देर मतकरो व्यासजी बोले कि कृष्णके यह वचन सुन महाभाग वाला उद्धव कृष्णको नमस्कार करके बोला २७ कि हे भगवान् मेरा जो कार्य है सो आज्ञादो इससम्पूर्णमर्त्य कुलका आपसंहारकरेंगे २८ और यह कुलनाशको प्राप्त होगा इसको मैं जानता हूँ भगवान्ने कहा कि उद्धव तू हमारे प्रसादसे प्राप्तहुई दिव्यगतिसे २९ गन्धमादन पर्वतपर जहां नरनारायणका स्थान है उसपवित्र बदरिकाश्रमको तपकी सिद्धिके लिये चला जा ३० तो तू मुझमें मनको लगामेरे प्रसादसे सिद्धिको प्राप्त होवेगा और मैं इसकुलका संहारकरके स्वर्गमें जाऊंगा ३१ उद्धव बोला कि मैं अभी द्वारकाको त्याग समुद्र में स्नानकलंषा ऐसे कहके वह श्रीकृष्णको नमस्कारकर ३२ जहां नरनारायणका स्थान था अनुमोदितहोके चला ३३ और सब



यादवजल्दी चलनेवाले रथोंपर चढ़के कृष्ण और राम सहित प्रभासक्षेत्रको गये ३४ निदान हे द्विजो वे कुकुरांधकवंशी यादवप्रसन्नहो प्रभासक्षेत्रमें प्राप्तहो वासुदेव के मोहेहुये आनंदसे जलपान करनेलगे ३५ और पान करते २ उनकी अतिपान करनेकी इच्छाहुई तब नाश करनेवाली कलहरूपी अग्नि उत्पन्नहुई ३६ और सब आपसमें डंडोंके शस्त्रबनाके लड़नेलगे ३७ ऐसे बज्रभूत लकड़ीको ग्रहणकर बलके क्षतहोने से वे सब परस्पर लड़मरे ३८ और ऐसा दारुणयुद्धहुआ कि प्रद्युम्न साम्ब कृतबर्मा सात्यकी ३९ अनिरुद्ध पृथु विपृथु चारुकर्मा चारुकंठ और अक्रूर ४० आदि सब बजरूपी शरों से परस्पर युद्धकरके हतहुये कृष्णनेभी कोपित होके उनके बहुत मुक्केमारे ४१ और बलदेवजीने शेष रहेयादवोंको मारनेकेलिये लोहरूपी मूशलग्रहण ४२ करकेमारा और वे सब परस्पर लड़कर ४३ समुद्रके मध्यमें शंख चक्र गदा और धनुषधारी कृष्णके देखते देखते तृणवत् नमस्कार और परिक्रमाकरके सूर्यके मार्गसे चलेगये ४४ फिरतेहुये दारुकसहित भगवान् ने बलदेवको वृक्षकेनीचे आसनकरेहुये देखा ४५ और यहदेखा कि बलदेवजीके मुखसे एकमहा सर्पने निकस कर समुद्रमें प्रवेश किया ४६ और सिद्ध और दिव्य सर्पोंके दियाहुआ अर्घ्य और पूजनको ग्रहणकर समुद्रमें गुप्तहोगया ४७ भगवान् ने बलदेवका बैकुण्ठ गमनदेख दारुक सारथीसे कहा ४८ कि बसुदेव और उग्रसेनका गमन तथा यादवोंका क्षयदेख ४९ योगमें

स्थितहोके मैंभी इसशरीर को त्यागूंगा और बाकीरहे  
 द्वारकावासी जन और सारीनगरी समुद्रमें प्रवेशहोवें-  
 गी ५० देखअभी समीपमें जलोंका आगमन होताहै  
 इसलिये इस द्वारकामें ठहरना न चाहिये ५१ पांडवोंके  
 पासजाकर कुन्तीकेपुत्र अर्जुनसे कहना ५२ कि अपनी  
 शक्तिभर जनोंकी पालना करनीचाहिये यही मेरीशि-  
 क्षा है ५३ दारुकसे भगवानुके यह वचन सुनकर सब  
 द्वारकावासियों ने अर्जुन सहित यादवों को साथ ले  
 कृष्णको नमस्कार किया ५४ व्यासजी बोले कि फिर  
 द्वारका तथा कृष्णकी बारम्बार बहुतसी परिक्रमा कर  
 जैसे कृष्णने कहाथा तैसेही उन्होंने ने किया ५५ और  
 अर्जुनको साथलैके ब्रजके बासकी सलाहकी ५६ गो-  
 विंद भगवानुनेभी वासुदेवात्मक परंब्रह्मको आरोपण  
 कर सर्वभूतोंमें धारण किया ५७ और हे मुनि सत्तमो  
 द्विजके वचनको मान और क्रोधरहितहो पैरोंको गोड़ों  
 से मोड़के योगमें युक्तहुये ५८ फिर जरानामक वाला  
 लुब्धक मुशलाशेषलोह अर्थात् बाकीरहे लोहकी कील  
 सहित वहां आया और उससे शापरूप काल उत्पन्न  
 हुआ ५९ हे द्विजसत्तमो वह उस लुब्धकने उसकेमृगके  
 आकारवाले पैरोंको देख दूर स्थितहोके उसको तोमर  
 से बेधा ६० और बाहुमें धनु को धारणकिये जातेहुये  
 भगवानुको देख और नमस्कार कर तिनसे बारम्बार  
 कहनेलगा कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो ६१ मैंने हरिणकी  
 शंकाकरके बिनाजाने यह कर्म कियाहै इसवास्ते मुझ  
 पर क्षमाकरो और मुझको पापसे दग्धहोनेसे बचाओ

आप दग्धकरनेको योग्यहो ६२ व्यासजी बोले कि बधिकके यह वचन सुन भगवान् बोले कि तू कुछभी भय मतकर मेरे प्रसादसे तू सुखपूर्वक उत्तमस्थानको जायगा ६३ व्यासजी ने कहा कि भगवान्के यह कहनेके अनन्तर आकाशमार्गसे एक विमान आया और लुब्धक भगवान्के प्रसादसे तिसमें बैठ स्वर्गमें गया ६४ जब वह लुब्धक स्वर्गको चला गया तब कृष्णने आद्य रूप और अन्यके देह को न प्राप्त होनेवाले वासुदेवामय ब्रह्मभूत अव्ययरूपको चित्तमें युक्तकरके ६५ तीन प्रकारकी गतिवाले मनुष्यदेहको अखिलात्मामें त्याग दिया ६६ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषार्याव्यासऋषिसम्बादेकृष्णस्य  
मानुषदेहत्यागनामअष्टानवतितमोऽध्यायः ९८ ॥

### निन्नानवेवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि कृष्ण बलदेव तथा अन्योके शरीरको देख अर्जुनभी मोहको प्राप्तहुये १ और रुक्मिणी आदि आठौरानियोने हरीके देहके साथ हुताशनरूपी अग्निमें प्रवेशकिया २ हे सत्तमो रेवतीनेभी बलराम के देहको प्राप्तहोके आनन्दसहित प्रज्वलित अग्नि में प्रवेशकिया ३ और उग्रसेन तथा वसुदेव देवकी और रोहिणीने भी इस कर्मको सुन अग्निमें प्रवेशहो अपने शरीरको नाशकिया ४ फिर अर्जुनने सबका यथाविधि से प्रेतकर्म क्रिया कर जलमें दाह करके बहा दिया ५ और कृष्णकी हजारों स्त्रियें द्वारकासे निकसके अर्जुन करके पालित वज्रको देख हौलेहौले ६ जब कृष्णने मर्त्य

लोकको त्यागदिया तब धर्मवालीसभा और पारिजात वृक्षभी स्वर्ग को चलेगये ७ जिस दिन इस पृथ्वी को त्याग हरिभगवान् स्वर्गको गये उसी दिन कलह प्रिय कलियुग रूपकाल उत्पन्नहुआ ८ शून्यहुई समस्त द्वारकाको समुद्रने डुबोदिया पर यादवोंमें श्रेष्ठ उग्रसेनके घरको छोड़ दिया ९ हे विप्रो वह समुद्र अबतक उस घरका उत्क्रमण कर रहा है १० जिस क्रीडायुक्त विष्णु के स्थानको देख मनुष्य सब पापों से छूटजाते हैं ११ और जहां नित्य हरी समीपमें रहते हैं वह स्थान सर्व पापोंके नाश करने और महापुण्यके देनेवाला है हे मुनि सत्तमो अर्जुन ने उस समुद्रके ऊपर बहुतसे धान्यसहित सब जनोंका बास कराया १२ फिर धनुषको धारण करनेवाले अर्जुनके संगभी लोभ हुआ और प्राप्त हुई स्त्रियोंको देखके न इच्छाकरनेवाले अर्जुनको चोर जान १३ पापकर्मोंके करनेवाले और लोभसे हतचित्त आभीर संज्ञक मदवाले दुष्टजनोंने सलाहकी १४ कि यह धनुषवाला अर्जुन ईश्वरको हतकर स्त्रियों को लेजाता है और हमारा तिरस्कार करता है इसवास्ते हम सब बलकरें १५ निदान भीष्म द्रोण महारथवाले कर्ण आदि दूरबसनेवालोंको नजान १६ उन महादुष्ट और खोटीमतिवालोंने अर्जुनको पकड़लिया १७ और लाठीका प्रहारकरनेवाले हजारों आभीर अर्जुनके पीछे दौड़े १८ अपने ऊपर दौड़तेहुये जनोंको देख और उनकी प्रवृत्तिको विचार अर्जुनने हँसके उनसे कहा कि हे मूढ़ो तुम्हारा कल्याण न होगा तुम निवृत्त होजाओ निदान

स्त्रीजनों मुनियों तथा विष्णुका और अपना तिरस्कार देख १९।२० अर्जुनने अजर तथा दिव्य गांडीव धनुषको ग्रहणकर युद्धमें आरोपण किया और उनका पराक्रम न सह कर २१ कष्टसे धनुषपर प्रत्यंचा को चढ़ाने लगा पर चढ़ानेसे मनशिथिल होगया और उसे यह स्मरण न हुआ कि कौनसा अस्त्र चलाऊं २२ फिर उसने शरोंको छोड़ा पर वे शर भेदन न करसके तब क्रोधित होके उसने और बाणछोड़े २३ और वे बड़ेचतुर क्रूरभी तीव्र धनुषके बाणोंको छोड़नेलगे और अर्जुनके शरोंका क्षय करदिया २४ तब गोपालों अर्थात् आभीरुओंके संग युद्ध करते अर्जुनको चिन्ताहुई और यह यह चिन्तवन करनेलगा कि वहबल कृष्णकाहीथा जिससे मैंने शरोंके समूहसे अनेक बलवाले राजोंको जीताथा २५ निदान अर्जुनके देखते २६ प्रमदोत्तमा स्त्रिये आभीरोंकी खोसी हुई चलीगई २६ जब अर्जुनके शर क्षीण होगये तब वह दस्युजनोंपर प्रहार करनेलगा और दस्युजन उन्हें देख आनंदितहुये २७ हे मुनिसत्तमो अर्जुनके देखते २८ वृष्णी अन्धकोंकी श्रेष्ठ स्त्रिये चारों तर्फसे म्लेच्छों के साथ चलीं २८ तब अर्जुन दुःखी होके कहनेलगा कि कष्टसे भी अधिक कष्ट भगवान्ने दिया है ऐसे कहके अर्जुन रोदन करनेलगा २९ और उसी समय अर्जुनका धनुष अस्त्र रथ और घोड़ा सब बिनापढ़ेहुयेको दिये दानके समान चलेगये ३० तब अर्जुनने कहा कि बल वालोंका बल देवहीहै उस महात्माके बिना ऊँचाभी नीचताको प्राप्तहोजाताहै ३१ वेहीबाहुहैं वेही मुष्टीहैं वेही

स्थानहै और वही मैं हूँ पर उस पुण्यकेबिना सब वृथा  
 होगये ३२ मेरा अर्जुनपना और भीमका भीमपना उस  
 भगवान्के बिना बज्रभीरोंने जीता ३३ ऐसे कहताहुआ  
 अर्जुन पुरों में उत्तमपुर इन्द्रप्रस्थ को गया और वहां  
 यादवनन्दन को राजतिलकदे ३४ आप बनको चला  
 गया और वहां व्यासजी को देख नम्र होके नमस्कार  
 किया ३५ तब वेदव्यासजी ने अर्जुनसे पूँछा कि तूने  
 यहां गमनकिया तो अच्छाकिया परन्तु तू कान्तिसे र-  
 हित मुखवाला क्यों है क्या तूने कोई ब्रह्महत्या करीहै  
 जिससे तू भ्रष्टछाया प्रतीत होता है ३६ वा तेरी कोई  
 सेना शान्तहोगई अथवा कहिक तेरी याचना वृथा हो-  
 गई क्या तूने किसी अगम्यास्त्रीसे तो गमन नहींकिया  
 जिससे तू कान्तिरहित होरहा है ३७ वा भोजन करने  
 पश्चात् किसी ब्राह्मणको अन्न तो नहीं देदिया अथवा  
 कहिक तेरा चित्त ग्लानिको तो नहींप्राप्त होगया ३८  
 हे अर्जुन क्या तूने कोई सूर्यको अपराधकिया अथवा  
 दुष्टचक्षुसे सूर्यको देखा जिससे तू शोभारहित दीखता  
 है ३९ तुझे किसीने युद्धमें तो नहींजीतलिया व किसी  
 सिद्धका अपराध तो नहींकिया जिससे तू पराजितहुआ  
 दीखताहै ४० व्यासजीके यह वचनसुन स्वस्थचित्त हो  
 अर्जुन बोला कि हे भगवन् सुनो मुंभमें जोकुछ बल तेज  
 वीर्य्य व पराक्रमथा ४१ उस सबको परमात्माजगन्नाथ  
 सम्पूर्ण ग्रहणकर परलोककोगये ४२ हे मुने हास्यपूर्वक  
 सम्भाषण करनेवाले उस महात्मासे मैं स्थम्भोंके समूह  
 कीनाई हीनहोगया ४३ और मेरे गांडीवधनुषकी और

शरीरकी सहायता जिससे होतीथी वह पुरुषोत्तम चले गये ४४ जिसके देखनेसे हमारीश्री और जय उन्नतीको प्राप्तहोतीथी वे भगवान् हमको त्यागके चलेगये ४५ और जिनके प्रभावसे भीष्म द्रोणाचार्य और दुर्योधनादिक अन्य राजोंको हमने जीताथा वे इस पृथ्वीको त्यागगये ४६ हे मुने यौवन से रहित शोभासे वर्जित और अष्टछाया मुझको यहपृथ्वी दृष्टआतीहै और उस चक्रीकेबिना मैंने एकभी स्त्री नहीं विवाही ४७ जिसके प्रभाव से भीष्मादिकों ने पतंगकीतरह महाअग्नि में प्रवेशकियाथा उसीकृष्णके विना मैं भीरुओंद्वारा जीता गया ४८ और जिसके प्रभावसे गांडीव तीनोंलोकोंमें विख्यातहुआथा अब उसीके विना भीरुओंने लाठीसे मेरा तिरस्कारकिया ४९ मेरेनाथ महात्माकी हजारहार्हा स्त्रियें लाठियोंसे युद्धकरके भीरुओं ने मुझसे छीनलीं ५० और हे कृष्ण हे कृष्ण कहतेभी लाठियोंके प्रहार से उन्होंने इस गोधनकोले मेरेबलका तिरस्कारकिया ५१ हे पितामह उनसे पराजितहुआभी मैं जीवताहूँ यही आश्चर्यहै नीचोंसे अपमानसहके मैं निलर्लज्ज होरहाहूँ ५२ ऐसे कहतेहुये अर्जुनके वचनसुन वेदव्यासजी दुःखित और दीनहुये महात्मा पाण्डवसेबोले कि तेरी लज्जाका कारण हमने जाना ५३ तू शोच मतकर कालकीगति बलवान्है सब भूतोंमें प्राप्तहोतीहै ५४ हे पाण्डव कालही भूतोंकी उत्पत्ति स्थिति और नाश करता है इससे कालही इस जगत्का मूलहै और इसी लिये तुझे मनमें स्थिरता करनीचाहिये ५५ नदी समुद्र

पर्वतसारीपृथ्वी देव मनुष्य पशु वृक्षआदिसरीसृप५६  
 कालकेरचेहुयेहैं और फिर कालहीद्वारा नाशको प्राप्तहो-  
 जातेहैं इसलिये तू इससम्पूर्ण जगत्को कालात्मक जान  
 के शान्तिको प्राप्तहो५७ हे अर्जुन महात्मा कृष्णने भार  
 उतारनेकेलिये पृथ्वीपर अवतारलियाथा ५८ पूर्वकाल  
 में भारसे दुःखीहुई पृथ्वीने शिव तथा ब्रह्मा और सब  
 देवतोंसहित विष्णुके पासजाके प्रार्थनाकी थी उसीके  
 लिये जनार्दनका अवतारहुआ ५९ और सबवृश्च्यंधक  
 अर्थात् यादवोंके कुलका संहारकर उन्होंने पृथ्वीका  
 भारउतार ६० हे अर्जुन भगवान्का कुछ प्रयोजन अ-  
 वतारका नहींथा इसलिये कृतकृत्यहो अपनी इच्छासे  
 गमनकरगये ६१ संसारकी रचनामें तो देवतोंकेदेव कृ-  
 ष्णकी स्थितिहोतीहै और अन्तमें नाशकरनेको समर्थ  
 हैं जैसे अब किया ६२ इस कारण अपना तिरस्कार  
 होने का दुःख तू मतकरे कुछ कालपाके पुरुषों में तेरा  
 पराक्रमहोवेगा ६३ हे अर्जुन जिसकारण तू औरयेभीष्म  
 द्रोणसे आदि नृपसब कालकेवशहुयेहैं उससे तिरस्कार  
 क्याचीजहै ६४ जिस विष्णुके प्रभावसे तू ने राजोंका  
 पराभव कियाथा उसी भगवत्प्रसाद से धाड़ियोंसे तेरा  
 पराभवहुआ ६५ अन्य शरीरको प्राप्तहो भगवान् जगत्  
 की स्थिति करतेहैं और अन्तमें जगत्का क्षयभी करते  
 हैं ६६ हे कौंतेय जन्मजन्ममें जनार्दन तेरे सहायीहुये हैं  
 और अन्तमें केशवसे अवलोकितहो तूने भीष्मआदि  
 कौरवोंका नाशकिया ६७ हे पार्थ आभीरोंसे तेरापरा-  
 भवहुआ यह क्याबातहै यह सब जगत् हरीकी लीला



से रचाहुँआहै ६८ जैसे तूने कौरवजीते तैसेही तुझे भीरुओंने जीतलिया ६९ तुझसे रक्षितस्त्रियें जो दस्यु-  
 वोंने छीनलीं वहभी वृत्तांत मेंतुझसे कहंताहूँ ७० पूर्व  
 कालमें अष्टावक्रनामकब्राह्मण ऊपरको बाहुकरके बहुत  
 वर्षोंतक सनातन ब्रह्मका ध्यान करतारहा ७१ और  
 फिर असुरोंके समूहको जीतके मेरुपर्वतपरजा स्थित  
 हुआ तहां फिरतीहुई श्रेष्ठस्त्रियों ने उसमहात्माकोदेखा  
 ७२ और हे पांडव रम्भा तिलोत्तमा आदिक हजारहां  
 स्त्रियें उस महात्मा की स्तुति और परस्पर सराहना  
 करनेलगीं ७३ कण्ठपर्यंत जलमें स्थित और जगके  
 भारको धारणकिये हरीके तुल्य रूपवाले उस ब्राह्मण  
 को उन स्त्रियों ने नम्रहोके नमस्कार किया ७४ और  
 जैसे वहप्रसन्नहो तैसेही उपायकरनेलगीं स्तुतिसेप्रसन्न  
 हो ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ वह मुनिबोला ७५ कि हे महाभाग  
 वालियो मैं प्रसन्न हूँ तुमसबों को जो वाञ्छितहो वह  
 बरमांगो यदि दुर्लभहोगा वह भी बर मैं तुमको दूंगा  
 ७६ रंभा तिलोत्तमा आदि अप्सरा बोलीं कि हे द्विज  
 यदि तू प्रसन्नहै तो हमको अप्राप्त क्या है ७७ अन्य  
 स्त्रियें कहनेलगीं कि हे विप्र जो तू हमपर प्रसन्न हुआ  
 है तो बरदे कि हमारे पति पुरुषोत्तम होवें ७८ व्यास  
 जी बोले कि उनके यहवचन सुन मुनिबोला कि ऐसे-  
 ही हो इतना वचन कहके मुनिजलसे बाहिर निकसा  
 और सबस्त्रियें आठमुखवाले मुनिके विरूपको देख ७९  
 घरकी तरफ मुखफेरके हास्यकरने लगीं तब उसमुनि  
 ने उनको शापदिया कि मुझको विरूपमान के तुमने

हास्यकियाहै इसकारण मैं तुमको यह शापदेताहूँ ८० कि मेरे प्रसादसे तुम पुरुषोत्तम भर्ताको लब्धहोके फिर मेरे शापसे हतहुई तुम सब दस्यु अर्थात् धाड़ियों को प्राप्तहोगी ८१ । ८२ व्यासजी बोले कि मुनिके वचन सुनके उन्होंने फिर मुनिको प्रसन्नकिया तब वह मुनि बोला कि अच्छा फिर तुम इन्द्रलोकमें जाओगी ८३ निदान वे अष्टावक्र मुनिके प्रसाद से प्रथम केशवको प्राप्तहो फिर शापसे दस्युओंको प्राप्तहुई और अन्तमें सुराङ्गना भई ८४ व्यासजी बोले कि हे पाण्डव इस कारण तुम्हको कुछभी शोक न करना चाहिये उसी अखिलनाथ परमात्माने सबका संहार किया ८५ और तुम्हारा संहार भी उसी परमात्मा द्वारा समीप आरहा है और बल तेज वीर्य सहायी आदिका भी संहार उसीने करदिया ८६ जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय है और संयोग तथा वियोग कर्मों की अपेक्षा से होते हैं ८७ इसलिये बुद्धिमान इसबात को जानके शोकहर्ष को नहीं प्राप्तहोते और जो इसको नहीं जानते हैं वे हर्षशोकमें युक्त रहते हैं ८८ और इसी कारण तुम्हें शोक न करना चाहिये और इसबातको जान भाइयों सहित सबको त्यागके तपके वास्ते बनमें जाना चाहिये ८९ तू अभी युधिष्ठिरके पास जाके मेरा यह वचन कह और हे वीरभाइयों सहित परलोक को गमनकर ९० व्यासजी बोले कि यह सबहाल अर्जुनने जाके युधिष्ठिरादिकोंसे कहा ९१ तब युधिष्ठिरादिक अर्जुनके कहेहुये मेरे वचन सुनके परीक्षित को राज्यतिलक दे वन को

चलेगये २ हे मुनिश्रेष्ठो यह यदुवंशमें उत्पन्नहोनेवाले  
वासुदेवका चरित्र मैंने विस्तारपूर्वक तुमसे कहा ९३ ॥

इति आदिब्रह्मपुराण भाषायां स्वयंभूः पितृसंवादे अंशावतारकथनं

नामैकोनशतोऽध्यायः ९९ ॥

## सौ का अध्याय ॥

इतनी कथा सुनकर मुनियोंने कहा कि हे मुने आपके  
मुखसे पवित्र धर्मको सुनेबिना हमारी तृप्ति नहीं होती  
बल्कि हमको बड़ा आश्चर्य्य है १ हे मुने भूतोंकी उत्प-  
त्ति तथा प्रलयकर्मोंकी गतिको जानतेहैं इससे आपसे  
पूछते हैं २ हे महामते यमलोक का मार्ग बड़ा दुष्कर  
और सम्पूर्ण भूतोंको भयके देनेवाला है ३ उस मार्गसे  
मनुष्य यमके स्थानको कैसेजाते हैं उसमार्गका विस्तार  
हमसेकहो ४ हे मुने इस सम्पूर्ण वृत्तान्तको आपकहो  
कि नरकके दुःखोंसे नर कैसेवचे ५ भगवानूने मनुष्यों  
तथा पशुपक्षिआदिके लिये नरक स्वर्गको कैसे रचा  
६ और स्वर्ग तथा नरक कबतक रहताहै और कैसे  
सुकृत तथा दुष्कृत करनेवाले जाते हैं ७ नरक और  
स्वर्गका क्यारूपहै कितना प्रमाणहै और क्यावर्णहै  
और जीवको यमलोक कैसे प्राप्तहोताहै ८ व्यासजी  
बोले कि हे मुनिशार्दूलो हे सुब्रतो मेरे वचनोंको सुनो  
यह संसारचक्र अजरहै और स्थिति इसकी नहींहै ९  
इसलिये मैं यममार्गके निर्णय और मरणसे आदिके  
सबकर्मोंको कहताहूँ १० हेसत्तमो यमके स्थान और म-  
नुष्यलोकमें ११ छियासीहजार योजनका अन्तरहै और  
यमराजके पुरका मार्ग तपेहुये तांबेके सदृश कहाहै १२

जीवसंज्ञक सबप्राणी उसबनके मार्गसे जातेहैं पर पुण्य करनेवाले अच्छे पवित्र मार्ग से और पाप करनेवाले खोटे मार्गसे यमराज को प्राप्त होते हैं १३ यमराजके स्थानमें बाईस नरक स्थितहैं जिनमें खोटे कर्म करने वाले पृथक् २ पकायेजाते हैं १४ और उनके नाम यह हैं रौरव रौद्र शूकर तल कुम्भीपाक महाघोर शालमल विमोहन कीट कृमिभक्ष लालाभक्ष भ्रमनदी पुञ्जबही रुधिर अंभस् अग्निज्वाल महाघोर संगश शुनभोजन घोरवैतरणी और असिपत्रबन १५।१७ न वहां वृक्षोंकी छायाहै और न तलाव सरोवर कूप बावड़ीही हैं जिनमें तृषायुक्त अपनीप्यासबुभावैं १८ वहां सुखदेनेवाले कोई पर्वतभी नहीं हैं और सुन्दरआश्रम तथा स्थानभी नहीं हैं १९ जिनमें मुनी तथा मार्गके थकेहुये जन वासकरैं और वहमार्ग सबको गंतव्य है २० कालको प्राप्त हो सुहृद बन्धु धनादिकजरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज २१ तथा स्थावर जंगम सब उस महापन्थको जाते हैं और देवता असुर मनुष्य सब यमराजके बशमें हैं २२ स्त्री तथा पुरुष व नपुंसक पृथिवी पर जितने जीवसंज्ञकहैं पूर्वाह्न अपराह्न तथा मध्याह्नमें २३ संध्याकालमें रात्री में तथा प्रातःकालमें यमके मार्ग को जाते हैं और वृद्ध युवा बालक अथवा गर्भयुक्त और अन्यभी सबको वह महापन्थ गंतव्य अर्थात् गमन करने योग्य है २४ संन्यासी गृहस्थी अथवा अन्यजनों को बैठे स्थित हुये शयन करते २५ जागते अथवा सोते वह पन्थ गंतव्य है यह प्राणी नहीं इच्छा करताहुआ भी जैसे इस देह

से छूटताहै सो सुनो जल अग्नि विष शस्त्र क्षुधां और पर्वत तथा दूसरे ऊंच स्थानों वृक्षादिकों से पतनादि २६।२७ एवम् अन्य निमित्तोंसे देह प्राणोंसे छूटजाता है और इस पंचभौतिक शरीरके त्यागने में शरीर को बहुत कष्ट प्राप्त होताहै २८ फिर जीवकर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले अन्य शरीरको ग्रहण करताहै और उस शरीरमें कर्मों से प्राप्तहुई तन्मात्रा और गुणोंको धारण करताहै २९ सुख दुःखको भोगनेके लिये जीव दृढ़शरीरको प्राप्तहो भोगयुक्त बारम्बार पाप करता है ३० और धर्मात्मा सुखोंको भोग सुखसे धर्मराजके पासजाता है कोपको प्राप्त हो उष्णवायुका प्रेरण हुआ जीव वहां कायामें बास करताहै ३१ और उष्मा से बँधेहुये प्राणी के मर्मस्थान भिन्न भिन्न रहते हैं उदाननामवाला पवन उसकायाके ऊर्ध्वभागमें रहताहै ३२ जो भक्षणकिये हुये अन्न जलको नीचेको प्राप्तकरके रोकदेताहै और अन्न जलके रसको शरीरमें प्रवेशकरदेताहै ३३ वहवायु स्त्रियों पुत्रों और अपनी अवस्थावालोंसे प्रसन्नताको प्राप्त होताहै ३४ और श्रद्धासे पवित्र चित्तवाला होके जिसने अन्नदिये हैं वहभी यत्नके बिनाही पुष्टीको प्राप्त होजाताहै ३५ जो नर प्रीतिसे झूठ नहीं बोलते आस्तिकमार्गमें प्रवृत्त हैं और श्रद्धावाले हैं उनका सुख द्वारा मृत्यु होताहै ३६ और जो देव ब्राह्मणकी पूजामें रतहैं किसीकी निंदा नहींकरते शुद्ध रहते हैं और शरणागतकी पालना करते हैं उनकी सुखसे मृत्यु होती है ३७ जो मनुष्यकर्मोंके वेग अथवा वैरभावसे धर्मको

नहीं छोड़ता और यथोक्तकर्मको करनेवाला तथा सौम्य  
 वृत्ति है वह भी सुखसे मृत्युको प्राप्त होता है ३८ जिनके  
 काल प्राप्त होने से मृत्यु समीप हो रहा हो वे तृषायुक्त  
 को जल और क्षुधायुक्त को अन्नदे तो उनका सुखसे  
 मृत्यु होता है ३९ धनका दान करने से जीव शीत को  
 जीतलेता है और जलका दान करनेसे आतपरूपी गर्मी  
 को जीतलेता है और अन्य उद्वेगके करनेवाले कष्टभी  
 उन्हें नहीं होते ४० मोहमें आके जो दूसरों को ज्ञान  
 नहीं देते और तमयुक्त स्थान में दीपक नहीं बारते अ-  
 थवा जो झूठी साक्षी भरते हैं झूठ बोलते हैं गुरु की  
 शिक्षाको नहीं मानते ४१ और वेदकी निंदा करते हैं  
 वे सब मोहरूपी मृत्युको प्राप्त होते हैं और भयके देने  
 वाले पवित्र गन्धवाले क्रूर मुद्गरको हाथमें लिये यमराज  
 के दूत उन्हें लेनेको आते हैं ४२ ऐसे यमदूतोंको आते  
 देख वह कम्पमान हो रोदन करता हुआ माता पिता  
 और भ्रातृयों सहित तत्काल एकवर्ण होजाता है ४३  
 त्रासको प्राप्त होनेसे उसको दृष्टीभ्रम होजाता है और  
 वह कहता है कि मैं तुम्हारा दास हूँ इस प्रकार दुःखको  
 प्राप्त हो वह उस शरीरको त्याग ४४ अन्यदेहको प्राप्त  
 होता है और उस कर्मसे प्राप्त हुई यातनासे माता पिता  
 को भूल ४५ उसी प्रमाणवाले आयु और वैसीही स्थिति  
 को प्राप्त होता है जब यमराजके दूत उसे दारुण फांसियों  
 से बांधलेते हैं ४६ तब वह प्राप्तहुयेकाल में बारम्बार  
 दुःखी होता है और पंचभूत इन्द्रियोंसे कण्ठमात्र वायु  
 वाले देहको त्यागके ४७ दूसरे शरीरमें प्राप्त हो गाढ़ा-

रोदनकरताहै और षट्कौशिक शरीरसे वायुभूतहुआ निकसताहै ४८ यहजीव जब पृथ्वीको त्यागताहै तब माता पिता आता मामा दारा नौकर मित्र सब रोदन शब्दकरते हैं ४९ और अश्रुवोंसे पूर्णनेत्रवाला कुटुम्ब के आदमियोंके देखते २ यहजीव अपनेशरीरको त्याग वायुभूत होजाताहै ५० घोर अँधेरेसे युक्त व सुख दुःख के प्रभाववाला दुर्दमपन्थ पाप कारियोंके लिखे कहा है ५१ और दुःसह तथा दूर और दुर्निरीक्ष्य तथा दुरासद और दुर्गंधवालामार्ग पापियोंके लिये वर्णनकियाहै ५२ दूतोंद्वाराखैचा फांसीसे बँधा और मुद्गरसे ताड्यमान जीव उसमहापन्थाको प्राप्तहोताहै ५३ क्षीण आयुवाले मनुष्योंको देख यमराजके दूत भयङ्कररूप धारण कर जब उनके जीवको लेनेआते हैं ५४ तो वे अञ्जन के पर्वतकेसमान आकारवाले ऋक्ष व्याघ्र खर उष्ट्र बानर बीछू बैल उल्लू सर्प मार्जार अर्थात् बिलाव और अन्य वाहनोंपर चढ़ेहुयेआते हैं कोई शिकरा व गीदड़पर चढ़ेहुये कोई गृध्रपर चढ़ेहुये कोई बराह और प्रेतोंपर चढ़ेहुये और कोई महिष पर चढ़ेहुये नाना प्रकारके घोर रूपों को धारण किये वे सब प्राणियों को भय देने वाले दीर्घमुख करालजिह्वा कठोरनासा तीननेत्रों बड़ी ठोड़ी बड़ेकपोल और बड़ेमुख तथा दीर्घ शरीर और विकृतस्वरूप और अंकुशकेतुल्य दांतोंवाले यमराज के मन्दिरसे निकसते हैं वे मांस और रुधिरसे भीगेहुये अंगोंवाले कठोर दंष्ट्रावाले पाताल सदृश मुखवाले और भयङ्कर जिह्वावाले ज्वलित और चञ्चल नेत्रों

को फाड़े और मार्जार उल्लू खद्योत आदिको इन्द्रके धनुषकीनाई उठायेहुये गलेमें मालाओंको पहिने कंठ में फूत्कार शब्दको करते और भयंकर सर्पों को धारण किये सर्पोंके वेगकेसमान चलतेहैं कोई विवाहके रूप को धारणकरे कोई चतुर्भुजी रूप को धारणकिये कोई छःबाहुओंको धारणकिये कोई दश तथा बीसभुजाओं को धारणकिये कोई सौ भुजाओं को धारणकिये और कोई हजार भुजाओंको धारणकियेहुये और अनेकप्रकारके आयुध अर्थात् जलतेहुये भयानक शक्ति यष्टी चक्रआदि हथियारों को लिये और फांसी बेड़ी दण्ड आदिको धारणकिये वे महाबलवाले भयदेते हैं वे महाबलवाले जब मनुष्योंके प्राण हरते हैं तब ऐसे ऐसे रूप धरकर तथा ऐसे ऐसे बाहनोंपर चढ़कर आते हैं ५५।६७ और सब हाथोंमें शस्त्रोंको ग्रहणकर यमराज कीआज्ञासे जीवोंको फांसी तथा बज्रयुक्त शृंखलावाली बेड़ियोंसे बांधके ताड़ना देतेहुये रोदनकरते तथा बारम्बार पुकारतेहुये प्राणीको यमराजकेस्थानमें लेजाते हैं ६८।७० हा तात हे पुत्र हे माता कहतेहुये उसप्राणी को यमराजके दूत पृथ्वी पर गिराकर ७१ पैने शूलों तथा मुद्गर मूसल और घनकीमार देते हैं और खड्ग शक्तिके प्रहारसे और बज्रतुल्य कठोरदण्डसे मारतेहैं ७२ वे कठोर और असह्य शब्दों से उसे भिड़कते हैं और अनेकदूत क्रोधयुक्तहोके चारोंतरफसे ताड़नादेते हैं ७३ निदान दुःखसे पीड़ित और धूपसे नीचेको शिर किये ऐसे जीव को यमराजके दूत खैचके उस भयंकर



मार्गमें लेजाते हैं ७४ और कुशा कांटे पर्वत कीच और पत्थरोंसे पूर्णमार्ग तथा उत्कट मदवाले दूतोंके प्रज्वलितनेत्रोंसे देखनेसे ७५ और दीप्तमान आदित्यकेतपन से अश्रुवोंसे पूर्ण दग्धअंगवाला वह जीव भयकेदेनेवाले दूतोंद्वारा उसमार्गमें खेंचाजाताहै ७६ और पापोंको करनेवाले जीव तिनघोरोंसे खेंचेहुये और सैकड़ों गिदड़ों से भक्षणकियेहुये यमराजके दारुणमार्गमें जातेहैं ७७ कहीं भयसे कहीं पड़के कहीं उठने और कहीं दुःखसे युक्तहोके वह मार्ग गमन करनापड़ताहै ७८ और निर्भत्स्यमान उद्विग्नमनवाले तथा शीघ्रचलनेवाले और भयसे विह्वल तथा कम्पमान शरीरवाले इनसब जीवसंज्ञकोंको उसमार्गमें चलना अवश्यहोताहै ७९ कांटोंसे आच्छादित मार्ग तथा तप्यमान रेतसे दह्यमान और ज्ञानसे रहित सबको उस मार्गमें चलनापड़ता है ८० और मांस और रुधिरकी दुर्गन्ध और राद्युक्त बख्रों तथा गात्रों से पूर्ण घात से दग्धअङ्गोंवाले ८१ शब्द करनेवाले पक्षियोंसे क्रन्दमान अर्थात् कांटों और दूतों की ताड़नासे अतिदुःखोंको प्राप्तहुये उस मार्गमें चलनापड़ता है ८२ शक्तियों और भिण्डपाल अर्थात् गोफियों तथा तलवार लाठी बाण बिजली और पैने शूलोंके अग्रभागसे युक्त ८३ और श्वान व्याघ्र काक गृध्र आदिकों और सींगवाले जीवोंसे भेदन कियेहुये एवम् ८४ पृथ्वीको खोदतेहुये हस्तियों से भक्षणकिये हुये और श्वान अमर काक उलूक मक्षिकाओंसे भक्ष्यमान ८५ वह मार्ग गन्तव्यहै और स्वामी तथा मित्रों

में न विश्वास करनेवाला और स्त्रीको मारनेवाला शस्त्रों से छेदनहुआ उस मार्गमें जाताहै ८६ और जो बिना अपराध जंतुओं को मारते हैं वे राक्षसों से भक्ष्यमाण हुये यमराजके मार्गमें जातेहैं ८७ जो अंगके अच्छे बस्त्रों को हरलैते हैं वे विकृतरूप नग्नहोके यमराजके स्थानमें जातेहैं ८८ और जो सुगन्धकीबस्तु सुवर्ण गृह क्षेत्र आदिको हरलैते हैं वे दुरात्मा पापों के करनेवाले ८९ पत्थर लाठी दण्डआदिसे ताड्यमान तथा टूटेअङ्ग-वाले रुधिरको फेंकतेहुये यमराजके मन्दिर को जाते हैं ९० जो नरकसे निर्भयहो ब्राह्मण के द्रव्यको हरते हैं और ब्राह्मणको कोशतेहैं ९१ वे अधम शुष्ककाष्ठ के समान छिन्नकर्मोंवालेहोके नेत्र और नासिकासे रुधिर फेंकतेहुये और काक गृद्ध जम्बुक आदिकोंसे भक्षणकरे हुये ९२ दारुण यमराजके किङ्करोंद्वारा ताड्यमान हुये चिह्लाते पापीजन यमराजके मंदिरमें जाते हैं ९३ ऐसा परमदुर्द्धर्ष और ज्वलितकांतिवाला रौरव विषम मार्ग पापीजीवोंको दिखायाजाताहै ९४ और तपायेहुये तांबेके पत्रके तुल्य और ज्वलितहुई अग्निकी लटाके समान कुरण्ड कंटक नामवाले जीवोंसे आच्छादित तथा भेडियों और निरंकुश हस्तियों से भक्ष्यमाण ९५ और शक्ति बज्र कांटेआदिकोंसे ज्वलित अंगारोंसे और तपे हुयेरेत अग्नि लोहेकी कीलोंसे पापीपुरुषोंको वह मार्ग दुर्गमहै ९६ ज्वलित तथा कठोर और सूर्यके तेजसे तपायमान मार्ग में निर्दय यमराज के दूतोंद्वारा खेंचा हुआ जीव वहां प्राप्तहोता है ९७ और शब्द करता

हुआ दुःखोंसे युक्तहोके पड़जाताहै और यमराजकेदूत शस्त्रोंसे मारते हैं ९८ वहजीव यमकी आज्ञाकरनेवाले घोर दूतोंद्वाररूपवश जीव उस मार्ग में तांबे और लोहे की रचीहुई यमराजकी पुरीमें प्रवेशकरताहै ९९।१०१ वहपुरी लक्षयोजनविस्तृत और चौकोर तथा चार दरवाजोंसेयुक्त शोभावालीहै १०२ उसपुरी में दशहजार योजनविस्तारवाला एकसुवर्णकामहलहै जो इन्द्रनील महानील पद्मराग आदि रत्नोंसे जटितहै १०३ वहपुरी देव दानव गन्धर्व यक्ष राक्षस पन्नग और घोर तथा अघोर आदिकोंसे व्याप्तहै १०४ और उसका पूर्वदिशाका दरवाजा सैकड़ों पताकाओंसे शोभित और बज्र इन्द्र नील वैडूर्य मोती और अनेक भूषणोंसे भूषितहै १०५ और गन्धर्व तथा अप्सराओं के गाने नाचनेसे रमणीकहै उस दरवाजेसे देवता ऋषि और योगिजन प्रवेशकरतेहैं १०६ गन्धर्व यक्ष सिद्ध विद्याधर सर्प आदिकों केलिये उत्तरका दरवाजाहै जो घण्टा और चमरोंसे जटित १०७ और कल्याणकारी बन्दरवाल तथा रत्नोंसे अलंकृत कियाहुआहै और बीणा बांसुरी आदिसेयुक्त गानकरनेवालों और ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के उच्चारण करनेवाले मुनियोंके समूहोंसे व्याप्तहोरहा है धर्मज्ञ सत्यव्रत में परायण ग्रीष्म ऋतु में जलदान करनेवाले शीतकालमें अग्निसे तपानेवाले थकेहुयेको असवारी देनेवाले मीठावचन बोलनेवाले दानी तथा शूरीर माता पिता तथा ब्राह्मणोंकी टहलकरनेवाले और नित्य अभ्यागतकी पूजाकरनेवालेभी उत्तरदर-

वाजेसे प्रवेशकरतेहैं १०८।१११ पश्चिमका दरवाजा अनेक रत्नों से भूषित और विचित्रमणियों तथा अन्य सामग्री और बन्दरवालोंसे अलंकृत ११२ एवम् भेरी और मृदंगके शब्दोंसे मंगलयुक्त है प्रसन्नहुये शिवके भक्त ११३ सब तीर्थोंकोकरके पवित्रदेहवाले पंचाग्नी से तप करनेवाले धीरहोके गमनकरते मरने वाले पर्वतसे गिरके मरनेवाले ११४ तथा जलमेंडूबके मरनेवाले और अपघात करके मरनेवाले पश्चिम द्वार से उसपुरीमें प्रवेशकरते हैं ११५ हे तपोधन स्वामिमित्र और जो लोकके जनोंकेलिये गायको हननकरते हैं वे घोरनर दक्षिणदरवाजेसे उसपुरीमें प्रवेश करतेहैं ११६ वहांसबजीव महाघोरशब्द करतेहैं और वहपुरी हाहाकारशब्दसे व्याप्त है दक्षिणदरवाजा ११७ अन्धकार और शृङ्गवाले जीवों से युक्त है और कांटे बीछू सर्प और चूंचवाले कीड़ों ११८ तथा भेड़ियों ऋक्षों सिंहों गीदड़ों श्वानों मार्जारों चीलों और अग्निकीतुल्यमुखवाले अनेकजीवोंसे दुर्गमहै ११९ जितनेजीवदक्षिणदरवाजे से गमनकरते हैं सबका तिरस्कार होजाताहै और बालक तथा वृद्धवा आतुर सब वहां तपायेजाते हैं १२० जो शरणागत को स्त्री को मित्रको और बिना हथियारवालेको विश्वासदेके मारतेहैं अथवा अगम्यास्त्रीसे जो गमनकरतेहैं और परायेद्रव्यको हरलेतेहैं १२१ वा धरी हुई चीजको नहींदेते एवम् जहर और अग्निके देनेवाले पराईपृथ्वी घर स्त्री शय्या वस्त्र गहना आदिको हरनेवाले १२२ दूसरेके छिद्रकोदेख प्रसन्न होनेवाले

सदा खोटेवचनको कहनेवाले और ग्राम देश पुर स्थान के दुःखसे मर्दनकरनेवाले १२३ तथा झूठीसाक्षीभरनेवाले कन्याओंके वादमें झूठबोलनेवाले अभक्ष्यवस्तुको भक्षणकरनेवाले पुत्रकी बहू १२४ माता और पुत्री तथा तपस्विनी इत्यादिकोंसे गमनकरनेवाले और महापापोंके करनेवाले १२५ ये सब दक्षिणदरवाजेके मार्गसे उसपुरीमें प्रवेशकरते हैं १२६ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यास ऋषिसम्बादेयमलोकस्य

सांगस्वरूपवर्णनो नामशतोऽध्यायः १०० ॥

### एकसौएकका अध्याय ॥

मुनिजनोंने पूछा कि हे तपोधन उसपुरीमें दक्षिण मार्गसे पापी पुरुष कैसे जाते हैं सो विस्तारसे कहीं हमारी सुननेकी इच्छाहै १ व्यासजीबोले कि वह दक्षिणद्वारमहाघोर तथा भयानकहै और नानाप्रकारके श्वानोंसे व्याप्त और सैकड़ों गीदड़ोंके शब्दसे नादितहै २ फुत्कारशब्द करनेवालोंसे वह द्वार अगम्यहै एवम् भूत प्रेत पिशाच यक्ष तथा अन्योंसेभी युक्तहै और वहांजानेवालोंके रोमखड़ेहोजाते हैं ३ ऐसे घोरदरवाजेको देखके पापीजन दुःखको देनेवाले सागररूप मोहको प्राप्त होजातेहैं ४ उसपुरीमें प्राप्तहुये जीवोंको वे दूत शृंखलों तथा फांसियोंसे खेंचतेहैं और बारम्बार दण्डोंसे ताड़नादेतेहैं ५ कहीं २ रुधिरसे व्याप्त अंगवाले जीव दक्षिणदरवाजेमें पग २ पर गिरते पड़ते जातेहैं ६ और कहीं २ पैंनेकांटों और कांकरों तथा छुरीकीसी पैंनी धारवाले पत्थरोंसे और कहीं २ बहुतकींच और चूंचवाले जीवों

तथा लोहेकीसी पैनीजीभवाले जीवोंसे छिन्नहुये और गढ़वाली भूमिके लंघनकरने और वृक्षोंसे व्याप्त पर्वतों तथा तपायेहुये अंगारोंसे दुःखितहुये जीव दक्षिण मार्गकोजाते हैं ७१९ कहीं २ विषम गढ़ों तथा लोहेकीसी पैनीचूचवाले जीवों और तपायेहुये बालू तथा कठोर तृणों एवम् १० तपायेहुये लोहेकी बेड़ियों प्रकाशवाले अग्नि और तप्यमान शिलाओंसे व्याप्त मार्गसे ११ और कहीं २ बालू तथा बड़े २ कांटों और तपायेहुये जल तथा प्रकाशकीहुई अग्निसे व्याप्त १२ एवम् कहीं भेड़ियों तथा डाढ़वाले कठोरकीड़ों और कहीं २ बड़ीबड़ी जोकों तथा सप्यों और मर्दनकरने औ पैनेसीगोंवाले बैलों और मदांध हस्तियों तथा बलसे मथनकरनेवाले जीवों १३। १४ और खोटे मार्ग को चलनेवाले जीवों बड़े सीगोंवाली महिषियों और अनेक भयदेने तथा भक्षण करनेवाले उन्मत्तजीवों १५ महाघोर डाकिनियों और कठोर राक्षसों से व्याप्त मार्ग से प्रज्वलित अंगारोंकी वर्षासे दग्ध अङ्गवाले जीव दक्षिणद्वारमें प्रवेश करते हैं १६ बहुत धूलीकी वर्षासे दुःखीहुये रोदनकरते हैं और मेघकेसेरूप तथा लम्बे केशोंवाले दूत बारम्बार उन्हें दुःखदेते हैं १७ और चारोंतरफसे शरोंकी वर्षाकर उसे चूर्णकरदेते हैं छूरीकीसी पैनीजलकी धारा गमनकरते हुये जीवको भेदनकरदेती हैं १८ और महाशीतलकठोर वायु चारोंतरफसे पीड़ादेके जीवको सुखादेता है १९ ऐसे मार्ग से दुस्तर और स्थान नहीं है जिसमें दुर्बल होके जीव वहां प्राप्त होता है २० पापोंके करनेवाले यमराजकी

आज्ञा करनेवाले घोररूप दूतोंद्वारा बलसे उस मार्गमें  
 प्राप्तकियेजातेहैं २१।२२ जीव परार्थीन हुंआ तथा मित्र  
 और बन्धुजनों से रहित अपने कियेहुये कर्मोंको शो-  
 चताहुआ २३ और प्रेतरूप होनेसे ध्वस्त कण्ठ और  
 तालू और कृश अंगोंवाला तथा क्षुधारूपी अग्निसे  
 दग्धहुआ भयको प्राप्तहोताहै २४ कोई शृंखलोंसे बँधा  
 हुआ ऊपरको पैर किये मदीन्मत्त दूतों द्वारा खँचेजाते  
 हैं २५ और कितने नीचेको छाती तथा मुखकरके और  
 अन्नपानीसे रहित बारम्बार वहां जातेहैं २६ दही घृत  
 चावल तथा सौगन्धिक वस्तु वा शीतल जलको वहां  
 देख वे जब मांगतेहैं तो क्रोधसे रक्कनेत्रोंवाले यमराज  
 के दूत भिड़कके कहतेहैं २७।२८ कि तूने कोई व्रत नहीं  
 किया और ब्राह्मणोंको दानभी नहींदिया बल्कि अन्य  
 दानकरनेवालेको ब्राह्मणोंके देखतेहुये निवारण करदि-  
 या २९ इसलिये उस पापकेफलको तू अभीभोग तेरा  
 धन न अग्निने दग्धकिया न जलमें डबा न नष्टहुआ  
 और न राजा वा चौरोंने लिया ३० हे नराधम तू अभी  
 देख उसके फलको प्राप्तहोगा तूने दान क्योंनहीं किया  
 जिन्होंने यहां दान कियाहै तथा श्रेष्ठमार्ग का साधन  
 कियाहै उनकेवास्ते ये पदार्थहैं और पहिलेही कल्पना  
 कियेजातेहैं ३१। ३२ भक्ष्य भोज्य तथा पानकरने वा  
 चूसनेकी वस्तुओंको देखके तू लोभ मत कर क्योंकि  
 तूने किसीकाभी दान नहीं कियाहै ३३ जो दानमें रत  
 तथा यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन करनेवाले हैं उनके  
 लिये यहां यह पदार्थहैं ३४ हे नारको पर द्रव्यका क

धन अब हम कैसे कहें किंकरोंके यह वचन सुन भूखसे पीड़ित वह जीव पदार्थोंमें इच्छा नहीं करता ३५ और यमराजके दूत दारुण शस्त्रों से ताड़ना देके यमराजके पास उस जीव को प्राप्त करदेते हैं ३६ धर्मात्मा धर्मके करनेवाले देव आदि सब को दण्ड देनेवाले यमके सामने बड़े कष्टसे मरके जीव जाता है ३७ जब दूतोंकी आज्ञासे जीव यमराजके अंगोड़ी जाते हैं तब वे भयानकरूप यमका देखते हैं ३८ पापोंके बन्धनसे युक्त तथा विपरीत बुद्धिवाले जीवोंको दंष्ट्राओंसे करालमुख तथा मूकटियोंसे कुटिल देखनेवाला ऊपरको केशोंको किये तथा बड़ी डाढ़ीवाला फरकतेहुये ऊपरले ओठ और अठारह भुजाओंवाला यमराज क्रोधको प्राप्त हो नीले अंजनके पर्वतके समान उपमावाला सब शस्त्रोंको धारण किये और ब्रह्मदण्डसे झिड़कता हुआ महामहिषपर चढ़ा प्रकाशमान अग्नि के तुल्य नेत्रोंवाला रक्तमाली और रक्तवस्त्रोंको धारण किये और महामेघ के समान ऊँचा तथा प्रलयकालके मेघकासा शब्द करता महीं समुद्रके समान गम्भीर मानों त्रिलोकी को ग्रसलेगा और अग्निके समान मुद्गरलिये प्रलयकालकी कालरूपी अग्निके समान और अन्तके करनेवाला भयानक और मारीच तथा उग्र मारीच कालकी तुल्य दारुण रात्री तथा अनेक आधिव्याधिसे युक्त भयके देनेवाले और शक्ति शूल अंकुश फांसी चक्र तथा बज्रयुक्त दण्ड और रौद्र और कठोर दुर्द्धर्ष धनुषको धारण कियेहुये महा पराक्रमी क्रूर तथा अंजन के समान कान्तिवाले



सब शस्त्रोंको धारण किये दूतकर्म के करनेवाले अमं-  
ख्यातभयङ्कर दूतों ३९।४७ तथा अपने कुटुम्बसहित  
यमराज तथा चित्रगुप्त पापीपुरुषको देखताहै ४८ और  
भिडकताहै फिर चित्रगुप्त धर्मराजके कहनेसे जीवको  
बोधकराताहै ४९ कि तुम खोटेकर्मोंके करनेवाले तथा  
दूसरेके द्रव्यको हरनेवालेहो और रूप तथा वीर्य से  
गर्वित तथा पराईस्त्रियोंसे रमणकरनेवालेहो ५० जैसा  
तुमने कर्म कियाहै वैसाही भोगो तुमने अपने हननके  
लिये दुष्कृतकर्म कियाहै ५१ और अब तुम्हीं पीडय-  
मानहुये अपने कर्मोंको देखो और भोगो अब किसीकाभी  
दोषनहींहै ५२ अपने घोरकर्मों खोटी बुद्धि तथा बलसे  
गर्वितहो जो राजा मेरेसमीप आतेहैं ५३ उनसे चित्रगुप्त  
कहतेहैं कि हेनृपोत्तम दुराचारी और प्रजाके नाशकारी  
हो थोड़ेकाल रहनेवाले राज्यको प्राप्तहो तुमने दुष्कृत  
कर्मकिया ५४ और राज्यके लोभ तथा मोहमें आके  
बलसे प्रजाको अन्यायमें प्रवृत्तकिया इसलिये अब ह-  
नन होतेहुये उसके फलको भोगो तुमने जो राज्य तथा  
धनको प्राप्तहोके ५५ ५६ अशुभकर्म कियाहै इसवास्ते  
सबको त्यागके काकरूपहो यहां स्थितहो ५७ अब उस  
बलको हमनहीं देखते जिससे तुमने प्रजाकानाशकिया  
यमके दूतोंद्वारा प्राप्त कियेहुये तुमको कैसा फलहै ५८  
ऐसे बहुतसे वाक्योंको सुन वे अपने कर्मों को शोचते  
हुये चुपके हो स्थित होते हैं ५९ फिर धर्मराज आप  
राजाओंको क्रमसे आज्ञादे पापोंकी शुद्धीके लिये यह  
वचन कहते हैं ६० कि हे चंड और महाचंड इन राजों

को पकड़कर पापयुक्त देशोंमें लेजाओ और क्रमसे नरकादिकोंमें प्राप्तकरो ६१ फिर अन्य दूतोंसे कहेंताहै कि पापकर्ममें जो नर प्रवृत्तहैं तिनको प्राप्त करो ६२ और वे दूत कहते हैं कि हेतात यह धर्मसे विमुख तथा पापकर्मका करनेवाला आपके अगाड़ीहै ६३ यह लोभी दुराचारी महापापोंसे युक्त बड़े २ पापों को करनेवाला सदा हिंसा करने में रत और अशुद्ध है यह अगम्यों स्त्रीसे गमन करनेवाला परायद्रव्यको हरनेवाला कन्या विषयक झूठ बोलनेवाला मित्रके मारनेवाला तथा मित्र की चुगली करनेवाला और मदसेमत्त धर्मका निन्दाकारी है और मर्त्यलोकमें इस दुरात्मा ने पापकर्म का आचरण कियाहै ६४।६६ अब हेदेवेश इसपर तुम्हारी दयाहो चाहे न हो परं इसपर दण्ड तथा कृपादृष्टि के विधान करनेवाले आपहीहो और हम प्राप्त करनेवाले हैं ६७ धर्मराजसे ऐसेकहके वे पापकारी जीवों को यमराजके अगाड़ी करते हैं और यमराज घोरदण्ड देने के लिये दूतोंको आज्ञा देताहै तब जैसा जिसका कर्म होताहै तैसाही दण्ड अथवा उत्तम भोग उसे मिलता है पापी जीव पर क्रोधकर यमराज दूतों को दण्ड की आज्ञा देता है और वे दूत अंकुश मुद्गर दण्ड क्रकत्त शक्ति तोमर तथा खड्ग शूल आदिकोंसे पापियोंको भेदनकर किरोड़हा नरकोंमें पापियोंको प्राप्तकरते हैं ६८। ७२ और वे अपने कर्मोंके दोषोंसे पीड़कों प्राप्त होते हैं अब उन नरकों का भयंकर रूप नाम तथा प्रमाण सनो जिनमें जीव जाते हैं रुधिरसे भीगा हुआ महारि

बीच नामवाला नरक विख्यात है ७३। ७४ जो बज्र कंठकोंसे मिला हुआ है और दशहजार योजन विस्तार वाला है ७५ उसमें डूबा हुआ पुरुष बज्र कांटोंसे भेदन किया जाता है गौके मारनेवालोंके लिये महाघोर नामवाला नरक है जो एक लक्ष योजन का विस्तृत है ७६ कुम्भीपाक नामवाला दारुण नरक भी एक लक्ष योजन विस्तारवाला है और उसमें रेतसे युक्त श्रेष्ठकलशे अंगारोंसे ढके हुये हैं ७७ ब्राह्मणको मारनेवाले और भूमि तथा धरोहरके हरनेवाले ७८ और दूधके क्रय विक्रय करनेवाले वहां डाले जाते हैं वहां जल अन्न और वायु नहीं हैं ७९ और विप्रोंको दानदेके उनसे विरोध करनेवाले निश्चेष्ट हुये उसमें डाले जाते हैं अंगारोपचय नामवाले नरकमें पापी दीप्त अंगारोंसे जीव पकाया जाता है ८० और जिसने ब्राह्मण को दान नहीं दिया है वे तहां दग्ध किये जाते हैं महापात नामवाला नरक भी लक्ष योजन ऊंचा है ८१ जो सदा भूठ बोलते हैं वे अधोमुख हुये वहां जाते हैं महाज्वाला नामवाला नरक ज्वालाके प्रकाशसे भयानक है ८२ और जो पापों में बुद्धि करनेवाले हैं वे वहां दग्ध होते हैं क्रकच नामवाले नरकमें बज्रपातकसे अग्रभागवाले क्रकचोंसे अगम्य हुये वहां गमन करते हैं गुडपाक नामवाले नरकमें एक जलता हुआ तलाव है जिसमें ८३। ८४ अपने गोत्रका नाश करनेवाले जीव विलुप्त हुये दग्ध होते हैं प्रस्फुट नामवाला नरक बज्रकी सूइयोंसे व्याप्त है ८५ वहां जो परच्छिद्रमें रत हैं वे पीड़ाको प्राप्त होते हैं क्षारहृद नामवाला

नरकक्षारसे भंराहुआहै ८६ और वहां जो प्राणोंके बंध करनेमें रतहैं वे शस्त्रोंसे छेदन कियेजातेहैं क्षुरधार नाम वाला नरक पैनीछुरियोंसे युक्तहै ८७ ब्राह्मणकी पृथ्वी को हरनेवाले कल्पके अन्तमें छेदनकियेजातेहैं काल-सूत्रनामवाला नरक बज्रसूत्रोंसे व्याप्तहै ८८ जो किसी का नाशकरने में रहतेहैं वे वहां कल्प पर्यन्त रहतेहैं कश्मल नामवाला नरक कफ और सिनक से व्याप्तहै ८९ और जिनकी सब कालमें मांसखानेकी रुचिहै वे कल्पपर्यन्त तिसमें डालेजातेहैं उग्रगन्ध नामवाला नरक नानाप्रकारके मूत्र और विष्ठाओं से युक्त है ९० और जो पित्तोंको पिण्डनहींदेते वे वहां डालेजातेहैं दुर्द्धर नामवाला नरक जोक तथा बीछूसे व्याप्तहै ९१ और पापी वहां जाके दशहजार वर्षतक रहतेहैं बज्र महापीड़ा नामवालानरक बज्रोंसे रचाहुआहै ९२ जो नर भूठीसाक्षीभरतेहैं वे ईखकीनाई वहां पीड़ेजातेहैं तपाये हुये लोहेकासा मंजुषनामवाला नरक है जहां पाषाणसे युक्तनर दग्धकियेजातेहैं ९३ अप्रतिमा नामवाला नरक राद मूत्र और विष्ठासेयुक्तहै जो कोई वेदकीनिंदा करतेहैं वे नीचे को मुखकरके वहां पड़तेहैं ९४ परि-लुम्पाख्य नामवाला नरक छोटे प्रेतों से व्याप्तहै जो ब्राह्मणोंकोपीड़ादेतेहैं वे वहां राक्षसोंसे भक्षणकियेजातेहैं ९५ लाक्षाप्रज्वलित नामवालानरक ज्वालामेंयुक्त है वहां पापीपुरुष दग्धकरके डुबोयेजातेहैं ९६ महाप्रेत नामवालानरक प्रज्वलितहुई शूलियों से ऊँचा है और जो कोई श्रेष्ठाभार्या को मारदेतेहैं वे वहां शूलियों से

भेदनकियेजाते हैं ९७ महाघोर नामवाले नरकमें शि-  
लाओंसे दग्धहुये पंखोंवाले बायसकाक हैं जो पराई  
स्त्रियोंका सेवन करते हैं वे वहां खायेजाते हैं ९८ शा-  
ल्मल नामवाले नरकमें तपायेहुयेकांटे हैं और जो पर-  
स्त्रियोंसे रमणकरते हैं वे वहां डालेजाते हैं ९९ जो सदा  
सत्यबोलते हैं तथा परधर्मका कीर्तनकरते हैं परन्तु पर-  
स्त्रीरत हैं वे पापीभी वहां डालेजाते हैं १०० और उन  
की जिह्वा तथा इन्द्रिय जाड़वाले जीवोंसे छेदनकराये  
जाते हैं १०१ जो रागों तथा कटाक्षोंसे पराईस्त्रियोंकी  
इच्छाकरते हैं उनकेनेत्र नाराचशस्त्रोंसे भेदनकियेजाते  
हैं १०२ और माता बहिन पुत्री पुत्रबधूसे गमनकरने  
वाले यमराजके दूतोंद्वारा अंगारोंसे दग्धकियेजाते हैं  
१०३ जो मूढ़ प्राणियोंको मारते हैं उनके मांसको कल्प  
के अन्तमें काक और गृध्र भक्षण करते हैं १०४ आ-  
सन शय्या तथा बस्त्रको जो मूढ़ हरते हैं वे यमकेदूतों  
द्वारा शक्ति और तोमर से भेदन कियेजाते हैं १०५  
और जिसने फल पत्र तथा तृण कुबुद्धिसेहरे हैं उन्हें  
क्रुद्धहुये यमकेदूत तृणरूपी अग्निमें दग्धकरते हैं १०६  
जो परद्रव्य तथा परस्त्री को हरता है और जो नरोंको  
कष्टदेते हैं उनका जलताहुआ हृदय शूलसे भेदन किया  
जाता है १०७ कर्म मन और बाणीसे जो धर्मसे रहित  
हैं वे यमराजकी घोरयातनाको प्राप्तहोते हैं १०८ ऐसे  
सैकड़ों हजारों लाखों तथा किरोड़ों नरक पापराशिवाले  
पुरुषों द्वारा सेये जाते हैं १०९ और यहां जो मनुष्य  
स्वल्पभी खोटाकर्मकरते हैं वे घोर यमयातनाको प्राप्त

होजाते हैं ११० श्रेष्ठकहेहुये धर्मको न करने और समीप में किसीधर्म को देख न माननेवाले १११ एवम् दिन रात जो पापोंकायत्नकरते हैं और मोहमेंआके जो धर्म का आचरणनहींकरते ११२ वे यहां फलको भोगते हैं और जो परलोकसे विमुखहैं वे अधमनर घोर नरकमें प्राप्तहोतेहैं ११३ नरकवासदारुणहै और स्वर्गवास सुख का देनेवालाहै शुभ तथा अशुभ कर्मके करनेवाले जीव वहां प्राप्तहोते हैं ११४ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांप्रथक्प्रथक्यातनाकीर्तननामैक  
शततमोऽध्यायः १०१ ॥

### एकसौदोका अध्याय ॥

मुनिजनोंने कहा कि हे सत्तमाहो अतिघोर यमका मार्ग आपनेकहा और घोरनरक तथा घोरद्वारभीकहा १ हे ब्रह्मन् पापी नरों को यमका मार्ग अतिभयानक है इसलिये वहां पापीजन सुखसे चलेजावें ऐसा उपाय कहो २ व्यासजी बोले कि यहां जो कर्मोंसेयुक्तहै तथा हिंसासे जो रहित गुरुकी टहलमेंयुक्त तथा देव ब्राह्मण की पूजा करनेवाले ३ वे इस मनुष्यलोक से भार्या सहित उस मार्गको नहींजाते वे अनेकप्रकारके सुवर्ण युक्त शोभायमान विमानोंपरचढ़ धर्मराजके पुरमें शोभितहोते हैं ४ । ५ और जो सत्य बोलतेहैं और शुद्ध अन्तःकरणवालेहैं वेभी देवतोंकीतरह विमानमें बैठके यमके मन्दिरको जातेहैं ६ और जो सब पवित्र दानोंको करतेहैं श्रेष्ठवृत्तिको रखतेहैं और कृपणब्राह्मणको दान देतेहैं ७ वे सब दिव्यवर्णवाले तथा मणियोंसे जटित

विमानोंमें बैठके दिव्यअप्सराओंसे शोभितहुये पवित्र यमराजकी पुरीमें जातेहैं ८ जो जूती छत्री शय्या आसन वस्त्रादिक तथा गहनों अर्थात् आभूषणोंका दान करतेहैं ९ वे सब अलंकारोंसे सज्जित हस्तियोंपर चढ़ दिव्यवर्णवाले तथा सुवर्णसे शोभित यमराजके पुरको जातेहैं १० और जो गुड़ तथा पीनेकीवस्तु दुग्धआदिकोंका दान करतेहैं और शुद्धआत्मासे जो चावलोंका दानकरते हैं ११ वेभी सुवर्णयुक्त नानाप्रकारके विमानों पर चढ़ यमके मन्दिरमें जातेहैं और वस्त्र तथा स्त्रियों से यथाकाम बारम्बार सेवन करते हैं १२ जो श्रद्धायुक्त दूध घृत शहद गुड़ दही आदि ब्राह्मणोंकेलिये यत्नसे दानकरते हैं १३ वे चक्रवाकोंके शब्दोंसेयुक्त सुवर्णकेविमानोंपर चढ़के गन्धर्वोंके गानसुनते यमके स्थानमें जाते हैं १४ जो फल तथा सुगन्धियुक्त पुष्पोंका दान करते हैं वे हंसोंसेयुक्त विमानोंपर यमकीपुरीमें प्रवेश करते हैं १५ और जो तिलकी धेनु तथा तिलों और घृतकीधेनुका दान श्रद्धायुक्त वेदपाठी ब्राह्मण को देते हैं १६ वे चन्द्रमाके मण्डलकी नाई निर्मल विमानपर चढ़ यमके स्थानमें प्राप्तहोते हैं वह पुर गन्धर्व तथा गानकरने वालोंसे युक्तहै १७ बड़े तलाव तथा शीतल जलका स्थान बनवाने वाले सब शोभायुक्त १८ सुवर्ण तथा चांदीके बड़े २ घण्टोंसे शब्दित तथा बीजनों और ताड़पत्रोंसेयुक्त महाकान्ति वाले विमानोंपर चढ़कर यमपुरको जाते हैं १९ जहां रत्नोंसेयुक्त और शुभ लक्षणों वाले देवतोंकेसमूह प्राप्तहोते हैं २० और वायुकेसे वेग-

वाले विमानोंपर लोकपालभीआतेहैं ऐसा धर्मराजका पुर नानाप्रकारके जनों से युक्त होरहा है २१ जो सब प्राणियों को जिलानेवाला जल का दान देते हैं वे भी सुखपूर्वक विमानोंपरचढ़के उसमहामार्गमें जातेहैं २२ और काष्ठ की पादुका अर्थात् खड़ाऊं तथा सिंहासन व आसन जिन्होंने ब्राह्मणों के लिये दियाहै २३ वेभी सुवर्ण तथा मणियोंसेजड़ित सिंहासन तथा पादुकाओं से निर्मल यमराज के मन्दिर में जाते हैं २४ जिन्होंने बाग तथा विचित्र पुष्पों की बाटिका लगाई है वे अप्सराओं से युक्त विमानोंमें बैठके यमके स्थानमें जाते हैं २५ और जो सुवर्णयुक्त रथ तथा भूमिका दान देनेवाले हैं वे सब कामना तथा तृप्ति के देनेवाले विमानों पर चढ़के यम के स्थान में जाते हैं २६ जो अलंकृत करीहुई कन्याका दान ब्राह्मण को देते हैं वे उदय हुये सूर्य के तेजकेसे तेजवाले विमानपर चढ़के २७ दिव्य कन्याओंसे युक्त यमराजके मन्दिरमें प्रवेश करतेहैं २८ भक्तिपूर्वक सुगन्धयुक्त अगर कर्पूर पुष्प तथा धूप जो ब्राह्मणके लिये देते हैं २९ वे सुगंधित सुन्दर वेष तथा उत्तम कांतियोंसे भूषितहुये और विमानों से अलंकृत हुये धर्मराजकी पुरीमें प्रवेशकरते हैं ३० दीपकका दान करनेवाले दशोंदिशाओंके प्रकाशमान मार्गसे सूर्य के तुल्य विमानमें प्रकाशमानहो यमके स्थानमें प्राप्तहोते हैं ३१ बास करनेके लिये सुवर्णसे जटित घर को ब्राह्मणके लिये जो देदेते हैं वे उदयहुये सूर्यकीसी कांति वाले होके धर्मराजके स्थानमें जाते हैं ३२ और जल



पृ ३४ : आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

तथा भोजन और सुवर्णसे युक्त जलकी हांडीका दान जो देते हैं वे अप्सराओं से पूजेहुये महा हस्तियों पर चढ़के जाते हैं ३३ पैरोंके मलनेका उबटन तथा शिरके मलने और स्नान करनेको जल वा गंगाजल जो ब्राह्मणको देते हैं वे बड़े ऐश्वर्यसे युक्तहुये यमके स्थानको जाते हैं ३४ और मार्गसे थकेहुये ब्राह्मणको जो विश्राम करवादेते हैं वे चक्रवाकोंके शब्दसे युक्त विमानों पर यमके स्थानमें जाते हैं ३५ घरमें आयेहुये ब्राह्मणको जो आसनदेते तथा पूजते हैं वे परमसुखको प्राप्त हुये यमके मार्गमें जाते हैं ३६ और जो नमोब्रह्मण्यदेवाय इस मन्त्रसे हरिको नमस्कार करते हैं और हे हरे मेरी रक्षाकरो ऐसे जो कहते हैं वे उस मार्गमें सुखसे चलेजाते हैं ३७ जो अनन्तकी पूजामें रत तथा पाखंड और झूठसे रहित हैं वेभी हंसयुक्त विमानोंपर यमके मार्गमें जाते हैं ३८ और जितेंद्री होके जो चौथे दिन भोजन करते हैं वे मयूरोंसे युक्त विमानोंपर धर्मराजके मार्गमें जाते हैं ३९ जो व्रत धारणकरके तीसरे दिन भोजन करते हैं वेभी हस्ती तथा सुवर्ण युक्त रथों पर चढ़के यमके स्थानमें जाते हैं ४० और जो नित्य जितेंद्रिय होके धनुषको धारण करते हैं वे हस्तीपर चढ़के इंद्रके समान यमके मार्गको जाते हैं ४१ धर्मराजकी पुरी दिव्यहै और नानाप्रकारकी मणियोंसे भूषित नाना प्रकार के वस्त्रोंसे युक्त और नाना प्रकारके शब्दोंसे शब्दितहै ४२ मास मास प्रति शुक्ल तथा कृष्णपक्षके व्रत करनेवाले सिंहों से युक्त विमानों पर उस यमकी

पुरीमें जाते हैं और अप्सराओंसे युक्त रहते हैं ४३ ए-  
काग्र तथा दृढव्रत होके जो प्रस्थानका काल में दान  
करते हैं वे अप्सरों और गन्धर्वोंसे युक्त सूर्यकी कांति  
केसे विमानोंपर चढ़के यमके मार्गमें जाते हैं ४४ जि-  
सने वैष्णवरूपी आत्मा से गोबर के खाने से आत्मा  
का साधन कियाहै वे अग्निवर्णवाले विमानपर यमके  
स्थानमें जाते हैं ४५ और जो नारायणमें तत्पर होके  
अग्निमें प्रवेश करते हैं वे अग्निके प्रकाशसे युक्त वि-  
मानपर यमके मार्गको जाते हैं ४६ जो अनशन व्रतमें  
विष्णुका स्मरणकर प्राणोंको त्यागते हैं वे सूर्य के प्र-  
काशसे युक्त विमानोंपर यमके स्थानमें जाते हैं ४७ और  
जो प्रातःकाल जलको रपर्शकरके प्राणोंको त्यागते हैं  
वे चन्द्रमाके झण्डलकेसमान विमानोंपर चढ़के यमके  
स्थानमें जाते हैं ४८ जो विष्णुभक्त होके अपने शरीरको  
अर्पणकरनेवाले हैं वे सुवर्णयुक्त रथमें बैठके यमके स्थान  
को जाते हैं ४९ और स्त्रीयुक्त घरोंमें तथा गौ के स्थान  
वा युद्धमें जो मृत्युको प्राप्त होते हैं वे देवतोंकी कन्याओं  
से युक्त तथा सूर्यकी कांतिवाले यमके स्थानमें जाते हैं ५०  
जो जितेंद्रिय तथा विष्णुभक्त होके तीर्थयात्रा करते हैं  
वे तिस घोरमार्गमें सुखपूर्वक चले जाते हैं ५१ और जो  
यज्ञों तथा बहुतसी दक्षिणासे ब्राह्मणोंका पूजन करते हैं  
वे तपायेहुये सुवर्णकेसमान विमानपर चढ़के सुखसे यम  
के स्थानको जाते हैं ५२ अपने नौकरों तथा अन्यों को  
जो पीडा नहींदिते वे सुखसे सुवर्णके तुल्य कान्तिवाले  
विमानों पर यमके स्थानको जाते हैं ५३ और जो सब

जीवोंपर शान्तिरखते हैं तथा उनके भयको दूरकरते हैं वे क्रोध मोह मद आदिसे रहित और जितेन्द्रियहुये ५४ पूर्ण चन्द्रमाकीसी कान्तिवाले विमानोंपर देव गन्धर्वों सेयुक्त यमकेपुरमें जाते हैं ५५ सत्य तथा शुद्धतासेयुक्त एक पैरसे स्थित होके जो विष्णु का पूजन करते हैं वे सुखसे धर्मराजके पुरको जाते हैं और जिनको मीठेका स्वादनहीं है और जो मिष्टतममांसको ५६ जो भक्षण करनेवालीवस्तुओंमें अभक्ष्यहै उसे त्यागदेतेहैं उनको हजारगौओंके दानकाफल प्राप्तहोताहै ५७ पहिले वेद के जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी यह कहतेहुये कि सब तीर्थोंके स्नानका जो फलहै सो मांसके त्यागनेमें प्राप्त होताहै ५८ हे विप्रो वे धर्मसेयुक्तहो सुखपूर्वक यमराज के स्थानमें चलेजाते हैं ५९ जो महीनेके व्रतमें युक्तहैं वे सूर्यलोकमें जाते हैं ६० और उन धर्मात्माओं को देवता तथा यमराज आप बड़ाई देते हैं ६१ आयेहुये विप्र को जो आसन पाद्य और अर्घ्य देतेहैं उन महात्मा तथा आत्मा के हितकरने वालों को धन्य है ६२ सुखके लिये जिन्होंने रथादिकका दान कियाहै उनके वास्ते दिव्य स्त्रियों से भूषित विमान है ६३ और वे सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त स्वर्ग में जाते हैं और वहां महाभोगोंको भोग पुण्यके क्षय होनेपर यहां आजाते हैं ६४ एवम् यहां जो कुछ शुभ अथवा अशुभ किया है तिसको भोग फिर पुण्यके प्रभावसे धर्मराजके स्थान में जाते हैं और वहां ६५ शुद्धमन होके अपने आत्मा को पितृभूत देखते हैं और उस आत्मा से सदा भक्ति

रूप फलको देनेवाले धर्म में युक्तरहते हैं ६६ धर्म से धन तथा मोक्षहोताहै और धर्महीमाता तथा भ्रातारूप है धर्महीसे सुहृद् प्यारे होते हैं ६७ और धर्मही स्वामी तथा रक्षा करनेवालाहै धर्मही भ्राता तथा विधान करनेवालाहै और धर्मही पालना करनेवाला है धर्म से अर्थ अर्थसे काम और कामोंसे भोग तथा सुख होते हैं ६८ धर्म से एकाग्र ऐश्वर्य्य होता है और धर्मसेही स्वर्गकी गति होती है जिन्होंने धर्मकी सेवा करी है वे महा भयसे रक्षित होजाते हैं ६९ और देवपना तथा ब्राह्मणपना धर्मसेही होताहै इसमें संदेह नहीं धर्म से सब काल के इकट्टे करेहुये पाप नाश होजाते हैं ७० हे द्विजोत्तमो हजारों जन्मपाके दुर्लभ मनुष्य शरीर जीव को प्राप्त होताहै और फिर वहां धर्ममें बुद्धि होनी दुर्लभहै ७१ मनुष्य शरीर पाके जो सबको बांझित धर्म का आचरण नहीं करते वे कुत्सित दरिद्री विरूप तथा व्याधिसे युक्त रहते हैं ७२ अन्य पुरुषोंके मारनेमें जो लिप्त हैं वे मूर्ख धर्म से रहित हैं और दीर्घ आयुवाले शूर वीर तथा पण्डित वा अभ्यागतको जो भोजन करावते हैं सो धर्मयुक्त हैं ७३ हेविप्रो जिन्हों ने पहिले धर्म कियाहै वे रोगरहित और रूपवान् होते हैं और वेही धर्ममें रतहुये उत्तम पुरको जाते हैं ७४ और जो पापोंसे सेव्यमानहैं वे सर्पोंदिकोंकी योनिको प्राप्तहोते हैं जो वासुदेवके अनुकूलहैं वे नरकोंको नहीं प्राप्त होते हैं ७५ वे स्वप्नेमेंभी यमराजको नहीं देखते और नहीं हैं आदि अन्त जिनके ऐसे दैत्य दानवोंको मारनेवाले

देवके पास रहते हैं ७६ जो नर नित्य विष्णु को नमस्कार करते हैं वेभी यमको नहीं देखते मन कर्म और बाणीसे जो अच्युतकी शरणमें हैं ७७ और हे द्विजो जो जगत्के नाथ नारायण नित्यरूप परमात्माकी भक्ति में रतहैं वे मुक्तिफलके भोगनेवाले हैं और यमराजकी सामर्थ्य मुक्तिदेनेकी नहीं है ७८ जो नमस्कार करते हैं वे विष्णुके स्थानसे अन्यत्र गमन नहीं करते और उनको यमकी तथा दूतोंकी पुरीमें प्रवेश करनेकी गम्य नहीं है ७९ जो नमस्कार करके विष्णु को देखते हैं वे नरकोंको कैसे प्राप्तहोवेंगे ८० जो वे मोहयुक्त होके बहुतसे कियेहुये पाप और नरकोंको त्यागके सब पापों के हरनेवाले महादेव तथा हरिके मन्दिरमें जाते हैं ८१ और जो शुद्धभावसे जनार्दनका स्मरण करते हैं वेभी शरीरको त्यागके रोगरहित हो विष्णुके स्थानमें जाते हैं ८२ क्रोधी भी यदि अनन्यचित्त होके सब काल में हरिका कीर्तन करते हैं वेभी दोषोंके नाशहोनेसे वैसेही मुक्तिको प्राप्तहोजाते हैं जैसे चंदेरीपुरीकापति रुक्मैया ८३ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां धार्मिकानां यमलोकवर्णनं

नामदशधिकशततमोऽध्यायः १०२ ॥

एकसौ तीन का अध्याय ॥

लोमहर्षणजी बोले कि हे मुनिसत्तमो ऐसे यम के मार्ग तथा नरकोंके दुःखको सुनकर फिर मुनियोंने वेद व्यासजीसे यह संदेह किया कि १ हे भगवन् हे सर्वधर्मज्ञ हे सर्वशास्त्र विशारद इस मनुष्यकी सहाय करने वाला कौन है २ पिता माता पुत्र गुरु तथा ज्ञाति बांधव

सम्बन्धी तथा मित्रोंके देखते इस शरीरको त्याग जीव कहां लीन होजाता है ३ और परलोकमें कैसे चलता है ४ व्यासजी बोले कि हेविप्रो जीव अकेलाही जन्मता है अकेलाही नाश होताहै अकेलाही अज्ञानको प्राप्त होताहै और अकेलाही दुर्गतिको प्राप्त होताहै ५ पिता माता भ्राता पुत्र गुरु ये उसकी सहाय नहीं करसकते काठ तथा लोहेके तुल्य इस शरीरको त्याग ६ तथा दौ घड़ीतक रोदन करके परलोकको मुख करके जीव चला जाता है और कियेहुये कर्मभी शरीरको त्यागके साथ-ही चलते हैं ७ जो प्राणी धर्मसे युक्तहैं वे परमरूप स्वर्ग में जाते हैं और पापसंयुक्त नरकोंमें जाते हैं ८ इसलिये मेरे कहेहुये अर्थको जान तथा पंडितहोके धर्मकी सेवा करे क्योंकि धर्मही मनुष्योंका सहाय करनेवाला है ९ लोभ से मोहितहुये नर लोभसे मोहसे क्रोधसे भयसे तथा खोटे वचनोंके सुननेसे कर्मकरते हैं १० और धर्म अर्थ काम ये तीनों जीतेहुयेके फलहैं इन तीनोंमें व्याप्त रहना योग्यहै और अधर्म से रहित होना चाहिये ११ मुनिजनने पूछा कि हे भगवन् धर्मसे युक्त तथा हितके करनेवाले और ज्ञानसेयुक्त आप के वचन सुन हमारे ज्ञानरूपीनेत्र हुये हैं १२ शरीरको त्यागके न जानेहुये मार्गमें जीव कैसे जाताहै और धर्मके साथ कैसे चलता है सो कहो १३ व्यासजी बोले कि पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि तथा आत्मा सहित बुद्धि धर्मको नित्य देखती है १४ और सबकालमें रातदिन जीवोंका साक्षी है इनके सहित धर्म जीवके साथ चलता है १५ और

हे विप्रो त्वचा अस्थि मांस वीर्यं रुधिर येभी जीवके साथ होनवाले जीवके साथही जाते हैं १६ और धर्म से युक्त जीव इस लोकमें तथा परलोकमें सुखको प्राप्त होताहै और ज्यादा क्या कथनकरूं १७ मुनिजनोंने पूछा कि जैसे धर्म जीवके साथ चलता है यह आपने कहा पर वीर्यकी कैसे प्रवृत्ती होतीहै सो हमें जाननेकी इच्छा है १८ व्यासजी बोले कि हे द्विजोत्तमो शरीरमें स्थित होनेवाला देव अन्नको भक्षण करताहै और तिसके पश्चात् पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि ये भक्षण करते हैं १९ हे विप्रो जब ये पंचभूत तृप्त होजाते हैं तब भूतात्मा जो मनहै सो वीर्यको प्राप्त होताहै २० हे द्विजो स्त्री और पुरुषके वीर्यसे गर्भ होताहै यह तो तुमसे कहाहै और तुम क्या इच्छा करते हो २१ मुनिजनोंने कहा कि जैसे गर्भहोताहै वह आपने कहा पर पुरुषको ज्ञान कैसे होताहै सो कहो २२ व्यासजी बोले कि आसन्नमात्र कालवाला पुरुष उन पंचभूतोंसे अनुमान कियाजाताहै और जब वे पंचभूत जुड़े २ होजाते हैं तब जीव परमगतिको प्राप्त होजाताहै २३ सब भूतों से युक्त हुआ जीव जल्दी से वीर्य में प्रवेश करता है और स्त्रियोंके पुष्पमें प्राप्तहो जीवसंज्ञक होजाताहै २४ तब हे मुनिजनाहो पंचदेवता उसके शुभ अथवा अशुभ कर्मको देखते हैं अब तुम्हें क्या सुननेकी इच्छाहै २५ मुनिजनोंने पूछा कि हे भगवन् कृष्णरूप वह जीव त्वचा अस्थि मांसको त्यागके तथा पञ्चभूतों से रहित होके कैसे सुख दुःखको भोगता है २६ व्यासजीने कहा कि

हे विप्रो कर्मोंसे युक्तहुआ जीव जल्दीसे वीर्यमें प्राप्त हो कालसे स्त्रियोंके पुष्पोंको प्राप्तहोजाताहै २७ और यमके दूतोंद्वारा बांधाहुआ संसारमें विचरता है और दुःखरूपी संसार चक्रमें छेश को प्राप्त होता है २८ हे द्विजो इसप्रकार लोकमें प्राणी जन्मसे लेके सुकृत तथा दुःकृत कर्मके फलको भोगता है २९ जो जन्मसे धर्म में युक्तहै वह सुखको भोगते हैं ३० और जो धर्म करनेके अनन्तर अधर्मोंको सेवताहै वह सुखसे अनन्तर दुःखको भोगता है ३१ जो अधर्मयुक्त है वह यम के स्थानको जाता है और महादुःखों को प्राप्तहोके फिर सर्पादिककी योनिको प्राप्तहोताहै ३२ निदान जिसने यहां जैसा कर्मकियाहै तिसको तैसीहीयोनि प्राप्तहोती है जीव जैसे मोहयुक्त होताहै सो सुनो ३३ और जितने पाप कहेहैं तिनका इतिहासभी कहताहूँ कि जैसे मनुष्य यमके घोर विषयों को प्राप्तहोते हैं ३४ हे द्विजो यहां देवस्थानोंके तुल्य और भी बहुत पवित्र स्थानहैं और तिनमें रहनेकीगति सर्पादिकोंकीहै ३५ हे ब्रह्मन् यम-राजका भुवन यमकेही गुणोंकेतुल्यहै विग्रहयुक्त कर्मोंसे बांधाहुआ जीव दुःखों की उपासना करता है ३६ और जिसजिस भावयुक्तहोके कर्मकरताहै तैसीहीगति हो-जातीहै ३७ जो ब्राह्मण चारों वेदोंको पढ़के मोह युक्तहो पतित अन्नोंको ग्रहणकरताहै वह खर अर्थात् गधेकी योनिको प्राप्तहोताहै ३८ और हे द्विजो वह खर पन्द्रह वर्षतक जीके फिर बैलकी योनिमें जाताहै और सात वर्षतकजीताहै ३९ फिर ब्रह्मराक्षसहोके मांसको भक्षण



करता है और फिर ब्राह्मण होता है ४० है विप्रो जो पतितसे अन्नादिक मांगनेवाले हैं वे कीड़ों की योनिको प्राप्त होते हैं और पन्द्रहवर्ष तक जीते हैं ४१ फिर कीड़ोंकी योनिसे छूटके गर्दभकी योनिको प्राप्त होते हैं और पांच वर्ष गर्दभ तथा पांचवर्ष शूकरयोनिमें रहते हैं ४२ फिर पांचवर्ष मुर्गाकी योनिमें रहके पांचवर्ष काकर रहते हैं और एकवर्ष कुत्तेकी योनिमें रहके फिर मनुष्य होते हैं ४३ जो शिष्य पढ़के कुबुद्धिमें युक्त हो पाप करता है वह इस संसार में तीन योनियोंको प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं ४४ पहिले कुत्तेकी योनिमें फिर कीड़ोंकी योनिमें पश्चात् गधेकी योनिको प्राप्त हो मरके ब्राह्मण होता है ४५ जो शिष्य गुरुकी भार्याको गमन करके कुबुद्धि कर लेता है वह पापी घोर संसारमें चित्तसे रहित हो नरकवास करता है ४६ प्रथम वह कुत्तेकी योनिमें तीन वर्ष जीता है और फिर मृत्युको प्राप्त हो कीड़ोंकी योनिमें उत्पन्न होता है ४७ वहां भी एक वर्ष तक जीके फिर ब्राह्मणकी योनिमें उत्पन्न होता है जो पुत्र तथा शिष्य बिना कारण गुरुको मार देते हैं वे अपने आत्माके कारण से हंसकी योनिको प्राप्त होते हैं ४८ जो पुत्र पिता वा माताको नहीं मानते वे भी जैसे पूर्वमें गर्दभकी योनि कही है तैसे ही प्राप्त होते हैं ४९ और गर्दभयोनि को प्राप्त हो दशवर्ष तक जीते हैं और एकवर्ष तक कुम्भीर संज्ञक योनिमें रह फिर मनुष्य जन्म लेता है ५० माता पिताको जिसने अप्रसन्न किया है और गर्भिणी स्त्रीसे जिसने गमन किया है वह भी गर्दभकी योनिको प्राप्त होता है ५१

और उस योनिमें एकमहीना जीके मनुष्ययोनि में प्राप्त होता है जो माता पितासे विमुख है वह मैनापक्षीकी योनि को प्राप्त होता है ५२ और वहां पीड़ाको प्राप्तहोके फिर कछुवेकी योनिको प्राप्तहोता है और दशवर्षतक कछुवा रहके फिर टींडीकी योनिको प्राप्तहोता है तहां तीन वर्ष जीके ५३ फिर छःमहीने सर्पकी योनि में रहता है तब मनुष्ययोनिको प्राप्तहोता है नौकर रहके जो रानीसे रत रहते हैं वेभी मोहमें प्राप्तहोके वानरकी योनिको प्राप्त होते हैं ५४ और दशवर्ष वानर दशवर्ष मूषक तथा छःवर्ष श्वान होके फिर मनुष्ययोनिको प्राप्तहोता है ५५ धरोहर का हरनेवाला यमके दुःखोंको प्राप्तहोता है और सैकड़ों संसारोंमें भ्रमके कीड़ोंकी योनिको प्राप्तहोता है ५६ तहां पन्द्रहवर्ष जीके फिर मनुष्यहोता है ५७ जो निन्दाकरनेवाला है वह मरके मयूरकी योनिको प्राप्त होता है और जो विश्वासदेके मारते हैं वे मछलीकी योनिको प्राप्तहोते हैं ५८ हे द्विजो मच्छहोके वह एकवर्ष जीता है फिर चार महीने मृगरहके फिर बकरीकी योनिको प्राप्तहोता है ५९ और जब वर्षदिन पूराहोता है तब मृत्युको प्राप्तहो कीड़ों की योनिमें जाता है और फिर मनुष्यहोता है ६० धान्ययव तिल उड़द कुलथी सरसों चने मोठ मूंग गेहूँ ६१ आदि को जो धूर्त मोहमें प्राप्तहोके चोरीकरते हैं वे तीनबार मषाकी योनिको प्राप्तहोते हैं ६२ फिर मरके शूकरहोते हैं और रोगयुक्त रहके कुत्ता होते हैं फिर कालके अन्तमें मनुष्यहोते हैं ६३ जो पराईस्त्रीसे रमणकरता है वह प्रथम भेड़िया होता है ६४ फिर कुत्ताहोता है फिर गीदड़

होता है फिर चीलकी योनिको प्राप्तहोता है तथा सर्प  
काक बगुला क्रम आदि योनियों को प्राप्तहोताहै ६५  
जो मूढात्मा मोहमेंआके भाईकी स्त्री को भोगताहै वह  
एकवर्षतक कोकिला रहता है ६६ प्यारेकीभार्या गुरु  
कीभार्या और राजाकीभार्याको जो भोगकेलिये धारण  
करताहै वह शूकर होताहै ६७ और शूकरहोके पांचवर्ष  
तथा दश वर्षतक जीताहै फिर चीटी होताहै तब भी  
तीनमहीने जीताहै फिर एकमहीना काड़ाहताहै ६८  
और इन संसारों की साधनाकरके फिर और कीड़ोंकी  
योनिमें जाताहै और वहां चौदहमहीने जीके ६९ ध-  
र्मराज को प्राप्तहो मनुष्य शरीर पाताहै और विवाह  
तथा यज्ञादिकको प्राप्तहोताहै ७० जो मोहसे विवाहा-  
दिकोंमें विघ्नकरतेहैं वे मरके कीड़ेहोतेहैं और पन्द्रहवर्ष  
जीते हैं ७१ और जब अधर्मक्षयहोतेहैं तब मनुष्य हो-  
जातेहैं पहिले कन्यादान करके दूसरेदान करनेकी जो  
इच्छाकरता है ७२ वह भी हे विप्रो कीड़ोंकी योनिको  
प्राप्तहोताहै और वहां तेरहवर्ष तक जीके ७३ अधर्म  
के क्षयहोनेपर मनुष्य होजाताहै देवकार्य तथा पितृ-  
कार्यकरके ७४ जोउनका पूजननहींकरता वह मरकेकाक  
होताहै और सौवर्ष काकरहके फिर मुरगाहोता है ७५  
फिर एक महीनातक सर्परहके मनुष्य होताहै जो अ-  
पने पिता तथा भ्राताको नहीं मानते ७६ वे भी मृत्यु  
को प्राप्तहो चकोरकी योनिको प्राप्तहोतेहैं और वहां कि-  
तनेवर्षजीके और फिर मैनाकी योनिको प्राप्तहोके ७७  
मनुष्य शरीर को प्राप्तहोता है जो ब्राह्मणी से गमन

करता है वह कीड़ोंकी योनिको प्राप्तहोताहै ७८ और  
 वहां मृत्यु को प्राप्तहोके शूकरहोताहै और उत्पन्नहो-  
 तेही रोगसे ग्रसजाताहै ७९ फिर कुत्ताहोके कर्मोंके प्र-  
 तापसे मनुष्य होजाताहै पर वहांभी पुत्रसे हीनरहता  
 है और फिर मरके मूषाकी योनिको प्राप्तहोता है ८०  
 हे विप्रो कृतघ्नी पुरुष मरके यमकेयातनाको प्राप्तहो-  
 ताहै और वहां यमके क्रूरदूतों द्वारा दारुणदुःख पाता  
 है ८१ असिपत्रवन तथा बालुक शाल्मलि अग्नि  
 आदि अन्य दुःखोंकोभी जीवप्राप्तहोताहै ८२ हे द्विजो  
 वहां उग्रयातनाको प्राप्तहोके जीव बन्धनको प्राप्तहो-  
 ताहै कृतघ्नीहोके ८३ और संसारचक्रको प्राप्तहोके फिर  
 कीड़ोंकी योनिमेंजाताहै और वहां पन्द्रहवर्षतकजीके ८४  
 मनुष्य गर्भको प्राप्तहो बालक अवस्थामेंही मरजाता  
 है और मरके बहुत काल तक सर्पादिक की योनि को  
 प्राप्त होता है ८५ तहां बहुतसे वर्षों तक दुःख पाके  
 फिर कर्मोंसे ८६ बगुलेकी योनिको प्राप्तहोताहै और  
 वहां प्रायतासे जालमें रहताहै जो मछलीकी चोरी क-  
 रतेहैं वे भेड़िया तथा डांशकी योनिको प्राप्तहोते हैं ८७  
 और जो फल तथा मूलवस्तुकी चोरीकरतेहैं वे चीटी  
 की योनिको प्राप्तहोतेहैं फिर मरके बिनापैरवाले मूषे  
 होतेहैं ८८ जो खीरकी चोरीकरताहै वह तीतरकी योनि  
 को प्राप्तहोताहै और वहां से मरके उल्लूकी योनिको  
 प्राप्तहोते हैं ८९ जो सुवर्ण के भांडेकी चोरी करता है  
 वह कीड़ोंकी योनिमेंजाताहै और जो अन्नकी चोरीक-  
 रताहै वह कुक्कुट अर्थात् मुरगेकी योनिको प्राप्तहोता

है ६० जो कुत्सितकारको करते हैं वे नाचनेवाले होते हैं और जो अंकुशकी चोरी करते हैं वे तोतेकी योनि को प्राप्त होते हैं ९१ जो डुपट्टावस्त्रकी चोरी करते हैं वे हंस होते हैं और चकोर तथा कायासंज्ञक जीवकी योनिको प्राप्तहोके फिर मनुष्य होते हैं ६२ हे द्विजो जो दाखकी चोरी करते हैं और रेशमीवस्त्रकी चोरी करते हैं वे शोभन संज्ञक योनिमें प्राप्त होते हैं ९३ और वहां पुरुष का वर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो मयूर की योनिको प्राप्त होते हैं ९४ जो रक्तवस्त्र से जीव जीवके प्रति मांगते हैं और सुवर्ण से आदि ले गन्धादि की चोरी करते हैं ९५ वे पापोंसे युक्त हुये चक्रचुंधरकी योनिको प्राप्त होते हैं और वहां पन्द्रहवर्ष रहके ९६ अधर्म के क्षय होने पर मनुष्य होते हैं जो दूधकी चोरी करते हैं वे बंगुलाकी योनि को प्राप्त होते हैं ९७ और जो नर मोहमें युक्त होके तैल की चोरी करता है वह मरके तैलपान करनेवाला जीव होता है ९८ जो नीचनर बैरभाव करके शस्त्रोंसे पुरुषको तथा अनार्थीनरको मारता है वह मरके गधा होता है ९९ और उस योनिमें एकवर्ष तक शस्त्रोंसे भेदन किया जाता है फिर मरकरके मृगकी योनि को प्राप्त होता है और विघ्नोंसे संयुक्त रहता है १०० जब एकवर्ष होलेता है तब मृगयोनि में भी शस्त्रोंसे वेधन किया जाता है और मच्छ होके जालमें रहता है १०१ जब वहां चार महीने होलेते हैं तब मरके कुत्ता होता है और वहां दशवर्ष जीके फिर हस्ती हो पांचवर्ष जीवता है १०२ हे द्विजो फिर वह मृत्यु को प्राप्त होके अधर्मको दूर कर मनुष्य होता है १०३

और लोमों तथा रोगोंसे युक्तहो पापोंके दुःखको भोगताहै १०४ फिर वह घोरतम तथा दारुण मूसेकी योनि को प्राप्तहोताहै और पापोंके दुःखसे नरकों को प्राप्त होताहै १०५ खोटी बुद्धीसे जो नर घृतको होमतेहैं वे काक महुरोग से युक्त रहते हैं और मत्स्य को हननकर जो सांसको खाते हैं वे काकयोनि में जाते हैं १०६ जो कानके आभूषण को चुराते हैं वे जलके काक होते हैं और जो विश्वासदेके मनुष्यको मारते हैं १०७ वे उसी के सदृश प्राणोंसे रहित होजाते हैं और मच्छकीयोनि में प्राप्तहो फिर मनुष्य शरीर को प्राप्तहोते हैं १०८ हे विप्रो फिर वह क्षीणहोके जलमेंपड़ताहै और वहां पापों को करके सर्पादिकोंकी योनिमें प्राप्तहोताहै १०९ जो आत्माके प्रमादसे धर्मको नहीं जानते वे सदा पापोंही में युक्तरहतेहैं ११० फिर वे सुख तथा दुःखमें युक्तहोके अनेकव्याधियों को प्राप्तहोते हैं और खोटे म्लेच्छोंके बासको प्राप्त हो वेभी म्लेच्छ होजाते हैं इसमें संशय नहीं १११ जो लोभ और मोहसे युक्तहो पापोंका आचरणकरते हैं वे सब पापयुक्त योनिमें प्राप्तहोतेहैं ११२ जन्मसेलेके जो पाप नहीं करते वे रोगरहित रूपवान् तथा बलवान् होतेहैं ११३ स्त्रीभी ऐसे कर्मकरें तो पापों के प्रभावसे ऐसीही ऐसी योनियोंको प्राप्तहोती हैं ११४ और इन्हीं उपजातियोंके मनुष्योंकी भाय्या प्राप्तहोती हैं जो जो यहां चोरीकरनेमें दोषहैं वे सब तो मैंने लेख के अनुसार कहे और अब अन्यकथासुनो ११५ हेमहाभागो यहकथा ऋषियोंसे ब्रह्माजीकेकहतेहुये मैंने सुनी

और पूंछीभी ११६ पापसेयुक्त जीवोंका वर्णन यथावत्  
मैंनेकहा इसको सुनके तुमधर्ममें मनको लगाओ ११७॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांव्यासऋषिसंवादेसंसार

चक्रेऽयधिकशततमोऽध्यायः १०३ ॥

## एकसौ चार का अध्याय ॥

मुनिजनोंने पूछा कि हे ब्रह्मन् अधर्म की गति तो तुमने हमसे कहीं पर अब धर्मकी गति को सुनने की इच्छाहै १ कि पापकर्म करके कैसी अशुभगतिको प्राप्त होतेहैं और शुभकर्मके करने से कैसी शुभगतिको प्राप्त होतेहैं २ व्यासजी बोले कि पापकर्म करके जीव अपने कर्मोंके बशमें होजातेहैं और मनसे विपरीत होनेसे नरकमें पड़तेहैं ३ धर्मकरके मोहसे जो तापकरतेहैं वे मनरूपी समाधिमें प्राप्तहोके दुष्कृतकर्मों को नहीं सेवते ४ और जैसे २ जीव का मन दुष्कृत कर्मकरताहै तैसातैसा ही शरीर प्राप्तहोताहै ५ हेविप्रो जो विप्रोंकेलिये धर्मका वादकरतेहैं वे जल्दीही अपराधसे छूटजातेहैं ६ और जो अधर्मका कथनकरतेहैं वे मनसावधानकरनेसे छूटजातेहैं ७ और सप्पोंकी तरह स्थानों को त्यागदेतेहैं सावधानहोके जो ब्राह्मणोंकेलिये अनेकप्रकारका दान देतेहैं ८ वे मनको समाधिमें युक्तकरके स्वर्गगति को प्राप्तहोतेहैं हे द्विजोत्तमो अब मैं दानोंको कहताहूँ ९ जो खोटेकर्म करके धर्ममें युक्तहोजावे उसकेलिये सब दानों से श्रेष्ठ अन्नका दान कहाहै १० और धर्मकी इच्छाकरनेवालेको दयाकरके अन्नका दानदेना योग्य है अन्न मनुष्यों का प्राण है उसीसे मनुष्य पैदाहोता

है ११ और सर्वलोक अन्नमेंही स्थित हैं इसकारण  
 अन्नदान श्रेष्ठहै देव ऋषि दानव सब अन्नकी सराहना  
 करते हैं १२ हे कौशिको अन्नके दानदेनेसे जीव स्वर्ग  
 में चलेजाते हैं न्यायसे लब्धहुआ उत्तमअन्न ब्राह्मण  
 केलिये देना चाहिये १३ वेदपढ़ेहुये एकसौदश ब्राह्मणों  
 को जो प्रसन्नमनहोके अन्नदानदेते हैं १४ और ब्राह्म-  
 ण प्रसन्नमनसे भक्षणकरते हैं तो उसके प्रभावसे दान  
 देनेवाला तिरछीयोनिको नहीं प्राप्तहोता १५ हे द्विजो-  
 त्तमो जो हजार ब्राह्मणोंके लिये अन्न देताहै वह नर  
 चाहै नित्य पापोंमें युक्तभी हो परन्तु शीघ्रही पापोंसे  
 छूटजाता है १६ वेदके पाठकरनेवाले ब्राह्मणों को जो  
 खानेके लिये भक्ष्यवस्तु देताहै वह यहां सुखोंको प्राप्त  
 होताहै १७ हिंसाकरके जो ब्राह्मणन्यायसे अपने मनुष्यों  
 की पालनाकरताहै जो क्षत्रिय उसको अन्नदेताहै १८  
 और वेदमें मुख्य ब्राह्मणोंको जो सावधानहोके त्याग  
 देतेहैं वे सब दुष्कृत कर्मकारीहैं १९ जो वैश्य खड्ग  
 धारणकरके शुद्ध कृषिसे उपार्जित अन्नको ब्राह्मणके  
 लिये देताहै वह पापोंसे छूटजाताहै २० और काक सि-  
 करा आदिके तुल्य शरीरको धारणकरके जो शूद्र ब्राह्म-  
 णोंकेलिये अन्नकादान देताहै वहभी पापोंसे छूटजाता  
 है २१ और जो अपनी छाती के बलसे अहिंसाकरके  
 अन्नको ग्रहणकर ब्राह्मणों के लिये दान देताहै वह  
 नरकोंको नहीं सेवताहै २२ न्यायसे प्राप्तहुये अन्नको  
 जो आनन्दयुक्तहोके ब्राह्मणके लिये देदेताहै वह भी  
 पापोंसे छूटजाताहै २३ और बलसे इकट्ठे किये अन्न



को जो ब्राह्मणके लिये दे देता है वह बलवान् होता है और सब पापों से रहित होके श्रेष्ठ मार्गको प्राप्त होता है २४ जिसने वित्तके समान दान किया है वह बुद्धिको प्राप्त होता है और जो वह अन्न ब्राह्मणके लिये देता है तिसका सनातन धर्म होजाता है २५ सब कालमें मनुष्य को चाहिये कि न्यायसे इकट्ठा करके अन्न पात्रके लिये दे २६ तो वह सब कामोंसे युक्त हो मरणउपरान्त सुखको भोगता है ऐसे जो युक्त रहते हैं वे सब पापोंसे छूटजाते हैं २७ इसकारण अन्यायरहित अन्न देना योग्य है जो ब्राह्मण पहिले ही घरमें उसके अन्नको भक्षण करते हों २८ तब भी दिनप्रतिदिन अन्नका दान करे और वेदके जाननेवाले सौ ब्राह्मणोंको जिम्मे २९ वे ब्राह्मण विद्वान् तथान्याय और इतिहासके जाननेवाले हों तो वह जीव घोर नरक में नहीं जाता तथा संसारको भी नहीं सेवता ३० वह सब कामनाओंसे युक्त हो मरणउपरान्त सुखको प्राप्त होता है ऐसे जो वर्तता है वह विगतज्वरवाला होके रमण किया करता है ३१ और कीर्ति तथा बल और धनवाला होजाता है ३२ हे विप्रो यह जो अन्नदान का फल तुम्हारे अगाडी कहा है वह सब धर्मोंका मूल और सब धर्मोंमें श्रेष्ठ है ३३ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां व्यास ऋषिसंवादे संसारचक्रे

चतुरधिकशततमोऽध्यायः १०४ ॥

एकसौपांचका अध्याय ॥

मुनिजनों ने पूछा कि कर्मों के वशसे परलोक गये हुयोंके पुत्र बन्धु तथा अन्य सम्बन्धी आदि कैसे करावें १

व्यासजी ने कहा कि लोकके उत्पन्न करनेवाले वराह रूप जगन्नाथको नमस्कारकर श्राद्धविधि में कहता हूँ तुम सुनो २ हे द्विजो पहिले कोकाजलमें डूबेहुये पितरों का शूकरने उद्धारकिया और उसदेवने तहां यथाविधि श्राद्धकिया ३ मुनिजनोंने पूछा कि हे मुने वे कोकाजल में कैसे डूबे और वराह ने उनका कैसे उद्धारकिया ४ भुक्ति मुक्तिके देनेवाले कोकातीर्थ का आप यथावत् वर्णन करो ५ व्यासजी बोले कि त्रेता और द्वापर की सन्धि में पितरजन दिव्य मनुष्यरूप होके मेरुपर्वत की पीठ पर विश्वेदेवों सहित स्थितहुये ६ तब उनके अगाड़ी चन्द्रमा से उत्पन्न हुई कन्तियुक्त एक दिव्य कन्या हाथ जोड़के स्थित हुई ७ और वे आसन पर स्थितहुये पितरदेव उससे पूँछनेलगे कि हे भद्रे तू कौन है और तेरापति कौनहै ८ तब वह पितरदेवों से बोली कि मैं चन्द्रमाकी कलाहूँ और तुमसे एक इच्छित वर को वरूंगी ९ मैं पहिले ऊर्जा नामवालीथी पश्चात् स्वधाहुआ और अब तुमने कोकानामकियाहै १० वे दिव्य आसुररूप पितरदेव उसके वचनको सुनके उस कामुख देखतेहुये तृप्तिको न प्राप्तहुये ११ तब विश्वेदेवा उसकेमुखदेखते जान और योगसे अष्टदेख उनकोत्याग के स्वर्गको गये १२ और चन्द्रमाभी अपनी आत्मजा ऊर्जा को उस स्थानमें न देख व्याकुल होकरके मनमें ध्यान करनेलगा १३ तब उसने जाना कि कामसे पीडितहुई वह ऊर्जा पितरोंको प्राप्तहोरहीहै तपके बलसे स्वीकार कीहुई अपनी पुत्री तथा पितरोंके अपराधको

देखके १४ क्रोधसेयुक्त आत्मावाले चन्द्रमाने पितरों को शापदिया कि तुम विचेतहुये योगसे भ्रष्ट होजाओ १५ क्योंकि तुमने मूढ़होके नहीं दीहुई मेरी कन्याको कामयुक्त होके ग्रहण किया है १६ और इसने जो तुमपर मोहित हो पतिभावसे तुम्हें बरा है १७ और धर्मको त्यागके स्वतन्त्र होगई इस कारणसे यह नदीहो १८ और लोकमें कोकानाम से प्रसिद्धहो इस पर्वत के शिखर पर स्थित हो १९ निदान चन्द्रमाके शापसे दिव्यरूप पितरयोगसे भ्रष्टहो हिमवान् पर्वतके नीचे जापड़े २० और ऊर्जाभी वहाँसे वहके सप्तसमुद्रमें जापड़ी निदान वह एक उत्तम तीर्थ भया और कोकानामसे विख्यात वह नदी वेगसे चलने २१ और पड़ेहुये पर्वतके टुकड़ोंको डुबोनेलगी पितरभी योगसे हीनहो २२ उसशीतलजलवाली दुस्तर तथा शुभनेत्रोंवाली नदीको देखनेलगे फिर उस पर्वतने क्षुधासे पीडित पितरोंको देखके बदरीवन तथा अमृत देनेवाली गौको आज्ञा दी २३ तब उसकोका रूपी नदीका जल दुग्ध होगया और बदरीफल तथा दुग्ध पितरोंके पोषणकेलिये निवेदन किया २४ हे मुनि-सत्तमो उस वृत्तिसे पापयुक्तहोके पितर दशहजार वर्ष बासकरते रहे २५ निदान सबलोक स्वधाकार और पितरोंसे रहितहोगये और दैत्य यातुधानराक्षस आदि सब बलवालेहोगये तब वे सब विश्वेदेवोंसे रहित पितरोंको देखके चारोंतरफसे आयि हे द्विजो इसप्रकार उन्हें आते देख क्रोधसेयुक्तहो कोकाने अपने वेगसे हिमाचलको डुबोके पितरोंको घेरलिया २६। २७ पितरोंको अन्तरहुये

देख राक्षसादिक भय देनेकेलिये निराहार वहांहीं स्थित  
होगये ३० और रुकेहुये रास्ते में पितर अतिदुःखको  
प्राप्तहुये जलमेंदुःखीहोके पितर ३१ जनार्दनदेव हरिकी  
शरणमें गये और बोले कि हेजगन्नाथ हेदेव हेकेशव  
आपकी कृपासे हमारी जयहो ३२ हेअनघ इस जल  
केअन्तर स्थितहोनेवाले हमेंउद्धार करनेको आपयोग्य  
हो ३३ हेप्रभो हेबरेण्य हेबैकुण्ठनाथ हेबराह हेविष्णो  
हेनारायण हेकृष्ण हेमहेश्वर कठोरदर्शनवाले राक्षसों  
से भयभीत हमारीरक्षाकरो आपकी जयहो ३४।३५ हे  
उपेंद्र हे योगिन् हे मधुकैटभको मारनेवाले हेविष्णो हे  
अनन्त हे अच्युत हे वासुदेव हे श्रीशार्ङ्ग चक्राम्बुज हे  
शंखपाणे हे देवेश्वर राक्षसों से हमारी रक्षाकरो ३६ हे  
शंभो आप जगत् को रचनेवाले हौ और अन्य कोई  
इसको बाधा नहीं करसक्ता निशाचरों के गणसे भयभी-  
तहुये हम आपके शरणमें प्राप्तहुये हैं ३७ हे विष्णो  
आपके नामके कीर्तन से निशाचर भूतगण तथा शत्रु  
चलेजाते हैं और नाशको प्राप्तहोते हैं ३८ ऐसे स्तुति  
कियेहुये विष्णुने धरणीको धारणकरनेवाले दिव्यमूर्ति  
शूकररूपको धारणकर ३९ जल में डूबेहुये पितृगणोंको  
देखके शिरसे शिलाको उठालिया ४० और बराहरूपी  
जनार्दन भयसे जलमेंडूबेहुये पितृगणोंकोदेखके उद्धार  
करनेको सन्मतहुये ४१ फिर दंष्ट्राके अग्रभागसे शिला  
को फेंक रसातलसे पितृगणोंको लाके उद्धारकिया ४२  
बराहकीदेह लगनेसे पितरोंकी सुवर्णकीसीकांति होगई  
और विष्णुद्वारा कोकाआदि सबभयसेनिवृत्तहोगये ४३

और शूकररूपधारणकरके पितरोंका उद्धार करनेसे वहाँ विष्णुतीर्थ स्थापितहुआ और सावधान होके विष्णुसे जल और ४४ अपने रोमोंसे उत्पन्नहुई कुशाकोलेके अपने पसीने से उत्पन्न हुये तिलों सहित उस उत्तम तीर्थमें पितरोंका तर्पणकिया ४५ उस तीर्थको सूर्यकी ज्योतिके समान करके कोठीरूप बट को वहाँ स्थापन किया और विष्णुमय पवित्र जलहुआ ४६ फिर समुद्र से पर्वत यज्ञ ओषधी रस मधु दूध फल अन्न पुष्प ४७ धूपादि लेपनको लाये और दंष्ट्रासे स्थापनकरी पृथ्वी पर सबका जलसे सेचन किया ४८ फिर धर्मादिकसे पृथ्वी को लीप कुशासे अक्षरलिख प्रस्तारित कुशासे बारम्बार छीटेलगाये ४९ और पूर्वकीतरफ अग्रभाग वाली कुशाओंको लेके ऋषियोंको बुलाके कहा कि मैं पितरोंका तर्पण करूँगा और ऋषियोंने कहा करो तब विष्णुने विश्वेदेवोंको स्थापनकरके ५०।५१ वेदोक्तविधानमन्त्रोंसे अक्षतोंसहित देवोंकी पूजाकी ५२ चावल यव तिल और ओषधी ये सब देवतों से हुये हैं और उनकी रक्षाकेवास्ते रचेगये हैं ५३ देव दानव गन्धर्व यक्ष राक्षस ये सब चर अचर अक्षतोंसे रक्षाकियेहुयों का क्षय नहीं करसके और किसीकालमें भी क्षयनहो इसवास्ते अक्षतरचे हैं पहिले विष्णुने देवतोंहीकी रक्षा केवास्तेरचे ५४।५५ फिर शूकररूप भगवानने कुशाओं तथा गन्ध चन्दनादि पुष्पोंसे विश्वेदेवोंको अर्घ्यदिधा और उनसेकहा ५६ कि मैं दिव्यमनुष्यरूपी पितरोंका आवाहन करूँगा तब वे बोले करो और विष्णुने शुद्ध

होके आवाहन किया ५७ फिर वेदको जाननेवाले शू-  
 कर भगवान् ने मिलीहुई जड़ों सहित तिलयुक्त दर्भको  
 आरोपण किया और सव्य अर्थात् बायेंहस्तसे आसन  
 दिया ५८ फिर टिहुनीको पृथ्वीमें लगाके एक हाथसे  
 पितरोंको विप्रोंमें आवाहन किया ५९ और (अपहतेति)  
 इसमन्त्रकेद्वारा अपसव्यहोकेरक्षाकी और नामगोत्रके  
 उच्चारसे पितरोंका आवाहन किया ६० फिर (एतत्तेपित  
 रों मनोजराना गच्छत) इस मन्त्र का उच्चारकर और  
 (संवत्सरै) इसका उच्चारकर अर्घ्यदिया ६१ (यातिष्टन्य  
 मृतावाचः यन्मेति) इसमन्त्रसे पिताको और (यन्मेति  
 पितामह) इस मन्त्र से ६२ पितामह अर्थात् बाबा  
 और प्रपितामह अर्थात् बड़ाबाबा इन्होंको अपसव्य  
 होके कुशा गन्ध तिल पुष्प मिश्रित अर्घ्य दिया ६३  
 वैसेही मातामह अर्थात् नानाकी विधिकी और भक्ति  
 युक्तहोके धूपगन्धादिकोंसे पूजन किया ६४ फिर जगत्  
 के प्रभुने (आदित्यावसवोरुद्रा) इस मन्त्रका उच्चारण  
 किया और पात्रमें घृत कुशा तिलयुक्त अन्नलेके और  
 ६५ अन्य पात्रसे ढकके मुनियोंसे कहा कि मैं अग्नि  
 करणकर्म करूँगा तब वे बोले करो ६६ तब (सोमाया  
 ग्नयेयमाय) इस मन्त्रसे दो आहुती दी और (येमामके  
 तिचमामकेति) इसमन्त्रका उच्चारण किया ६७ है विप्रों  
 इसप्रकार सात आहुती देके नामगोत्र उच्चारण करके  
 बाकीरहे अन्नको दे दिया और फिर तीन आहुती पृ-  
 थक् २ पितरोंको दी ६८ फिर बचेहुये अन्नको पिण्डों  
 केपात्रमें धरकर सुन्दररसवाला स्वादु अन्न घृतसहित

पूर्व कहे ऋषियों को दिया ६९ पूर्वकाल में अगाड़ी परोसाहुआ उत्तमअन्न अथवा शाक थोड़ाही षट्स तथा अमृतकी समान बहुतफलके देनेवाला होजाता है ७० और घृत और मधुसेभीगाहुआ पिण्डपात्र वेद विधिसे ब्राह्मणोंको तथा पितरोंको दिया ७१ (पृथ्वीत्येवं) यह मन्त्र तथा (मधुवाता) इस मन्त्र का उच्चारण जब ब्राह्मण भोजनकरचुके तब ये पांच मन्त्रजप ७२ इसप्रकार नाविकेत संज्ञक त्रिमधु त्रिसुपर्ण और वृहदारण्यक तथा विष्णुने अन्य ऋचाआदिको जपा ७३ और ब्राह्मणोंके भोजन करतेहुये (पक्वात्प्रास्थइति) इस मन्त्रका जपकिया जब उन ब्राह्मणों ने कहा हम तप्तहोगये तब चुपकेहोके एकवार अन्नको छोड़दिया ७४ फिर पिण्ड पात्र ग्रहण करके छायाके लिये दिया और वह छाया तिसअन्नको दोप्रकार करके तीन प्रकार करतीसई ७५ फिर बराहजी ने पृथ्वी को लिख और वहां छिड़कादेके दक्षिणको अग्रभागवाली कुशा कोधर उठाके ऊपर आसन दिया ७६ ऐसे शूकररूप भगवान्ने मातामह आदिको पिण्डदिया और पिण्ड से बाकीरहे अन्न लेपभागसंज्ञक पितरोंको दिया ७७ निदान जितने पितरहैं सबको भक्तिसे दो दो अंगुलके तवीनिवस्त्रदिये ७८ तथा गन्ध पुष्पादिकदेकर परिक्रमा की और आचमनकरके ब्राह्मणोंको आचमन कराया फिर पितरों तथा देवतोंको आचमन कराया फिर उस पृथ्वीको लीपके अक्षत और पुष्पछोड़े और तिलोंसहित जल देवतोंको दिया ७९।८० फिर देवतोंसे बोला

कि आप अक्षयवृत्तिको प्राप्तहोके प्रसन्न हो और तीन बार परिक्रमा करके अघमर्षण मन्त्रको जपा ८१ फिर निवृत्तहोके भगवान्के नामोंका कीर्त्तनकिया और कहा कि हेपितरो आप वीरताको प्राप्तहो ८२ फिर पिण्डोंके पश्चात् अर्घ्यपात्रोंको ऊर्जाकोकानामवाली बहती नदीमें फेंकदिया और विष्णु का जपकिया ८३ और उसदुग्धरूपीजलमें तिलोंसहित पितरोंका तर्पणकिया जब पितरोंने स्वस्ति कहा तब निवृत्तहुआ ८४ फिर ब्राह्मणोंकी चाँदीकी दक्षिणादे द्रव्यादिकभीदिया ८५ और कितनोंको अन्यकी दक्षिणा देके कहा कि इससे आप आनन्द करिये और वे ब्राह्मण आनन्दहुये ८६ जब शूकर भगवान्ने शुद्धअन्नदिया तब आनन्दहो वे ब्राह्मण अन्नकोग्रहणकर दूसरे ब्राह्मणोंकेसाथ चलेगये ८७ फिर (बाजे बाजे) इसऋचा और अन्यऋचाओंको पढ़ा और कोटितीर्थ युक्त कोकानदीके जलमें सब सामग्री फेंकदी ८८ जो द्रव्यादिकका अभावहो तो बहुतसा अन्न ब्राह्मणोंको देके आशीर्वादकी प्रार्थना करे ८९ ( दातारो नो भिबर्द्धन्तां ) इसमन्त्रसे ब्राह्मणोंसे आशीर्वादले और परिक्रमाकर पैरदाबके शूकररूप भगवान्ने ब्राह्मणोंको विश्रामकराया ९० और पिण्डको ग्रहणकर खड़ाहीके नदीमें गेरताभया ९१ ( आध्वं पितरोगर्भे ) इसमन्त्रके उच्चारसे नदीरूपवाली कोका ने पिण्डोंको ग्रहणकर ब्राह्मणोंके पैरोंको नमस्कारकिया ९२ और शूकररूपभगवान्ने जब पितरोंका विसर्जनकिया तब कोका तथा पितरोंने अपनेहितका वचनकहा ९३



कि हे भगवन् स्वर्ग में स्थित चन्द्रमा ने हमको शाप दिया था कि तुम योगभ्रष्ट होजाओगे इससे हम सब स्वर्गसे भ्रष्टहोगये ९४ और आपने रसातल में प्रवेश हो हमारी रक्षाकी हमें योगभ्रष्टों को देख विश्वेदेवा ने भी त्यागदिया जिनसे हमरक्षितथे ९५ पर आपसबों ने फिर विश्वेदेवों सहित हमारी रक्षा की और अब तुम्हारी कृपासे फिर उनका संयोगहोगया ९६ हे अच्युत योगको धारण करनेवाला चन्द्रमा हमारा अधिदेव है वह फिर कहीं हमारे योगको भ्रष्ट न करदे ९७ आप सबोंकी कृपासे स्वर्ग तथा पृथ्वीमें हमारा सदा बास रहे और आकाशमेंभी कभी हमारा बासहोजावे ९८ सुधानामवाली चन्द्रमाकी पुत्रीभी हमको प्राप्तहो और वहभी योगसे युक्तहुई योगमाता तथा आकाशमें विचरनेवालीहो ९९ जब पितरोंने ऐसे कहा तब भूतोंके उत्पन्न करनेवाले शूकररूप विष्णु पितरों कोकानदीसे बोले १०० कि जो आप कहतेहो वह सब वैसेहीहोगा अब तुम्हारा अधिदेव यमहोगा और चन्द्रमा पठपठानेमेंयुक्तरहैगा १०१ अग्नि तुम्हारा अधियज्ञरहैगा अग्नि वायु और सूर्य तुम्हारे स्थान रहेंगे १०२ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तुम्हारे अधिपुरुषहोंगे आदित्य बसु और रुद्र तुम्हारी मूर्तिहोंगे १०३ और आप योगीरूप योगयुक्त देहवाले तथा योगको धारणकरनेवाले और सुवृत्तहुये कामपूर्वक लोकोंको फलदेतेहुये विचरो १०४ हे उत्तमो स्वर्गस्थ नरकस्थ तथा भूमिस्थ चराचर सबको आप अपने योगबलसे मधुपानकराओ १०५

ऊर्जा चन्द्रमाकी पुत्री मधुपानमें विग्रह करनेवाली  
 तथा महाभागवाली सुधारूप दक्षकी पुत्रीहोगी १०६  
 और वहांभी यह तुम्हारी पत्नीहोगी क्रोकानाम से वि-  
 रूयात गिरिशजकी कन्या होवेगी १०७ और कोटितीर्थों  
 सेयुक्त तथा बराहरूपसेपालित विरूयातहोवेगी अबसे  
 मैं पापोंके नाशकरनेकेलिये वहांबासकरताहूं १०८ बड़के  
 दर्शन पवित्र और पूजनेवालेको भुक्ति मुक्ति देनेवाले हैं  
 कोकाके जलका पान पापोंका नाशकरता है १०९ और  
 उसतीर्थ में स्नानकरना धन्यहै वहां का व्रत स्वर्ग का  
 देनेवालाहै ११० और वहां जन्म मृत्युको दूरकरने तथा  
 अक्षय फलको देनेवाला दान कहाहै माघके महीनेमें  
 शुक्लपक्षमें प्रातःकाल १११ कोकाकेस्नानकरे और पांच  
 दिन वहां ठहरे उस कालमें जो वहां पितरों का श्राद्ध  
 करेगा ११२ वह पहिलेकहे कोटितीर्थोंके फलको प्राप्त  
 होवेगा इसमें संशय नहीं एकादशी और द्वादशी को  
 वहां ठहरना योग्यहै ११३ जो बुद्धिमान् वहां बसते हैं  
 वे पहिले कहेहुये फलको प्राप्तहोते हैं हे महाभागो वहां  
 वाञ्छित स्थानपर आप सबजाओ ११४ और मैंभी  
 यहांसे जाताहूं ऐसेकहके शूकररूप भगवान् अन्तर्द्वा-  
 नहोगये और जब बराहभगवान् चलेगये तब पितर  
 कोकासे आके कहनेलगे ११५ और कोकाभी तीर्थों  
 सहित गिरिशजपर स्थितहुई पृथ्वी पिण्डोंके प्राशन  
 से बढीहुई ११६ और गर्भसेलेंके स्पर्शहोनेसे बराह  
 कीही सुन्दरी पत्नीहुई फिर इसपर भौमनामवाले अ-  
 त्युग्र नरकासुरने ११७ विष्णुके दियेहुये प्राग्ज्योतिष

नगरमें बासकिया ११८ मेरीकहीहुई कोकासे आदिले  
दिव्य बराहरूप विष्णु की क्रीडाको सुन करके संलुप्य  
मलों और पापोंसे रहितहो दशअश्वमेधों के फल को  
प्राप्तहोता है ११९ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांब्यासऋषिसंवादेऋद्धविधिर्नाम  
पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः १०५ ॥

### एकसौवाका अध्याय ॥

मुनिजनोंने पूछा कि हे भगवन् हे तपोधन विस्तार  
से ऋद्धकल्पकहो कि कैसे कहां किसकालमें तथा किन  
स्थानोंमें और किसने कराहै १ व्यासजी बोले कि हे  
मुनिशार्दूलो मेरेकहेहुये ऋद्धकल्पको सुनो यह कुलके  
धर्मसे मन्त्रपूर्वक मनुष्योंको कर्त्तव्यहै २ स्त्रियों तथा  
शूद्रादि अन्यवर्णोंको ब्राह्मणोंकीशिक्षासे यहऋद्धकल्प  
देना योग्यहै ३ पहिलेकी तरह मन्त्रोंका उच्चारण और  
बद्धिपाक ऋद्धकल्पमें बर्जाहै ४ हे विप्रो पुष्करऋद्धि  
सब तीर्थों पवित्र स्थानों पर्वतके शिखरों तथा गुफा-  
ओं और पवित्रदेशोंमें ऋद्धकरनायोग्यहै ५ ६ नदीपर  
सरोवरपर सातोंसमुद्रोंपर लीपीहुई भूमिपर तथा जहां  
ब्राह्मणकीआज्ञाहो वा जहां दिव्यवृक्षलगेहों और प-  
वित्रजलहो वहां ऋद्धकरनायोग्यहै ७ ८ किरात कलिङ्ग  
कोंकण कृमि ९ दशार्ण कुमार्य अंग कुश आदिदेशों  
तथा समुद्रके उत्तरके किनारेपर और नर्मदाके दक्षिण  
तटपर ऋद्ध बर्जितहै १० जो वहां ऋद्धकरताहै वह  
पाप युक्त होजाताहै महीने २ अमावास्याको ऋद्धदेना  
योग्यहै ११ और व्यतिपातादि योगोंमें पूर्णिमाको ऋ-

इकरना उचित है नित्यश्राद्ध विश्वेदेवोंसे रहित मनुष्यों के वास्ते कहा है १२ और नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक विश्वेदेवों सहित करवावे १३ अन्य काम्यश्राद्ध प्रति सम्बत्सरमें करना उचित है और जातकर्मादिकोंमें वृद्धिश्राद्धकरना उचित है १४ इनमें मातृपूर्वक विश्वेदेवों का आवाहनकरै और जब पन्द्रहदिन कन्याके सूर्यके व्यतीतहोजायँ तब करवाना योग्य है १५ तहां पार्वण की विधिसे श्राद्धकराना उचित है धनके लाभके वास्ते प्रतिपदाको स्थानके वास्ते द्वितीयाको १६ पुत्रके लिये तृतीयाको तथा शत्रुके नाशके लिये चतुर्थीको लक्ष्मी की प्राप्तिके लिये पंचमीको और षष्ठीको पूजनीय होता है १७ सप्तमीको करनेसे गणोंका अधिष्ठाता होता है अष्टमीके करनेसे बुद्धिमान् होता है नवमीके करनेसे स्त्रीकी प्राप्तिहोती है और दशमीके करनेसे पूर्णकामनाको प्राप्त होता है १८ एकादशी को करनेसे वेदोंको प्राप्त होता है द्वादशीको करनेसे पितृपूर्वक जय तथा लाभको प्राप्त होता है १९ त्रयोदशीको करनेसे बकरीसे आदि पशुओंकी वृद्धि तथा स्वतन्त्रता और उत्तम पुष्टी तथा दीर्घआयु रथ और ऐश्वर्योंको प्राप्त होता है २० जो श्रद्धायुक्तहोके इन तिथियोंमें श्राद्धकराते हैं वे इन सब वस्तुओंको प्राप्त होते हैं इसमें सन्देह नहीं २१ और जो यथाविधि मिलीहुई वस्तुलेके श्रद्धायुक्तहो श्राद्ध करते हैं वे सब सिद्धिको प्राप्त होते हैं २२ जिसके पितर जवानहों तथा शस्त्रोंसे मारे गयेहों तिसको चतुर्दशीको श्राद्ध करनेसे बांछित सिद्धि प्राप्तहोती है २३ और जो

शुद्धहोके अमावास्याको श्राद्धकराते हैं वे सब कामनाओंको प्राप्तहो अनन्तगुणा स्वर्गको भोगते हैं २४ हे मनीश्वरो पितरोंकी प्रसन्नता के वास्ते प्रीतिसे श्राद्ध कियाजाताहै २५ साकल्यके अन्नसे एकमहीना पितरोंकी तृप्तिहोतीहै दोमहीने मच्छके मांससे तीनमहीने हिरन के मांससे चार महीने शशाके मांससे पांचमहीने तक शिकराके मांससे छःमहीने शूकरके मांससे सातमहीने बकरीके मांससे आठ महीने मृगमांससे नौमहीने रुरु संज्ञक मृगके मांससे दशमहीने रोभके मांससे ग्यारह महीने भेड़के मांससे और सम्बत्सर अर्थात् वर्षदिन तक गौकेदूध तथा खीरसे पितरोंकी तृप्तिहोतीहै २६।३१ भेड़ियोंके मांससे तथा रक्त अन्न शाक मधु अथवा रुधिर युक्त मांस और अन्न अथवा जो कछु मिलै उसके पिंड देनेसे ३२ पितर अनन्त तृप्तिको प्राप्तहोजाते हैं और पितरोंको वह गयाश्राद्धकेतुल्य होजाताहै इसमें सन्देह नहीं ३३ जो श्राद्धकर्ममें गुड़ तिल तथा शहद मिलाके पिंडदेते हैं वह सबपितरोंका अक्षय्यगुणाहोजाताहै ३४ जो श्रेष्ठ कुल में पैदाहुआ हो उसको मघानक्षत्र युक्त त्रयोदशीकेदिन खीर तथा शहदसंयुक्त श्राद्धयज्ञ कराना उचितहै ३५ बहुत से पुत्रोंमें से जो एकभी गयां चलाजाय तो उसको भी मघायुक्त त्रयोदशी के दिन श्राद्धकराना उचितहै ३६ बैलकेसाथ बछड़ीका विवाह करवाके जो छोड़ते हैं और कार्तिक में कृत्तिका नक्षत्रमें पितरोंका पूजनकरते हैं वे मनुष्य स्वर्गवास करतेहैं ३७ सन्तानकी कामनावाले रोहिणीनक्षत्रमें तेजकी कामना

वाले मृगशिरा नक्षत्रमें ३८ रूपकी कामनावाले आर्द्रा में क्षेत्रादिककी कामनावाले पुनर्वसु नक्षत्रमें ३९ और धनकी कामनावाला पुष्यमें पितरोंका पूजनकरै श्लेषामें पितरोंका पूजनकरै तो उत्तम आयुको प्राप्तहोताहै ४० मघानक्षत्रमें पूजनकरै तो सन्तानवृद्धिहो पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें सौभाग्य की प्राप्तिहोतीहै ४१ उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें मनुष्योंमें प्रधान शीलस्वभावयुक्तहोताहै हस्त में पूजनकरै तो श्रेष्ठशास्त्रोंकी प्राप्तिहोतीहै ४२ चित्रा में रूप तथा सन्तानकी प्राप्तिहोतीहै ४३ स्वातिमें व्यवहार में लाभहोता है विशाखामें पुत्रकी कामना प्राप्त होतीहै ४४ अनुराधा नक्षत्रमें पितरोंका पूजनकरै तो चक्रवर्ती राज्यकरनेवाले पुत्रकी प्राप्तिहोतीहै ४५ और ज्येष्ठा नक्षत्र में पितरोंका पूजनकरै तो राज्यकी प्राप्ति होतीहै और मूल नक्षत्रमें पितरोंका पूजनकरै तो सब कुटुम्बमें उत्तम आरोग्यता रहतीहै पूर्वाषाढ ४६ नक्षत्रमें पितरोंका पूजनकरै तो सुन्दर यशकी प्राप्तिहोती है और उत्तरानक्षत्रमें शोक दूरहोजाताहै ४७ श्रवण नक्षत्रमें जो पितरोंका पूजनकरै तो शुभलोकोंकी प्राप्तिहोतीहै और धनिष्ठानक्षत्रमें पूजनकरै तो बहुतधन की प्राप्तिहोतीहै ४८ अभिजित् में पितरोंका पूजनकरै तो वेदके पाठको प्राप्तहोताहै और शतभिषा में पूजन करै तो काशीजीमें सिद्धिको प्राप्तहोताहै ४९ पूर्वाभाद्रपद तथा उत्तराभाद्रपदमें जो पितरों का पूजन करते हैं वे उत्तम गौकेदुग्धको प्राप्तहोते हैं ५० और रेवती तथा अश्विनी नक्षत्रोंमें जो पितरोंका पूजनकरते हैं वे

घोड़ेकी असवारीको प्राप्त होते हैं ५१ भरणीमें जो पितरोंका श्राद्धकरते हैं वे उत्तम आयुको प्राप्त होते हैं तत्त्व के जाननेवाले नक्षत्रोंसे इन फलोंको प्राप्त होते हैं ५२ इसलिये हे द्विजो काम्य श्राद्ध करनाही योग्य है कन्या राशिपर सूर्य होनेके समय श्राद्धकरनेके अनन्त गुण फलकहे हैं ५३ उस समय श्राद्धसे जिसजिस कामना की इच्छाहो सब प्राप्तहोजाती है यह बराहजीका वचन है ५४ उस समय स्वर्ग पृथ्वी और आकाश में रहने वाले चर अचर सब पितर पिण्डकी इच्छा करते हैं ५५ कन्या राशिपर सूर्य आनेके समय श्राद्धकरना सोरह यज्ञोंके तुल्य है ५६ जिसफल की इच्छा राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञोंसे पूर्णहोती है सो फल कन्याराशिगत सूर्यमें पितरोंका श्राद्धकरनेसे होता है ५७ उत्तरा हस्त और चित्रा जब सूर्यका अर्कहो तब जो भक्तिसे पितरोंका श्राद्धकरता है उसका स्वर्गमें वासहोता है ५८ जब हस्त नक्षत्रपर सूर्य आवे और वृश्चिकसंक्रान्ति के दर्शनजबतक न हो तबतक अपने राजाकी आज्ञा लेके पितर पृथ्वीलोक पर रहते हैं और पितरोंकी पुरी शून्य रहती है ५९ और जब वृश्चिकपर अर्कहोजाता है तब देवतां सहित पितर न श्राद्ध करनेवालेको दुःसह शाप देकर उलटेही चलेजाते हैं ६० यह अष्टक श्राद्ध कन्यागत सूर्यमें कर्तव्य है और क्रमसे मातृपूर्वक अर्कपूर्वक श्राद्ध करना श्रेष्ठ है ६१ चन्द्रसूर्यग्रहण में व्यतीपातमें नवीन तृणकी प्राप्तिमें जन्मके नक्षत्रमें और धरकी पीडामें पार्वणश्राद्ध कराना शुभ कहा है ६२ उ-

तरायणसूर्य में अमावस्याको तथा दोनों द्वितीया को और संक्रांतिको पिण्ड देना शुभ है ६३ और बैशाख की तृतीया को कार्तिक की नवमी को तथा संक्रांतिको विधिसे नरोंको श्राद्ध करना योग्य है ६४ भाद्रपदमें त्रयोदशी को और माघमें जिस तिथिमें चन्द्रमाका क्षय हो खीरसे नरोंको दक्षिणावर्त्त श्राद्ध करना योग्य है ६५ यदि वेदका पढ़ाहुआ अग्निहोत्री ब्राह्मण घर आजाय तो उस एकहीसे उत्तम श्राद्ध कराना उचित है ६६ हे द्विजो जब श्राद्धके द्रव्यकी प्राप्ति होजावै तब विधान से पार्वणश्राद्ध कराना उचित है ६७ जब प्रतिसंवत्सर माता पिताका तथा पुत्रहीन पितृव्य वा ज्येष्ठभ्राताका क्षयदिवस आवे ६८ तब देवोंसे रहित एकोद्दिष्ट पार्वण विधिसे करना उचित है और दो देवों और तीन पितृपक्षके और तैसेही एक एक मातामहोंका श्राद्ध करना उचित है ६९ जो प्रेतभावको प्राप्त होगया हो तिसको तिल जल और कुशायुक्त पूजनपूर्वक पिंडदानदेवै ७० हेद्विजो तीसरे दिन प्रेतका अस्थिसंचयन करना योग्य है और दश दिनमें ब्राह्मण तथा बारह दिनमें क्षत्रिय शुद्ध होते हैं ७१ सूतकके अन्तमें मृतक के वास्ते बारहवें दिन तथा महीनेमें और त्रिपक्ष अर्थात् पैतालिरहवें दिन तथा महीनेमें और त्रिपक्ष अर्थात् पैतालिसर्वेदिन एकोद्दिष्ट श्राद्ध करावै ७२ हे द्विजो जब तक वर्ष पूरा नहो महीना २ श्राद्धकरना योग्य है ७३ तिसके उपरान्त क्रम से सपिंडीकर्म करना कहा है और जब सपिण्डीकर्म करले तब फिर पार्वणश्राद्धकहा है ७४ तिससे जीव प्रेतभाव को छोड़के पितृभावको प्राप्तहो जाता है



मूर्तिवाले तथा अमूर्तिवाले पितर दो प्रकारके हैं ७५  
 नान्दीमुखतो अमूर्तिवाले हैं पार्वणमें मूर्तिवाले हैं और  
 एकोद्दिष्टके लेनेवाले प्रेत हैं ऐसे पितरोंका निर्णय तीन  
 प्रकारका है ७६ मुनिजनोंने पूछा कि हे द्विजसत्तम हे  
 कहनेवालोंमें श्रेष्ठ मरेहुयेका सपिण्डीकरण कैसे करावै  
 सो विधिपूर्वक हमारे आगे कहो ७७ व्यासजीने कहा कि हे  
 विप्रो सपिण्डीकरण में कहता हूं तुम सुनो सपिण्डीकरण  
 भी देवोंसे रहित है और एकसे एक पवित्र है ७८ उसमें अ-  
 ग्निकरण भी नहीं है और आवाहन भी नहीं है उसमें अप-  
 सव्य होके दशहजार ब्राह्मणोंको भोजन करावै ७९ और  
 हे विप्रो विशेष यह है कि महीने २ जो क्रिया है सो भी मैं क-  
 हता हूं एकाग्रमन होके सुनो ८० तिल गन्ध और जलसे  
 युक्त चार पात्र भरै तीन तो पितरोंके और एक प्रेतका ८१  
 और शुद्ध होके पहिले की तरह (ये समाना) इस मंत्रसे  
 चारों पात्रोंके जलके छीटेलगावै ८२ और दूसरोंका भी  
 ऐसे ही एकोद्दिष्ट विधिसे करै जिस स्त्रीके पुत्र न हो उसकी  
 सपिण्डी नहीं होती ८३ इसलिये प्रति संवत्सर नरों को  
 स्त्रीके वास्ते एकोद्दिष्ट करना चाहिये मृतदिवसमें सपिण्डी-  
 करण कराना तथा तैसे ही स्त्रियोंका एकोद्दिष्ट कराना ८४  
 और पुत्रको सपिण्डी कराना उचित है जो पुत्र न हो तो  
 भ्राताको कराना उचित है और जो भ्राता भी न हो तो दौ-  
 हित्रको कराना चाहिये ८५ दौहित्रको मातामहके वास्ते  
 सपिण्डन कहा है और वह मातामह और पितामहके  
 श्राद्ध करानेमें अधिकारी है ८६ जो पहिले कहे सबोंका अ-  
 भाव हो तो स्त्रीको पतिका सपिण्डन कराना उचित है ८७

और जो स्त्रीकाभी अभावहो तो उस कुटुम्बिका राजा को श्राद्धकराना उचितहै और वहभी न करे तो उसकी जातिके मनुष्योंको पाद्यादिकसे सब क्रिया करानी उचितहै ८८ हेविप्रो सब बर्णोंका राजाही बान्धवहै इससे राजाको करानाउचितहै यहसब नित्यनैमित्तक क्रिया तुम्हारे आगेकही ८९ श्राद्धके आश्रय जो देवहैं उनकी नित्यनैमित्तक क्रिया कहते हैं श्राद्धों के योग्य चन्द्रमा से रहित अमावस्या कहीहै ९० और निरन्तर जो काल है तिसको नित्यकाल कहते हैं सपिण्डीकरणसे उपरांत पितासेआदि लेकर प्रपितामह पर्यन्त कहे हैं ९१ जो पितरोंके पिण्डसे लोप होरहाहै वह लेपभुक् कहाता है और पितासे चौथा लेपभागी होताहै ९२ वह लेपभागीभी तीनपीढियों से बचेहुये भाग को प्राप्तहोता है पिता पितामह और प्रपितामह ९३ ये तीनों पुरुष पिण्ड सम्बन्धी जानने चाहिये और सम्बन्धसे अन्य प्रपितामहादि तीनलेपभागी हैं और उनसेपरे सातवां यजमान संज्ञक है ९४ इनसातपौरुष पितरोंकासम्बन्ध मुनियोंने कहा है और यजमानसंज्ञक सातमें से परे अनुलेपभुज् संज्ञकहैं ९५ इनसे अन्यस्वर्ग तथा नरकमें रहनेवाले सर्पादिक योनिवाले और जो भूतादिक योनिमें हैं सो वर्णन किये हैं ९६ जो यथाविधि श्राद्धकरता है वह यजमान संज्ञक पितरसे आदि ले सब की तृप्तिकरदेताहै ९७ और जो श्राद्धसे पृथ्वीपर अन्नबिखेरता है उससे पिशाचयोनिमें जो स्थित हैं वे तृप्तहोजातेहैं ९८ हे द्विजो स्नान तथा बस्त्रसे निचोड़े

हुये जलसे कुलमें भूतयोनि को प्राप्त होनेवालों की तृप्तिहोजातीहै ९९ और पृथ्वीपर गिरेगन्ध तथा जलके किणकेसे कुलमें देवयोनिको प्राप्तहुओंकी तृप्तिहोजातीहै १०० पिंडोंके विसर्जनके पश्चात् जो पृथ्वीपर जलपड़ता है तिससे कुलमें तिरछीयोनि को प्राप्तहुओंकी तृप्तिहोजाती है १०१ कुलमें अदन्त मरेहुये बालकों क्रियायोगमें स्थितोंबिना अधिकारवालों और शुद्धकरी वेदीपर भोजनकरनेवालों १०२ की भुक्तकिये हुये आचमनसे रहित तथा पैरधोने से शेषरहे जलसे और तैसेही ब्राह्मणों के जीमें पश्चात् शेषरहे जल से तृप्तहोतीहै १०३ ऐसे जनोंका ब्राह्मणोंके साथ योग है और कहीं २ ब्राह्मणोंके १०४ जूठे अन्नजलसे किसी योनिमें स्थितोंकी तृप्तिहोजातीहै १०५ है विप्रो क्रियावालोंकेलिये यह श्राद्धविधि कही है अन्यायसे इकट्ठा किये द्रव्यसे जो श्राद्ध होताहै १०६ तिससे चाण्डाल और वृक्षादि योनिमें स्थितहुओंकी तृप्तिहोतीहै १०७ श्राद्ध करनेवाले के अन्नजल का अभाव हो तो यथाविधि शाकसे पिण्डकरादे १०८ श्राद्धकरनेवालेके कुलमें कोईभी दुःख नहींपाता और श्राद्ध द्रव्य अग्निहोतृ तथा यतीके लिये देना योग्य है १०९ और ब्रह्मचारी विद्वान् तथा वेदपाठी को विशेषता से श्राद्ध द्रव्यदेना योग्य है त्रिनाविकसंज्ञक त्रिमधुसंज्ञक त्रिसुप्रार्णसंज्ञक मन्त्रों तथा वेदके षडङ्गोंका पढ़ाहुआ ११० मातापिताकी टहलकरनेवाला परस्त्रीरत न होनेवाला तथा सामवेदपढ़ाहुआ यज्ञकरनेवाला अथवा पुरोहि-

तत्राचार्य्य तथा उपाध्यायको भोजनकरावे १११ और  
 मामा श्वशुर श्याल अर्थात् सालो संबंधी मूढ़ तथा जो  
 मूर्खहोके सब में प्रधान हो पुराणों के अर्थ से रहित  
 हो ११२ कृपण तथा असंतोषी और दानलेनेवालों को  
 छोड़ के श्राद्ध में पवित्र ब्राह्मण न्योतने चाहिये ११३  
 ऐसे ब्राह्मणों को पहिलेदिन निमन्त्रितकरके उनमें पि-  
 तरोंकी कल्पनाकरै ११४ इसप्रकार सावधानहोके जो  
 यथाविधि श्राद्धकरैगा वह बाञ्छितफलको प्राप्तहोगा  
 पर जो श्राद्धदेके तथा भोजन करके स्त्री से मैथुन क-  
 रताहै ११५ तो उस स्त्रीकेमांसमें पुरुषके वीर्य्यसे पि-  
 तर बासकरते हैं और जो पहिले स्त्रीसे मैथुनकरके प-  
 श्चात् श्राद्धकरके भोजनकरताहै ११६ उसकेपितर स्त्री  
 पुरुषके मांस वीर्य्यमें स्थित होके वीर्य्यमूत्र का भोजन  
 करते हैं ११७ इसकारण बुद्धिमानको निमन्त्रणपूर्वक  
 पहिले श्राद्धकराना उचितहै यदि पितरोंकेदिवस श्राद्ध  
 न करावे तौ भी स्त्रीका संग न करे ११८ उस कालमें  
 भिक्षाके वास्ते आयेहुये श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन क-  
 रावे और शुद्धमन होके नमस्कार तथा पाद्यादिकों से  
 ब्राह्मणोंको प्रसन्नकरै ११९ ज्ञानवान्को श्राद्धमें यती  
 ब्राह्मण एकत्र करने योग्यहैं क्योंकि पितर भी योगको  
 धारणकरनेवालेहैं इसकारण सबकालमें योगि ब्राह्मणों  
 का पूजन उचितहै १२० हजारयोगी ब्राह्मणों का जप  
 यजमान तथा भोजन करनेवालों को नौका की तरह  
 नरकोंसे पारकरदेताहै १२१ ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंको पितृ  
 मन्त्रों का उच्चारण करना योग्य है और जौनसा मन्त्र

पहिले पितरोंने कहाहै सो उच्चारणकरै १२२ वही पुत्र श्रेष्ठवाणीवाला है वही पुत्रवाला है और वही योगीहै जो पितरों के वास्ते पृथ्वीपर पिण्डदेताहै १२३ गया में खड्गसेमांसका तथा कालमें शाक तिल पक्वान्न आदि पिण्डका जो पितर तथा विश्वेदेवों के वास्ते देता है वह परम साकल्यरूप होजाता है १२४ शृंगों तथा शशाका मांस वर्जित है मघानक्षत्रयुक्त त्रयोदशी को यथा विधि पिण्डदेना योग्यहै १२५ दक्षिणायन सूर्य में शहद तथा घृतसे युक्त खीर का पिण्ड देके भक्तिसे विधिवत् पितरोंका पूजनकरै १२६ तो सब कामनाओं को प्राप्तहोके पापोंसे छूटजाता है जो श्राद्ध से पितरों को तृप्तकरताहै १२७ वह आठबसु ग्यारहरुद्र वारह आदित्य तथा सर्वनक्षत्र ग्रह और तारागणआदिको तृप्तकरता है १२८ अपने स्थानमें प्राप्तहुये ब्राह्मणों का जो स्वागतपूर्वक पूजन करता है वह अगले पिण्डले सब पितरों का पूजन करचुका १२९ हाथशुद्धकरके उन ब्राह्मणों को आसनपर बैठाके विधानपूर्वक श्राद्धकरावे और फिर भोजनकराके १३० भक्तिपूर्वक प्रिय वचनोंसे नमस्कारकर उन्हें विदा करे और दरवाजेतक आनन्दयुक्त उनकेपीछेजाय १३१ फिर नित्यक्रियाकरके अभ्यागतोंको भोजन करावे और उन्हेंभी वैसेही नमस्कार करके विदाकरै १३२ हेसत्तमो नित्यक्रिया और पितृक्रियाको जानके पितृक्रियाको नित्यक्रियाकी तरह न करै बल्कि पहिले कहे अनुसार १३३ नित्यक्रिया तो पृथक् करै और श्राद्धक्रिया पृथक् करै

और फिर नौकरों सहित भोजनकरै १३४ सावधान होके धर्मज्ञ पितृश्राद्ध इसप्रकारकरै जिससे उत्तम ब्राह्मणों के संतोषहो १३५ मित्रसे द्रोहकरनेवाला मायावी नपुंसक अर्थात् हिजड़ा क्षयीरोगवाला खिन्न रोगवाला व्यवहार करनेवाला कालेदांतोंवाला गधा रखनेवाला काना अन्धा बधिर अर्थात् बहिरा जड़गूंगा पंगुल हाथोंकेरोगवाला खुरखुरे शरीरवाला व्यंगवाला बिकारनेत्रोंवाला कुष्ठी रक्तनेत्रोंवाला कुबड़ा बामन बिकट दरिद्री मित्र शत्रु खोटे कुलमें होनेवाला पशुओं कापाली बुरी आकृतिवाला परिवेत्ता अर्थात् बड़ेभाई के बिवाहे बिना अपना बिवाह करनेवाला परिविती अर्थात् अपनेबिवाहको वर्जिकर छोटेका बिवाहकराने वाला परिवेदिनी का पुत्र ब्राह्मणी में चाण्डाल से उत्पन्नहुई कन्याकापति तथा ऐसीही स्त्रीकापुत्र अथवा उस स्त्रीके घरमें श्राद्धका भोजन करनेवाला पूर्वकही हुई स्त्रीके पुत्रका संस्कार करानेवाला दूसरे बिवाहीहुई स्त्रीकापति भृत्योंसेपढ़ाहुआ और भृत्योंकोपढ़ानेवाला चित्राम करनेवाला मृगका शिकार खेलनेवाला तथा मदिरा बेचनेवाला निन्दित पतित दुष्ट तथा शठ और चुगुलखोर तथा वेदका त्यागकरनेवाला दान समयमें क्रोध करनेवाला तथा कठोर राजाका पुरोहित विद्या हीन मत्सर्य्य अर्थात् पराये दुःखमें आनन्द माननेवाला क्रूर मढ़ा देवताकीपूजाको ग्रहणकरनेवाला नक्षत्रसूचक पर्वका कारकरनेवाले निन्दित नमांगनेलायकों से मांगनेवाला निन्दित और अधम ये सब ब्राह्मण

श्राद्धमें शामिल नहीं करने चाहिये क्योंकि ये दूषित हैं १३६ । १४५ जहां खोटे पुरुषोंका मान और श्रेष्ठोंका अपमान होता है वहां दैत्यों का कराहुआ दारुणदण्ड पड़ता है श्राद्धमें विहितपुरुषों के आगमन को त्यागके जो मूर्ख पुरुषको भोजन करावते हैं १४६ और अपने आदिधर्मको त्यागदेते हैं वे दाता नाशको प्राप्तहोजाते हैं अपने आश्रित ब्राह्मण को त्याग के जो और को जिमाता है १४७ वह दाता उस पहिले ब्राह्मणके श्वास से दग्ध होजाता है बस्त्रोंके अभावमें श्राद्ध और यज्ञ इत्यादिक यथावत् नहीं होसके हैं १४८ इसवास्ते श्राद्धकालमें विशेषकरके बस्त्रदेना उचित है कसूँभे अथवा सुवर्णके रङ्गियाला और रेशमी १४९ इत्यादिक बस्त्रों को जो श्राद्धमें देता है वह उत्तम कामनाओंको प्राप्त होता है जैसे मिलीहुई गौओं में बछड़ा अपनी माता को पहिचानलेता है १५० तैसेही जहां जीव प्राप्त रहता है वहांही श्राद्धका अन्न पहुँचजाता है नाम गोत्र उच्चारणपूर्वक जो अन्न दियाजाता है १५१ वह अन्न सैकड़ों योनियोंके बीचमेंभी प्राप्तहुआ जीवको मिलके तृप्ति करदेता है १५२ (उं देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव भवन्तु) इस मन्त्रको श्राद्धके अन्तमें सदाजपै १५३ और पिंडों के क्रियाार्जन समय भी इसी मन्त्र को समाहित होके जपै क्रियाप्रियायाचपितरः) इस मन्त्रसे तीनों लोकोंमें राक्षस नित्योंको प्राप्त होजाते हैं और पितरोंका उद्धार होजाता ५४ नवीन रेशमीवस्त्र श्राद्धमें देना चाहिये उनका

वस्त्र पाटकावस्त्र कसूभी वस्त्र और सूतका वस्त्र इत्यादिक पुराने न देने चाहिये १५५ पुराने वस्त्रों के देने से पितर प्रसन्न नहीं होते और देनेवालेको कुछ फल नहीं होता १५६ पितरोंके लिये अग्निमें सदा पिंडदान देना चाहिये जो पुरुष मन्त्रपूर्वक अग्निमें पिंड देता है वह उत्तम भोगोंको प्राप्त होता है १५७ गौओंको पिण्ड देने वाला उत्तमकान्तिको प्राप्त होता है और जलमें पिंडदान देनेसे बुद्धि यश कीर्ति प्राप्त होती है १५८ काकोंको पिंडदान दे तो दीर्घ आयु होता है और सुन्दर कौमारको प्राप्त होने की इच्छा हो तो श्वानको पिण्ड देना उचित है १५९ विप्रोंकी आज्ञालेके कामनापूर्वक पिंडोंका उद्धार करना चाहिये इसकारण जो पहिले ऋषियोंने कहा है उसीविधिसे श्राद्ध करना चाहिये १६० अन्यथा कराने से दोष होता है और पितरोंको नहीं मिलता यव धान्य तिल उड़द गेहूँ चनेसे पितरोंको तृप्त करै १६१ काले मँग सरसों और विनिवार संज्ञक अन्न कांगनी आदि से भी पितरोंको तृप्त करै और सब सामग्रीयुक्त शय्यादान दे १६२ आंब लसोढा बेलफल अनार बिजौरा जामुन खैरकागोंद सुन्दरदूध नारियल नारंगी खजूर नीला कैथ पाडल चिरौंजी बेर खैरकाफल कसेरू इत्यादिक फलजाति श्राद्धमें यत्नसे देने चाहिये और गुड़ खांड राब काले उड़द पंचगव्य तिलोंका तेल और सेंधा सांभर और सारस लवण सुन्दरगन्ध अगर कुंकुम सुन्दर शाक तथा चौलाई और बथुआ मूली और मानकन्द इत्यादिक शाक श्राद्धमें युक्त करने चाहिये १६३ १६७



चमेली जाती पुष्प चम्पा लोधकेपुष्प बाणाभिंटी शोक  
 वृक्षके पुष्प बांशाकेपुष्प तुलसीकी मंजरी तिलोंकेपुष्प  
 छोटी धायके पुष्प सेवती के पुष्प और सुन्दर गन्धकी  
 वस्तु तथा तगर सूर्यमुखी केतकी और कस्तुरी तथा  
 अतिमुक्त अर्थात् कहिकटे भूणी इत्यादि प्रसिद्धपुष्प  
 श्राद्धमें एकत्रकरने योग्यहैं १६८।१७० इनके सिवा  
 कुमुद कमल पद्म पुण्डरीक संज्ञक कमल नीलेकमल  
 रक्तकमल और कलहार कमलोंकोभी एकत्रकरै १७१  
 कूट झालछलीरा कुटकी गोकर्णी जावित्री लघुदेव नल  
 खस और सुन्दर ग्रंथिपर्णीकोभी श्राद्धमें युक्तकरै और  
 गूगुल चन्दन श्रीवाससंज्ञक उत्तमधूप पितरोंके योग्य  
 धूप तथा उत्तम ऋषि गूगुल उत्तमउड़द मसूर और  
 कोदोको प्रस्तुतकरै एवम् पालक करेला मूली गाजर  
 चुका और जीवक संज्ञक शाक एकत्रकरे पर सौंफ ना-  
 लीका शाक गन्धशूकर प्याज लहसुन मानकन्द वि-  
 षकन्द और बज्रकन्द इनसबोंको श्राद्धकर्म में त्याग  
 दे १७२।१७४ कड़वी तरौई का शाक कोहलाशाक  
 कटुपत्रिका शाक वार्त्ताकुशाक बालछड़ कचनार और  
 बुसाहुआ तथा बासीपदार्थ इत्यादिक श्राद्धमें नदेनी  
 चाहिये १७५।१७६ बच अमलतास सहोंजना अति  
 खट्टा तथा भागोंवाला पदार्थ जिस वस्तुकारस चला  
 गयाहो और जो मदिरा १७७ अथवा हींगके गन्धसे  
 युक्तहो राब और कलिंग देश में उपजाहुआ धनियां  
 इत्यादिक श्राद्धमें एकत्र न करै १७८ अनारदाना पी-  
 पारि सौंठि अदरक अमिली लसोढ़ा जीवकशाक ध-

नियां १७९ और जो वस्तु भोजन करने में स्वादु चिकनी कछुकखट्टी और चर्चरीवस्तु हैं वे सब श्राद्धकर्म में देनी चाहिये १८० अतिखट्टी अति नमकवाली तथा कडवी वस्तु राक्षसोंके भोजनलायक हैं इसवास्ते इनको दूरसे त्यागदे १८१ और मीठे स्निग्ध और कुछ खट्टे और देवभोज्य इत्यादिक पदार्थोंको श्राद्धमें युक्त करै १८२ भेडिया हिरण शैवतारक और राजक संज्ञक जलचर जीवों के मांसको श्राद्ध में युक्त करै १८३ और लोहा तलवार इत्यादिकभी श्राद्धमें कहे हैं हव्यकव्योंमें कहीं कपिल और रक्तवर्ण सब वस्तु को भी युक्त करै १८४ हेविप्रो बाराहजीने पहिले श्राद्धकर्मके वास्ते इसप्रकार कहा है कि इन निषिद्ध वस्तुओं को भक्षण करनेवाला पुरुष रौरव नरकमें जाता है १८५ हे द्विजोत्तमो श्राद्ध में पितरों के लिये १८६ रक्तवर्णवाले मृग शूकर गोह हंस चकवा चकवी और मदुरसंज्ञक जलचर जीवोंका मांस वर्जित है १८७ कुंज मुरगा राजहंस भारद्वाज संज्ञक पक्षी सारंगपक्षी नकुल उल्लू बिलाव बतक तित्तिर गीदड़ १८८ और अन्य दूषितजीवोंका मांस जो खोटी मतिवाला पुरुष भक्षण करता है वह महापापोंसे युक्त हो नरकोंमें चला जाता है १८९ इन निन्दित मांसों को जो पापीपुरुष पितरोंके लिये देता है वह स्वस्थ पितरोंको भी नरकमें गेर देता है १९० श्राद्धमें कुसुम्भ शाक जंबीर नींबू अमलतास खल मसूर गाजर कोदू धान्य तालमखाना चूका पद्माख और चकोर एवमसिंकरे का मांस तालफल और तृणका भोजन करने से

पुरुष नरकमें चलाजाताहै १९१।१९२ और जो श्राद्ध में इनका दान देताहै वह पितरों के संग नरकमें वास करताहै इसवास्ते सब यत्नकरके १९३ बुद्धिमान् पुरुष पितरोंके लिये श्राद्धकरावै मुनियोंने श्रेष्ठ जीवोंके मांस का भक्षण आत्मा की रक्षाके वास्ते कहा है पर १९४ अज्ञानसे मनुष्योंका मांस ग्रहण न करना चाहिये और निषिद्ध भक्षण को वर्ज कर प्रायश्चित्त कराना योग्य है १९५ निषिद्ध आचरणमें यह प्रायश्चित्तहै कि सात दिन पर्यंत फल मूल दही दूध तक्र गोमूत्र आदि सब पवित्र वस्तुओंका सेवनकरै १९६ एकवार भी निषिद्ध आचरणका प्रायश्चित्त करनेसे शरीरकी शुद्धि होजाती है और विष्णुमें भक्तिहोती है १९७ हेद्विजोत्तमो श्राद्ध में निषिद्ध द्रव्योंको वर्जदे और अपनी कमाईसे यथा प्राप्त वस्तु श्राद्धमें लगानी उचितहै १९८ ऐसे द्रव्यसे जैसा ऐश्वर्य्य हो तैसा श्राद्ध कराना योग्य है क्योंकि ऐसा कराने से ब्रह्माकी उत्पत्तिसे लेके प्रलयकाल पर्यंतके सब पितर तृप्त रहते हैं १९९ मुनिजनोंने पूँछा कि जिसका पिता जीवता हो परदादा और दादी मर गयेहों वह उनका श्राद्ध क्योंकरकरे यह आप विस्तार से कहो २०० व्यासजीने कहा कि जिसके लिये पिता श्राद्ध देता उसीके लिये पुत्रकोभी देना उचितहै ऐसा करनेसे लौकिक तथा वैदिकधर्म नष्ट नहीं होता २०१ मुनिजनों ने पूँछा कि हे ब्रह्मन् जिसका पिता मरगया हो और दादा जीताहो वह पुरुष कैसे श्राद्धकरावै २०२ व्यासजीने कहा कि पिता और प्रपितामहके लिये पिंड-

दानदे और दादाको भोजन करावे यह श्राद्धकी नीति वर्णनकी है २०३ मरेहुयेको पिंडदानदेना और जीतेहुये को भोजनकराना यह कुछ सपिंडश्राद्ध नहीं है और न कुछ पार्वणश्राद्ध है २०४ जो आचारकरके पितरों के श्राद्धमें बुद्धीको लगाता है वह आयु धन और पुत्रकी वृद्धिको प्राप्तहोता है इसमें संशय नहीं २०५ हे द्विजो जो पितरोंमें बुद्धि लगानेवाला इस अध्यायको श्राद्ध कालमें पढ़ता है उसके अन्नको पितर तीनयुग पर्यन्त खाते हैं २०६ पापोंको नाशकरने और पुण्योंको बढ़ाने वाला यह जो पितृयज्ञकल्प मैंने कहा है सो सावधान होके नरों को सुनना योग्य है और उन्हें श्राद्ध करना अथवा कीर्त्तनकरना योग्य है २०७ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यासऋषिसम्वादेश्राद्धकल्पे  
पष्ठाधिकशततमोऽध्यायः १०६ ॥

### एकसौसातका अध्याय ॥

व्यासजीने कहा कि गृहस्थीपुरुषको इसप्रकार अच्छी तरह हव्यकव्यादिकोंसे पितर पूजनेयोग्य हैं और अन्नादिकोंसे बान्धव तथा अभ्यागत पूजनेयोग्य हैं १ नित्य नैमित्तिकक्रियासे हीन नौकर पशु पक्षी चींटी भिक्षुक सदा आचारसेनिरत ब्राह्मण और घरमेंबुद्धिवाले श्रेष्ठ पुरुष ये सब पापोंको भोगते हैं २।३ मुनिजनोंने पूँछा कि हे विप्र नित्यनैमित्तिक तथा काम्य ये तीनोंप्रकार के पुरुषोंके कर्म तो आपने कहे ४पर हे मुने अब हम आपकी कृपासे सत् आचारके सुनने की इच्छा करते हैं जिसके करने से मनुष्य इसलोक तथा परलोक में

सुख को प्राप्तहोजाते हैं ५ व्यासजी बोले कि गृहस्थ को सदाचार कर्मकी रक्षा करनीचाहिये क्योंकि आचारसे हीन पुरुष को इसलोक तथा परलोकमें सुख नहीं है ६ जो सदाचारको छोड़के यज्ञ तप और दान करताहै उन दानोंसे उसकाकल्याण नहींहोता ७ खोटे आचारमें जो आसकरहताहै वह इसलोकमें बहुतसी आयुको नहीं प्राप्तहोता सदा धर्मकाआचार खोटे लक्षणोंका नाशकरताहै ८ हे द्विजो सदाचारका लक्षण मैं कहताहूँ आत्माको एक मनसे सदाचारकी पालना करनी योग्यहै ९ जिसप्रकार धर्म अर्थ और कामकी साधनहोतैसेही गृहस्थको करनाउचितहै क्योंकि इनके सिद्धहोनेसेही यह लोक तथा परलोकभी सिद्ध हो जाताहै १० जो परलोक का साधन नहीं करता वह नित्य नैमित्तिकादिकों से आत्माही का पोषण करता है ११ और जो इनसाधनोंमें युक्तहै उसके मूल भूत पैर वृद्धिको प्राप्तहोते हैं हे विप्रो ऐसे आचरण करनेवाला पुरुष सफलताको प्राप्तहोताहै १२ ज्ञानवान् पुरुषको आत्माके उद्धार के वास्ते धर्मकरना और परलोकके वास्ते काम्यकर्मकरना यहांभी फलको देनेवालाहै १३ दोषोंके भयसे काम तथा अन्य विरोधवाला दोप्रकार का काम रचाहै और त्रिवर्ग में विरोध नहींहोता १४ धर्म अर्थ और कामका परस्पर सम्बन्ध होनेसे इन सबोंका चिंतवनकरै हे द्विजोत्तमो ये विपरीत सम्बन्ध वालेभी हैं १५ धर्म अधर्मका सम्बन्धीहै और अर्थ धर्मका सम्बन्धी है पर आत्माकेसंग अर्थका सम्बन्ध

नहीं है १६ धर्म तथा अर्थसे काम्यकर्म दो प्रकार का होता है जो दो प्रकारका होता है ब्राह्म्यमुहूर्त्तमें उठके मनुष्यको धर्म और अर्थका चिन्तनकरना चाहिये १७ प्रथम उठके आचमनकर पूर्वदिशाको मुखकरकेदांतन करे फिर स्नानकरके प्रातःकाल नक्षत्रयुक्त संध्याको करे और दूसरी संध्या सूर्यसेयुक्त सायङ्काल में करे १८ निदान यथा न्याय सन्ध्याकी उपासना करे और आपत्कालमेंभी सन्ध्याको न त्यागकरे १९ झूठबोलना तथा पीठपीछे मिथ्यावादकरना छोड़दे और खोटेशास्त्र खोटेवाद तथा खोटेपुरुष की सेवाको त्यागदे २० शुद्धात्माहोके सायङ्काल तथा प्रातःकालमें हवनकरे और उदय तथा अस्तकालमें सूर्यको न देखे २१ केशोंका सम्हारना सीसेका देखना दांतनकरनी नेत्रोंमें अंजन लगाना देवतोंका तर्पणकरना ये सब पहिलेही प्रहरमें करनेयोग्यहैं २२ ग्रामकेमध्यमें घरोंमें तीर्थक्षेत्रके मार्गमें खेतमें तथा गौओं के स्थानमें विष्ठा और मूत्र का त्याग न करना चाहिये २३ परस्त्रीको न देखे और न परस्त्रीसे वचनकहे अपने विष्ठाको न देखे तथा जलमेंभी अपनेशरीरको नहींदेखे २४ जलमें विष्ठा और मूत्रका त्याग न करे और परस्त्रीसे मैथुनभी न करे जहां विष्ठा मूत्र केशभस्मी और ठेकरेपड़ेहों तहां स्थिति न करे २५ और जहां फूस अग्नि रस्से तथा वस्त्रादिक पड़ेहों वहां बुद्धिमान्पुरुषको बैठना न चाहिये २६ गृहस्थमनुष्यको पितृ देव मनुष्य आदि सबभूतोंका पूजनकरके भोजन करना उचितहै २७ मनुष्यको मौनहोके शुद्धभावसे गुप्त

स्थानमें पूर्व तथा उत्तर मुखकरके एकाग्रमनसे भोजन  
 करना उचित है २८ बुद्धिमान् पुरुष शुद्ध किये हुये अन्नको  
 ग्रहण करै और लवण तथा उच्छिष्ट अन्नको भक्षण न  
 करै २९ विष्ठा और मूत्रका त्याग करते गमन न करना  
 चाहिये और जब तक हाथ धोके कुल्ला न करे कछु भक्षण  
 न करना चाहिये ३० उच्छिष्टकालमें न गमन करना चा-  
 हिये और न पढ़ना पढ़ाना चाहिये कामातुरहोके सूर्य  
 चन्द्रमा और नक्षत्रादिकोंको न देखै ३१ और फटे हुये  
 आसन शय्या तथा भोजनपात्र को नवर्त अभ्युत्था-  
 नादि सत्कार पूर्वक गुरुको आसन देना उचित है ३२  
 और लमस्कार पूर्वक गुरुके अनुकूल वचन कहना चा-  
 हिये गुरुके सङ्ग गमन करना और प्रतिकूल वचन न  
 कहना चाहिये ३३ बुद्धिमान् पुरुष एकही वस्त्रसे भोजन  
 देवता का पूजन ब्राह्मणों का आवाहन और अग्नि में  
 हवन न करै ३४ और नग्नहोके स्नान तथा शयन न करै  
 दोनों हाथोंसे खुजलाना तथा शिरकामलना मना है ३५  
 बुद्धिमान् पुरुषको वारम्बार शिरडुबोके स्नान न करना  
 चाहिये शिर तथा अङ्गमें किञ्चित् तैल लगाके स्नान  
 करना उचित है ३६ अनध्याओं में पठन पाठन न करै  
 और ब्राह्मण अग्नि गौ और सूर्यके सन्मुख कदाचित्  
 भी मूत्रका त्याग न करै ३७ दिनमें उत्तरको और रात्रि  
 में दक्षिणको मुखकरके मल मूत्र का त्याग करे और  
 जब मल मूत्रकी बाधा हो तभी त्याग करै ३८ गुरुको खोटा  
 वचन न कहे और जो गुरु क्रुद्ध हो तो उसे प्रसन्न करै  
 और कोई गुरुकी निन्दा कर रहा हो तो न सुनै ३९ ब्रा-

हमणों और राजाओंको मार्गदेना और देवस्थान तथा चौराहेमें वृक्षलगाना उचितहै ४० गुरुकी बुद्धिमान् को परिक्रमाकरनीयोग्यहै और दूसरेकीजूती वस्त्र सुगंधकी वस्तु न धारण करना चाहिये ४१ चतुर्दशी तथा अष्टमी वा पूर्णिमा अथवा दूसरेपर्वको तेलकामर्दन तथा स्त्रीसे भोग न करै ४२ बुद्धिमान्पुरुषको पाखण्ड तथा अभिमान वा दीनता न करना चाहिये और मूर्खता तथा व्यसनोंसेयुक्त खोटेरूपकोभी न करना चाहिये ४३ हीन अङ्गवाले तथा निर्धनपुरुषको देखके हँसना न चाहिये और परपुरुषका अपराध न करना चाहिये शिष्य तथा पुत्र में प्रीति रखनी चाहिये ४४ जिस दिन बुद्धिमान् पुरुष ब्रतीरहै तिसदिन आसनको पैरसे न खेंचे और लपसी मालपुआ तथा मांसकोत्यागदे ४५ प्रातःकाल तथा सायंकाल अभ्यागतके दर्शनकरके भोजन करना चाहिये ४६ हे विप्रो बर्जनीय वस्तुको मनुष्य निरन्तर त्यागदे किसी समयमेंभी जलके तरफ वा पश्चिम के तरफ शिरकरके न सोवे ४७ पर दक्षिण वा पूर्वकी तरफ शिरकरकेसोवे नवीनगन्धयुक्तजलमें स्नाननकरै प्रातःकाल स्नानकरना उचितहै ४८ उपराग अर्थात् ग्रहण समयमें स्नानकरना मृतदिवस में स्नानकरना स्नानसे बचेहुयेजलसे मार्जनन करना और गीलेगात्र पर वस्त्र न धारण करना चाहिये ४९ केशों और वस्त्रको हिलाना न चाहिये और चन्दनलगाके बुद्धिमान्पुरुषको स्नानन करना चाहिये ५० रक्त और कालापिला वस्त्र धारण न करना चाहिये और गहने तथा वस्त्रको



विपरीत न पहनना चाहिये ५१ वर्जनीय तथा अत्यन्त  
 फटेहुये वस्त्रको धारण न करै और कीट और केशयुक्त  
 अन्न तथा बाणी से दुष्ट अन्न ५२ और पीठ के मांस  
 तथा शङ्कित और वर्जनीयमांसको त्यागदे प्रीतिरहित  
 अन्न तथा लवणादिकोंको भी भक्षण न करे ५३ हेविप्रो  
 वर्जनीय शुष्क तथा बासीअन्नको त्यागदे और हेद्विजो  
 खोटाशाक ईख दूध आदि विकारवालोंको वर्जिदे ५४  
 मांसयुक्त विकार वस्तुको त्यागदे और सूर्यके उदय  
 अस्त समयमें शयन न करै ५५ उदयास्त समयमें  
 स्नान और जलमें प्रवेश न करे और ईश्वरसे अन्य  
 में बुद्धिको न करे ५६ शयन समयमें पृथ्वी पर बैठके  
 शब्द न करै एक वस्त्रसे न रहे और अन्नको देखनेवाले  
 पुरुषोंको अन्न दिये बिना भोजन न करे ५७ सायंकाल  
 तथा प्रातःकाल स्नानकरके भोजनकरे और बुद्धिमान्  
 पुरुष पराई स्त्रीसे गमन न करे ५८ परस्त्रीगमन वापी  
 कूप और तडाग बनवानेवालोंकी भी आयुको नष्टकर  
 देताहै और कोई परस्त्रीगामी लोकमें बहुत आयुवाला  
 नहीं दीखता ५९ परस्त्रीगमन पुरुषों का इस लोकमें  
 ऐसा अपमान करनेवालाहै ६० देवतोंका कार्य्य तथा  
 गुरुको नमस्कार करके और शुद्ध हो आचमन करके  
 अन्नको भोजनकरै ६१ भागरहित स्वच्छ तथा गन्ध  
 युक्त जलसे आदरसे पूर्वको तथा उत्तरको मुख करके  
 आचमन करै ६२ और जलके भीतरकी रस्तेकी बंबी  
 की मूसेके बिलकी और गीदड़की घूरकी मट्टीको न ग्र-  
 हणकरै ६३ हाथधोके समाहितहोके और गोड़ोंपर्य्यंत

पैरोंको धोके तीन अथवा चारबार कुल्लेकरै ६४ और शुद्धहोके दोबार आचमनकरै और मस्तकपर्यंत मुख को धोके पवित्र जलसे आचमन करके सम्पूर्ण क्रिया करै ६५ नाक सफा करने कोई वस्तुके चाटने उलटी करने तथा थूकनेके बाद आचमन करना योग्यहै और गौकी पीठ तथा सूर्यके दर्शन करनेयोग्य हैं ६६ दाहिने कर्णसे श्रवण करना और यथा ऐश्वर्य दानादिक करना मनुष्यको चाहिये ६७ जो ये कहीहुई वस्तु न बनै तो अगाड़ी कही वस्तुको ग्रहणकरै और हास्य न करे तथा आत्माको देहसे ताड़ना न करे ६८ स्वप्नेके स्मरण में अन्न तथा पठनपाठन त्याग और संधियों में स्त्री संग और मार्गगमन न करे ६९ बुद्धिमान् को पहिले प्रहरमें देवतोंका और मध्याह्नमें मनुष्योंका और पिछलेपहरमें पितरोंका तर्पण करना चाहिये ७० दैव तथा पितृकर्म में पश्चिम और उत्तरके तर्फ मुखकरके शिर तक स्नान करे और दाढीसहित हजामत बनवावै ७१ रोगी तथा हीन अंगवाली कन्या को न विवाहै माता पिताको पांच तथा सातवर्षकी कन्याका विवाह करना चाहिये ७२ बैरभावको त्यागके स्त्रीकी रक्षाकरनी और जिसदिन स्वप्नआवै तिसदिन स्त्रीसंग न करे ७३ दूसरे के सकाशसे कष्टकी प्राप्ति होनी तथा सर्वकालमें पीड़ा का सहन करना चाहिये ७४ सब बर्णोंकी स्त्रियोंको रजस्वला होनेपर चार रात्री संगकरना वर्जनीयहै और कन्या के जन्मसे बचनेके लिये पांचवींरात्रीभी वर्जित है ७५ छठी रात्रीमें स्त्रीसंगकरै क्योंकि युग्मा रात्रियों

में श्रेष्ठ पुत्रकी उत्पत्ति होती है ७६ हे द्विजो धर्मात्मा पुरुषको सायंसन्ध्यामें तथा प्रातःसन्ध्यामें स्त्रीसंग तथा हजामत करानी न चाहिये ७७ कष्टका कारण तथा अति कष्टकी वार्त्ता ईश्वरके ध्यान करतेहुये न श्रवणकरै ७८ वस्त्रसहित स्नान और खंडभूमिका लंघन न करै देव-देवका पूजनकरै और ब्राह्मणोंसे सत्य वचन बोलै ७९ हे द्विजो शुद्धहोके पतिव्रता स्त्री ब्राह्मण यज्ञकर्त्ता और तपस्वीकी परिक्रमा करके नमस्कारकरै ८० और आनन्दपूर्वक भूषण युक्त होके सफेदवस्त्र धारण करै ८१ द्रव्य बढ़ी हुई अग्नि और देवपूजन का अभिमान न करै सुन्दर दृष्टी से युक्त होकर भूपाल देवतों की तरह स्नान करै ८२ गृहस्थ को निन्दित वस्तु वर्जनीय है हे विप्रो यथा प्राप्ति ऐश्वर्य्य को पाकर प्रति दिन प्रातःकाल उठना योग्य है ८३ हे विप्रो अच्छे प्रकार से गृहमार्जनकरके और स्थानकोलीपके अग्निकापूजन कर आहुती देना योग्यहै ८४ पहिले ब्रह्माको पश्चात् प्रजापतिको फिर गृह्योंको और फिर कश्यपजीको आहुतीदेनी योग्य है ८५ फिर अनुमतीको आहुतीदेके पश्चात् गृहबलिदे और पहिले कही विधिसे क्रियाकरै ८६ हे द्विजो वैश्वदेव का पूजन और बलिकैसे दे सो सुनो यथा विभाग देवतों को पृथक् पृथक् स्थान तथा बलिदे ८७ पर्जन्य पृथिवी यातुधान मर्मादिकों और पूर्वदिशासेलैके वायव्य पर्यन्त दशोंदिशाओं ८८ और ब्रह्मा विष्णु और सूर्य्य तथा विश्वेदेवा और विश्वभूत देवोंको यथाक्रम बलिदानदे ८९ उत्तरकेतरफ ऊषा

तथा भूतोंकेलिये और स्वधा कहके दक्षिणकेतरफ पितरोंकेलिये बलिदे ९० अपसव्यहोके यक्षोंकेलिये भोजनदे और अन्नसहित जलकादान यथा ऐश्वर्य्य ९१ तीर्थ तीर्थकेप्रतियथा विभवसे कर्मकरै और आचमन करके ब्रह्मादिकदेवोंका पूजनकरै ९२ दाहिनेहाथके अँगूठे के ऊपर जो रेखाहै उसे ब्राह्मसंज्ञकतीर्थ कहतेहैं और उसीसे आचमन करनायोग्यहै ९३ तर्जनी तथा अँगूठे के मध्यमें पितृतीर्थ कहाता है उससे पितरों को अन्न तथा जल दानदे पर नांदीमुखश्राद्धमें तिससे न दे ९४ अँगुलियों के अग्रभागमें देवतेबासकरते हैं इसलिये उनसे देवतों की दिव्यक्रियाकरै ९५ और कनिष्ठिकाके मूलमें तीर्थ बासकरते हैं इसलिये उससे प्रजापतिको अन्नजलदे ९६ ऐसे तीर्थरूपी हाथसे सब देवतों को अन्नजलका दान और सब कार्य्य करने योग्यहैं ९७ ब्राह्मतीर्थ से आचमन करना और पित्रतीर्थसे पितरों को और देवतीर्थ से देवतों को अन्नजलदेना उचित है ९८ पिण्डत को प्रजापति से लेके नांदीमुखादिकों को पिण्ड तथा जलक्रिया करनी उचितहै ९९ प्राजापत्यतीर्थसे जो कुब्रहोताहै सो एकबार जल तथा अग्नि हवनकेवास्ते धारणकरना चाहिये १०० गुरु तथा देवता के अगाडी पैर न पसारे अन्यथा बाणी न बोले और अञ्जलिबांधके जलको न पीवे १०१ सब शौचकालोंमें तथा गुरुकेकर्ममें बुद्धिमानपुरुष देर न करे और मुखसे जुवाबभी न दे १०२ जहांपढ़ाहुआब्राह्मण करजदेनेवाला वैद्य वेदपाठी तथा जलवाली नदी न होवें वहां मनुष्य

को बास न करना चाहिये १०३ जहां बलवान् धर्ममें तत्पर नौकरों को दण्ड देनेवाला और बुद्धिमान् राजा हो वहां बास करना चाहिये क्योंकि जहां खोटा राजा हो वहां सुखकी प्राप्ति कैसे होगी १०४ जहां पुरके मनुष्य यत्न से रहते हैं नीतियुक्त हैं और क्रोधी नहीं वहां का बास सुखको देनेवाला होता है १०५ जिस देशमें खेती करने वाले हैं प्रायः बहुत भोगी नहीं और जहां तृण धान्य और ओषधी होते हैं वहां बुद्धिमानों को बास करना योग्य है १०६ हे विप्रो जहां सदा लेने देनेका व्यवहार हो जहां जीतनेकी इच्छावाले जन हैं और जहां पहिले वैर करनेवाले और पराये उत्सवमें दुःखी हैं वहां बास न करना चाहिये १०७ जहां सुन्दर शीलता का आचार हो पण्डित हैं और दण्ड देनेवाला धर्मात्मा राजा हो वहां बास करना योग्य है १०८ हे विप्रो हितकी कामना से मैंने तुम से यह कहा है और इसके उपरान्त अब भक्ष्यभोज्य वस्तुओंकी प्रतिक्रिया कहता हूँ १०९ स्नेहमिश्रित बहुत काल का तथा बासी अन्न भोगना योग्य है और बिना स्नेह गेहूँ यव गोरस विक्रिय वस्तु ११० शूशा मच्छ गोह शैह जीव और यव भक्षण करनेवाले जीव भक्षण करने योग्य हैं १११ ग्राम शूकर और मुर्गा वर्जनीय हैं और पितृदेवादिकों से शेष रहा अन्न तथा श्राद्धमें ब्राह्मण से बचा अन्न आदि खाना योग्य है ११२ प्राप्त हुये स्वादु अन्न तथा मांस और में दोष नहीं हैं और स्वर्गरूप आभूषणों की तथा रज्जु तथा ब्रह्मों की ११३ तथा शाक मूल फल दाल मणि वस्त्र

मृग मोती ११४ और मनुष्यके गात्रकी शुद्धि जलसे होती है ११५ लोहकी शुद्धि निशान आदिपर घिसने से होती है स्नेहयुक्त अर्थात् चिकने पात्रकी शुद्धि गरम जलसे होती है ११६ और छाज तथा अन्यपात्र चर्म मूशल ऊखल फटेहुये वस्त्रोंकी शुद्धि धोनेसे होती है ११७ कणकोंवाले अन्नकी जलसे धोनेमें शुद्धि होती है और सब अंग तथा केशोंकी शुद्धि धोनेसे होती है ११८ सिद्धहुये अन्नके कल्क दूर करनेसे अथवा शोधने से और उपघात किये हुये अन्न की जलसे शुद्धि होती है ११९ कपासके वस्त्रोंकी शुद्धि भस्मलगे जलसे धोने से होती है और हाथीदांत तथा सींगकी शुद्धि केवल जलसे धोनेसे होती है १२० मिट्टीके बरतनोंकी शुद्धि फिर पकानेसे होती है और स्त्रीके मुखकी शुद्धि जलसे होती है विनाजाने रस्तामेंपड़े अथवा किसीके डाले श्रेष्ठ अन्नकी शुद्धिभी जलसे होती है १२१ पढ़ाहुआ तथा समर्थ बालक वृद्ध कष्टवाला चेष्टारहित अति बालक और स्त्री १२२ ये सब जलमें गोतालगानेसे शुद्ध होते हैं और पृथ्वी की शुद्धि गोबर से लीपने तथा खोदने से होती है १२३ लेपन चित्ररेखा अथवा मार्ज्जनकरने से घरशुद्ध होता है १२४ और केश कीटयुक्त गौंके रोम और मक्षिका युक्त अन्नकी जलसे शुद्धि होती है १२५ और मृत्तिका तथा भस्म और जलके छीटोंसे भी होती है सब अन्नोंकी शुद्धि जलसे होती है १२६ कांसेके पात्रकी शुद्धि भस्म अथवा तपानेसे होती है और गीलीबस्तुकी शुद्धि मृत्तिका तथा जल से अथवा गन्ध दूरकराने से

होती है १२७ द्रव्यादिकों की शुद्धि वर्ष तथा गन्ध के  
 दूर कराने से होती है और चांडाल तथा राक्षस आदिकों  
 से फाड़ा हुआ मांस शुद्ध होता है १२८ देखने की वस्तु प-  
 त्थर तथा गौ की तृप्ती होने लायक जल शुद्ध है और धूली  
 अग्नि रथ गो छाया किरण और पवन से पृथिवी की  
 शुद्धि होती है १२९ खोटे संग वाले मनुष्य की जल स्नान  
 करने से शुद्धि है और बकरी और घोड़े का मुख शुद्ध है  
 गौ तथा बछड़े का मुख शुद्ध नहीं है १३० गौ की दूध देने  
 से शुद्धि है और पक्षी का गिराया हुआ फल शुद्ध है और  
 आसन शय्या पान की वस्तु नौका चौराहा तृणादि ये सब  
 सदा शुद्ध रहते हैं १३१ चन्द्रमा सूर्य अग्नि और वायु  
 भी आप ही शुद्ध हैं और रस्ता चलने स्नान आतुर समय  
 और दूसरे कर्मों में १३२ आचमन करना श्रेष्ठ है आ-  
 चमन करके वस्त्रधारण करना योग्य है १३३ नीच तथा  
 गली की कीचके स्पर्श होने और गली के जल की छींट  
 लगने १३४ तथा पकाई ईंटों से स्पर्श होने में वायु के  
 लगने से शुद्धि होती है १३५ अग्नि से पकाया हुआ  
 अन्न खोटी जगह गिर पड़े तो त्याग देने योग्य होता है  
 और बाकी रहा अन्न जल से प्रोक्षण करने से शुद्ध होता  
 है १३६ उसे मिट्टी लगा के तथा आचमन करके ग्रहण  
 करना योग्य है जो खोटी वस्तु भक्षण कर ले तो तीन दिन  
 व्रत करना योग्य है १३७ जानके अथवा अनजान यदि  
 रजस्वला नग्न सूतिका तथा शयन करती हुई स्त्री को  
 १३८ देख ले तो उस दोष की शांति तथा सूतक की नि-  
 वृत्ति के लिये स्नान करना चाहिये १३९ स्नेह से हाड़ों

को स्पर्श करनेवाला मनुष्य स्नानसे शुद्ध होता है और सूखे हाड़को स्पर्श करले तो गौको छूके सूर्यके दर्शन करनेसे शुद्ध होता है १४० रुधिरके निकसने में तथा तृणके उठाने में अथवा घरसे विष्ठा मूत्र उच्छिष्ट जल के गेरनेमें पैरोंका तथा हाथोंका धोना उचित है १४१ और पांच पिंडलेके स्नानकर देवखात अर्थात् तलाव सर तथा गंगा आदि नदियोंमें डालना योग्य है १४२ बुद्धिमान् पुरुषको शंकायुक्त होके बनमें न ठहरना चाहिये और बैरी पुरुषसे बोलनाभी न चाहिये १४३ पति हीन स्त्रीके स्पर्श तथा देवता पितृ सत्शास्त्र और यज्ञ की निन्दा करनेवालोंसे स्पर्श तथा सम्भाषण करनेमें सूर्य के दर्शनसे शुद्धि होती है १४४ और रजस्वला स्त्री चाण्डाल मुरदे खोटेपुरुष सूतिका हीजड़े तथा वस्त्ररहित स्त्रीको शय्यापर देखने तथा मरेहुयेको कांधे पर लेजाने से और पराई स्त्री से संगकरनेसे बुद्धिमान् पुरुषको आत्माका शोधनकरना उचित है १४५।१४७ अभोज्य भक्षण सूतिका स्त्रीके स्पर्श शठसे बोलने बिलाव कुत्ता मूसा और मुर्गेके छूनेसे १४८ जाति पतित अशुद्ध चांडाल और मरेहुयेको लेजानेवालोंसे सम्भाषण तथा १४९ रजस्वला स्त्री और ग्रामशूकरके स्पर्श से मनुष्यकी शुद्धि स्नानकरनेसे होती है १५० वैसेही सूतिका का अशौच दोष पुरुषोंके लिये कहा है और जिसके घरमें नित्यकर्म की हानिहोती है और जिसने ब्राह्मणोंको त्याग दियाहो वह पापी मनुष्योंमें अधम है १५१ बुद्धिमान् पुरुषको नित्यकर्मकी हानि न करनी



चाहिये पर जन्म तथा मरणसमयमें नित्यकर्मको न करे  
 १५२ ब्राह्मण को दशदिन दान होमादिक नित्यकर्म  
 त्यागना चाहिये क्षत्रिय को बारहदिन वैश्य को पन्द्रह  
 दिन और शूद्रको एकमहीनेतक नित्यकर्म त्यागनाचा-  
 हिये १५३ १५४ प्रेतकेवास्ते जलदानदेना और गौओं  
 केसङ्ग गमनकरना उचितहै १५५ पहिलेदिन चौथेदिन  
 सातवेंदिन अथवा नववेंदिन अस्थिसंचयकरना चाहिये  
 और तीसरेदिनभी किसी२ को करलेना चाहिये १५६  
 अस्थि संचयहुये पश्चात् अन्यगोत्रीकेअङ्गका स्पर्शना  
 और तिलोदक क्रिया करनी चाहिये १५७ मृतदिवस  
 के दिनसे सपिण्डन गोत्रियोंको स्पर्शकरनेमें दोषनहींहै  
 शुद्ध वस्त्ररक्खे और वर्द्धाजलीदेवे १५८ जिसकागोत्री  
 उत्पन्नहोते मरजाय बालक मरजाय देशान्तर में मर-  
 जाय अथवा संन्यास धारणकरके मरजाय १५९ उस-  
 को अन्यगोत्रीपुरुष स्पर्शकरे तो स्नानसे शुद्धहोजाताहै  
 और एक दिन उनका सूतक रहताहै १६० दशपीढ़ी  
 तक जैसे पहिले सूतक कहाहै तैसेही माननायोग्यहै  
 १६१ और तैसेही क्रिया करनी योग्यहै ऐसेही जन्म  
 कालकाभी सूतक मानना योग्यहै १६२ जब पुत्रका  
 जन्महो तब पिताको स्नानकरना उचितहै १६३ और  
 जो न स्नानकरे तो ब्राह्मणों को अन्नादिदेना उचितहै  
 पर तौभी पहिले कहेहुये जन्मकी तरह शुद्धिकरना उ-  
 चितहै १६४ अपनी२ जात्यानुसार सब वर्णोंको १६५  
 प्रेतके उद्देशके अनुसार दश बारह पंद्रह तथा एकमास  
 क्रिया करनी योग्यहै और तिसके पश्चात् एकोद्दिष्ट

श्राद्ध करना चाहिये १६६ बुद्धिमान् पुरुषको ब्राह्मणोंके लिये जो जो वस्तु उस प्राणीको प्यारीहो अथवा जो जो उस जीव को बांछित हो तिसका दानदेना उचित है १६७ क्योंकि वे सबदीहुई वस्तु उसको अक्षयगुणवालीहोजातीहैं १६८ जब सूतककेदिवसपूरेहोजायँ तब सुन्दरबैल और दण्डका दानदे और परलोककेवास्ते यज्ञकरावे १६९ समुद्रपरजाके परलोककेवास्ते स्नान कर तर्पणकरावै और वेदत्रयीका अध्ययन करे १७० धर्मसे धन इकट्ठाकरके यत्नसे यज्ञकराना उचितहै हे द्विजो जिसके करानेसे जीव निन्दाको नप्राप्तहो १७१ वैसे शङ्कारहितहोके यज्ञादिकराने उचितहैं और महाजनोंसे गुप्तवस्तु नरखनी चाहिये १७२ हे विप्रो घरमें बासकरनेवाले पुरुषको ऐसे आचारकरनेसे यश कीर्ति तेज और बलकी वृद्धिहोतीहै १७३ स्वर्गके साधनके वास्ते श्रेष्ठपुरुषको उत्तम अनुष्ठानादि करना और कल्याणकी इच्छाकरनेवालेको यत्नसे सब जानना योग्यहै १७४ ऐसे जानके जो सदा अनुष्ठान करताहै वह सब पापोंसे छूटके स्वर्गका बासकरताहै १७५ हे द्विजसत्तमो यह आख्यान सब सारवस्तुओंमें सारहै श्रुति स्मृतिमें कहा धर्म जैसेतैसे मनुष्यको नहींदेना चाहिये १७६ हे द्विजो नास्तिक दुष्ट पाखण्डी मुख तर्ककरनेवाले और अत्यंत बोलनेवालेको यह शिक्षादेना योग्यनहींहै १७७

श्रीआदिब्रह्मपुराणेसदाचारकथनसप्ताधिकशततमोऽध्यायः १०७

एकसौआठका अध्याय ॥

मुनियोंने पूछा कि हे ब्रह्मन् हे द्विजवर्य चारवर्णा-

श्रम धर्मको सुननेकी हमारी इच्छाहै सो आप कहो १  
 व्यासजी बोले कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन  
 चारवर्णोंके आश्रमधर्मको मुझसे सुनो २ ब्राह्मण को  
 दान दया तप दैवयज्ञ पठन पाठन नित्य उदकक्रिया  
 और अग्निकी परिक्रमायेसब करने चाहिये ३ जीविका  
 के लिये अन्यघरोंमें मांगना चाहिये और अन्योको प-  
 ढाना चाहिये हेद्विजो क्रोधसे कियेहुये दानको न लेना  
 चाहिये और नीतियुक्तरहना चाहिये ४ सब मनुष्योंपर  
 हित रखना चाहिये और क्रोध किसीपर नहींकरनाचा-  
 हिये सबलोकोंसे मैत्रीकरना ब्राह्मणका उत्तमधर्महै ५  
 अपने तथा परपुरुषोंमें समबुद्धि रखनी चाहिये क्योंकि  
 सब लोकोंमें हितकरनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठहोताहै ६ हे  
 द्विजो जिनको भिक्षा प्रियहै वे ब्राह्मण श्रेष्ठहैं ब्राह्मण  
 को ऋतुदानके सिवा स्त्रीसङ्ग न करना चाहिये ७ शस्त्र  
 की जीविका तथा पृथिवीकी रक्षा क्षत्रीकी श्रेष्ठवृत्तिहै  
 और क्षत्रीका पहिलाधर्म पृथिवीका पालनकरनाहै ८  
 पृथिवीकी पालनाकरनेसे वह मनुष्योंका राजाहोताहै  
 और राजाहोके देवतोंकेलिये यज्ञकराना उचितहै ९  
 दुष्टपुरुषोंको दण्ड और अच्छेपुरुषोंकी पालनाकरनेसे  
 राजा वाञ्छित लोकोंकी प्राप्ति तथा वर्षकी स्थिति को  
 प्राप्त होता है १० हे मुनिसत्तमो पशुओं की पालना  
 बणिज तथा खेतीकरना वैश्योंकी जीविका लोकके पिता-  
 सहरूप ब्रह्माने नियतकीहै ११ वैश्यको ब्राह्मणके आ-  
 श्रयहोके पढ़ना यज्ञदानकरना तथा नित्यनैमित्तिककर्म  
 करनाश्रेष्ठहै १२ और ब्राह्मणकी पालना करना भोजन

कराना और लेनेदेने के व्यापार से सब जीवोंको तृप्त करना वैश्याका धर्म कहा है १३ शूद्रभी पक्वान्नसे पित्रादिकोंका पूजनकरे पर सब कर्म शूद्रको वर्जितहैं १४ सब देवमूर्तियोंकी परिक्रमाकरनी ऋतुकालमें स्त्रीसङ्ग करना सब भूलोंमें दयाकरना वचनका सहनकरना १५ सत्य बोलना शुद्धरहना नश्वररहना भूठ न बोलना और किसीकी निन्दा न करना १६ ये सामान्यतासे सब वर्णोंकेगुण और सब आश्रमोंके सामान्य लक्षणकहे हैं १७ अपने अपने धर्ममें ब्राह्मणसे आदिले सबको युक्तरहना अपनाही कर्मकरना और खोटेकर्म न करना १८ ये वर्णोंकेधर्म तुम्हारे अगाड़ी मैंनेकहे हैं हे सभ्यो अब आश्रमोंके धर्मसुनो १९ ब्राह्मण बालकपने में लड़केका जनेऊका संस्कारकरावे वेदपढ़नेमें तत्पररहै गुरुके घरमें बासकरे ब्रह्मचर्य वृत्तीमें युक्तरहै २० और शुद्ध आचारसे युक्तहो गुरुकी टहलकरे हेद्विजो वह शिष्य गुरुकी आज्ञाको उल्लंघन न करे २१ गुरुके कहेहुये वेदको पढ़ै अन्यजगह चित्तको न लगावे और गुरुकी आज्ञालेके भिक्षाको भोजनकरे २२ जलमें बड़केजलको अवलोकन न करे स्नानादिक नित्यप्रतिकरे और वेदको पढ़के गुरुकी आज्ञानुसार गृहस्थमें आके बसै और खिन्नपुरुषकी तरह गुरुकी आज्ञा का अवलंघन न करे २३ २४ धनकी प्राप्तिसे उदारहोके कर्मकरनेसे अपनेकर्मोंसे प्राप्तहुये लोकोंको मनुष्य प्राप्तहोते हैं २५ जो ब्राह्मण संन्यासी तथा ब्रह्मचारीहोके भिक्षाका भोजनकरते हैं उनका गृहस्थधर्म यहीं सिद्धहोजाताहै २६

हेद्विजो वेदपढ़तेहुये जो तीर्थ का स्नान करते हैं और पृथिवीके पर्यटन के लिये फिरते हैं २७ एक स्थानपर नहीं ठहरते एवम् उदय अस्तकालमें जो नारायणमें तत्पर हैं उनकी गृहस्थयोनि निरन्तर श्रेष्ठरूप है २८ और उनका आगमन गृहस्थियोंको सदा प्रियका देने-वालाहै घर आयेहुओं को आसन और भोजन देना उचितहै २९ अभ्यागत जिसके घरसे निराश चला-जाताहै उस गृहस्थको वह दुःखोंमें प्राप्तकरके उसके पुण्योंकोलेके चलाजाताहै ३० ज्ञानरहित तथा अहं-कारीभी यदि घरमें आयेहुये को अन्नादि देदेताहै तो वह कष्टादिक उपघातों तथा कठोरता को नहीं प्राप्तहोता ३१ और जोकोई गृहस्थ परमधर्मको धारणकरताहै वह सब बन्धनोंसे छुटके उत्तम लोकोंको प्राप्तहोताहै ३२ हे विप्रो गृहस्थीसे कृतकृत्यहो और पुत्र भार्या सहोदरादि को गृहस्थीमें युक्तकरके आप अवस्था व्यतीत करने को वनमें चलाजाय ३३ और वहां जायकेपत्ते कन्दमूल तथा फलका भोजनकरै केश डाढ़ी और जटाको धारण करै ३४ पृथ्वीमें शयनकरै मुनियों की वृत्तिको धारण करै सदा अतिथिरूपरहै और मृगचर्म तथा कुश कांश का परिधान तथा उत्तरीय वस्त्रकरै ३५ हे विप्रो वैसेही पर्वकालमें स्नानकरना देवता और अभ्यागतोंका पूज-नकरना भिक्षा तथा बलीदान देना और वनकेस्नेहसे गात्रोंकामलनाभी श्रेष्ठहै ३६ ३७ हे विप्रेंद्रो जाड़ा गरमी सहके वनमें तपकरना श्रेष्ठहै ऐसेनियमोंको ग्रहणकरके मुनि वानप्रस्थका आचरणकरै ३८ लोकों में निरन्तर

गमनकरतेहुये वानप्रस्थके पापादिक अग्नि में तृणा-  
दिककी तरह दग्धहोजातेहैं ३९ चौथा आश्रम बुद्धि-  
मान् मुनियों ने भिक्षाका कहा है हे द्विजसत्तमो तीनों  
वर्णोंके सब आरम्भोंको त्यागके भिक्षावृत्ति श्रेष्ठहै ४०  
उस आश्रम में मित्रादिकों तथा जरायुज से अण्डज  
पर्यंत सबजीवोंमें वाणी मन और कर्मसे मैत्रीरक्खे ४१  
और किसीसे बैरसंग नकरे वह एक रात्रि अथवा पंच-  
रात्रि ग्राममें स्थितिकरै ४२ यज्ञोंमें प्रीतिकरै दैवमें बुद्धि  
रक्खे और प्राणोंकी यात्राके निमित्त अर्थात् भोजन  
कालके सिवा किसीके घरमें नठहरे ४३ कालपाके वह श्रे-  
ष्ठग्रामोंमें भिक्षाकेलिये गमनकरै और भिक्षाका अलाभ  
होनेपर दुःखित नहो जितनी मिले उतनीही में आन-  
न्दित होजावे ४४ प्राणयात्राके निमित्त जो जनोंके संग  
को प्राप्तहोजाताहै और यतिहोके पूजादिक लाभको  
जो प्राप्तहोता है वह कैसाही यतिहो तबभी बन्धन में  
आजाता है ४५ काम क्रोध पाखण्ड लोभ मोहादिक  
इनदोषोंको त्यागके परब्रह्ममें मनयुक्तकरना चाहिये ४६  
हे विप्रो यथा लाभ भिक्षा ग्रहणकरना और अग्नि में  
शाकल्य होमना आदि वानप्रस्थीय धर्म हैं ४७ इस  
प्रकार लोकों में गमन करताहुआ वह यथोक्त मोक्ष-  
स्थानमें प्राप्तहोजाताहै जो शुद्धहोके बुद्धीकी कल्पनामें  
युक्तहो ४८ जैसे इन्धन बिना अग्नि शांतरहता है तै-  
सेही शान्तरहै वह ब्राह्मण ब्रह्मलोकका जयकरताहै ४९ ॥  
इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां व्यासात्सायत्सम्वादे वर्णाश्रमवर्ण

## एकसौनीका अध्याय ॥

मुनियों ने पूछा कि हे महाभाग हे मुने आप सर्वज्ञ हैं और भूत भविष्यत् और वर्तमान कालको जानते हैं १ हे महामते मनुष्योंकी खोटीगति किसकर्मसे होती है और उत्तमगति किसकर्मसे होती है सो कहो २ शूद्र किसकर्म से ब्राह्मण होजाता है और ब्राह्मण किसकर्म से शूद्रहोजाता है यह हमारी सुननेकी इच्छा है ३ व्यास जी बोले कि हे विप्रो एकसमय नानाप्रकारकी धातुओं से भूषित ४ और नानाप्रकारके वृक्षों बेलों तथा आश्चर्योंसे युक्त रमणीक हिमवान् पर्वतपर ५ बैठेहुये त्रिपुरासुरके मारनेवाले त्रिनेत्र महादेवजीसे पर्वतराजकी पुत्री सुन्दरनेत्रोंवाली देवीपार्वतीने भी नमस्कार करके यही प्रश्न किया था और सदाशिव जी ने उसका जो उत्तरदियाथा सो मैं कहता हूँ पार्वतीजी ने कहा कि हे भगवन् हे दक्षयज्ञ विशातन हे दक्षक्रतुहर हे त्र्यक्ष मुझे एक महान् सन्देह है कि चारोवर्णोंको पहिले ब्रह्माजी ने रचा है पर वे किसकर्म से वैश्य शूद्रआदि होजाते हैं ६।९ वैश्य क्षत्रियभावको अथवा ब्राह्मण क्षत्रियताको किसकर्मसे प्राप्त होजाता है १० यह विपरीत कर्मधर्म से वर्जित कैसे होता है और किसकर्मसे ब्राह्मण शूद्र योनिको प्राप्त होजाता है ११ हे विभो हे देव हे भूतपते क्षत्रिय किसकर्मसे शूद्रहोजाता है यह मेरे संदेह है सो आपकहो १२ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनोंवर्ण अन्यथा स्वरूपको कैसे प्राप्त होजाते हैं १३ महादेवजी बोले कि हे देवि ब्राह्मणत्व बड़ी कठिनातासे प्राप्त होता है हे शुभे

ब्राह्मणत्व स्वभावसेही होजाताहै १४ और क्षत्रिय वैश्य  
 शूद्रयोनिभी स्वभावसेहीहोतीहैं मेरीबुद्धिमेंऐसानिश्रय  
 है १५ खोटेकर्मकरनेसे ब्राह्मण स्थान से भ्रष्टहोजाताहै  
 तथा श्रेष्ठवर्णको प्राप्तहोके फिर ब्राह्मणत्वको प्राप्तहोता  
 है १६ ब्रह्मधर्ममें स्थितहुआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्वको प्राप्त  
 होताहै औरक्षत्रिय तथा वैश्यभी ब्रह्मत्वकोप्राप्तहोजाते  
 हैं १७ जो ब्राह्मण अपनेधर्मको त्यागके क्षत्रीकेधर्मको  
 सेवताहै वह क्षत्रियहोजाताहै १८ और जोब्राह्मण लोभ  
 और मोहके आश्रयहोके वैश्यकर्मकरता है तथा सदा  
 वैश्य बुद्धिरखताहै १९ वह ब्राह्मण वैश्ययोनिको प्राप्त  
 होताहै जो ब्राह्मण मैत्रीसेरहित रहताहै वह अपने धर्म  
 से भ्रष्टहोके शूद्रताको प्राप्तहोजाताहै २० और शूद्रतामें  
 खोटेकर्म करने से नरकगामी होता है तथा वर्णसे भ्रष्ट  
 होके नरकसे बाहिर होजाता है २१ और ब्रह्मलोकसे  
 भ्रष्टहोके वर्णसङ्कर होजाताहै ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य  
 शूद्रता को प्राप्तहोजाते हैं २२ जो शूद्र शुद्धहोके ज्ञान  
 तथा विज्ञानधर्मसे धर्ममेंयुक्तहोताहै वह धर्मकेफलको  
 भोगकर २३ ब्राह्मणत्वकोप्राप्तहोताहै वेदपढ़ना ब्रह्मचर्य  
 वृत्तिधारण करना धर्मकी कामनासे मन्त्रकीसिद्धि २४  
 कठोर निन्दित देवगणोंका श्राद्ध का सूतकी का और  
 शिष्टपुरुषका अन्न २५ शूद्रमनुष्य को न भक्षणकरना  
 चाहिये शूद्रकाअन्न मुनिजनों को सदानिन्दित है २६  
 ब्रह्मा के मुखका तथा मेराभी यहीकथन है कि शूद्रान्न  
 भक्षणकरनेसे ब्राह्मण पतितहोजाताहै २७ अग्निहोत्री  
 ब्राह्मण जो शूद्रकाअन्न भक्षणकरले तो समुद्रमें स्नान



करने से शुद्धि को प्राप्त होता है २८ क्योंकि शूद्र का अन्न भक्षण करनेसे ब्राह्मण अपने धर्मसे छूटके शूद्रता को प्राप्त होजाता है इसमें सन्देह नहीं २९ यदि शूद्रके अन्नको खाके ब्राह्मण मरजावे तो वह ब्राह्मण उसी शूद्र की योनिको प्राप्त होके शूद्रके ही अन्नसे जिया करता है ३० जो दुर्लभ ब्राह्मणत्वको प्राप्त होके दूसरे भोज्य वस्तुओं को खाता है वह उस ब्राह्मणपनेसे पतित होजाता है ३१ जो ब्राह्मण होके मदिरापान अथवा चोरी करता है वा शूरीरता तथा खोटीवृत्ति रखता है अशुद्ध ३२ तथा पठन पाठनसे रहित रहता है एवम् पाप तथा लोभयुक्त रहता है और अपने कर्म न करके शठता ३३ खोटी जीविका तथा वेश्यागमन करता है और क्रूर रहता तथा दूध बेचता है तो ऐसे कर्मों के करनेसे वह ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेसे पतित होजाता है ३४ गुरुकी शय्यापर चढ़ने वाला गुरुसे बैर करनेवाला गुरुकी निन्दा करनेवाला और ब्राह्मणसे बैर करनेवाला ३५ ब्राह्मण ब्रह्मयोनिसे अष्ट होजाता है ३६ हे देवि इन शुभ अशुभ कर्मों से शूद्र ब्राह्मणपने को और वैश्य क्षत्रियपनेको प्राप्त होजाते हैं ३७ शूद्रको तीनों वर्णोंकी टहल और शूद्रपने के विधानकिये कर्म यथा न्याय करने चाहिये ३८ निरन्तर श्रेष्ठकर्म करना देव ब्राह्मण और अभ्यागत का सत्कार और व्रतादि करना ३९ ऋतुकाल में स्त्रीसङ्ग नियमकरना प्रमाणका भोजन और दुष्टजनोंसे बैर और ब्राह्मणसे शेषवचा अन्न भोजन करना ४० और वृथामांस का भोजन न करना इन कर्मोंके करनेसे शूद्र वैश्ययोनि

को प्राप्तहोजाता है ४१ सत्य बोलने और झूठ को त्यागनेवाला पाखण्ड रहित सबजीवोंमें समबुद्धिरखने और नित्य यज्ञों का पूजन करनेवाला एवम् पढ़ने पढ़ाने में प्रीतिकरने सदाशुद्धरहने इन्द्रिय दमनकरने और ब्राह्मणका सत्कार करनेवाला और सबवर्णों में भूषणयुक्त गृहस्थ व्रतमें स्थित दोकाल भोजन करने ब्राह्मणसे शेषबचे अन्नको भोजनकरने और भूखको जीतनेवाला तथा कामनासे रहित अहङ्कार रहित वचन बोलने अग्निहोत्र की उपासना करने यथाविधि यज्ञ करने सब अभ्यागतोंमें श्रद्धारखने अभ्यागतोंसे शेषरहे अन्नको भक्षण करने और मन्त्रविहित तीनों अग्नियों का सेवन करनेवाला ४२ । ४६ वैश्य ब्राह्मणयोनि को प्राप्तहोता है ऐसे कर्मोंवाला वैश्य शुद्धियुक्त है तो क्षत्रिययोनि को भी प्राप्तहोता है ४७ वही वैश्य क्षत्रियहोके और जन्मसे आदि यज्ञोपवीतादि संस्कारको प्राप्तहोके यदि व्रत धारण करने में तत्पर रहै तो वह भी ब्राह्मण योनिको प्राप्तहोता है ४८ यज्ञोंसे देवतोंका पूजन करने धनकी प्राप्तिसे दक्षिणादेने स्वर्गकी इच्छाकेवास्ते अध्ययन करने तीनों अग्नियोंके शरणमें रहने ४९ शस्त्रों को धारणकर धर्मसे प्रजाकी पालनाकरने सत्यसत्य कर्मकरने और नित्य शुद्धदर्शनोंमें तत्पर रहने ५० धर्मसे दण्ड देने पापयुक्तको दग्धकरने सदाशान्ति रखने और जहां तहां कार्यमें तत्पर रहने छः लक्षणोंको धारणकरने ५१ और आस्य धर्मोंको न सेवनकरने अपने वेदके अनुसार अर्थ को जानने और धर्म में युक्तहोके

ऋतुकालमें अपनी पत्नीका सेवनकरने ५२ सदा व्रत करने तथा नियमरखने और पढ़नेमें रतरहने बाहिरसे फिरके सदा घरमें शयनकरने ५३ त्रिवर्गकी सदा आतिथ्य करने सदा प्रसन्न मन ५४ तथा अर्थ कामकी इच्छावाले शूद्रको क्षत्रिययोनिकी प्राप्तिहोती है स्वार्थ अथवा काम से कभी कछु न जाने ५५ पितृ देव और अतिथिके वास्ते साधनकरै अपने घरके बीचमें यथान्याय भिक्षाकी उपासना करे ५६ दोकाल अग्निमें हवनकरै यथाविधि यज्ञकरै जो गौ ब्राह्मणके वास्ते अपने प्राण दे देवे ५७ और तीन अग्निमन्त्रोंसे पवित्र हो तो ऐसे कर्म करनेसे वैश्य ब्राह्मणयोनिमें होजाता है ५८ ज्ञान विज्ञानमें सम्पन्न संस्कारसे युक्त वेदको पार करनेवाला शूद्रभी संस्कारको प्राप्त हो वेदसे युक्त ब्राह्मणयोनिको प्राप्त होता है ५९ और ब्राह्मण खोटे कर्मोंसे युक्त सर्वथा चाण्डालों का भोजन करने से ब्राह्मणपने को त्यागके तादृश शूद्र योनिको प्राप्त होजाता है ६० हे देवि सुन्दर कर्मोंसे शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रिय शूद्रभी ब्राह्मणकी तरह सेवना योग्य है यह ब्रह्माजीने कहा है ६१ स्वभावसे शुभकर्म में स्थित शूद्रशुद्ध रहे तो वहभी द्विजातिमें गणनाहोने के योग्य है मेरीभी यही मति है ६२ योनिसंस्कार वेद और न शुद्धसंततिसे रहित ब्राह्मणको व्रतकरना कहा है ६३ व्रतकरने से ब्राह्मणके सब कारण सिद्ध होजाते हैं और व्रतमें स्थितहोके शूद्रभी ब्राह्मणपने को प्राप्त होजाता है ६४ ब्राह्मणपना स्वभावसेही होता है ऐसा सुनते हैं और यही हमाराभी मत है अज निर्गुण और

निर्मलब्रह्ममें ब्राह्मणत्व स्थितहै ६५ हेदेवि हेबरदे इन सुन्दर स्थानों का भाव मैंने तेरे अगाडी कहाहै और प्रजाके रचनेसमय ब्रह्माजीनेभी कहाहै ६६ हेभामिनि ब्रह्माजी ने सबक्षेत्र तथा संसार आदरसे रचाहै और जहां जहां बीजपड़ा है तहां तहां खेती होतीभई ६७ प्रसन्न मनवाले तथा भूषणयुक्त को श्रेष्ठमार्गमें गमन करना और ब्रह्ममार्ग में स्थितहोके रहनाचाहिये ६८ गृहमेधी पुरुष तथा संहिता पढ़नेवालेको घरही श्रेष्ठहै पढ़नेका जीविका करनेवाले पुरुषोंको नित्यपढ़नेपढ़ाने में युक्तरहनाचाहिये ६९ ऐसेकर्मोंको करने और निरंतर अच्छेमार्ग में रहने तथा नित्य अग्निमें हवन करने ७० और नित्य वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण ब्रह्मरूप कल्पना कियाजाताहै ७१ हेदेवि ब्राह्मणत्वको प्राप्तहोके सदा आत्माकी रक्षा करनीयोग्यहै और जन्ममरण की निवृत्तिकेलिये शुद्धहोकेदान तथा कर्मादिककरना योग्य है ७२ मैंने यह सब गोप्यकर्म तेरे अगाडी कहे जैसेशूद्र ब्राह्मणत्वको प्राप्तहोजाताहै ७३ और ब्राह्मण धर्मसे पतितहोके शूद्रताको प्राप्तहोताहै ७४ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांउमामहेश्वरसंवादेनवा

धिकशततमोऽध्यायः १०९ ॥

एकसौ दशका अध्याय ॥

पार्वतीजी बोलीं कि हे भगवन् सब भूतोंमें सुर अ-सुर आदि सबको नमस्कार करने योग्य आपने धर्म तथा अधर्मकानिर्णय कहा पर मुझे एकऔर सन्देहहै १ कि कर्म मन और बाणी इन तीनप्रकारकी बांधवरूपी

फांसी से बँधेहुयेजीव यहांसे छूटके २ किस सुन्दर कर्म  
 और किन आचारयुक्त गुणोंद्वारा स्वर्गकोजातेहैं ३ म-  
 हादेवजीने कहा कि हे देवि हे धर्मार्थतत्वज्ञे हे धर्मनित्ये  
 हे उमे सब प्राणियों के कल्याणकारी तथा बुद्धिकेवढाने  
 वाले प्रश्नकेउत्तरको आपसुनो ४ जो सत्यधर्ममेंरतहैं  
 शान्तरूपहैं सब लिंगोंसे वर्जित हैं धर्म अधर्म में नहीं  
 बँधेहैं जिनका सन्देह दूरहोरहाहै ५ जो जन्ममरणकी  
 उत्पत्ति को जानते हैं और जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी और  
 रागोंसे रहित हैं ऐसे पुरुष कर्मोंके बन्धनसे छूटजाते  
 हैं ६ जो कर्म मन और वाणीसे हिंसाकरते हैं और इस  
 कारणसे कहींडूबतेहैं वे बन्धनमें आजातेहैं ७ प्राणोंके  
 उपतापमेंरत शीलवन्त तथा दयासेयुक्त और द्वेष तथा  
 प्रीतिमें तुल्यब्रह्मचर्यवाले पुरुष कर्मोंके बन्धनसे छू-  
 टजातेहैं ८ और सब भूतोंमें दयारखनेवाले तथा सब  
 जीवोंमें विश्वास न करनेवाले और हिंसाकोत्यागनेवाले  
 तथा शुद्धआचारवाले नरस्वर्गमें गमनकरनेवाले होते  
 हैं ९ परायेद्रव्यको त्यागनेवाले तथा परस्त्री संगसे र-  
 हित धर्मकीलब्धीकेवास्ते भोजनकरनेवाले मनुष्यस्वर्ग  
 में जातेहैं १० और पराई स्त्रीमें जो माता बहन तथा  
 पुत्रीकी बुद्धिरखतेहैं वे पुरुष स्वर्गमेंजातेहैं ११ अपनी  
 स्त्री से संगकरनेवाले तथा ऋतुकालमें गमनकरनेवाले  
 और ग्रामरहित सुखको भोगनेवाले पुरुष स्वर्गमेंजाते  
 हैं १२ और पराईस्त्री को देख नीचेको दृष्टिकरनेवाला  
 जितेन्द्रिय और शीलमें तत्परपुरुष स्वर्गमेंजाताहै १३  
 यह दैवोंका कराहुआ मार्ग बुद्धिमान् पुरुषों को सदा

सेव्य है क्योंकि खोंटे कर्मोंसे रहित मार्ग बुद्धिमानों को सदा सेवनीय है १४ वृथा भूठको त्यागनेवाला मार्ग बुद्धिमान् पुरुषोंको सेवना योग्य है १५ और स्वर्गकी इच्छा करनेवालेको दान कर्म तप शीलता शुद्धि और दयासे अन्य सेवना न चाहिये १६ पार्वतीजी बोलीं कि हे देव हे भूतपते हे अनघ जिससे मनुष्य बन्धनमें पड़ता है तथा जिससे छूटजाता है वह कर्म आप मुझसे कहो १७ महादेवजी ने कहा कि आत्मा तथा और के वास्ते जो माहात्म्य श्रवण करता है और भूठी बाणी नहीं बोलता वह स्वर्ग में जाता है १८ और जीविका तथा धर्मके वास्ते जो कर्म करते हैं और भूठ नहीं बोलते वे नर स्वर्गमें जाते हैं १९ जो आयेहुये मनुष्यसे कपटरहित श्रेष्ठ मीठी तथा पापरहित बाणी कहते हैं वे नर स्वर्गमें जाते हैं २० और जो पुरुष कठोर और पैना वचन नहीं कहते और चुगलीसे रहित रहते हैं वे स्वर्गमें जाते हैं २१ जो मनुष्य चुगली नहीं करते और सदा सम रहते हैं वे स्वर्गमें गमन करनेवाले होते हैं २२ और जो किसी पुरुषसे बैर नहीं करते कठोर वचन नहीं बोलते सब भूतोंमें समबुद्धि रखते हैं और ब्रह्मचर्य्य वृत्ती रखते हैं वे नर स्वर्गमें जाते हैं २३ जो क्रोधमें हृदयको भेदन करनेवाला वचन नहीं बोलते बलिक क्रोवयेंभी शान्ति वचनही कहते हैं वे नर स्वर्गमें जाते हैं २४ हे देवि यह बाणीका धर्म बुद्धिमान् पुरुषको सदा सेवना योग्य है २५ उमा बोलीं हे महाभाग हे देव हे पिनाक-धृक् मनसे कैसे पुरुष बन्धनमें होजाता और छूटजाता

है सो कहो २६ महेश्वर बोले कि जो मनुष्य मानस धर्ममें सदा युक्त रहताहै वह स्वर्ग में जाता है २७ हे कल्याणि मैं उसे कथन करताहूं सुनो हे शुभानने जो मनुष्य मनमेंभी यह नहींलाता कि हूं २८ उसपुरुषकी आत्मा बन्धनमें नहीं पड़ती मनुष्य रहित बनमें पराया धराहुआ द्रव्य देखके २९ जो मनसे भी लेनेकी इच्छा नहीं करता वह मनुष्य स्वर्गका अधिकारी होताहै ३० और जो मनसे शत्रु तथा मित्रको तुल्य देखताहै और जो मित्रताको प्राप्त होताहै वह स्वर्ग में जाता है ३१ वेदपाठी दयावाले शुद्ध तथा सत्यका संग्रहकरनेवाले और अपनेही अर्थोंमें प्रसन्ननर स्वर्गमें जातेहैं ३२ और जो किसी से बैर नहीं रखते पराई आशा नहीं करते सदा प्यारमें रतरहते हैं और सब भूतों में दया रखते हैं वे नर स्वर्गमें जाते हैं ३३ जो श्रद्धाकरते हैं दयारखते हैं सुखकी वस्तुमें प्यारकरते हैं और नित्य धर्म अधर्मका कथनकरतेहैं वे नर स्वर्गमें जातेहैं ३४ और शुभ तथा अशुभ कर्मोंके फलका संचय करने वाला और देवताका भोगलगानेवाला मनुष्य स्वर्ग में गमनकरता है ३५ जो पापोंसे बचकरके देव तथा ब्राह्मण का पूजन करतेहैं और उन्हें देखकर खडेहोतेहैं वे नर स्वर्गमें गमनकरते हैं ३६ हे देवि यह तो शुभ कर्मोंके फल मैंने तुझसे कहे अब स्वर्गमार्गको जानके और क्या इच्छा करती है ३७ उमाबोलीं हे महेश्वर मनुष्योंकी लीला कैसीहै यह सन्देहहै सो आप निपुणतासे कहिये ३८ हे प्रभो किसकर्म से मनुष्य दीर्घ

आयुको प्राप्तहोताहै हे देवेश तपकरकेभी मनुष्य दीर्घ आयुको प्राप्तहोताहै ३६ और महाभाग्य मन्दभाग्य तथा खाटीदशाकोभी पीडितहुये प्राप्तहोतेहैं ४० हेमहा-  
 प्राज्ञ वैसेही ज्ञान विज्ञानमें युक्तहोकेभी मनुष्य अल्प तथा महत् पीड़ा को ४१ प्राप्तहुये दीखते हैं इसलिये इनका उपाय कर्म आपकहें ४२ महादेवजी बोले कि हेदेवि मनुष्योंके कर्मोंका फल मैं तेरेलिये कहूँगा ४३ प्राणोंके पातनके लिये हाथमें सदा दण्ड धारणकरने वाला नित्य शस्त्र का उद्योग करनेवाला तथा भूतग-  
 णोंको मारनेवाला दयारहित सब भूतोंमें नित्य उद्वेग करनेवाला और शरणआये कीट पतङ्गोंमेंभी दया न रखनेवाला मनुष्य ४४।४५ नरकमें जायाकरताहै और इन कर्मोंसे रहित धर्मात्मा पुरुष अपने रूपको प्राप्त होताहै ४६ जो मनुष्य हिंसा कियाकरताहै वह नरक में जाता है तथा हिंसा न करनेवाला स्वर्ग में जाता है ४७ पापकर्मसे कठोरनरककी पीड़ाको मनुष्यदुःखसे प्राप्तहोताहै और कोई किसीकालमें नरकोंको तिरजाय तो ४८ मनुष्ययोनिको प्राप्तहोकेभी हीनआयुको प्राप्त होताहै जो शुद्धजातिमें पैदाहोके प्राणियों की हिंसासे रहितहो ४९ शस्त्र न चलावे पाखण्ड न करे और किसी कालमें भी हिंसा न करे और न घातकरे न हननकरे न मारतेको देखके आनन्दहो ५० बल्कि सब भूतोंमें सु-  
 न्दरस्नेहकरे और अपने तथा परायेकी आत्मा में समता देखे और सब भूतोंमें सदृशरहै वह मनुष्य देवपनेको प्राप्तहोजाता है ५१ प्राप्तहुये सुख तथा भोगादिकों



को आनन्दहोके भोगनेवाला मनुष्य किसीकालमें मनुष्यलोकमें उत्पन्नहोके ५२ बड़ी आयुको प्राप्तहो सुन्दरव्रत तथा सुन्दर कर्मोंके करनेसे देहको त्याग ब्रह्माके लोकमें जाके आनन्दयुक्त रहताहै ५३ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां उमामहेश्वरसंवादे दशाधिक  
शततमोऽध्यायः ११० ॥

### एकसौ ग्यारहका अध्याय ॥

उमाने पूछा कि शील क्याहै सम्यक् आचार क्या है और पुरुष किस कर्म अथवा किस दानसे स्वर्गको प्राप्त होता है १ महेश्वर बोले कि दानदाता ब्राह्मण का सत्कार करनेवाला दुःखी तथा कृपणों पर दीनता करनेवाला भक्ष्य भोज्य अन्नको खानेवाला तथा वस्त्र का दान देनेवाला बुद्धिमान् पुरुष तथा सभाके वास्ते स्थान बनानेवाला पौशाला बिठानेवाला तथा नदियों में स्नान करनेवाला और नित्य नैमित्तिक कर्म की इच्छावाली सब वस्तु आसन शयन पान गृह रत्न धन घास उत्पन्न होनेवाले सब खेत तथा स्त्री सुन्दर मन हो ब्राह्मणकेलिये दानकरके देदेता है वह मनुष्य देवलोकमें जाताहै २।५ और वहां बहुत काल बासकरके उत्तमभोगोंको भोग अप्सराओं सहित आनन्द हुआ नन्दनादिक बनों अर्थात् इन्द्रकेबगीचोंमें रमणकरता है ६ फिर तिसस्वर्गसे आके मनुष्यलोकमें जन्मता है और हे देवि वहमहाभाग ७ वहांभी इच्छापूर्वक गुणोंको प्राप्तहोके महाकायावाला महाभोगों से युक्त तथा धनवान् होताहै ८ हे देवि ये सब महाभागवाले प्राणी देव

शीलको धारणकरनेवाले हैं पहिले ब्रह्माजीनेभी प्रिय दर्शनवाले यही कहेहैं ९ जो मनुष्य दानदेनेमें कृपणता करतेहैं घरमें विद्यमान अन्नको जो कुबुद्धिपुरुष दान नहीं करते १० और जिङ्गाकेलोभमें युक्तहोके दीन कृपण तथा निर्धन भिक्षुकों और मांगनेवालोंको निवर्त्तन करदेतेहैं ११ तथा जो धनादिक वस्त्रादिक वा भोगादिक अथवा सुवर्ण और गौकादान नहींकरते १२ और जो अन्नको बेचाकरतेहैं वे दुष्ट नास्तिक तथा दानसे हीन पुरुष १३ नरककोजातेहैं और जब पापकाकाल पूरा होलेताहै तब वे मनुष्यताको १४ प्राप्तहोके धनसेरहित थोड़ी बुद्धिवाले और लोकोंसे निन्दितहुये भूखसे पीडित रहतेहैं १५ और सब भोगोंसे रहित रहतेहैं आसनकेयोग्य पुरुषको जो आसन नहींदेते १६ और जो गुरुसे बैरकरतेहैं वे पुरुष नीचकुलमें जन्मलेतेहैं और जो नगर्वकरतेहैं न मानकरतेहैं और देवता और अतिथी को पूजतेहैं १७ ऐसे नर हे देवि स्वर्ग को प्राप्त होतेहैं और वहां का सुख भोगके फिर मनुष्यता को प्राप्तहोके लोभ तथा ममतासे रहित रहतेहैं और श्रेष्ठ पुरुषोंमें मानको प्राप्तहोते हैं १८ जो पुरुष मान्य और वृद्धपुरुषोंका तिरस्कार करतेहैं वे नरकमें प्राप्तहोते हैं और बहुतदिन पीछे नरकसे निकसके कुत्सित कुलमें जन्मतेहैं १९ वे अल्पबुद्धि अपनेपापोंसे चाण्डाल कुत्सित तथा दुष्टचित्तवालों के मार्गमें अपनी अवस्था को व्यतीत करतेहैं २० यदि वे अल्पबुद्धिवाले पुरुष अन्नदान अभ्यागतोंकोदेके प्रेमसे शुभका आचरण

करें तथा गुरुको अन्न दें २१ तो अच्छे पुरुषोंको भोजन करानेसे मनुष्यता को प्राप्त होते हैं यह सब धर्म ब्रह्माजी ने आप कहा है २२ जो महादेव का तो सम आचार करते हैं पर सब जीवोंको भय देते हैं और हाथों तथा पैरोंसे रस्से दण्ड २३ लोहे तथा थंभे अथवा अन्य उपायोंसे शोभन पुरुषको बांध देते हैं हिंसाका कर्म करते हैं और जीवोंको कँपाते हैं २४ तथा उद्वेग देते हैं वे मनुष्य नरकको प्राप्त होते हैं २५ और जो वे कालपाके कदापि नरकसे निकसकर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं तो बुगलेके बन्धनकी तरह क्लेशको प्राप्त होके नीचकुल में पैदा होते हैं २६ हाथोंके बांधने पैरोंके दाबने और दण्ड लोष्ठ तथा शस्त्रोंसे मारनेसे २७ जो भूतोंको उद्वेजन अर्थात् भयको नहीं प्राप्त करते और सदा शुभ कर्म करते हैं वे शील सदाचारमें युक्त २८ मनुष्य स्वर्ग का वास करते हैं और दिव्य भवनोंमें जाके देवताओंकी तरह आनन्द भोगते हैं २९ जो ईर्ष्या नहीं रखता और थोड़ा परिश्रम करता है तथा आनन्दयुक्त रहता है वह मनुष्य सुखको प्राप्त होता है ३० सुखके भोगनेवाला किसीकी आशा न करनेवाला और उद्वेगोंसे सदा रहित रहनेवाला जहां कोई बाधा नहीं है ऐसा सत्पुरुषोंका मार्ग है ३१ उमा बोलीं कि हे देव ये मनुष्य तो कोई महा उत्साह तथा सुन्दररूपवाले दीखते हैं और कोई खोटी बुद्धिवाले तथा ज्ञान विज्ञानसे रहित होते हैं ३२ तो किस कर्मके फलसे कोई बुद्धिवाले होजाते हैं और कोई थोड़ी बुद्धि तथा खोटेरूपवाले होते हैं ३३ हे सर्व-

धर्मभृताम्बर यह मेरा संदेह दूरकरो और यहभी कहो कि किसकारणसे जीव जन्मसेही अंधे तथा अन्यरोगों से युक्त होते हैं ३४।३५ महेश्वर बोले कि वेदको पढने वाले ब्राह्मणों सिद्धों और धर्ममें रमण करनेवालों से कुशल तथा अकुशल कर्मोंको दिन प्रतिदिन पूछै ३६ और अशुभकर्मोंको त्यागकर शुभकर्मका साधन करै तो नित्य लोकका सुख तथा स्वर्गगति प्राप्त होती है ३७ और मनुष्यताको प्राप्तहोके बुद्धिमान् कुलमें जन्म ले वेदोंके श्रवण और यज्ञोंके करने से कल्याणको प्राप्त होता है ३८ जो पराई स्त्रीका संग करते हैं उनके नेत्र दुष्ट होजाते हैं और वे उस दुष्ट स्वभाव से अन्धे जन्मते हैं ३९ दुष्ट मनसे जो नग्न स्त्रीको देखते हैं वे इस लोकमें रोगसे पीडित रहते हैं और परलोकमेंभी रोग युक्त जन्मते हैं ४० जो मूढजन ब्रह्मा के शुभमार्ग को प्राप्त होके ग्राम्यकर्म की प्रवृत्तिसे मैथुन करने में रत रहते हैं वे खोटी योनि को प्राप्त होते हैं ४१ और जो मनुष्यों में खोटी बुद्धि रखते हैं वे नपुंसकता को प्राप्त होते हैं जो पशूको नहीं बांधते तथा गुरुकी शय्यापर चढ़ते हैं ४२ और मैथुन करनेमें युक्त हैं वेभी नपुंसकताको प्राप्त होते हैं ४३ उमाने पूँजा हे देव हे सत्तम किस कर्मसे मनुष्य निन्दित होजाता है तथा किस कर्म से नहीं निन्दित होता और शुभकर्म करने से मनुष्य कहां प्राप्त होता है ४४ महेश्वर बोले कि जो सदा श्रेय की इच्छाकरे और ब्राह्मणोंसे पूछै धर्मकी निन्दा नकरै और गुणोंकी बाञ्छारखै वह पुरुष स्वर्गको प्राप्त होता

है ४५ और जो कदाचित् मनुष्यताको प्राप्तहो तो बुद्धिमान् धारणासे युक्त ब्राह्मणकुलमें जन्मताहै ४६ हे देवि यह सदा धर्म कहा है सिद्धिकी इच्छा करनेवाले को इस मार्गमें गमन करना चाहिये ४७ यह धर्म मनुष्योंके कल्याणके वास्ते मैंने तेरे अगाडी कथन किया है ४८ उमाने पूछा कि थोड़े ज्ञानवाले धर्मसे बैर करने वाले वेदके पढ़ेहुये ब्राह्मणोंको जो भिड़कनेकी इच्छा करनेवाले ४९ खोटी वृत्ती तथा अष्ट नियमवाले ब्रह्मराक्षस और यज्ञदान करनेका नियम न करनेवाले तथा मोहसे युक्त ५० किस गतीको प्राप्त होते हैं ५१ महेश्वर बोले कि जो व्रतमें युक्त नहीं हैं तथा मर्यादा को तोड़नेवाले हैं वे ब्रह्मराक्षस होते हैं और लोकके धर्म को जो नहीं करते वे पूर्णहुई सिद्धिको जो नष्ट करदेते हैं ५२ वे पुरुष दृढ़से युक्तहोके प्रमादमें युक्त दीखते हैं और जो मोहके वशमें आके अधर्मको धर्म मानतेहैं ५३ वे अधम कालके उद्योगसे यदि मनुष्यताको प्राप्त होजायें तो होम तथा सत्कारसे रहित रहते हैं ५४ हे देवि मैंने तेरे अब सब सन्देह दूर किये और कुशल तथा अकुशल कर्मों में युक्त नरोंका सागररूप धर्म तेरे अगाडी कहा ५५ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां उमामहेश्वरसंवादे

एकादशोत्तरशततमोऽध्यायः १११ ॥

एकसौबारह का अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि हेद्विजो इसप्रकार वह जगत्की माता उमा सबप्रकारके धर्मोंको पतिके सकाशसे सुनके

प्रसन्नहुई १ हे द्विजो एक समय अनेक मुनिवर तीर्थ-  
यात्राके प्रसंगसे महादेवके समीप उस पर्वतपर जाके  
लोकके हितकी कामनासे बोले कि हेत्रिलोचन हेदक्ष-  
क्रतुविनाशक आपको नमस्कारहै हम अपने हृदयका  
एक सन्देह आपसे पूछते हैं कि महाघोर भयके देने-  
वाले रोमोंके उत्थानरूपी संसारमें थोड़ी बुद्धिवाले मनु-  
ष्य बहुतकाल भ्रमते हैं २।५ इसलिये जिसउपायसे वे  
संसारके जन्म तथा मरणरूपी बन्धनोंसे छूटें सो आप  
कहो हम सुनने की इच्छा करते हैं ६ महेश्वर बोले हे  
द्विजो कर्मरूपी फांसीसे बँधेहुओं तथा दुःखभागियोंका  
उद्धारक वासुदेवके सिवाय मैं किसीको नहीं देखता ७  
शंख चक्र और गदा धारण करनेवाले देवको जो मन  
और वाणीसे पूजते हैं वे परमगंतिको प्राप्त होते हैं ८  
और जिनके चित्तमें जगन्मय विष्णु नहीं हैं उन मनुष्यों  
के पशुवत् चेष्टा सहित जीवनेसे क्याहै ९ ऋषिजनोंने  
पूछा कि हे पिनाकिन् हे भगनेत्रघ्न हे सर्वलोकनम-  
स्कृत सूर्यकी तरह उदित होनेवाले उस परमेश्वरको  
हम नहीं जानते १० शिवजीने कहा कि यह दशभुजों  
और महातेजवाला सब देवतों के शत्रुओं का नाशक  
श्रीचिह्नवाला और इन्द्रियों का ईश सब देवतों से पू-  
जनीय है और उसके उदरसे ब्रह्मा और शिव शिरके  
रोमोंसे सुर अमुर ऋषि देवता और सबलोक हुये हैं  
इस सम्पूर्ण पृथ्वी तथा तीनों भुवनों का वही ईश्वर  
है ११।१२ और चराचर सबभूतोंका संहार करनेवाला  
भी वही है वह देवतोंमें तत्पर रहताहै और उनकोभी

परन्तपहै वहसर्वज्ञहै सबको रचनेवालाहै सबका अङ्गहै और सबकामुखरूपहै १३ उससे परे त्रिलोकीमें कोईभी नहीं है वह सनातन है महाभाग है गोविन्दनामवाला है १४ और सब राजाओंको युद्धमें मारने तथा मान को देनेवाला है देवतोंके कार्यके लिये वह मनुष्य शरीरमें उत्पन्न होता है १५ और सब देवगण उस त्रिबिक्रम के बिना कोई कार्य करनेको समर्थनहीं हैं १६ गणों से रहित भगवान्के बिना देवताओं के गणकोई कार्य करनेको भुवनमें समर्थ नहीं हैं वह सब भूतोंका पतिहै और सबभूत उसको नमस्कार करते हैं १७ वह देवतोंकानाथ तथा जो देवकार्यपरहै तिनका और ब्रह्मभूतों तथा निरन्तर ब्रह्मर्षियोंका शरणहै १८ वह निरन्तर ब्रह्मादिकोंका तथा मेराशरीरहै और उसके शरीरमें सब देवता स्थितहैं १९ वह पुण्डरीकाक्ष श्रीगर्भ तथा श्रीसहित रहनेवाला शार्ङ्गधनुष तथा खड्गसेयुक्त सबनागोंके शत्रुओं में ध्वजारूप उत्तमहै और शीलता शुद्धि दम पराक्रम वीर्य शरीर दर्शन रूपोंवाला चलनेके प्रमाणसे धीर्यतावाला श्रेष्ठता और सम्पदाको धारणकरनेवाला और निःसन्देह रूपबलिष्ठ तथा आनन्द युक्त सब शस्त्रों और दिव्य तथा अद्भुत दर्शनों को धारणकरनेवाला योगमायासे सहस्राक्ष महामनसे बिरूपाक्ष तथा बाणी से मित्रजनों की रक्षा करनेवाला कांतिसे बन्धुजनोंसे प्यार और दया करनेवाला सत्य बोलनेके लिये देवरूप ब्राह्मणका बालक २०।२५ भय से पीड़ितोंके भयको हरनेवाला और मित्रोंको आनन्द

बढ़ानेवाला तथा सब भूतोंका शरण्यहै और दीन पुरुषोंकी पालनामें रत है २६ वह वेदके अर्थमें सम्पन्न तथा सब भूतोंसे नमस्कार करने योग्यहै और अपने आसरे आयैहुये को आनन्द देनेवाला तथा शत्रु को मारनेवाला नीतिको जाननेवाला सब गुणोंमें सम्पन्न तथा ब्रह्मका वाद करनेवाला और जितेन्द्रियहै और जन्मके अर्थ ऋषि और देवतोंको नमस्कार करनेवाला गोविन्द मनुके वंशमें जन्म लेके अंशनामवाला मनुका पुत्र होताहै कालसे अन्तर्द्धान होताहै अन्तर्द्धानसे हविर्द्धान होताहै और निन्दासेरहित प्रजाकापति हविर्द्धानके प्राचीनवर्हिहोताहै २७।३० प्राचीनवर्हिके प्रचेता नामवाले दशपुत्र हुये और प्रचेताके पुत्र प्रजाकापति दक्षभया ३१ दाक्षायणीके सूर्यहुआ सूर्यके मनुहुआ ३२ मनुके बैवस्वत हुआ बैवस्वतके सुद्युम्नहुआ सुद्युम्नके नहुषहुआ नहुषके ययातिहुआ ३३ ययातिके यदु हुआ यदुके महा शरीरवाला क्रोष्टा पुत्र हुआ और क्रोष्टाके महानृजिनी नामवाला पुत्रहुआ ३४ वृजिनीके उषंगु हुआ उषंगुके शूरवीर चित्रनर हुआ ३५ और तिससे छोटेपुत्र शूरवीरनहींहुये उन विख्यातवीर्य तथा चरित्र गुणोंमें शीलतावाले और शुद्ध यदुओंके वंशमें शूरवीर ३६ क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ महावीर्यवाला महायशवाला और अपनेवंशको बढ़ानेवाला वसुदेव उत्पन्नहुआ ३७ वसुदेव नाम से विख्यात आनकदुन्दुभिका पुत्र चार भुजाओंवाला वासुदेव पुत्रहुआ ३८ और वह ब्राह्मणोंका सत्कार करनेवाला ब्रह्मभू द्विजोंमें ध्यार करनेवाला



राजाओंको प्रीतिमें युक्त करनेवाला पर्वतके समीप ज-  
 रासन्ध राजाको जीतनेवाला सब राजाओंको वीर्यसे  
 जीत रत्नोंसे युक्त रहनेवाला पृथ्वीपर शंकारहित वि-  
 चरनेवाला और पराक्रमसे सब राजाओंमें श्रेष्ठ राजा  
 होनेवाला शरवीरतासे राजाओंको हननकर द्वारकामें  
 जा बस और हे देवि मुझको जीतके फिर मेरी पालना  
 करनेलगा ३९।४२ जो उस स्थानको प्राप्तहोके यथा  
 न्याय ब्रह्माकी तरह भगवान् का पूजन करते हैं ४३  
 तथा शिवजी और पितामह ब्रह्माको देखने की इच्छा  
 करते हैं तिन पुरुषों ने प्रतापवाले वासुदेव भगवान्  
 को देखलिया है ४४ और तिसके देखने में मुझे भी  
 देखलिया है और ब्रह्मा को भी देखलिया इसमें कछु  
 शंका नहीं है ४५ जो अपनाद्रव्य तप तथा धन पुण्ड-  
 रीकाक्ष के प्रति अर्पण करदेते हैं और जो मनुष्यके-  
 शव के आश्रय होजाते हैं ४६ तिनकी कीर्ति और  
 यश स्वर्गमें होजाताहै और वे पुरुष धर्मोंके दिखाने  
 वाले तथा धर्मके कथनकरनेवाले होजातेहैं ४७ धर्मके  
 जाननेवाले पुरुषोंको वहदेव नमस्कारकरनेको योग्यहै  
 और जब हरिका पूजनहो वही दिन धर्म युक्तहै ४८  
 वह महातेजवाला देव प्रजाकेहितकी कामनासे धर्मके  
 लिये सिंहरूपी पुरुषों तथा ऋषियोंकी कोटी रचताहै  
 ४९ और भगवान् के रचेहुये सनत्कुमार आदि सब  
 गन्धमादन पर्वतपर तपसेयुक्त स्थित रहतेहैं ५० हे  
 द्विजपुंगवो इसकारण वह परमेश्वर सबका अंगहै और  
 धर्मज्ञ पुरुषोंको उस परमेश्वर का नाम ५१ उच्चारण

करना तथा कराना और मानना तथा मनाना चाहिये  
 एवम् दिन प्रति दिन सावधान होके उसके आश्रय होना  
 चाहिये ५२ हे द्विजसत्तमो उस देव का पूजन करना  
 तथा कराना चाहिये क्योंकि ऐसा करने वाले पापरहित  
 पुरुष का विष्णु ही परमतप है ५३ सज्जन पुरुषों को  
 आदिदेव का आचरण सदा करना चाहिये और जो  
 घरमें देवतों सहित विष्णु का नित्य पूजन करता है ५४  
 वह इसरूपको त्यागके विष्णुरूपको प्राप्त होजाता है  
 जो कर्म मन और बाणीसे विष्णुरूप ब्राह्मणको सदा  
 आसन देता है ५५ और यत्न करके देवकी सुत भगवान्  
 को देखता है वह विष्णुरूप होजाता है ५६ हे मुनि स-  
 त्तमो यह मार्ग मैंने तुम्हारे प्रति कहा है उस महाबराह  
 रूपवाले विष्णुदेवका जो दर्शन करते हैं तिन्होंने सब  
 देवतोंका दर्शन किया है ५७ और सम्पूर्ण लोकके पिता-  
 महरूप उस देवको और मुझको देखके जो नमस्कार  
 करता है ५८ तिसने त्रिलोकी के दर्शन किये हैं इसमें  
 सन्देह नहीं और हम सब देवता उसी हरिकी आज्ञामें  
 हैं ५९ उसी हरिकी अग्रजभ्राता श्रेष्ठ पर्वतोंपर गमन  
 करनेवाला और हली तथा बल नामोंवाला पृथ्वीको  
 धारण करनेवाला है ६० और उसके तीन एवम् अ-  
 नन्तशिरहैं कश्यपजीके आत्मज बलवान् गरुड़जीदि १  
 उस अनन्तको वैरभीविसे देखनेके वास्ते अनन्दयुक्त  
 होके हरि के पास स्थित है और वह अनन्त पृथ्वीको  
 धारणकर अंग संकोच करे जलके अंतर रहता है ६१  
 वे राम और हृषीकेश अच्युत तथा पृथ्वीको धारण

करनेवाले ६३ दोनों पुरुष सिंह दिव्यरूप तथा परा-  
क्रमयुक्त चक्रलांगलको धारणकरनेवाले देखने योग्य  
तथा माननीय हैं ६४ यह मैंने तुमसे उनपरमेश्वरोंकी  
अनुग्रहसे कहा है इसकारणसे यदुश्रेष्ठ भगवान् का  
यत्नसे पूजनकरना योग्यहै ६५ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायामहेश्वरशासनं नाम

द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ११२ ॥

### एकसौतेरहका अध्याय ॥

मुनिजनोंने पूछा कि हे महामुने वासुदेवकी विधिपू-  
र्वक भक्तिसे पूजनेमें रतरहनेवाला मनुष्य कौनगतिको  
किसमोक्षको तथा किसस्वर्ग को प्राप्तहोताहै अथवा  
दोनोंफल कैसे हैं १।२ हे सर्वज्ञ हमारे हृदयमेंस्थित इस  
सन्देह को दूरकरनेकेलिये आप योग्यहैं और हे मुनि-  
सत्तम आपके सन्देह को दूरकरनेवाला कोई नहीं है ३  
व्यासजीबोले कि हे मुनिश्रेष्ठाहो तुमने जो पूछा सो श्रेष्ठ  
है और जन्ममरण का उपाय तथा विष्णुभक्तोंको सुख  
का देनेवाला है ४ हे द्विजो कृष्णकी दीक्षामात्र से नर  
मोक्षको प्राप्तहोजाते हैं ५ हे मुनिसत्तमो विष्णुभक्तों  
को मोक्षलोभ नहीं है और वे जिस जिस दुर्लभकामों  
की इच्छा करतेहैं तिसही को प्राप्तहोजाते हैं ६ हे मुनि-  
शार्दूलो जैसे मनुष्य पर्वतपर चढ़के रत्नोंको प्राप्तहो-  
जाताहै तैसेही स्वेच्छासे कृष्णकी पूजाकरनेसे मनुष्य  
सब भिन्नोरथोंको प्राप्तहोजाताहै ७ विधिवत् श्रद्धासे  
जो जंगद्गुरु वासुदेव को पूजता है वह धर्म अर्थ काम  
और मोक्षकेफलको प्राप्तहोताहै ८ और जो शुद्धात्मा

होके जगन्नाथ भगवान् का आराधन करता है वह दे-  
 वतों को भी दुर्लभ कामना को प्राप्त होता है ९ जो  
 वासुदेव नामवाले अव्यय देवका सदा भक्ति से पूजन  
 करता है तिसको संसारमें कोई मनोरथ दुर्लभ नहीं है  
 १० और उस पुरुषको धन्य है जो सदा सब पापों के  
 हरनेवाले और सब कामनाओंके देनेवाले हरिका पू-  
 जन करता है ११ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रीजन  
 और म्लेच्छादिक सब देवतोंमें श्रेष्ठदेवको पूजके परम  
 गतिको प्राप्त होते हैं १२ हे अनघो जो तुम पूँछते हो तो  
 सुनो उन महात्माओं की गतिको मैं संक्षेपसे तुम्हारे  
 अगाड़ी कहता हूँ १३ रोगोंका स्थान अध्रुव जरा मरण  
 संयुक्त तथा जलके बुद्बुदेकी तरह अस्थिर और मांस  
 रुधिरसे दुर्गन्धित एवम् विष्ठा मूत्रादिकोंसे भरे और  
 हाड़ मेद आंत खाल शिरादिकों से युक्त पुरुष शरीर  
 दिव्य गन्धर्वोंके शब्दोंसे युक्त मनोरथ सिद्ध करनेवाले  
 विमानोंमें बैठके तरुण अवस्थाके सूर्यबर्णकी किरणों  
 से मण्डित हुये अलंकृत गन्धर्वों तथा अप्सराओं के  
 गानसे युक्त लोकपालों के भवन में पृथक् पृथक् जाते  
 हैं १४।१७ और मन्वन्तरके अन्ततक यथाकाल भोगों  
 को भोगते हैं और सब भोगोंसे युक्त हुये पृथक् पृथक्  
 भवनोंमें वास करते हैं १८ आकाशमें होनेवाला वह लोक  
 उन्हें सब सुखोंका देनेवाला है जहां वह दशमन्वन्तरतक  
 श्रेष्ठभोगोंको भोगता है १९ हे द्विजो फिर वे नरगंधर्वों  
 के लोकमें जाते हैं और एकमन्वन्तर पर्यन्त मनकोरमण  
 करानेवाले भोगोंको भोगते हैं २० फिर वहांसे सूर्यके

लोकमें जाते हैं और वहां उत्तमपुत्रको प्राप्त होके तीस मन्वन्तर पर्यन्त देवतोंके भोगोंको भोगते हैं २१ हे विप्रो फिर वे चन्द्रमाके लोकमें जाते हैं और वहां चालीस मन्वन्तर पर्यन्त सुखके भोगोंको भोगते हैं २२ और वहां जरा मरण से रहित सब भोगोंको भोगके फिर सब गुणोंसे अलंकृत नक्षत्रोंके लोकमें २३ जाते हैं जहां पञ्चाश मन्वन्तर पर्यन्त बाञ्छित भोगोंको भोगते हैं २४ फिर हे विप्रो वहांसे वे दुर्लभ देवलोकमें जाते हैं जहां साठ मन्वन्तर पर्यन्त दुर्लभ भोगोंको भोगके २५ इन्द्रके लोकमें जाते हैं और सात मन्वन्तर पर्यन्त रहके उच्चावच तथा दिव्य और मनकी प्रीतिको बढ़ाने वाले नाना भोगोंको भोगते हैं फिर तहांसे प्राजापत्य लोकमें जाते हैं तहां सब कामगुणोंसे युक्त बाञ्छित भोगोंको भोगते हैं २६।२८ और अस्सी मन्वन्तर पर्यन्त रहते हैं फिर वहांसे हे द्विजो पितरोंके लोकमें जाते हैं जहां नव मन्वन्तर तक क्रीडासहित सुखको भोगते हैं २९ और फिर वहांसे ब्राह्मणोंके श्रेष्ठकुलमें जन्मते हैं और वेदशास्त्रपारङ्गत योगी होते हैं ३० ऐसे सब लोकोंमें बाञ्छित भोगोंको भोगके क्रमसे यहां आते हैं ३१ और हे द्विजो उत्तमो जन्म जन्ममें सौ वर्ष की आयुवाले होते हैं और बाञ्छित भोगोंको भोगके अन्यलोकोंको प्राप्त होते हैं ३२ ऐसे दशजन्म पर्यन्त क्रमण करनेसे ब्रह्मलोकमें जाके फिर हरिके लोकमें जाते हैं ३३ और वहां सौ मन्वन्तर पर्यन्त जन्म मृत्युसे रहित सब गुणोंसे युक्त शेषरहे भोगोंको भोगते हैं ३४ फिर हे द्विजो तो

वे भगवान् बाराहजीके लोकमें जाते हैं और वहां दिव्य देह तथा महाकाया और महाबलको धारण करते हैं ३५ हे विप्रेन्द्रो वहां वे चार भुजावाले रूपको धारण करके एकसर्व वर्ष तक क्रीड़ा करके ३६ निरन्तर भावमें स्थित सब देवतों से नमस्कृत कियेहुये वे धीरपुरुष नरसिंह के लोकमें जाते हैं ३७ वहां दशकिरोड़ वर्ष आनन्दसे रहते हैं और फिर वहांसे विष्णुलोक में जाते हैं तहां साधन करनेमें समर्थ ३८ अर्बुदकोटी देवतोंके भोगों को भोग के फिर ब्रह्ममें जाते हैं और वहांभी साधन करनेमें युक्त रहते हैं ३९ वहांभी सैकड़ों हजार वर्ष रहके नारायणके लोकमें जाते हैं और वहांभी साधनासे युक्त रहते हैं ४० वहां कोटी अर्बुदवर्ष भोगोंको भोगके अनिरुद्धके लोकमें जाते हैं और दिव्यरूप तथा महाबल से युक्त रहते हैं ४१ वहां चौदह हजार कोटी वर्ष सुर असुरोंसे स्तूयमान साधकोंमें श्रेष्ठ रहते हैं ४२ और विष्णुकी भक्तिमें स्थित होके जरामरण से रहित वहां स्थित रहते हैं ४३ फिर वहांसे विगतज्वर रूपहुये वे सब पुरुष प्रद्युम्नके लोकमें बास करते हैं ४४ तहां हे विप्रो वे तीनसैलक्षकोटी वर्ष रहके इच्छापूर्वक गमन करनेवाले आनन्द तथा बलशक्तिसे युक्तहोके ४५ जहां संकर्षणदेव रहताहै वहां जाते हैं और बासकरके हजारहा भोगों को भोगके ४६ विरूपाख्य तथा निरंजन वासुदेवमें प्रवेश होजाते हैं तहांसे विमुक्त होके जरामरणसे रहित स्थानमें बासकरते हैं ४७ हे मुनिशार्दूलो इसप्रकार क्रमसे वे मनुष्य भक्तिको प्राप्त होते हैं और

वासुदेवके पूजनकरनेसे भक्तिप्राप्त होती है ४८।४९ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायाविष्णवानांगतिरव्यापनोनाम

त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ११३ ॥

एकसौचौदह का अध्याय ॥

व्यासजीने कहा कि दोनों पक्षोंकी एकादशीको नि-  
राहार रहै और अच्छे विधानसे स्नानकर धोतीपहिन  
और जितेन्द्रिय रहके १ श्रद्धायुक्त विधिवत् धूप दीप  
नैवेद्य पुष्प चन्दन २ तथा उपहार अर्थात् सारीसामग्री  
बहुविध जपादि होम तथा दक्षिणा और नानाप्रकार  
के स्तोत्रों गीतों और मनोरमबाजों ३ तथा उत्तम जय  
शब्दोंसे विष्णु का पूजनकरै ४ ऐसे विधिवत् पूजनक-  
रके रात्रीमें जागरणकरै ५ तथा कथा अथवा विष्णु का  
गानकरै और विष्णुमें परायणरहै तो मनुष्य विष्णुके  
परमस्थानको प्राप्तहोताहै इसमें सन्देह नहीं ६ मुनि-  
जनोंने पूछा कि हे महामुने रात्रीमें जागने तथा विष्णु  
के गानके फलको कहो यह कौतूहल अर्थात् आश्चर्य्य  
हमें सुननेकी इच्छाहै ७ व्यासजी बोले कि हे मुनिशा-  
दूलो विष्णुकेगान तथा रात्रीके जागरण का फल मैं  
कहताहूँ तुम सुनो ८ अवनतीनाम नगरीमें एकचांडाल  
श्रेष्ठ वृत्तिसेधनका उत्पादनकरने और विष्णुकेअगाडी  
नृत्यकरनेमेंरतहुआ ९।१० वह हरमहीनेकी एकादशीको  
व्रतकरता और रात्रीको ११ गांधार नैषाद् पंचम धैवत  
आदि स्वरोंके गानसे विष्णुको प्रसन्नकरनेकेलिये १२  
जागरणकरता विष्णुकीगाथागाता और यथा लाभवि-  
ष्णुको नमस्कारकर द्वादशीको अपनेघर आताथा १३

हैं विप्रो घरआके वह जमाई बहनोई तथा कन्याओं  
 और सारे परिवारको भोजन करवाके आप भोजनक-  
 रताथा १४ निदान ऐसे विष्णुको प्रसन्न करतेहुये उ-  
 सकी बहुत आयु व्यतीतभई १५ तब एकसमय चैत्र  
 के महीने में कृष्णपक्षकी एकादशी को विष्णु की पूजा  
 करनेकेलिये एक उत्तमवनमेंगया १६ और भक्तिमें त-  
 त्परहोके बनके पुष्पोंको ग्रहणकर क्षिप्रानदीके किनारे  
 महाअरण्य बनमें एक भयानक वृक्षकेनीचे उसने एक  
 राक्षसकोदेखा १७ और राक्षसने भक्षणकरनेके वास्ते  
 उसेपकड़लिया तब वह चांडाल उसराक्षससे बोला १८  
 कि हे कल्याण मैं तेरा भक्ष्यहूँ पर कल प्रातःकाल तू  
 मुझको भक्षणकरिये मैं सत्य २ कहताहूँ कल प्रातःकाल  
 इसीस्थान में आजऊंगा १९ हे राक्षस आज मुझको  
 एकबड़ाआवश्यक कार्य्यहै तिससे तू मुझकोछोड़दे २०  
 हे राक्षस विष्णुकी पूजा तथा रात्रिमें जागरणके वास्ते  
 मेरा व्रतहै इसमें तू विघ्न मतकर २१ चाण्डालकी बातें  
 सुन राक्षस बोला कि दशरात्रिसे मैंने भोजन नहीं किया  
 है पर हे मातंगज आज तू मुझको मिलाहै २२ और मैं  
 भ्रुवसे बारम्बार पीड़ित होरहाहूँ इसवास्ते तुझको न  
 छोड़ूंगा बल्कि भक्षण करूंगा २३ निशाचरके यहवचन  
 सुन मातंग मीठी बाणीसे राक्षसको शान्त करताहुआ  
 निश्चय करानेवाले वचनबोला २४ कि हेब्रह्मराक्षस इस  
 संपूर्ण जगत्का मूल सत्यहै इसलिये मैं फिर आने के  
 वास्ते सत्यकी सौगन्द खाताहूँ २५ चन्द्रमा सूर्य्य वह्नि  
 वायु पृथ्वी आकाश जल मन तथा रात्रिदिवस प्रहर



और दोनों सन्धि ये सबनरोंके क्रीडारूपहैं २६ यदि मैं लौटकर न आऊं तो पराईस्त्रीके गमन परद्रव्यके हरन और ब्राह्मणको मारने एवम् मदिरापान गुरुकीशय्या पर गमन २७ सन्ध्यामें गमन और वेश्यागमन देवलक अर्थात् देवतोंकी पूजाकरके आजीवका करने मच्छी २८ तथा बराह और कछुयेआदिके मांसखानेमें जो पाप है २९ और कृतघ्नता तथा मित्रघात वा दोबार विवाही स्त्री के पतिहोनेमें सूतक तथा क्रूरकर्म ३० कृपणता और बन्ध्या तिथी एवम् अमावास्या अष्टमी षष्ठी तथा कृष्णशुक्ल पक्षकीत्रयोदशी ३१ और निषिद्धाचरण तथा घातकरने और ब्राह्मणसे प्रतिज्ञाकरके न देने ३२ अथवा कन्या गौ अश्व स्त्री तथा बालकके मारने भूठबोलने ३३ और देवदेव ब्राह्मण तथा राजा पुत्र मित्र और श्रेष्ठा स्त्रीकी निन्दाकरनेमें जो पापहैं सो मुझेहों ३४ हे राक्षस अग्नि शान्तकरने तथा अग्निकेलगानेमें जो पापहैं और घर में इंटफेंकने अधम वृत्तिमें चलने ३५ और परिवेता होनेमें अर्थात् छोटे भाई के विवाहहोने और बड़ेके न होने में छोटा परिवेता तथा बड़ा परिवेता होने में जो पाप हैं ३६ एवम् उनदोनोंके काष्ठग्रहणकरने और बालकके मारनेमें जो पाप हैं सो मुझेहों निदान बहुतसी सौगंदें खानेसे क्या है ३७ हे राक्षस दुर्वाच्यभयका देनेवाला सौगन्दमें तेरेअगाड़ीखाताहूँ कि अपनी कन्या के द्वाराजीविका करने भूठबोलने और खोटे पुरुषकी साक्षिदेनेसे जो पाप हैं ३८ एवम् विनामांगने योग्य वस्तु के मांगने अधमनरको सेवने और संन्यासीहोके

घरवसाने तथा ब्रह्मचारी होके भोग करने में जो पाप हैं ३६ सो मुझेहों यदि मैं तेरे समीप न आऊं अधिक के यह वचन सुनके ब्रह्मराक्षस आश्चर्ययुक्त होके ४० बोला कि अच्छा जा पर अपने सत्यसे समयपरचला आइयो राक्षसने जब ऐसे कहा तब वह चांडालपुष्पों को लेकर ४१ विष्णुके स्थानमेंगया और तपसे शोधनकरनेवाले विष्णुका पूजनकर अपनेस्थानकोआया और रात्रिमें व्रत और भगवान् का गान तथा जागरणकरके ४२।४३ जब रात्रिव्यतीत होगई तब स्नान करके देवको नमस्कारकर नियमित समयपर प्रतिज्ञा को सत्यकरने के वास्ते राक्षसके पासचला ४४ रास्तेमें एकमनुष्य पूछनेलगा कि हे भद्र तू कहां जाताहै ४५ चाण्डालने अपना सबवृत्तान्त उसे कहसुनाया तबवह बोला ४६ कि हेव्याध धर्म अर्थ काम और मोक्षके साधनकरनेवाले शरीर को बहुत यत्न से पालना चाहिये ४७ जीताहुआ शरीर धर्म अर्थ के सुखको प्राप्तहोके मोक्षको प्राप्तहोताहै इसलिये ४८ हेमातङ्ग तेरे मरनेसे लोकमें क्याहोगा जब उस मनुष्यने ऐसा वचन कहा तब हेतु का जाननेवाला मातंग उसके वचन सुनके बोला ४९ कि हेभद्र मैंने सत्यताको अगाड़ीकरके सौगंद कीथी इससे जाताहूँ वह मनुष्य बोला कि ऐसा क्यों तू मूढ़ बुद्धि है ५० हे साधो मनु ने जो कहा है सो क्या तने नहींसुना कि गौ स्त्री और ब्राह्मणकी रक्षाकरने ५१ विवाहकाल प्यारोंके धर्म और प्राणों तथा सबजनोंके नाश इन पांचजगहमें भूठबोलने में पातक नहींलग-

ता ५२ स्त्रियोंमें विवाहमें शत्रु तथा चुगली करनेवाले के अगाड़ी और अर्थकीहानी तथा अपने नाशहोनेमें धर्मयुक्तवचन न कहे ५३ उसमनुष्यके यह वचन सुनके मातङ्ग बोला ५४ कि हे मित्र ऐसा मत कह तेरा कल्याण हो लोकमें सत्यकाही पूजन होता है ५५ और जो कुछ जगत्में स्थित है सो सत्यसेही मनुष्यों को प्राप्त होता है सत्यसेही लोकमें सूर्य तपता है सत्यसेही जलरसात्मक होता है ५६ सत्यसेही अग्नि प्रज्वलित होता है और सत्यसेही पवन चलता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष दुर्लभ हैं पर सत्यसे इनकी भी ५७ पुरुषोंको प्राप्ति होती है तिस कारण सत्यको न त्यागे लोकमें सत्यता परब्रह्म है सत्यता उत्तमयज्ञ है ५८ और सत्यताही स्वर्ग रूप है तिस कारणसे सत्यको न त्यागे ऐसे कहके तथा उस नरोत्तमको शान्त करके ५९ वह अधिक ब्रह्मराक्षस के पास गया और ब्रह्मराक्षस उस चाण्डालको आया देख आश्चर्य से खिले हुये नेत्रों सहित शिरको हिला के बोला ६० कि हे महाभाग हे सत्यवाक्यानुपालक हे मातङ्ग तू श्रेष्ठ है २ और मैं तुम्हको सत्यलक्षणोंवाला मानता हूँ ६१ इस कर्म से मैं तुम्हें पवित्ररूप तथा अव्यय ब्राह्मण मानता हूँ और सब तुम्हको कल्याण वालोंके बीचमें मुख्य मानेंगे ६२ तूने रात्रिमें विष्णुके मन्दिरमें क्या किया है सो कह मातङ्ग बोला कि विष्णु मन्दिरमें मैंने जो करा है सो तू सुन ६३ विष्णुके अगाड़ी नम्र आत्माहोके मैंने रात्रीमें जागरण किया और विष्णु गुणगाये ब्रह्मराक्षस बोला ६४ भक्तिसहित तूने विष्णुके

घर में कितने काल जागरण किया तब राक्षस हँसके त्रिशंकु राक्षससे अपने कर्मादिक कहने लगा ६५।६६ कि प्रतिमासकी एकादशी को मैंने जागरण किया है मातंगके यह वचन सुनके ब्रह्मराक्षस कहने लगा ६७ कि हेसाधो एकरात्रिके जागरणका फल मुझको देदे ६८ तो मैं तुझको छोड़ूँ नहीं तो कभी भी न छोड़ूँगा हे महाभाग तेरे तीनों वचन सत्य होने से मैं तुझे छोड़ता हूँ ऐसे कहके जब ब्रह्मराक्षस चुपका होगया ६९ तब मातंग उससे बोले कि हे निशाचर मैंने अपना आत्मा तेरे लिये निवेदन करदिया है बहुत कहने से क्या है तू इच्छापूर्वक मुझको भक्षणकर ७० फिर वह राक्षस मातंगसे बोला कि अच्छा दो प्रहर रात्रिके जागरण व गानका फल मुझको देदे ७१ क्योंकि मेरे ऊपर कृपा करनेको तू योग्य है मातंग बोला कि तू क्या कहता है ७२ मैं तुझको रात्रिके जागरण का फल कदापि न देऊँगा इच्छापूर्वक मुझको भलेही खाले मातंगके यह वचन सुन निशाचर बोला ७३ कि धर्म कर्मसे रक्षित तुझको भिड़कने तथा पीड़ा देनेके वास्ते ऐसा कौन दुष्टमति तथा मन्दपुरुष है जो देखनेको भी समर्थ हो ७४ दीन पापग्रस्त विषयोंसे मोहित नरकों से पीड़ित तथा मूढ़ पुरुषोंपर श्रेष्ठ जन दयायुक्त होते हैं ७५ इसकारण हे महाभाग मुझको एक प्रहरके शुद्ध जागरणका फल तू दे और अपने स्थानको चलाजा ७६ मातंग बोला कि मैं अपने घर न जाऊँगा मैं तुझको जागरण का फल कैसे देदूँ ७७ ब्रह्मराक्षस हँसके बोला कि अच्छा रात्रि

के अन्तमें कौशिकीनदी के आश्रय जो तूने गान किया था ७८ तिसीका फल देदे और पापसे मेरी रक्षा कर मातंग बोला ७९ कि तूने पूर्व क्या खोटा कर्म किया है जिसके दोषसे तू ब्रह्मराक्षस हुआ ८० ब्रह्मराक्षस दुःख से दग्ध हुआ और अपने कियेहुये कर्मोंका स्मरण करता हुआ बोला कि पहिले मैं सोमशर्मा नामसे विख्यात ब्राह्मण हुआ और अध्ययन शील यज्ञोंके कर्ता देवशर्माको यज्ञ करातेहुये ८१ ८३ सूत्रमन्त्रोंसे बाहिरहो ऐश्वर्ययुक्त नृपके यज्ञकर्ममें स्थित होके और लोभ मोहसे युक्त होके अग्निमें हवन कराने लगा ८४ और उस महायज्ञके बारहदिनकी समाप्ति पर्यन्त मैं यज्ञहोमनेका आरम्भ करता रहा ८५ निदान जब मैं यज्ञ कर्ममें प्रवर्त्त हुआ तब मेरी कुक्षिमें शूलरोग उठा ८६ और दशरात्री भी न पूर्ण हुई थी कि उस दोषसे मैं मर गया और ब्रह्मराक्षस हुआ ८७ अपने मूर्खपने तथा मन्त्रहीन होनेसे मैं सूत्रस्वरसे रहित होगया और यज्ञ विद्याको न जानके यज्ञ करने से ८८ जो कर्म हुआ तिससे मैं ब्रह्मराक्षस हुआ इस पापरूपी समुद्रमें पड़े हुये मुझको आप तारो ८९ क्योंकि जागरणके अन्तके गानका फल आप मुझको देने योग्य है ९० चांडाल बोला कि जो तू प्राणियोंके बधसे निवृत्त होजावे तो मैं तुझको जागरणके अन्तके गानका फल देदूँ और ९१ राक्षसने प्रतिज्ञाकी कि मैं प्राणियोंके बधसे निवृत्त हो जाऊंगा तब मातंगने ब्रह्मराक्षसको एकघड़ीके जागने और गानका फल देदिया ९२ गानका फल पाने पर

ब्रह्मराक्षस मातङ्गको नमस्कारकर और प्रसन्नमनहोके तीर्थोंमें श्रेष्ठ पृथूदकनामक तीर्थ को चलागया ९३ और हे द्विजो वहां उसने अनशन व्रत धारण करके प्राणोंको त्यागदिया और गानकेफलके प्रभावसे राक्षसयोनिसे छुटगया ९४ पृथूदकके प्रभावसे उसेदुर्लभ ब्रह्मलोकका वासमिला और हजारवर्ष वहांनिशंकवास करतारहा ९५ हेद्विजो उसके अन्तमें वह ब्राह्मणहुआ पर वहां भी उसे पूर्वजन्मका स्मरणरहा ९६ जब राक्षस चलागया तब वह बुद्धिमान् अधिक अपने घरमें आया ९७ और ब्राह्मणपनेके चरित्रका स्मरणकरके दया युक्त तथा शुद्धहो पुत्रकी रक्षाकरनेकेलिये स्त्रीसे निवेदन करपृथिवीकी परिक्रमा देनेको निकला ९८ कोकानदी सेलेके स्वामिकार्तिकके दर्शनपर्यन्त सब पृथ्वीकी परिक्रमाकरताफिर ९९ हेद्विजो फिर वह उच्चउच्च शिलाओंवाले पर्वतोंपरसे पापमोचन तीर्थपरजापहुँचा १०० निदान अनेक तपों के प्रभाव से वह चाण्डाल वंशसे मुक्तहोकर पापोंका हरनेवाला ब्राह्मणहुआ १०१ जब वह पापोंसे विमुक्तहोगया तब अनेक पहिले जन्मों का स्मरणकरनेलगा १०२ पहिले जन्ममें तो वह रुकीहुई बाणी तथा मनवाला भिक्षुहुआ और फिर शुद्धशरीर होके उसने वेदवेदाङ्गोंको पढ़ा १०३ एक समय उस भिक्षुकको रस्तामें चोरमिले और वह भिक्षुक धूलीसे युक्त भिक्षाको भोगकरतारहा १०४ तिसअधर्मके दोष से चाण्डालयोनिको प्राप्तहुआ फिर उसने पापप्रमोचनतीर्थ और नर्मदामें स्नानकिया १०५ निदान हे

द्विजो वह मूर्ख ब्राह्मणदुःआ और संयोगसे काशीजीमें गया और वहां तीसवर्षतक वासकरतारहा १०६ एक दिन उसे एक सिद्धपुरुष मिला जो विरूपरूपसे आजमान तथा योगमायाके बलसे युक्तथा और इसको देखके वह मूर्ख हँसी पर्वक उससे बोला १०७ कि तू कहां जाताहै जब उसने ऐसे पूछा तब वह सिद्धबोला कि मैं सब जानताहूँ और स्वर्गलोकसे आयाहूँ १०८ तब वह मूर्खबोला कि तू स्वर्ग में नारायणकी जांघसे होनेवाली उर्वशी तथा दूसरी अप्सराओं को जानता है १०९ सिद्धबोला कि हां उनको मैं जानताहूँ वे इन्द्रके चवँर को धारण करनेवालीहैं और साध्योंसे उत्पन्न होनेवाली उर्वशी स्वर्गका आमूषणहै ११० सिद्धका यह उत्तरसुन ब्राह्मणबोला कि हे मित्र उन उर्वशी आदिकोंकी वार्त्ताकहो कि वे कहांसे हुईहैं क्योंकि उनका वर्णन करने को आप समर्थहो १११ सिद्धबोला कि सत्यकहतेहो तब वह विप्र आनन्दसे युक्तदुःआ ११२ और वह सिद्ध भी मेरुपर्वत के शिखरपर देवतोंके स्थानमें जाके जो उस द्विजने कहाथा उसके अनुसार उर्वशी आदिकोंसे पूँछा कि तुम कहांसे हुईहो ११३ उर्वशी बोली कि हे द्विज हम सिद्धोंकी जांघसे हुईहैं और काशीपुरीको नहीं जानती सिद्धबोला कि सत्यहै ११४ ऐसेकहके बहुत कालतक वहांरह फिर वह काशीपुरीमें आया और उस मूर्खब्राह्मणने उसे ११५ देखके पूँछा कि कह उर्वशी कहांसे हुईहै तब सिद्धबोला कि मैं जानताहूँ मुझसे आपही उर्वशीने कहाहै ११६ सिद्धके यह वचन सुनके हँसी

पूर्वक ओष्ठपुटवाला वहमूर्ख फिर बोला कि तू क्या जानता है उर्वशीने तुझसे क्या कहा ११७ उस वचनको अङ्गीकार करके सिद्ध फिर स्वर्गमें गया और इन्द्रके भवन में जाकर ११८ उर्वशीसे सब वृत्तान्त कहा और उर्वशी सिद्धसे बोली ११९ कि हे द्विजसत्तम जो थोड़ासा भी नियम करता है उसको हम सिद्ध जानती हैं अन्यथा नहीं १२० सिद्धने आके उसमूर्खब्राह्मणसे उर्वशीका कहा हुआ नियम बर्णन किया १२१ तब वह मूर्ख ब्राह्मण बोला कि हे सिद्ध पुरुष तेरे अगाड़ी में नियम करता हूँ कि अबसे लेके शङ्कटाके दिनतक मैं भोजन न करूँगा १२२ उसके यह वचन सुन सिद्ध स्वर्गमें जाके उर्वशीको देख कहने लगा कि हे उर्वशी यह ब्राह्मण अबसे लेके शङ्कटाके दिनतक भोजन न करेगा १२३ तब उस सिद्धसे उर्वशी बोली कि मैंने पहिले ही जान लिया कि मेरे उपहास करनेके लिये उसमूर्खने नियम ग्रहण किया है १२४ ऐसे कहकर नारायणकी आत्मजा उर्वशी जलदी से चली गई और वह कामचारी सिद्ध भी पृथ्वीपर विचरने लगा १२५ निदान उर्वशीकाशीपुरीमें जाके और दिव्य शरीरधारण करके मत्स्योदरीमें स्नान करने लगी १२६ और संयोगवश वह मूर्खविप्र भी उसी नदीमें स्नान करनेके लिये आया और स्नान करती हुई उर्वशीको देख १२७ दृढ़कामदेवके वश हो अनेक चेष्टा करने लगा १२८ सिद्धके कहे अनुसार उसको मूर्खजानके उर्वशीहास्यपूर्वक उससे बोली कि हे महाभाग मुझसे तू क्या इच्छा करता है सो कह १२९ जो कहेगा मैं वही करूँगी वह



मूर्खबोला कि हे शुचिस्मिते मैं ब्राह्मणहूँ मेरे लिये तू शुद्धहोके आत्माका दानकर १३० उर्वशी बोली कि हे विप्र मुझे इससमय कुछ कामहै आप क्षणमात्र यहीं स्थितरहो मैं कुछकालमें आजाऊँगी १३१ उसके यह वचनसुन विप्रबोला कि अच्छा मैं यहीं स्थितहूँ तू आजाइये निदान यह प्रतिज्ञाकर उर्वशीस्वर्गको चलीगई और तीनमहीने पीछे वहां आई १३२ तो उसमूर्खविप्र को अति कृशित उसी नदी के तीरपर निराहार स्थित देखा १३३ निदान खांड घृत तथा शहदसेयुक्त पीठीले और मत्स्योदरी नदीमें स्नानकर १३४ वह सुलोचना उस ब्राह्मणको बुलाके बोली कि हे विप्र मैंने भोगसे युक्त सतीकाव्रत बहुत काल तक किया है १३५ और व्रतके अन्तमें तुझे देनेके वास्ते यह लाईहूँ सो ग्रहण कर ब्राह्मणबोला कि हे भद्रे लोकमें इस शर्कराव्रत को क्याकहते हैं १३६ मैं शुष्क कण्ठवाला तुझसे इसका वृत्तान्त सुनाचाहताहूँ उर्वशी बोली कि हे विप्र खांड से युक्त यह शकटहै १३७ सो इसको आप ग्रहणकरो और प्राणों की तृप्तिकर चिरकाल संतुष्टरहो ब्राह्मण उसके यह वचन सुनके और स्मरणकरके यदि भूखसे पीड़ितथा १३८ परन्तु बोला कि हेभद्रे मैं इसे न ग्रहण करूँगा क्योंकि एक सिद्धवर्ग के अगाड़ी मैंने नियम करलिया है १३९ कि मैं शकटतक भोजन न करूँगा उर्वशी बोली कि किसी अन्यको देनेके वास्ते ग्रहण करले १४० हेभद्र मैंने तेरेवास्तेकाष्ठमय शकटबनाया है और तू भूखसे पीड़ित है इसकाष्ठमयको क्यों नहीं

भक्षणकरता १४१ ब्राह्मण बोला कि मैंने कुछ विशेष नहीं किया है हे भद्रे सामान्यतासे मैंने यह नियम ग्रहण किया है १४२ फिर वह तन्वी अर्थात् सूक्ष्म अङ्गोंवाली बोली कि हे ब्राह्मण जो आप नहीं भक्षणकरते तो इसको अपने घर ले जाओ आपका कुटुम्ब भक्षणकरेगा १४३ वह बोला कि हे सुदन्ती अर्थात् सुन्दर दांतोंवाली मदसेमत्तहोके मैंने त्रिकोकी के गुणों से अधिक गुणों वाली १४४ वरारोहा तथा शिवारूपाकी प्रार्थना की थी सो वह जबतक न आवेगी तबतक मैं घरको न जाऊँगा १४५ वह कह गई है कि क्षणमात्र स्थित रह मैं आजाऊँगी सो उसके आगमन को देखते मुझे एक मास व्यतीत होगया है १४६ मैं धृतवत उससे मिलाप करने के वास्ते स्थित हूँ भावगम्भीरा उर्वशी उसके वचन सुन के तथा १४७ उत्तम रूपको बनाके उससे बोली १४८ कि हे विप्र तूने निश्चित चित्तहोके व्रत किया है हे विप्र मैं उर्वशी हूँ तेरी बाँझाके लिये आई हूँ और तू निश्चय परीक्षा कर तथा सत्यता करके ऋषि होजा १४९ कुरुक्षेत्रमें रूपतीर्थ विख्यात है वहां तू चलाजा हे विप्रेन्द्र तब तू सिद्धि को प्राप्त होजावेगा और मैं तुम्हको प्राप्त हूँगी १५० हे द्विजो ऐसे कहके उर्वशी स्वर्गको चली गई और वह विप्रसत्यतासे रूपतीर्थको चला गया १५१ और वहां परम शांतिको प्राप्त हो नियम तथा व्रतकरके शुद्ध देहवाला हो उत्तमगन्धर्वोंके लोकमें प्राप्त होगया १५२ वहांसे फिर स्वर्गलोकमें उत्तमभोगोंको भोग और श्रेष्ठ कुलमें जन्मले राजाहोके प्रजाको आनन्द देने लगा १५३

ब्रह्मं उसने नानाप्रकार की दक्षिणा से यज्ञों का यजन किया और पुत्रको राज्यदे कुरुक्षेत्र में १५४ रूपतीर्थ पर मृत्युको प्राप्तहो इन्द्रलोकमेंगया जहां सौमन्वन्तर पर्यन्त भोगों को भोगके फिर १५५ सब पुरोंमेंश्रेष्ठ ब्रह्मलोकमें प्राप्तहोके सरस्वती का पुत्र पुरूरवाहो उर्वशी को प्राप्तहुआ १५६ ऐसे सत्यताकरके वह ब्राह्मण तीर्थोंमें सिद्धिको प्राप्तहो १५७ और उससत्यरूपवाली उर्वशी के आराधन करनेसे विष्णुको प्राप्तहो और अनेक भोगों को भोगके मुक्तिको प्राप्तहुआ १५८ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांविष्णोप्रजागरेगीतिकाप्रशंसा

नामचतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः ११४ ॥

एकसौ पन्द्रह का अध्याय ॥

मुनिजनोंनेपूँजाकि बड़ाआश्चर्य्यहै जागरणमेंगान काफल हमनेसुना जिस से चाण्डालभी परमगति को प्राप्तहुआ १ व्यासजी बोले कि सब भूतोंको भयके देनेवाले इस महाघोर संसार में बड़ीकठिनतासे पुरुष की महाफल वालीभक्ति विष्णुमें होती है २ महा भयके देनेवाले संसारमें नित्य दुःखसे आकुल मनुष्योंको हजारहां निन्दितयोनि बारम्बार प्राप्तहोती हैं ३ और बड़ेकष्टसे मनुष्य देहमें जन्महोता है मनुष्यदेह मेंभी ब्राह्मणका जन्म विप्रमेंभी विवेकता ४ विवेकतासेधर्म और धर्मबुद्धिसे श्रेयकाउपाय करना इतने जन्मपाके भी जबतक पापोंका क्षयनहो ५ तबतक वासुदेव जगन्मयमें भक्ति नहींहोती है हे विप्रो जैसे कृष्ण ६ और अन्यदेवमें मन और बाणीसे भक्तिहोतीहै कर्मके तद्गत

को कहता हूँ ७ हे मुनिसत्तमो जिससे जिसकी दुर्बलतामें भक्ति होती है तिसको अग्निहोत्रमें समाहित होके भक्ति करनी चाहिये ८ क्योंकि जिसपर अग्नि प्रसन्न होजाता है तिसपर सूर्यदेवता प्रसन्न होजाते हैं इसलिये हे द्विजो उसपुरुषको निरन्तर आदित्यकी पूजा करनी चाहिये ९ जिसपर सूर्य प्रसन्न होजाते हैं तिसकी महादेव में भक्ति होती है और जो विधिवत् जतनसे शम्भुकी पूजा करता है १० और त्रिलोचन जिसपर प्रसन्न होजाते हैं तिसकी केशवमें भक्ति होती है ११ हे द्विजो जब मनुष्य अव्यय वासुदेव नामवाले जगन्नाथ का पूजन करता है तब भक्तिको प्राप्त होता है १२ मुनिजनोंने पूँछा कि हे महामुने जो विष्णुभक्तिसे रहित हैं वे कौन हैं और जो विष्णुका पूजन करते हैं वे कौन हैं १३ व्यासजी ने कहा कि हे मुनिसत्तमो इस लोक में दो प्रकारके जन ब्रह्मा ने रचे हैं आसुर तथा दैव १४ दैवी स्वरूप को प्राप्त होनेवाले अच्युतका पूजन करते हैं और आसुरी योनिको प्राप्त होनेवाले हरिकी द्वेष करते हैं १५ विष्णुकी मायासे हतविज्ञानवाले अधमनर हरिकी आशासे हरिको नहीं प्राप्त होते १६ उस भगवान्की आसुर सुररूपी माया बड़ी गढ़र है और पापकृत आत्मावाले पुरुषोंको महामोह करनेवाली वह माया दुस्तर है १७ मुनिजनोंने पूँछा कि हे सर्वज्ञ विष्णुभगवान्की उस दुस्तर मायाको जाननेकी हम इच्छा करते हैं १८ हमें बड़ा आश्चर्य है इस लिये आप हमारे अगाड़ी उस मायाको कहो १९ व्यासजी बोले कि स्वप्नेके जालकी तरह लोक

को आकर्षण करनेवाली हंरिकीमाया है और उस को जाननेको भगवान्के सिवा कौनसमर्थ है २० ब्रह्माजी और नारदकेलिये जो युक्तिभईथी हेविप्रो तिसका विस्तारमें कहताहूं तुमसुनो २१ निघ्नीघ्न नामसेविख्यात नामक एक श्रीमान् राजा कामद्रुमन नगर में हुआ और उसके २२ धर्म और क्षमाशील रामनामक एक पुत्रहुआ और वह पिताकी टहलमेंरत प्रजाको आनंद करने वाला और श्रुति स्मृति शास्त्रको जानने वाला हुआ २३ निदान उसकापिता उसके विवाहका यत्न करनेलगा परं वहइच्छाभी न करताथा उसकापिताबोला कि क्यातू रसग्रहणकरनेकी इच्छा नहींकरता २४ सब मनुष्य सुखकेवास्ते विवाहकीइच्छाकरते हैं पर तू सुख केमूलरूपी स्त्रीको क्योंनहीं चाहता २५ पिता के वचन सुनकर वह बहुतकाल चुपकारहा और पिता वास्ववार वैष्णव परिपालिनीवार्त्ता कहतारहा २६ पिताबोला कि विद्वान् पुरुषको पुत्रधर्मकेवास्ते स्त्रीग्रहणकरनी योग्य है २७ तू मेरे वचनको ग्रहणकर मैं तेराप्रभुहूं और पिता हूं और जो मेरावचन न मानेगा तो संततिका क्षयहोने से मुझको नरकवास होवेगा २८ पिताकेवचनोंके बशी-भतहो उसने उन्हें अंगीकारकिया और संसारमें पौराणिकवार्त्ताका स्मरणकरके २९ बोला कि हेतात मेरेलिये आपकावचन हेतुको देनेवालाहै मैंने हजारों वर्षोंतक ३० स्त्रियोंके संयोग पहिलेजन्मोंमेंकिये हैं और तृण गुल्म लता वल्ली सर्प मृग पक्षी ३१ पशु स्त्री पुरुषआदि सैकड़ोंमेरेजन्महुये और किन्नर गंधर्व विद्याधर महोरग ३२

यक्ष गुह्यक राक्षस देव दानव अप्सरा दासत्व और ईश्वरत्व बारम्बार मुझको प्राप्तहुआ ३३ निदान बहुत से मैंने रचे और बहुतसेनष्टहोगये और पापके अवलम्बनसे मैं स्त्रियोंकेसंयोगमें रतरहा ३४ अब यहांसे मेरे तीसरेजन्ममें जो हुआ सो सुनो संक्षेपसे कहताहूं ३५ हेतात मनुष्य देव गन्धर्व और महोरग जन्मोंकोभोगके मैं एकउत्तम महर्षियोंकेवंशमेंउत्पन्नहुआ ३६ और वहां लोककेपति मधुदैत्यके हननकरनेवाले जनार्दनमें मेरी अचलभक्ति हुई निदान ब्रतों तथा अनेक प्रकार की भक्तिकरके मैंने भगवान्को प्रसन्नकिया ३७ औरचक्र गदा को धारणकरने वाले वह पक्षिपति महात्मा मुझ परप्रसन्नहो ३८ सम्यक्प्रकारसे प्राप्तहोके मुझसेबोला कि हेद्विज ऊँचेशब्दसे वरमांग ३९ मैं तुझको बांछित वरदूंगा क्योंकि ब्रतोंके करनेसे मैं तेरेऊपर प्रसन्नहुआ हूं ४० तबमैं बोला हेहरे हेईश जो मुझपर आप प्रसन्नहुयेहो तो मैं इस वरकी इच्छाकरताहूं ४१ कि आप के माया मय रूपके बारम्बार दर्शनकर इसके सिवा अन्यवरकी इच्छा मैं नहींकरता ४२ जब मैंने ऐसेकहा तब वह प्रसन्नमनवाला सुरेश्वर नारायण आदर सहित मुझसे बोला ४३ कि हे द्विज एकाग्रचित्त होके मेरेवचनसुन पहिले नारदनेभी मूढ़भाव से तेरी तरह मुझको वराथा ४४ तब मैंने कहा कि हे नारद तू मेरी माया को जानता है और तू उस मायामें मग्न है ४५ फिर नारदने जलमें मग्नहोके देखा कि काशीके राजा के सुशीलानाम्नी कन्या उत्पन्नहुई ४६ और उससुशी-

लानाम्नीकन्याको काशिराजने विदर्भराजके पुत्र नारद मुनिको दिया ४७ फिर महर्षि नारदने अपने धर्म में उसके साथ अतुल कामोंकी सेवना की ४८ और जब नारदका पिता विदर्भ मरगया तब आनन्दहोके राज्य कर्मपर आपस्थितहुआ ४९ निदानविदर्भदेशकीपालना करते वह बेटे पोतोंसे युक्तहुआ एकसमय उससुधर्मा भूपतिका युद्ध काशिराज के साथ हुआ ५० और उस युद्धमें विदर्भराज के पुत्रके बेटे और पोते तथा काशिराज सब क्षयको प्राप्तहोगये ५१ सुशीलाने अपने पिता आता पति तथा पुत्र पौत्रों का मरणसुनके ५२ पुरसे बाहर निकल रणभूमिमें आ सबके कदनको देखा ५३ और पति तथा पिताकी सेनाको देख दुःख से युक्तहो और बहुतकालतक विलाप करके ५४ जहां आता पिता पति पुत्र पौत्र पड़े थे वहां गई ५५ उस महाश्मशान भूमिमें सुशीलाने एक महाचिता बनाके उसमें अग्नि लगाई और जब अग्नि प्रज्वलितहुई तब उसने बेगसे उसमें प्रवेशकिया ५६ और हापुत्र हापुत्र कहनेलगी उसे सतीहुईदेख नारदमुनिभी अपनेसत्यसे उस उज्वलित अग्निमें प्रवेश होनेलगा ५७ तब देवतों में बरकेशवभगवान् देवर्षि नारदसे बोले कि हे महर्षे हे नष्टबुद्धे यहां तेरा कौन पुत्र है और कौन मरा है ५८ तब वह नारद लज्जा से युक्तहुआ फिर मैं उस नारद से कहनेलगा ५९ कि नारदको कष्टदेनेवाली माया ब्रह्मा आदिकों को भी अशक्यरूपा तथा रुद्रादिकों को भी दुर्विभाव्य है सो तू कैसे जानलेगा ६० इस वचनको

सुनके महर्षि बोला कि हे विष्णो मुझको भक्तिदे और जब कालआकेप्राप्तहोतब हेईश आपकास्मरणरहे६१ और हे अच्युत जहां मैं स्थितहूँ तहां पापोंकेहननकरनेवाला तीर्थहोजावे ६२ हे केशव हे कमलोद्भव आप सहित मैं सदा स्थितरहूँ ६३ ऐसे कहके हे द्विज वह नारद शीतोद तीर्थमें चित्त लगाके स्थितहुआ ६४ और कहनेलगा कि मैं यहां स्थितहूँगा विष्णुभी सदा यहीं स्थितरहेंगे और उत्तरकेतर्फ महेश स्थितरहेंगे६५ जब त्रिनेत्र महादेव ब्रह्माके पांचवें शिरको छेदन करेंगे तब महेशके हाथमें कपाली लगजावेगी ६६ और उस कपालीके छुटाने के वास्ते वह इसतीर्थमें आके स्नान करेगा तब कपाली भूतलपर स्थित होजावेगी६७ और इसतीर्थ को कपालमोचन तीर्थ कहेंगे अबसे इसतीर्थ वरको इन्द्रभी न छोड़ेगा अर्थात् इन्द्रभी यहांहीं बास करेगा ६८ हे द्विज जब इन्द्रभी वहां रहेगा तब ब्रह्म कपाली उग्रक्षेत्र होजावेगा ६९ और जब उस महत्पुण्यको देनेवालेक्षेत्र मुख्यको इन्द्र न छोड़ेगा तब देवता भी इन्द्रको न छोड़ेंगे ७० और इन्द्रसहित देवतों के बाससे स्तुति करनेके योग्य पुण्यको देनेवाला अव्ययनामसे युक्त वह तीर्थ होजावेगा ७१ यदि मनुष्य बहुत से पापोंको करके भी इसतीर्थ में प्रवेशकरेगा तो वह चाहे प्रमादीभीहो ७२ पर मेरा चिन्तवनकरके शुद्ध हो मोक्षको प्राप्तहोजावेगा ७३ जो कठोर पिशाचयोनि तथा दूसरी खोटायोनियोंमें जन्मलेके और अनेकदुःखोंको प्राप्तहोके इसमें प्रवेशकरेगा ७४ वह सब पापों



से रहित होके विप्रके घर जन्मलेगा और बड़ी आयु वाला होगा ७५ इस तीर्थका जो कीर्त्तन करेगा उसका तारनेवाला महादेवही है ७६ हेद्विज नारदसे ऐसे कहेके विष्णु क्षीरसमुद्रमें प्रवेश करगया ७७ और वह नारदभी स्वर्गमें विचरता हुआ गन्धर्वराजसे पूजित हुआ ७८ यह मैंने तेरे बोधके लिये कहाहै मेरी माया के जाननेको कोईभी समर्थ नहीं हुआ ७९ जो तू मेरी मायाके जानने की इच्छा करता है तो नारद की तरह जलमें प्रवेशकर ८० ऐसे भगवान् द्वारा बोधित होके मैंने भावीके योगसे जलमें गोता मारा ८१ और वह विप्र कोकानदीके समीप एक चाण्डालकी कन्याहो ८२ रूप तथा शील आदिसे युक्त युवान अवस्थाको प्राप्त हुई ८३ निदान वह सुन्दर बाहुवाली किसी चाण्डाल के पुत्रको विवाहीगई पर वह चाण्डाल रूपवान् नहीं था ८४ इसलिये वह उसे बांछित पति न हुआ पर वह पतिको बांछितभई ८५ कालपाके उसके नेत्रों से हीन दो पुत्र और एक बहरीकन्याहुई और उसका पति दरिद्री होगया ८६ निदान वह मूढ़ा नदीपर जाके नित्य प्रति रोदन करती एक दिन कलशालेके जलके लिये वह नदीके तीरगई और कलशा रखकर नदीमें स्नान करने के लिये प्रवेश किया और प्रवेश करतेही जैसा विप्रथा तैसाही क्रियायोगमें रत सुशीलवाला विप्र होगया ८७ ८८ निदान जब उसे गये बहुतकाल बीतगया और वह लौटकर न आई तब उसकापति उसे देखनेके लिये नदीके तीरगया पर जब नदीके तटपर कलशको दे

खा उसे नदेखा तब दुःखितहो रोदनकरनेलगा ९०।९१  
 और वे दोनोंअन्धे पुत्र और बहरी कन्याभी पिताको  
 रोते देख रोनेलगे और अतिपीडित हो तटपर स्थित  
 मनुष्योंसे पूछनेलगे ९२।९३ कि हे द्विजो एक स्त्री जल  
 के लिये यहां आईथी आप सबोंने उसे कहीं देखा है  
 वे बोले कि हां वह इस नदीमें स्नानको गईथी ९४ पर  
 नदीसे बाहर आवते हमने उसे नहींदेखा ९५ ब्राह्मणों  
 का यह घोरवचन सुनके वह अश्रुओंसे पूर्ण नेत्रोंवाला  
 रोदन करनेलगा और पुत्रों और कन्या को रोते देख  
 निरन्तर पीडित हो और सती का स्मरण करके कहने  
 लगा कि मुझको बड़ी पीडाहुई तब वह द्विज अति दुः-  
 खितहो उसचाण्डालसे बोला कि तू क्यों वृथा रोताहै  
 तुझको अब उस स्त्रीका लाभ न होगा ९६।९९ बधिक  
 बोला कि हेद्विज इन अन्धपुत्रों और बहरी कन्याको मैं  
 कैसे आश्वासनकरूं १०० और कैसे इनकी पालनाकरूं  
 ऐसे कहके उनबालकों सहित वह ढाढ़मारमारके रोने  
 लगा १०१ जैसे जैसे वह चाण्डाल रोदनकरताथा तै-  
 सेही तैसे मूर्ति प्रकट होतीथी १०२ निदान दुःखसे नि-  
 वृत्तहोके उसने आपही सबवृत्तांतजाना १०३ और दुः-  
 खरूपीआत्मा और आर्त्तरूप होके कोकानदीके मुखमें  
 प्रवेशकिया १०४ जब संगरहितहोके उसने जलमेंप्रवेश  
 किया तब तीर्थकेप्रभावसे पापोंसे विमुक्तहोगया १०५  
 फिर वह दुःखसेपीडितहो वैश्यकुलमें जन्मा और तीर्थ  
 के प्रसादसे वहां उसे पूर्वजांतिका स्मरणरहा १०६ इस  
 कारण वह खिन्नमनवाला अहंकारसे रहित हो कोका

नदीकेसमीपवाक्कुरुच्चित्तहो १०७ और स्नान करके व्रत में स्थित शरीरका शोषण करके स्वर्गलोकमें गया १०८ और फिर वहां से आ सुन्दर कुलमें जन्मलेके हरिके प्रसादसे जातिस्मरण करके और विष्णु भगवान् का १०९ आराधन करके कोकाके समीप शुभ अशुभ कर्मोंसे रहित हुआ फिर वह पितरोंको नमस्कार करके कोकामुखसे आदि उग्रतीर्थको गया ११०। १११ और वहां वराह रूप विष्णु का आराधन करके वह मनुष्यों में ऋषभ सब सिद्धिको प्राप्त हुआ ११२ इस प्रकार वह कामदेव को दमन करनेवाला बेटे पोतों सहित कोकामुख तीर्थों में श्रेष्ठ पवित्रतीर्थ शरीर को त्याग के दोषों से रहित हो ११३ पवित्र स्वर्गलोकमें चन्द्रमाकी कांतिके समान कांतिवाले विमानमें बैठके गया ११४ ऐसी परमेश्वर की माया सुरोंको भी दुर्विचिन्त्यरूपा है हे विप्रो स्वप्ने के जालकी तरह ११५ मुरारीकी माया जगत् को मोह करानेवाली है सो मैंने तुम्हारे लिये कही ११६ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां विष्णुधर्मानुकीर्तननाम पंच

दशधिकशततमोऽध्यायः ११५ ॥

एकसौसोलह का अध्याय ॥

मुनिजनोंने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठो जो आपने कहा सो हमने सुना और जाना कि दुर्मद विष्णु भगवान् की माया पुण्य के विना नहीं जानी जाती १ हे महामुने आपके सकाशसे कल्पके अन्त में महाप्रलय संज्ञक संहारका वृत्तान्त सुननेकी हम इच्छा करते हैं २ व्यासजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो जैसे कल्पके अन्तमें प्राकृत प्रलय में

संहार होता है सो मैं कहता हूँ सुनो ३ इसलोकका एक मासपितरों का एक दिवस होता है और एकवर्ष देवतों का एकदिवस होता है ४ हे द्विजोत्तमो चारहजारयुगों का ब्रह्माका एकदिवस होता है और सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलियुग ये चारयुग हैं ५ देवतोंके बारह हजारवर्ष कहे हैं और शेषरहे चारोंयुग स्वरूप से सदृश हैं ६ मुनिजनोंने आद्यमें सत्ययुग फिर त्रेतायुग फिर द्वापरयुग और फिर कलियुग कहा है ७ और इसी कारण आदिमें ब्रह्माको कृतयुग किया है और तैसेही संहार होता है जैसे अन्तमें कलियुगमें ८ मुनिजनोंने पूछा कि हे भगवन् आप कलिकास्वरूप विस्तारसे कहे क्योंकि आप उसे कहने को योग्य हैं जिसकलिमें चार पैरवाला अधर्म स्थित है ९ व्यासजी बोले कि हे विप्रो हे अनघो कलियुगका स्वरूप जो तुम पूछते हो तो मैं बहुत संक्षेप से कहता हूँ सुनो १० वर्ण आश्रम आचारवाली प्रवृत्ति कलियुगमें न होगी और सामन्तक और यजुर्वेदमें कही हुई भक्तिको लोगनकरेंगे ११ धर्म विवाह न होंगे और शिष्य गुरुके पास स्थित न होंगे १२ स्त्री पुरुषका कर्म न रहेगा न अग्निक्रिया रहेगी और सर्वेश्वर बलवान् पुरुष कहीं कहीं कुल में जन्म लेवेगा १३ वही बलवान् पुरुष सबवर्णोंमें युक्तरहेगा वही कन्याका बरहोगा और वही धनवान् होवेगा १४ चारोंवर्णोंमें द्विजाति दीक्षाकेयोग्य कोई भी न होगा सब की दीक्षारहित जैसी तैसी क्रिया होगी १५ हे द्विजो कलियुगमें जिसने जो वचन कहदिया वही शास्त्रमाना

जावेगा १६ और सब क्रिया सब देवताओं का पूजन और सब आश्रमों को सभीमनुष्य सेवन करने लग जावेंगे अर्थात् कुञ्जनेम न रह जावेगा १७ द्रव्य के संचय करने में मनुष्य तत्पर होवेंगे धर्ममें किसीकी रुची न होवेगी और अनुष्ठानसे कोई अनुष्ठित न रहेंगे १८ थोड़ेही धनसे लोग मदयुक्त हो जावेंगे और स्त्रियां रूप तथा मदके बेचनेमें मग्न रहेंगी १९ सुवर्ण मणि रत्नादिक और सुवर्णमय वस्त्र नाशको प्राप्त हो जावेंगे स्त्रियां भगसे अलंकृत हो जावेंगी और धनहीन पतिको त्याग देवेंगी २० और पति स्त्रियोंकी द्रव्यसे प्रसन्नता करेंगे २१ जो अधिक द्रव्य देगा और स्त्रियोंको आनन्द करेगा वही उनका स्वामी होवेगा २२ और सब लोग द्रव्यको घरमेंही लगावेंगे द्रव्यमेंही बुद्धिरक्खेंगे और द्रव्यसेही द्रव्यका उपाय करेंगे २३ कोमल बाङ्गार खने वाली स्त्रियां इच्छापूर्वक विचरेंगी २४ और सब लोग अन्यायसे द्रव्यसंचयमें बाङ्गार रक्खेंगे २५ मित्रोंकी याचनाकोभी लोग स्वार्थसे हनन कर देवेंगे और ब्राह्मण क्रय विक्रय अर्थात् खरीदना और बेचना करेंगे २६ हे विप्रो कलियुगमें भावीके बशसे पुरुषार्थमेंही लोगों का चित्त रहेगा और गौओंमें दूध बहुत होवेगा २७ अनावृष्टिके भयसे प्रजा छुद्र हो जावेगी और भयसे युक्त होगी और आकाशमार्गमेंही सब की दृष्टिरहेगी २८ मूलफलके भोजन करनेवाले तथा तपस्वी मनुष्य वृष्टीके भयसे दुःखित हुये आत्माको हनन कर देवेंगे २९ और निरन्तर दुर्भिक्षके क्लेशको सहन करनेमें समर्थ न होके

कलिमें मनुष्य थोड़ेसुखको प्राप्तहोवेंगे ३० बिनास्नान  
करे लोग भोजनकरेंगे अग्निदेवता और अभ्यागतका  
पूजन ३१ और उदकदान तथा पिण्डक्रिया भी न करेंगे  
लौभमेंयुक्त मनुष्य छोटे शरीरवाले और बहुत अन्नको  
भक्षण करनेवाले होवेंगे ३२ और स्त्रियां बहुत सन्तान  
उत्पन्नकरनेवाली पर थोड़ेभाग्यवाली होंगी ३३ स्त्रियां  
दोनोंहाथोंसे शिरको खुजावेंगी गुरु तथा पतिकी आज्ञा  
को उलंघन करेंगी ३४ देहकी पालना में तत्पर रहेंगी  
पर संस्कारसे रहितहोंगी ३५ कठोरवचन कहनेवाली  
होवेंगी और दुःशील तथा दुष्टशील पुरुषोंसे निरन्तर  
बांझारकखेंगी ३६ अच्छेकुलकी स्त्रियां खोटेमार्गमें प्र-  
वृत्तहोवेंगी ब्राह्मण बाल अवस्थामेंही वेदपढ़ाने लग-  
जावेंगे ३७ गृहस्थ होम न करेंगे और उचितदान न  
देंगे बनवासीजन ग्रामवास करनेलगे ३८ भिक्षुजन  
मित्रसम्बन्धी भिक्षा ग्रहणकरेंगे और राजालोग शुद्ध  
मिससे पृथ्वी की रक्षा न करेंगे ३९ जब कलियुग का  
प्रवेशहोगा तब लोग द्वारपर स्थितहोके द्रव्यकी रक्षा  
करेंगे ४० जो मनुष्य घोड़े रथ तथा हस्तीपर चढ़ेंगे  
वे राजाकहावेंगे जिनमें कमबलहै वे नौकरकहावेंगे ४१  
वैश्यलोग कृषिबाणिज्यादि निजकर्मों को त्यागके शूद्र  
वृत्तीमें स्थितहोवेंगे ४२ शूद्रजन भिक्षावृत्तिको धारण  
करेंगे संन्यासी अधमचिह्नको धारणकरेंगे ४३ ब्राह्मण  
पांखण्ड के आश्रय जीविका करेंगे दुर्भिक्षकी पीड़ा से  
लोग अत्यन्त उपद्रवोंसे युक्तहोवेंगे ४४ और दुःखित  
होके गोधूम और यवसेयुक्त देशों में चलेजावेंगे और

वेदमार्ग लीन हो जावेगा ४५ अधर्म की वृद्धी होने से लोकोंकी थोड़ी आयु हो जावेगी और शास्त्ररहित घोर तपकोतपेंगे ४६ मनुष्य बाल अवस्थामें ही मृत्युको प्राप्त होंगे पांच छः अथवा सप्तवर्षकी स्त्रियोंके सन्तान होवेगी ४७ और आठ दशवर्ष में मनुष्योंको बुढ़ापा हो जावेगा बारहवर्ष तक कोई भी न जीवेगा ४८।४९ कलि में थोड़ी बुद्धिवाले थोड़ी चेष्टा करनेवाले और चोरी के करनेवाले जन होवेंगे ५० और काल वश जहां तहां मनुष्य नाशको प्राप्त हो जावेंगे जब मनुष्य पाखण्डवृत्ति से युक्त होंगे ५१ तब लक्षणोंसे कालकी वृद्धीका अनुमान होगा ५२ और जब वेदमार्गके अनुगामी श्रेष्ठपुरुषोंकी हानि होगी तब कालकृतवृद्धी लक्षणोंसे अनुमान की जावेगी ५३ हे विप्रो जब धर्म करनेवाले नरोंका प्रारम्भ न पूरा होवेगा तब विचक्षणोंसे प्रधान कलिका अनुमान किया जावेगा ५४ और जब जब यज्ञोंका प्रभु ईश्वर यज्ञोंद्वारा पुरुषोंसे न पूजा जावेगा तब कलिकृत बल जानना योग्य है ५५ हे द्विजोत्तमो वेदवाद में जब प्रीति न हो और पाखण्डमें प्रीति हो तब बुद्धिमानोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये ५६ कलियुगमें जगत्के पति और सबके रचनेवाले समर्थ ईश्वरका पूजन जो मनुष्य नहीं करते उन्हें पाखण्डसे नष्ट जानना ५७ जब मेघ थोड़ी वर्षा करें खेतीमें थोड़ा फल हो और वृक्षोंमें भी थोड़े ही फल हों तब कलि प्रवृत्त जानना ५८ कलियुगमें शनप्रायवस्त्र जांटीप्राय वृक्ष और शूद्रप्रायवर्ष ५९ अणुप्राय अन्न तथा अजा

प्राय अर्थात् बकरीकाहीदूध और खसप्राय चंदन कलियुगमें होजावेंगे ६० सासु तथा श्वशुरेकोही लोग गुरु मानेंगे और सुहृदजन शिलादिक भार्याको हरनेवाले होंवेंगे ६१ लोगकहेंगे कि कौनमाताहै और कौनपिता है और श्वशुरेकी अनुगतरहेंगे ६२ वाक् मन और काया केकरेदोषोंमें बारम्बारयुक्तरहेंगे और थोड़ीबुद्धिवाले नर दिन प्रतिदिन पापकर्मों को करेंगे ६३ हे द्विजो सत्य रहित अशुद्ध तथा लज्जारहित पुरुषोंको जो जो दुःख होतेहैं सो सब कलियुग में होंवेंगे ६४ हे विप्रो पठन पाठन वषट्कार और स्वधा स्वाहासेरहित लोकमें कोई विप्र स्वाहा स्वधा आदि करनेवाला भी होगा ६५ और थोड़ेईकालमें उत्तमपुण्यको प्राप्तहोके तपसे सत्ययुगकी प्रवृत्तीकरेगा ६६ मुनिजनोंने पूछा कि किसकालमें वह अल्पधर्म महाफलको देनेवाला होवेगा सो आपकहो हमारी सुननेकी इच्छाहै ६७ व्यासजी बोले कि हे विप्रो कलिकोधन्यहै जिसमें थोड़ाक्लेश बहुतफलका देनेवाला होताहै जिसमें विवाह तथा यज्ञोपवीतकर्महों तिसकोतुम धन्यजानो ६८ जोकर्म सत्ययुगमें दशवर्ष में त्रेतामें एक वर्षमें और द्वापरमें एकमहीने में होताहै सो कर्मकलियुगमें एकरात्रि दिवसमें प्राप्तहोताहै ६९ हे द्विजो तप और ब्रह्मचर्यका तथा जपादिकाफल कलियुगमें एक ही रात्रि दिनमें प्राप्तहोताहै यह श्रेष्ठप्रकारसे कहाहै ७० सत्ययुगमें ध्यानसे त्रेतामें यज्ञोंके पूजनेसे द्वापरमें पूजन करनेसे मनुष्य जिस फलको प्राप्तहोताहै सो कलिमें केशवके कीर्तनसे होताहै ७१ धर्मसे कलियुगमें पुरुष



उत्कृष्टताको प्राप्तहोतेहैं और थोड़ेही परिश्रमसे धर्मज्ञ होजातेहैं तिससे उनपर विष्णुप्रसन्नहोजाताहै ७२ पहिले ब्राह्मण व्रतादि चर्या तथा वेदको ग्रहणकरतेथे तब धर्मकी प्राप्ति होतीथी और धनकी प्राप्तिसे विष्णुकी पूजाकरतेथे ७३ अब कथाको मिथ्यामानना भोजनक्रियाको वृथा मानना जन्मको वृथामानना बासकेलिये स्त्री का यत्न ७४ सब वस्तुओंमें पुरुषोंका नहीं करनेमें दोष भोजनमेंही इच्छाकरना और सबकर्मोंमें भोजनमेंही पर तन्त्ररहना साधारणहै ७५ हेद्विजो ब्राह्मण बहुतकेशसे लोकोंमें पूजनकरेंगे दूसरेजन ब्राह्मणकी टहलके बिना ही पाकक्रिया बनावेंगे ७६ शूद्रको धन्यतर कहेंगे निज युक्तिसे शूद्र लोकको जीतलेवेगा ७७ और भक्ष्य तथा अभक्ष्यमें शूद्रोंका पेयपानमें परिश्रम नहीं रहेगा ७८ हे मुनि शार्दूलो यही कलिके नियम श्रेष्ठ पुरुषोंने कहे हैं कि अपने धर्मके विरोधकरकेही नर धनको प्राप्तहोवेंगे ७९ और पात्रको दानदेने विधि यज्ञकरने और विष्णुका पूजन करनेमें अति केशको प्राप्तहोवेंगे ८० उन पुरुषोंको अच्छी क्रियामें युक्तहोना बहुत परिश्रम से होगा ८१ हे द्विजसत्तमो इन तथा अन्य केशों से प्राजापत्यादिक क्रमवाले निजलोकों को पुरुष जीतलेताहै ८२ हे द्विजो स्त्रियां मन कर्म और बाणीसे पतिकी टहलकरके एकदिनमें पतिके लोकको प्राप्तहोवेंगी ८३ हे विप्रो जिसनिमित्त मैं यहां आयाहूँ सो तुमसे कह चुका और यथाकाम जोतुम पूछोगे सोमैं तुम्हारेलिये कहूंगा ८४।८५ कलियुगमें थोड़ेही यत्नसे धर्मकी सिद्धिहोगी

और मनुष्य अपनेगुणोंसे पापोंसे छूटजावेंगे ८५ हे मु-  
निसत्तमो ब्राह्मणोंकीटहलमें तत्परहोनेसे शूद्र पापोंसे  
छूटजावेंगे औरतैसेही स्त्रियां पतिकी टहलकरनेसे पति  
के लोकमें प्राप्तहोवेंगी ८६ फिर स्त्री पुरुष विष्णु को  
धन्यतम मानेंगे ब्राह्मणोंको सत्यादिक युगोंमें धर्मके  
आराधनमें बड़ाक्लेशहै पर कलिको धन्यहै ८७ कि उस  
में थोड़ेही तप से मनुष्य सिद्धिको प्राप्तहोजावेंगे ८८  
हे मुनिसत्तमो जो युगकेअन्तमें धर्मका आचरणकरते  
हैं उनको धन्यहै ८९ हे द्विजो जो तुमने पूछा सो तो  
सब मैंने कहा हे धर्मज्ञो अब अन्य क्या क्रियमाण है  
सोभी कहो ९० ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांव्यासऋषिसंवादेषोडशा-

धिकशततमोऽध्यायः ११६ ॥

### एकसौ सत्रहका अध्याय ॥

मुनिजनोंने कहा कि समीपमें प्राप्त होनेवाले कष्ट  
रूप कालको हम नहीं जानते पर द्वापरसंज्ञक युग के  
अन्तकी कथा सुननेकी वांछाकरतेहैं १ धर्मकी तृष्णा  
से उसकालको प्राप्तहोवेंगे तिससे थोड़ेही कर्मसे धर्म  
के सुखको धारण करलेवें सो कहो २ हे धर्मज्ञ युग के  
अन्तमें मनुष्योंको त्रासहोगा और धर्मनष्टहोजावेगा  
तिसकाकारण हमें सुनावो ३ व्यासजी बोले कि हे मु-  
नियो युगके अन्तमें राजा बलिभागको लेलेवेंगे और  
प्रजाकी रक्षा न करेंगे अपनीही रक्षामें तत्पर रहेंगे ४  
राजा क्षत्रियपने से रहित होजावेंगे विप्र शूद्रों से जी-  
विका करेंगे शूद्र ब्राह्मणों का आचार करेंगे ५ वेदपढ़े

हुये ब्राह्मण शस्त्रधारणकरेंगे और बिना कामना हवन करेंगे और हे मुनिसत्तमो एक पंक्ति में भोजन करेंगे शिष्ट आचार से रहित रहेंगे पर द्रव्य में तत्पर रहेंगे और माया धारण करने में प्रिय रहेंगे ६।७ और युगके अन्तमें स्त्रियों से मित्रता करनेवाले अधमपुरुष होंगे चौरजन राजवृत्तिमें स्थित होंगे और राजा चौरवृत्ति में शीलरहेंगे ८।९ युगक्षयमें नौकर समीपतासे दूरहोके भोजनकरेंगे इलाघनीय धनही रहजावेगा अच्छेपुरुषों का वृत्तान्त खोटा लगेगा निन्दित जाति पतितमनुष्य रहेंगे और नष्ट चित्त तथा पाखण्ड को धारण करनेवाले होंगे १०।११ सोलहवर्षकी आयुके भीतरही लोग मृत्युको प्राप्तहोंगे १२ मनुष्य अन्नको बेचने लगजावेंगे ब्राह्मण वेदको बेचेंगे और स्त्रियाँ योनिको बेचेंगी १३ हे द्विजो सब बाजसनेयि संहिताके ब्रह्मका कथन करेंगे शूद्रभी भोकहके बोलेंगे और ब्राह्मण चाण्डालका कर्म करेंगे १४ रक्तवस्त्र धारण करनेवाले जन सफेद दन्त नेत्रोंमें अंजन करेंगे शूद्रजन शाठ्य बुद्धिसे जीविका करके धर्मका आचरण करेंगे श्वापदजीव तथा गौ क्षयको प्राप्त होजावेंगे और श्रेष्ठपुरुषों की निवृत्ति होजावेगी १५।१६ चाण्डालग्रामके मध्यमें बासकरेंगे मध्यबास करनेवाले बाहर रहेंगे १७ और युगक्षयमें सबप्रजा निरन्तर त्रासको प्राप्तहोके नष्टहोजावेगी १८ ब्राह्मण तप और यज्ञोंके फल को बेचेंगे विपरीत यज्ञ होने लगजावेंगे १९ दो वर्षका बालक हलवृत्ति करने लगजावेगा मेघ चित्र विचित्र वर्षाकरेंगे सबजन चोरी

प्राय होजावेंगे और थोड़ेही द्रव्यसे ऐश्वर्ययुक्त होजा-  
 वेंगे २०।२१ सब प्रजा अभिमति को धारण करलेगी  
 मनुष्य धर्मका आचरण न करेंगे २२ पृथ्वी उखराजा-  
 वेगी रस्ता चोरों से रुकजावेगा और सब जन बणिज  
 करने लगजावेंगे २३ पुत्रादिक लोभादिकोंसे पिताकी  
 दीहुई वस्तुको हरलेवेंगे पितासे विरोध रखेंगे २४ सु-  
 कुमारता तथा रूपनाश होजावेगा और स्त्री बस्त्रों से  
 रहित होके अलंकारसे युक्त होजावेंगी २५ गृहस्थी को  
 वीर्यके भोगनेमें प्रीति न रहेगी अन्यभार्यामेंही लोग  
 प्रीतिरखेंगे कुशीलनारी बहुतसी होजावेंगी और वृथा  
 रूपकोधारण करेंगी पुरुषथोड़ेहोंगे स्त्री बहुत होवेंगी  
 मांगनेवाले जन बहुत होजावेंगे और परस्पर न देंगे  
 और राज चोर अग्नि और दण्डसे क्षयको प्राप्तहोवें-  
 गे २६।२७खेतीमें फलथोड़ाहोगा पुरुष युवावस्थामेंही  
 वृद्धहोजावेंगे सुखमें शील न होंगे राजाओंसे जीविका  
 करनेवालों का धन वैश्य वृत्तीमें लगजावेगा बान्धव  
 कर्ममें कोई न रहेगा खोटीप्रवृत्ती होवेगी भूठीसौगन्द  
 खावेंगे और ऋणअन्यायसेयुक्तहोजावेगा २९।३१सर्व-  
 जनोंका आनन्दनष्ट होजावेगा क्रोधसफलरहेगा दूधके  
 लिये बकरी की पालना करेंगे ३२ अशास्त्रविहितयज्ञों  
 की प्रवृत्तीहोवेगी सबजन सब वस्तुको जानेंगे और  
 वृद्धोंकी टहल न करेंगे ३३ युगक्षयमें कोई कविनाम  
 वाला न होगा ज्योतिषशास्त्रके जाननेवाले ब्राह्मणभी  
 न रहेंगे राजा सब चोरप्राय होजावेंगे ब्रह्मचारीगृहस्थी  
 होजावेंगे ब्रह्मवादी मदिरापानकरनेलगे ३४।३५ और

हे द्विजो अन्तमें अश्वमेधयज्ञ न होवेंगी लोग पूजनको न जानके पूजनकरेंगे अभक्ष्य वस्तुको भक्षण करेंगे ३६ और ब्राह्मण धनकी तृष्णासे पीड़ित रहेंगे और पाखण्ड से भोशब्द को धारण करेंगे ३७ नारी गौ नक्षत्रोंके विवर्ण तथा दशोंदिशा विपरीत होजावेंगे गायदूधको न देंगी दिशाओं में दाहहोजावेगी और स्त्री पिता और पुत्र को श्वश्रू अर्थात् टहलकराने के कर्ममें प्रेरणा करेंगी ३८ ३९ मनुष्य मदसे युक्त होजावेंगे अग्निहोतृ ब्राह्मण बिनाहवनकरे भोजन करने लगजावेंगे ४० भिक्षा भोजन को आपमदमें आके भक्षण करेंगे और सोतेहुये पतिको त्यागके स्त्री अन्यपुरुषके पास चलीजावेंगी ४१ बिना दुःख और बिनाप्रयोजन लोग निन्दा करेंगे और निन्दाही करनेमें तत्पर रहेंगे ४२ मुनिजनों ने पूछा कि हे भगवन् जब ऐसे धर्म चला जावेगा तब मनुष्य पीड़ित हुये किसदेशमें बास करेंगे क्या भोजन करेंगे क्या कर्म करेंगे कैसी उनकी चेष्टा होवेगी मनुष्योंका क्या प्रमाण होगा कितनी आयु होगी ४३ ४४ और कौनसे दुःखोंको प्राप्तहोके वे सत्ययुगको प्राप्तहोवेंगे सो कहो ४५ व्यास जी बोले कि हे विप्रो इसके उपरान्त धर्मके नष्ट होनेपर सब प्रजा गुणसेहीन होजावेंगी और कुशीलताके व्यसनोंको प्राप्तहोके आसुरी आयुको प्राप्तहोवेंगे आसुरतासे बलकी ग्लानि होगी बलकी ग्लानिसे विवर्णता होगी विवर्णतासे व्याधिको प्राप्तहोंगे व्याधिसे पीड़ाको प्राप्तहोवेंगे और व्याधिपीड़ासे दुःखको प्राप्तहोवेंगे ४६ ४७ फिर दुःखसे आत्माका संरोध होगा और संरोध

से धर्मकी शीलताको प्राप्तहोवेंगे ४९ ऐसे परमकाष्ठाको प्राप्तहोके वे सब सत्ययुगको प्राप्तहोवेंगे कोई कथनकरने से धर्म शीलहोवेंगे कोई मध्यस्थताको प्राप्त होवेगा ५० कोई कुत्सितधर्ममें शीलहोवेंगे कोई आश्चर्यसेयुक्त होवेंगे और कोई प्रमाणके अनुमान का निश्चयकरेंगे ५१ सब जन अप्रमाणकारी होवेंगे कोई नास्तिकमत को धारण करेंगे कोई पाखण्डयुक्त होंगे और कोई ज्ञानसे रहितहोवेंगे ५२ जब धर्म विलोपको प्राप्तहोजावेगा तब शेषरहे जन शुभकथन करेंगे व दान शीलमें परायणरहेंगे ५३ और सर्वभक्षी आपगुप्त तथा दया व लज्जारहित जन होजावेंगे ५४ कलिमें कषायब्रह्म धारणकरने वालों के यह लक्षणहोंगे कि जब काल प्राप्त होता है तब कषायब्रह्मी पुरुष ज्ञानमें निष्ठा करके और निस्संग होके थोड़ेही कालमें सिद्धि को प्राप्त होते हैं और अन्यवर्णके जन विप्रोंकी वृत्ती को धारण करते हैं ५५।५६ और सर्वथा कषायका लक्षण ग्रहण करते हैं और महायुद्ध महावर्ष महावात और महाभय युगके अन्तमें होता है यह कषायका लक्षण है ५७ युगके अन्तमें राक्षसादिक विप्ररूप होवेंगे कर्मवन्दि पुरुष राजकर्मकरेंगे ५८ और निःस्वाध्याय वषट्कारको अभिमानसे युक्तहोके नकरनेवाला क्रव्यादजीव ब्रह्मरूपहोके सर्वभक्षी होजावेंगे ५९ मूर्ख अर्थपर लोभी क्षुद्र तथा क्षुद्र सामग्रीवाले और व्यवहारसे जीविका करनेवाले होवेंगे ६० निरन्तर धर्मसे रहित रहेंगे पर रत्नको हरनेवाले तथा पराई स्त्रीको धारण क-

रनेवाले ६१ और कामात्मा दुरात्मा तथा प्रियहास करनेवाले और इनमें सब जनोंमें जो ऐश्वर्य्य मानते हैं ६२ और नहीं कथन करनेवाले बहुतसे रूपवाले मुनिजन होजावेंगे कलियुगमें ऐसे प्रधान पुरुष उत्पन्न होवेंगे और कथाके योगसे तिन सबको मनुष्य पूजेंगे घासकी चोरी करनेवाले वस्त्रकी चोरी करनेवाले और भक्ष्य भोज्य अन्नकी चोरी करनेवाले तथा करण्डसंज्ञक और चोरोंके चोरी करनेवाले ६३।६५ और मारनेवाले को मारनेवाले होवेंगे चोरों से चोर जब क्षय होजावेंगे तब प्रजाकल्याणको प्राप्तहोवेगी ६६ परसार रहित लोकमें क्षुधासे पीड़ित तथा क्रयविक्रय स्थिति से रहित राजाके करसे पीड़ितहो बनमें चलेजावेंगे ६७ यज्ञकर्म के प्रारम्भमें राक्षस श्वापद संज्ञक जीव कीट मूषिक सर्पादि मनुष्योंको भय दिखावेंगे ६८ और क्षेम सुभिक्ष आरोग्य आदिका समग्र बन्धुओं में उपदेश देनेवाले नर होंगे ६९ नौकारूप गाड़के आश्रय होके लोग आपही पालना करेंगे और आपही चोरी करेंगे देशदेशमें मण्डलीसहित पृथक् २ वासकरेंगे और अपने देशसे परिभ्रष्ट तथा साररहित होके बन्धुओं सहित चलेजावेंगे ७०।७१ कालके क्षय होनेपर सबनर भयसे पीड़ित बालकोंको ग्रहणकर ७२ कौशिकी नदी के आश्रय होजावेंगे और क्षुधारूपी भयसे पीड़ितहुये जन अंग बंग कलिंग काश्मीर अथवा कौशल ७३ तथा पर्वतकी गुफाओंके आश्रय होजावेंगे हिमवान् पर्वतके तीर २ सब कनारा लवणके जलका है ७४ और अनेक

प्रकारके प्राचीनपत्र तथा बल्कल मृगचर्मादिकके विस्तारसे युगक्षयमें मनुष्य वहां बासकरते हैं ७५ म्लेच्छ गणों सहित लोग बनमें बास करेंगे और पृथिवी शून्य बनवाली और जनोंसे रहित होवेगी ७६ लोग पृथ्वीकी रक्षाभी करेंगे और नहींभी करेंगे और मृग मच्छ पक्षी इवापद जीव सर्प कीट मधु शाक फल मूलसे मनुष्य तृप्ति करेंगे और टूटे हुये पत्ते और फलोंका आहार करेंगे ७७ ७८ बल्कल तथा मृगचर्मको धारण करेंगे आपही मुनि जनों की तरह विचरेंगे ७९ बीजके वास्ते खेती करेंगे तथा काष्ठ हाथमें लेके ऊंट घोड़ा बकरी गधा आदिकी पालना करेंगे ८० कनारेपर स्थितहोके जलकेलिये नदी के स्रोतोंको रोकलेवेंगे और पक्वान्नके व्यवहारसे परस्पर लेनादेना करेंगे ८१ बहुतसी प्रजा मूर्ख सन्तानके होने से हीन और कुलशीलसे बर्जित प्रजाहोजावेंगी ८२ ऐसे अधर्मजीवी नर होजावेंगे और प्रजाहीन अहीन धर्ममें प्राप्तहोवेगी ८३ मनुष्यों की परम आयु तीस वर्षकीहोगी और दुर्बलता तथा विषयों की ग्लानी से शोकसे परिप्लुतहोजावेगी ८४ हौले २ ऋद्धिकी बांछा से आयुके निश्चयकेलिये विषयोंमें प्राप्तहोंगे ८५ और साधुओं के दर्शन तथा टहलमें रतरहेंगे एवम् व्यवहार के क्षयहोनेपर सत्यको प्राप्तहोंगे कामोंके अलाभ में धर्मशीलहोजावेंगे और आपही क्षयसे पीड़ितहुये संकोचभी न करेंगे ८६ । ८७ ऐसे टहलकरनेमें प्राणों की रक्षामें वे सत्यबोलेंगे और जब धर्मचारपैरवाला होगा तब प्रजाश्रेयको प्राप्तहोगी ८८ और गुणोंके



पारमें वर्तमान लब्धार्थ पुरुषों को किंचित्स्वाद होगा धर्मही दीखेगा और जैसीहानी होवेगी तैसीही ऋद्धि होगी जब धर्मग्रहणकियाजावेगा तब सत्ययुगकी प्रवृत्तीहोगी सत्ययुगमें साधुवृत्तीश्रेष्ठहै और कषायधारणमें हानिहै कालएकही है जैसे हीनवर्णवाला चन्द्रमा ८१।९१ अंधेरेसेयुक्त चन्द्रमावत् कलियुग है और अंधेरेसे रहित चन्द्रमावत् सत्ययुग है ९२ अर्थवाद परब्रह्म तथा वेदार्थ जिसको कहते हैं तिसको बिना विवेक और बिनाजाने भागकीतरह लोगधारणकरेंगे वांछितवादको तपमानेंगे उसीतपको श्रेष्ठ कहेंगे और गुणोंसे कर्मोंकी निवृत्ती करदेंगे ९३।९४ झूठेकर्मवाले गुणोंसहित पुरुषको देखके देशकालानुवर्तिनी आशीर्वाद युग युग में यथाकाल ऋषियों को युक्तकरतेहैं ९५ यह ऋषियोंका कथनहै और यहां धर्म अर्थ काम और वेदकी निवृत्ती करेंगे ९६ युग युग में तैसेही पुरुषको षड्विन्न आशीर्वादोंमें युक्तकरेंगे ९७ और विधिस्वभाव से युगोंमें प्रवृत्तहोनेवाली बहुतकाल परिचर्यामें जीव एकक्षणमात्र बासकरके तैसेही क्षय तथा उत्पत्ति से परिवर्तमान रहता है ९८ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांव्यासऋषिसंवादेभविष्यं नामसप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ११७ ॥

एकसौ अठारहका अध्याय ॥

व्यासजीबोले कि सबभूतोंमें तीनप्रकारकासंचारहै नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यंतिक तिनमेंसे ब्राह्मसंज्ञक नैमित्तिकमानाहै और कल्पकेअंतमें उसका संचार

होता है मोक्ष आत्यंतिक संचार है और द्विपरार्द्ध संज्ञा वाला प्राकृतिक संचारमाना है १।२ मुनिजनों ने पूछा कि हे भगवन् परार्द्धसंज्ञाका आपविस्तारसे वर्णन करो जिसी को द्विगुणीकरके प्राकृतका संचार होता है ३ व्यासजी बोले कि एकसे स्थान स्थान दशगुणा करके जितने हों उसके अठारहवें भागको परार्द्ध कहते हैं ४ परार्द्ध के द्विगुणे मानको प्राकृतलय कहते हैं और जब सम्पूर्ण प्रपंचव्यक्तमें लीन होजाता है उसे कारणरूपलय कहते हैं ५ मनुष्यके निमिषमात्रके पन्द्रहगुणेको काष्ठा कहते हैं ६ तीस काष्ठाको कला कहते हैं पन्द्रह कलाको नाडिका कहते हैं ७ और तिसीके मानसे पलसंज्ञा है चार अंगुलकी सुवर्णकी त्रिद्रयुक्त शलाकासे जलप्रस्रवीको घटी कहते हैं हे द्विजसत्तमो दो २ नाडिकाओंके प्रमाणको मुहूर्त्त कहते हैं तीसमुहूर्त्तको अहोरात्र अर्थात् दिन रात्रि कहते हैं तीस अहोरात्रको मास कहते हैं द्वादश मासको वर्ष कहते हैं और वह वर्ष देवतोंका अहोरात्र होता है तीनसौसाठ वर्षोंका देवतों का एक वर्ष होता है ८।१० और देवतोंके बारहहजारवर्षका चारयुगका प्रमाण कहा है चारहजार युगोंका ब्रह्माका दिवस होता है और चौदह मनुओंकी कल्पना युग प्रतियुग कही है और उसके अन्त में ब्राह्मसंज्ञक नैमित्तिक लय होता है ११ हे द्विजेन्द्रो उस प्राकृतलयका स्वरूप फिर मुझसे सुनो १२ कि चारहजार युगोंके अन्तमें जब पृथिवीतल क्षीणप्राय होजाता है तब सौ वर्षों तक वर्षा नहीं होती १३ और स्वर्गमें अनेकप्रकारके राजाओंको

पीड़ा होनेसे वे क्षयको प्राप्त होते हैं १४ फिर कृष्ण भगवान् रुद्ररूपी तथा अव्यय सम्पूर्णप्रजाको क्षयकरके अपने आत्मामें स्थित करनेकेलिये यत्न करते हैं १५।१६ और शम्भु भगवान् सूर्यकी सप्त किरणोंमें स्थित हो सब प्राणिभूत गुणों और पृथ्वीके सब जलों को शोषते हैं १७ और समुद्र नदी पर्वत पर्वतोंके भिरने और पाताल में स्थित जल सबक्षयको प्राप्तहोजाते हैं १८ फिर भगवान् उसजलके आहारके प्रभावसे बढ़जाते हैं और उनसातकिरणों से सप्तसूर्य होजाते हैं १९ तब नीचे ऊपर सप्तदिवाकर प्रकाशहोते हैं और वे पातालतल सहित त्रिलोकी को दग्धकरदेते हैं २० प्रकाशमानभास्करद्वारा दह्यमान त्रिलोकी तथा नदी और समुद्रों सहित पर्वतों का ऐश्वर्य स्नेहरहित होजाता है २१ हे द्विजो सम्पूर्ण त्रिलोकी वृक्षों तथा जलसेरहित होजाती है और पृथ्वीकी आकृती कछुवेकीपीठकेसमान होजाती है २२ फिर हरिभगवान् कालरूपी कठोरअग्नि के रूपको धारणकरके तथा शेषरूपहोके श्वासरूपीकष्ट से नीचेके पाताल लोकोंको दग्धकरते हैं २३ और सब पातालों को दग्धकरके महान् प्रकाशहोता है फिर वह अग्नि वसुधातलपर प्राप्तहोके २४ भुवलोक तथा सब स्वर्गलोकको दारुणज्वालासे व्याप्तकर वहांही स्थित होता है २५ और त्रिलोकी की ज्वालाके परिवर्तन से क्षीणहुआ महाप्रकाशमान होता है २६ हे द्विजो तब पृथ्वी सहित अग्नि से हृताधिकारहुये सब लोक महल्लोकमें चलेजाते हैं २७ और उससेभी अधिक ताप

से तपायमानलोक अन्यलोकमें चलेजातेहैं २८ हे मुनि-  
सत्तमो फिर जनार्दनभगवान् सब जगत्को दग्धकरके  
अपने श्वाससे मेघोंको उत्पन्न करता है २९ और ह-  
स्तियों के समूहकी तरह बिजली से युक्तहोके मेघ म-  
हाघोर शब्दकरनेलगते हैं ३० फिर घोररूपको धारण  
कर मेघआकाशमें प्रवर्त्तहोजाते हैं ३१ कोई अंजन  
केसेरूपवाले कोई कमोदनीकेसेरूपवाले कोई धूयेकेसे  
वर्णवाले ३२ कितनेक पानी को धारण करने वाले  
कितनेक हरिद्राके वर्णकी कान्ति को धारणकरने वाले  
कितनेक लाक्षाके रसकी कान्ति को धारणकरनेवाले  
कितने मणियोंकेसे तेजको धारणकरनेवाले कोई इन्द्र  
नीलमणीकेसे तेजको धारण करनेवाले कितने सफेद  
शंखकीसी कान्तिको धारण करनेवाले कितने जाति  
कुलकीसी कान्तिको धारणकरनेवाले कितने तीजनाम  
वाले जीवकीसी लालकान्तिको धारणकरनेवाले कितने  
मनशिल औपधी कीसी कान्तिको धारण करनेवाले  
कोई वंशकेपत्रकीसी कान्तिको धारणकरनेवाले कितने  
श्रेष्ठ पुरोंकेसे आकारवाले कितने पर्वतोंकेसे आका-  
रवाले कितने लोहेके अङ्गारके सदृश कान्तिवाले और  
कितने स्तम्भकेसे मुख और बड़ी कायावाले महाघोर  
शब्द करते सब आकाश को पूरलेते हैं और मूसल  
धार वर्षाकरके त्रिलोकीमें फैलीहुई अग्निको शांतकर-  
देते हैं ३३ ४१ जब अग्नि नष्टहोजातीहै तब वे घनरूप  
बादल अपनी पैनीधारोंसे सब जगत् को तृप्तकरते हैं  
४२ और तैसेही भुवलोक ऊर्ध्वलोक और स्वर्गलोक

कोभी तृप्तकरतेहैं ४३ अन्धकार युक्त लोक जब स्था-  
 धर जंगम जीवोंसे रहित होजाताहै तबभी येमहाभाग  
 वाले मेघ सैकड़ों वर्षोंतक वर्षाकरनेमें युक्तरहतेहैं ४४ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यास ऋषिसंवादेब्राह्म्यनैमि-  
 त्तिकोनामअष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ११८ ॥

### एकसौउन्नीस का अध्याय ॥

व्यासजीने कहा कि हे द्विजो सप्तर्षियोंके स्थानका  
 आक्रमण करके तब सम्पूर्ण जगत् एकार्णव जल में  
 स्थितहोजाताहै १ और विष्णुकेइवाससे निकलाहुआ  
 वायु सैकड़ों वर्षोंतक मेघों को नाशकरताहै २ फिर  
 सर्वभूतमय अचिन्त्य भूतभावन विश्वकाअनादितथा  
 आदि भगवान् सम्पूर्ण वायुको पानकरके ३ एकार्णव  
 समुद्रमें शेषशय्यापर स्थितहोके शयनकरतेहैं ४ और  
 जनलोक में प्राप्त होनेवाले सनकादिक सिद्धों द्वारा  
 स्तुत कियाहुआ और ब्रह्मलोकमें प्राप्तहोनेवाले मुमु-  
 क्षुओंसे चिन्त्यमान ५ अपनी मायामयी दिव्य योग-  
 निद्रामें स्थित होतेहैं ६ हे विप्रो जब वासुदेवभगवान्  
 ऐसे चिन्तन करतेहैं यह नैमित्तिक नामवाला प्रलय  
 का संचारहै ७ जब वह जागताहै तभी जगत्भी चेष्टा  
 करताहै ८ और जब निमीलन करताहै तब शय्याशय  
 कहावताहै ९ एकार्णवलोकमें चारहजार युगोंका ब्रह्मा  
 का एकदिवसहोताहै और इतनीही प्रमाणवाली रात्री  
 है १० रात्रीके अन्तमें जागाहुआ अजपरमात्मा सृष्टि  
 को करताहै जैसे ब्रह्मरूपको धारणकर विष्णुने पहिले  
 सृष्टिको रचा ११ हे द्विजसत्तमो यह कल्पद्वार पर्यन्त

आवान्तरनैमित्तिकप्रलयहै और इसके उपरान्त प्राकृत प्रलयकरते हैं १२ जब वृष्टि और अग्नि सम्यक् काल में लीन हो जाते हैं तब सब लोकों तथा सब पातालादिकों में १३ महदादिक चिकारों का भी विशेषतासे क्षय हो जाता है और जब कृष्ण फिर इच्छा करता है तब उनका सञ्चार होता है १४ पहिले भूमी के गन्धादिक रसको जल ग्रसलेता है १५ और जब गन्धादि तन्मात्रा नष्ट हो जाते हैं तब पृथ्वी जलात्मक हो जाती है १६ और वेगसे संयुक्त महाशब्दवाले जलकी प्रवृत्ति हो जाती है और वह सर्वत्र ग्रसन करता और आपरमण करता हुआ स्थित होता है १७ तब जलके तरंगों से चारों तर्फ से लोक आवृत हो जाता है और जलमय गुणको ज्योती पान कर जाती है १८ और अग्नि में स्थित होके जल चारों तर्फ से तेजसे आवृत हो जाता है १९ जब अग्नि सर्वव्यापी जलको ग्रहण कर लेता है तब यह जगत् हौले हौले उस अग्नि में पूर्ण हो जाता है २० और उस अग्नि की लटाओं से ऊपर नीचे भीतर से सब लोक व्याप्त हो जाता है २१ फिर ज्योतिकी परमकान्तिका करनेवाला वायु होता है और वह वायु जब उस वायुभूत अखिलात्मामें लीन हो जाता है २२ तब रूपतन्मात्रा नष्ट हो जाती है सूर्य अपने रूपको प्राप्त हो जाता है और ज्योति आपही शांत हो जाती है तब महान् वायुसे लोक कम्पायमान हो जाता है २३ जब लोकमें कुछ भी नहीं रहता और वायुतेज में स्थित हो जाता है २४ तब वह अपने वेगसे प्रलयको प्राप्त होके ऊपर नीचे तिर्यक् लोकमें

दशों दिशाओं को कम्पाता है २५ और आकाश के स्पर्श होनेवाले गुणोंका असनकरता है तब अनावृत वायुका वेगशान्तिको प्राप्तहोजाताहै २६ और विना रूप स्पर्श गन्ध और मूर्तिके सबलोकमें पूरितहोके महत्प्रकाशवाला होताहै २७ तब छिद्रयुक्त समस्त आकाशमण्डल शब्दलक्षणसे युक्तहोजाता है २८ फिर उसआकाशके शब्द आदि गुण भूतादिकोंको असलेते हैं २९ और उनकीस्थितिमें एकबार अभिमानात्मक यह भूतादितामस रूपकहेहैं ३० प्रलयमें पृथ्वीआदिक पंच महाभूत परस्पर प्रवेशहोजाते हैं और जिसके यह सब आवृत होरहा है तिसकेद्वारा सब जलमें लीनहोजाते हैं निदान सप्तद्वीप समुद्रपर्यन्त सप्तलोक और सप्त पर्वत जितना कुछ जलसे आवृत है सब ज्योतीद्वारा पानकियाजाता है ३१ ३३ ज्योति और वायुभी लयको प्राप्तहोजातेहैं और आकाशमें वायुलयहोजाताहै ३४ आकाश को महान् रूपवाले भूतादि असलेते हैं और इनके सहित महदादिकों को प्रकृती असलेती है ३५ हे द्विजोत्तमो अब हम गुणोंकीसमता उत्कृष्टता तथा न्यूनता और प्रधानप्रकृतिका परमकारण कहतेहैं ३६ जब व्यक्तस्वरूप अव्यक्तमें लीनहोजाताहै ३७ और एकशुद्ध अक्षर नित्य सर्वव्यापी सर्वभूत परमात्माका अंश ३८ नहीं रहता एवम् नामजात्यादि कल्पना भी नहीं रहती तब सत्तामात्र ज्ञानात्मक स्वरूपवाला परब्रह्म कहाताहै ३९ और वही परमात्मा परमेश्वर विष्णु इस सब को लयको प्राप्तकरता है जहां से फिर आगमन

नहीं होसका ४० वह पुरुषरूप परमात्मा अपनीव्यक्ता-  
व्यक्तरूपवाली मायाको अपनेहीमें लीनकरलेताहै ४१  
वह परमेश्वर सबका आधाररूप है और विष्णुनामसे  
सब वेदोंमें व्याप्तहै ४२ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति विधान  
से वैदिककर्म दो प्रकारके हैं और उनदोनों से यज्ञमू-  
र्त्तिभगवान् का यजन कियाजाताहै ४३ ऋक् यजु और  
सामके मार्गसे उसभगवान् की पूजाहोती है ४४ और  
यज्ञेश्वरों यज्ञपुरुषों और ज्ञानमूर्त्ति पुरुषोंद्वारा ज्ञाना-  
त्मक योगसे वह देव पूजाजाताहै ४५ योगियोंको मार्ग  
जब निवृत्तहोजाताहै तब विष्णु मुक्तिफलको देताहै ४६  
थोडा बहुत कुछ जो विधान यहां करतेहैं और जो कुछ  
वाणीसे उच्चार होताहै सो सब अव्यय विष्णुहै ४७ वह  
प्रकट है नहीं प्रकट है पुरुष है अव्यय है परमात्मा है  
विश्वहै और विश्वरूपको धारणकरनेवाला है ४८ व्यक्त  
अव्यक्तरूपवाली प्रकृति उसमें लीनहोजाती है और  
अव्याहतात्मा परमेश्वरही पुरुषरूपलीनहोजाताहै ४९  
हे द्विजो यह द्विपरार्द्धात्मककाल मैंने कहा है जो विष्णु  
का दिवस है ५० और उसदिनके अन्तमें व्यक्तप्रकृति  
तथा पुरुष परमात्मा उतने प्रमाण स्थित रहते हैं ५१  
हे तपोधनो उस नित्यपरमात्मा के दिनका जितना प्र-  
माण है तितनीही रात्री है ५२ और उस ईशका उप-  
चार भी ऐसेही कहाजाता है हे मुनिशार्दूलो यह प्रा-  
कृतलय है ५३ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायथानामएकोनविंशधिक



## एकसौबीस का अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि हे विप्रो अध्यात्मविद्याको जानके ज्ञान वैराग्ययुक्त पुरुष आत्यन्तिक लयको प्राप्तहोतेहैं १ और अपने शरीरमेंही आध्यात्मिक दोप्रकारकाहै शिर का रोग प्रतिश्याय ज्वर भगन्दर गुल्म अर्श छर्दि नेत्र रोग अतीसार और आमसंज्ञक अनेकरोगों और देह-ज और मानस तापोंद्वारा यहशरीर भेदनहोताहै २।४ काम क्रोध लोभ मोह भय विषाद शोक निन्दा वमन ईर्ष्या तिरस्कारआदि मानस तापभी अनेकप्रकारकेहैं गर्भमें जन्तु सुकुमार शरीरमें स्थितहोके बासकरता-हुआ भग्नपृष्ठ और ग्रीवाआदि अंगोंकी चेष्टाकरता है५।७ और चर्चरा खट्टा तीक्ष्ण उष्ण लवणआदि मा-ताके भोजन करनेसे गर्भमें बध्यमानहो अतिदुःखको सहताहै ८ अंगके पसारने और सङ्कोच करनेसे तथा अंगकी रक्षाकरनेकी वहां सामर्थ्य नहींहोती है ९ और विष्ठा मूत्र मूलादि से सर्वथा पीडाको प्राप्तहताहै पर वहांईश्वरसे रक्षाको प्राप्तहोताहै १० निजकर्मोंके संचय से दुःखको प्राप्तहो जीव गर्भमें आताहै और विष्ठा मूत्र वीर्य आदिसे लेपित मुख ११ और प्राजापत्य वायुसे पीड्यमान अस्थि बन्धनोंवाला प्रबलासति वायुद्वारा अधोमुख क्रियाजाताहै १२ और माताके जठरसे आतुर हुआ केशकरके निकसनेको प्राप्तहोताहै १३ और मह-तीमूच्छाको प्राप्तहो पीठसे युक्तहुआ उत्पन्न होताहुआ विज्ञानरूपी वंशको प्राप्तहोताहै १४।१५ हेमुनिसत्तमो उत्पन्नहोनेपर कटिसे घिसताहुआ योनिद्वारपर स्थित

होता है और हाथ पैर चलने और खुजलाने में भी असमर्थ रहता है १६ परिवर्तन होने में भी असमर्थ रहता है दूसरे की इच्छा से स्नान पान आहार आदिक में युक्त होता है १७ और दंशादि जीवों के निवारण करने में युक्त नहीं हो सक्ता निदान जन्म में अनेक दुःख हैं और जन्म से उत्तर भी अनेक दुःख हैं १८ बाल भाव में पढ़ने में ताड़नादि को सहता है और अज्ञानरूपी अंधेरे से मोह में प्राप्त हुआ १९ इस बात को नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूँ कौन हूँ कहां जाऊँगा कौन आत्मा है २० किस बंधन से बंधा हुआ हूँ कारण अकारण कौन है क्या कृत्य है क्या अकर्तव्य है क्या गुण है और क्या दोष है २१ इस प्रकार पशुकेतुल्य मूढ़ शिश्न तथा उदरपरायण जन अज्ञान से होने वाले तमजनित दुःख को प्राप्त होते हैं २२ हे द्विजो तामस भाव को अज्ञान कहते हैं अज्ञानी कार्य के आरंभ में कर्मों के दूर करने के वास्ते प्रवृत्त होते हैं २३ और कर्मों के लोप का फल महर्षियों ने नरक कहा है इस कारण अज्ञान जनित दुःखों से दुःखित २४ तथा जरावस्थामें जर्जर देह से शिथिल अवयववाला पुरुष विचरता है २५ और सब अंगों के विपर्यय तथा नासा के विपर्यय को प्राप्त होके सब स्थानों में पृष्ठ को निवाके दुःख को प्राप्त रहता है २६ जठराग्नि से छिन्न हुआ थोड़ा भोजन करता है थोड़ी चेष्टा करता है २७ कान नाक नेत्र स्वर बर्ण मुख विवर मंद रहते हैं और मरण के समय में सब रोध को प्राप्त हो जाते हैं २८ मरते समय एक बार भी हरि का नाम उच्चारण करने से महादुःख दूर हो जाते हैं २९ और श्वास कास

आदि वृद्धावस्थाको दुःखदेनैवाले सब दूरहोजातेहैं ३०  
 जराअवस्था में जीव नौकर पुत्र और स्त्रीके मानसे प-  
 रिष्णुत तथा क्षीणबल और आहार विहार एवम् प्रिय  
 वचनोंसे रहित होजाताहै ३१ और परिजनों से हास्य  
 को प्राप्तहोता है सब वाञ्छवों और उसीजन्म के अपने  
 चेष्टितकर्मों युवाअवस्था ३२ और कष्टादि सब वस्तुओं  
 का जराअवस्थामें स्मरणकरताहै ३३ मरणसमय शरीर  
 पीला और पस्वश तथा ३४ शिथिलघ्रीवा और शि-  
 थिलहस्त होजाताहै ३५ और गृहादिकों में नानाभृत्यों  
 को प्रेरणासे चेष्टाकरताहै और अति ममतासे आकुल  
 रहताहै ३६ मर्मके भेदन करनेवालोंद्वारा दारुण क्रकच  
 शस्त्रों ३७ तथा शरीरसे छेदाजाता है और प्राण खँचे  
 जाते हैं ३८ तब हाथ पैरोंको बारम्बार फेंकताहै और  
 ओष्ठ सुखजाते हैं तथा कंठमें घुरघुर शब्द होनेलगता  
 है ३९ ऐसे २ घोर दोषोंसे पीडितहोके श्वास निकसता  
 है और अनेकदुःखोंकी प्राप्तिहोतीहै ४० निदान महा-  
 भयसे व्याप्त और तृषा क्षुधासेपीडित बड़ेक्लेशोंसे मार्ग  
 चलताहै ४१ और यमके किंकरोंकी फांसीमें बँधा दंडों  
 की ताड़ना को सहता है और फिर उग्रलोक को प्राप्त  
 होके ४२ यमके दर्शन करनेके वास्ते चलता है और  
 वह मार्ग हस्तियों तपायमान वालू ४३ तथा वह्नि सर्प  
 और श्वान आदि जीवोंसे व्याप्त है हे द्विजो उस मार्ग  
 में जीव कहीं शस्त्रोंसे पीडित होताहै कहीं व्याघ्रके मुख  
 में प्रवेश होताहै कहीं गृध्र जीवोंसे भक्षण कियाजाता  
 है कहीं हस्तियोंसे दबायाजाताहै कहीं विलके मध्यमें

प्रवेश होता है और कहीं सर्पादिकोंसे डसा जाता है इसी प्रकार बहुतसे दुःखमार्गमें जीवको प्राप्त होते हैं ४४।४८ हे विप्रो नरकोंमें भी बहुतसे दुःख प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या वर्णन नहीं होसकी ४९ हे द्विजो केवल नरकोंमें ही दुःख नहीं होता किन्तु स्वर्गमें भी पापोंसे भयभीतका पापदूर करनेकी निवृत्ती नहीं है ५० प्रथम गर्भमें प्रवृत्ति होती है फिर जन्म होता है फिर मरण होता है इसी प्रकार बारम्बार जन्म मरणको प्राप्त होता है ५१ कहीं उत्पन्न होते ही बालभावमें तथा कहीं युवावस्थामें मृत्युको प्राप्त होजाता है ५२ और जहां २ जीवकी प्रीति होती है तहां २ दुःखरूपी वृक्षके बीजको बोता है ५३ सुखकी इच्छावाले पुरुषोंको स्त्री पुत्रादिकोंकेलिये गृह क्षेत्र बनादि बनाना चाहिये जैसेधूपसे तपेप्राणीको वृक्षकी छायासे रहित सुख नहीं होता तैसेही संसाररूपी दुष्ट अग्निसे तापित चित्तवाले पुरुषको सुखकी प्राप्ति नहीं प्राप्त होती है ५४।५५ इसी कारण तीन प्रकारकी दुःखकी गतिको मनुष्य गर्भ जन्म जरादि स्थानोंमें प्राप्त होता है ५६ अतिआह्लाद तथा स्वभावसे एकांत भक्तिकरनेसे भगवान्की प्राप्ति कही है ५७ इस कारण बुद्धिमान्को भगवान्की प्राप्तिके लिये यत्न करना योग्य है ५८ हे द्विजो तमो उस भगवान्की प्राप्तिका कारण ज्ञान है और कर्म भी है ५९ आगमोक्त तथा विवेकोक्त ज्ञान दो प्रकारका है शब्द ब्रह्म तो आगमज है और परब्रह्म विवेकज है ६० अज्ञान अन्ध तमकी तरह बड़ा है और इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है ६१ और ज्ञान सूर्यवत् है

६५६ आदिब्रह्मपुराण भाषा ।

और विवेकसे उत्पन्न होता है ६२ हे मुनिसत्तमो जिस ज्ञानका स्मरण करके मनुने वेदार्थको कहा ६३ सो सब मैं कहता हूँ सुनो दो ब्रह्म कहे हैं शब्दब्रह्म तथा परब्रह्म और शब्दब्रह्म में युक्त होके जीव परब्रह्मको प्राप्त होजाता है विद्याभी दो प्रकारकी है अथर्वण स्मृतीवाली परविद्या है और ऋग्वेदमयवाली अपरविद्या है ६४।६६ जिस अव्यक्त अजर अचिन्त्य अज अव्यय अनिर्देश्य अरूप तथा हाथपैरोंसेयुक्त ६७ वित्तरूप सर्वगत नित्य भूतयोनिका कारण व्याप्य व्याप्त रूप ६८ को सूरिजन देखते हैं वह परमधामरूप ब्रह्म मोक्षकी आकांक्षावाले पुरुषोंको जानना योग्य है ६९ जो श्रुतियों के वाक्यसे सूक्ष्म कथन किया हुआ है वह विष्णुका परम स्थान है ७० और भूतोंकी उत्पत्ति तथा लय और विद्या अविद्या को जो जानता है वह भगवान् है ७१ ज्ञान शक्तिबल ऐश्वर्य वीर्य और तेज ये सब भगवत् शब्दसे युक्त हैं और भगवान्के गुणोंकी चेष्टाके बिना नहीं जानेजाते ७२ उस परमात्मामें सब भूत बसते हैं और भूतोंमें सर्वात्मा वासुदेव का स्मरण होता है ७३ महर्षियोंके पूँछनेपर प्रजापति ने अनन्तरूप वासुदेव के नामोंकी संख्या कही है ७४ कि वह वासुदेव सब भूतोंके अन्तरबसता है जगत्का धाता है विधाता है और प्रभु है ७५ वह परमात्मा सब भूतोंकी मायाके विकारवाले गुणों तथा दोषोंका विस्तार करता है सर्वावरण रहित अखिलात्मा से भुवनान्तर को विस्तारित करता है समस्त कल्याणवाले गुणोंसे युक्त है और अपनी शक्तिके लेश

से भूतसर्गको आवृत्तकरता है ७६।७८ इच्छासे गृहीत किया है अभिमती युक्त बड़ा देह जिसने और साधन किया है सब जगत्का कारण जिसने ७९ वह भगवान् तेज बल ऐश्वर्य्य शक्ति आदि गुणोंका एक समूह रूप है और परोंका भी पर है ८० जहाँ कोई क्लेशादिक नहीं है और जिसके द्वारा परावरब्रह्ममें समष्टि व्यष्टिरूप ईश्वर तथा व्यक्त और प्रकटरूप ८१ सर्वेश्वर एवम् सर्वदृक् सर्ववेत्ता तथा समस्त शक्तिरूप परमेश्वर जाना जाता है वह ज्ञान है ८२ परमनिर्मल और एकरूप जिससे दीखता है और जिसके द्वारा ऐसे रूपकी प्राप्ति होती है वह ज्ञान है इनसे भिन्न अज्ञान है ८३ ॥

इति श्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यास ऋषिसंवादे आत्यन्तिको लयनाभविंशधिकशततमोऽध्यायः १२० ॥

### एकसौइकइसका अध्याय ॥

मुनिजनोंने पूछा कि हे पुरुषोत्तम अब संयोग तथा दुःख संयोगको कहो जिसको जानके हम ज्ञानयुक्तहों १ तब योगविदों में श्रेष्ठ वेदव्यासजीने उनके प्रश्नको सुनके परम प्रसन्नहो कहनेलगे २ कि हेविप्रो अब मैं भवनाशन योगके भेदको कहता हूँ जिसका अभ्यासकरके योगिजन दुर्लभमोक्षको प्राप्तहोते हैं ३ पहिले योगशास्त्र तथा इतिहास पुराण वेदको सुनके और भक्तिसे गुरुका आराधनकरके ४ एवम् आहार और योगदोषों तथा देशकालको जानके बुद्धिमानजन योगाभ्यासकरै ५ द्वंद्वसे रहितहोकरहना यवकेसत्तुओं तक मूल फल और दूधको भक्षणकरना ६ एवम् कूटेहुयेतिलोंका कणकामात्र

आहार योगसाधनमें पवित्रहै ७ क्लेश तथा दुःखयुक्तहोके  
 वा क्षुधाकालमें योग नकरना चाहिये पाखण्डयुक्त देश  
 में तथा जाड़ा उष्ण पवन शब्द वा जलयुक्त स्थानमें  
 एवम् जीर्णस्थान चौराहे तथा सर्पादि युक्त स्थानमें  
 इमशान अग्निके समीप यज्ञस्थान बंबी तथा भययुक्त  
 स्थानमें अथवा कूपकेसमीप वा शुष्कपत्तोंके समूहपर  
 योगमें युक्त न होना चाहिये ८। ११ इतने स्थानों को  
 त्यागके सूढकी तरह जो योगमें युक्तहोताहै वही योगी  
 है १२ योगमें इतने विघ्नकारी दोषहैं कि शुद्धज्ञानवाले  
 योगिजनके योगयुक्त होनेमें बधिरता जड़ता स्मरणमें  
 हानि तथा सूकता अन्धता और ज्वर तत्कालहोजा-  
 तेहैं इसकारण योगको जाननेवाले पुरुष को सर्वथा  
 शरीरकी रक्षाकरनी योग्यहै १३।१५ क्योंकि धर्म अर्थ  
 काम और मोक्षका साधन करनेवाला शरीरही है १६  
 निर्जन गुह्य शब्दरहित निर्भय पर्वत हवनस्थान अथ-  
 वा शुद्ध रमणीक एकान्त वा देवस्थान आदि उत्तम आ-  
 श्रमोंमें रात्रीके पिछले अथवा पहिले प्रहरमें और दिन  
 के पूर्व अथवा मध्यभागमें सावधान और जितेन्द्रियहो  
 आसनबांध और पूर्व तथा पश्चिमकी ओर मुखकरके  
 समस्थानपर स्थितहो १७।२१ किसीकी वांछा नकरे स-  
 त्यबोलै शुद्धरहै निद्राको त्यागै क्रोधको जीतै सबभूतों में  
 हितरखै कठोरवचनोंको सहै धीररहै कायाको समकरै  
 पैशोंको मस्तकपर तथा हाथोंको नाभिपर स्थितकरै २२  
 अथवा शांतहोके पद्मासनपर स्थितहो नासाके अगाड़ी  
 दृष्टीका स्थापनकरै २३।२४ और श्वासको रोकके प्राणा-

यामकरै मुनिरूपहोके हृदयमें मनसे इन्द्रियोंके समूहको  
 रोकै दीर्घप्राणायामकरै अधोमुखरहै और बुद्धिको चला-  
 यमान न करै २५ योगमें युक्त सोमपान करनेवाले पुरुषको  
 परमपद प्राप्त होता है जो बाह्यात्मासे परित्याग करै २६  
 और अन्तरात्मासे आराम करै वह पुरुष निश्चय मोक्ष  
 को प्राप्त हो जाता है २७ जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन  
 अवस्थाओंको त्याग जो चौथे पदमें स्थित हो और शोक  
 और बांझाका त्याग करके २८ चंचल मनको परमात्मामें  
 लगावे निदान विषयोंको त्यागके योगसिद्धिको प्रकाश  
 करै २९ और जब विषयोंसे रहित चित्त परब्रह्ममें लीन  
 होजावे तब समाधिमें योगयुक्तको परमपद प्राप्त होजा-  
 ता है ३० योगीका चित्त यदि कर्मोंमें असक्त होजावे  
 तो वह आनन्दको प्राप्त होके दुःखको प्राप्त होता है ३१  
 तीनों धामों से न्यारे चौथे पुरुषोत्तम नामवाले पद को  
 योगी प्राप्त होके मोक्षको प्राप्त होजाता है इसमें संशय  
 नहीं है ३२ योगीपुरुष चाहे पद्मासन करै वा न करे अथवा  
 नासाग्रसे दृष्टी करके देखे वा न देखे पर मन और इन्द्रि-  
 योंके संयोगसे योग करै ३३ हे मुनिश्रेष्ठो यह तो मैंने  
 मुक्तिका देनेवाला योग कहा है ३४ अब संसारकी मुक्ति  
 के हेतु और क्या सुननेकी इच्छा करते हो लोमहर्षणजी  
 बोले कि वे विप्र इस वचनको सुनके साधु साधु कहने  
 लगे और व्यासजी का पूजन कर तथा सराहके फिर  
 पूछनेके वास्ते उद्यत हुये ३५।३६ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराणभाषायां व्यास ऋषिसंवादे योगाध्यायानाम्  
 एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः १२१ ॥



## एकसौबाईस का अध्याय ॥

मुनिजनोंने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ आपके समुद्ररूपी मुखसे उत्पन्न वाणीरूपी अमृत को पानकरते हमको तृप्तिनहींहोती १ इसकारण हेमुनि मुक्तिके देनेवाले योग को विस्तार करकेकहो दो प्रकारके सांख्ययोगकोभी हम सुनने की इच्छाकरते हैं २ हे ब्रह्मन् बुद्धिमान् वेदपाठी यज्ञ करनेवाला यज्ञों में विख्यात तथानिंदा रहित पुरुष गतिको जानेबिना कैसे ब्रह्मको प्राप्तहोताहै ३ तप ब्रह्मचर्य तथा सर्वत्यागवाली बुद्धिसेपूछाहुआ सांख्य अथवा योगहमसेकहो ४ कि जिसउपायसे पुरुष मन तथा इन्द्रियों को एकाग्रकरसक्ताहै सो कहनेको आप योग्य हो ५ व्यासजीबोले कि विद्या इन्द्रियग्रह तप तथा सर्व त्याग से अन्यत्रकोई भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होसक्ता ६ पहिले ब्रह्मासे रचेहुये सब महाभूत प्राणोंकोधारण कर बहुतसे शरीरोंमें दीखते हैं ७ भूमीसे देहहोता है जलसे स्नेहहोताहै ज्योतिसे चक्षुहोतेहैं और प्राण अ-पान के आश्रय वायुरहताहै शरीरों का कोष्ठ आकाश है ८ बलमें विष्णुरहताहै कोष्ठमें अग्नि भोगनेकी इच्छा करताहै कानोंमेंदिशाहै ९ तथा जिह्वामें वाणीरूप सर-स्वतीहै कान त्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका यह पांचों ज्ञानइन्द्रिय कहाती हैं १० और येही द्वार की सिद्धि केलिये द्वारकहेहैं शब्द स्पर्श रूपरस और गंध येपांच इन्द्रियों के पृथक् पृथक् विषयहैं ११ और इन्द्रियमन के आधीन होतीहैं मन सदाभूतात्मा परमेश्वरके हृदय में स्थितहै १२ और मनही सब इन्द्रियों का ईश्वर है

नियम में तथा विसर्गमें भूतात्मारूप मन है १३ और इन्द्रिय इन्द्रियोंके विषय तथा मन स्वभावसेही चेतन रहते हैं प्राण तथा अपानरूपी वायुदेहमें स्थितरहता है १४ सत्वगुण किसी के आश्रय नहीं है सत्व तेजकी रचनाकरता है और अन्य गुणोंकी रचना नहीं करता १५ इसप्रकार षोडशगुण तथा सत्रहवां देहयुक्त रहता है हे विप्रो मनसे आत्मारूपमनमें आत्माको देखता है १६ और नेत्रों तथा सब इन्द्रियों से कुछ देखने को योग्य नहीं है १७ मनके प्रकाशहोनेपर महान् आत्माका प्रकाशहोता है शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध १८ शरीर से रहित हैं शरीरोंमें इन्द्रियों को देखते हैं पर सब देहोंमें ये कान्तिवाले प्रकट नहीं हैं १९ जो पुरुष शरीरमें इन को देखता है वह ब्रह्मरूप होजाता है २० सम्यक् विद्या भजनमें युक्त ब्राह्मण गौ हस्ती श्वान तथा चाण्डाल में जो समदर्शी है वही पण्डित है २१ और वही सबभूतों में बसता है जो एक है और महान् आत्मावाला है और उससे यह जगत् विस्तृत होरहा है २२ जो सब भूतों में अपने आत्मा को तथा सब भूतोंकी आत्माको सम देखता है वही सर्वात्मा ब्रह्मको प्राप्तहोता है २३ और जबतक आत्माको आत्मामें न जानै तबतक ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती २४ जो ऐसे निरंतर जानता है वह पुरुष अमृतपानकेलिये कल्पित कियाजाता है २५ परमात्माके पदकी इच्छाकरनेवालों तथा सर्वभूतोंके आत्माभूत २६ और सबभूतोंमें हितकरनेवाले पुरुषोंके मार्गको देखके देवता भी मोह को प्राप्त होते हैं २७ जैसे आकाश में

पक्षियों और जलमें मच्छोंकी गति नहीं दीखती तैसेही ज्ञानविदोंकी गतिभी नहीं जानी जाती २८ कालही आत्मा में आत्मासे सबभूतोंको पकता है और जिस आत्मा रूपी ब्रह्ममें काल पकता है उसको कोईभी नहीं जानता २९ वह ब्रह्म न ऊपर है न तिरछा है और न नीचा है उसको कोईभी ग्रहण नहीं कर सकता ३० पर उस ब्रह्ममें सब लोक स्थित हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है ३१ ब्रह्मके कारणको मनका वेग भी नहीं पहुँच सकता ३२ और वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है और स्थूलसे भी स्थूल है उस ब्रह्मरूप परमात्माके सब कहीं हाथ पैर हैं ३३ और सब कहीं नेत्र शिर और मुख और कर्ण हैं और वह सबको आवर्तन करके स्थित रहता है ३४ । ३५ वह सबभूतोंके अन्तःकरणमें बहुतकाल स्थित रहता है पर दीखता नहीं ३६ वह क्षर तथा अक्षररूप दो प्रकारकी आत्मावाला है क्षररूपसे सबभूतोंमें स्थित है और मोक्षरूपसे अक्षर है ३७ वह हंसरूप ब्रह्म परमद्वारमें जाके सबस्थावर जङ्गमभूतोंमें स्थित रहता है और अवश है ३८ ऋषिकल्पित शरीर धारी नरोंके संचयसे उसे ऋषिजन हंस कहते हैं ३९ वह हंसनामवाला क्षर है और कूटस्थ अक्षर है वह क्षररूप विद्वान् अक्षरको प्राप्तहोके जन्ममें प्राणोंको त्याग देता है ४० व्यासजी बोले कि हे विप्रो तुम्हारा पूछा हुआ सांख्य ज्ञानसे युक्त योग मैंने कहा ४१ और अब इससे उपरान्त योगकृत्य और बुद्धिमन एवम् सब इन्द्रियोंके एकत्वको कहूंगा ४२ आत्माको व्याप्त होनेवाले ज्ञानको उत्तम ज्ञान कहते हैं वह उपशान्त ब्रह्मचर्य्य और

अध्यात्मशील तथा आत्माराम से युक्त होके तथा पवित्र कर्मवाली बुद्धिसे जाननेयोग्य है ४३। ४४ काम क्रोध लोभ मोह और स्वप्न इन पांच योग दोषों को त्याग दे क्रोधको शान्ति से जीतै कामको व संकल्पों को बर्जके जीतै ४५। ४६ सतके सेवनेसे निद्राको जीतै धारणासे शिश्न अर्थात् लिंगकी रक्षाकरै ४७ नेत्रोंसे हाथ पैर की रक्षाकरै, नेत्र और कानोंकी मनसेरक्षाकरै मनको वाणीके कर्षणसे रक्षाकरै प्रमाद रहितहोके भय को त्यागदे और बुद्धिमानों के संग पाखण्ड का वर्त्तव नकरे ४८। ४९ इसप्रकार इनयोगदोषोंको तंद्वारहितहोके जीतै और गौ देवता ब्राह्मणको नमस्कारकरै तथा हिंसा में मनको युक्त न करै ५० तब शुद्ध तेजमय तथा सर्व रसवाले ब्रह्मको प्राप्तहोके स्थावर जंगमभूतोंको देखै ५१ ध्यान अध्ययन ग्रहणकरना सत्य लज्जा कोमलता क्षमा शौचता आत्माकी शुद्धि और इन्द्रियों के रोकने से तेजबढ़ता है ५२ और मनके पापों को दूरकरता है और सब भूतोंमें लब्धि तथा अलब्धिसे समरहता है ५३ फिर वह पापोंसे रहित तेजवाला लब्धाहार जि- तेन्द्रिय पुरुष काम क्रोधको बशीकरके ब्रह्मपद को से- वताहै ५४ सावधानहोके इन्द्रियों तथा मनको एकाग्र करै और पहिली तथा पिछिली रात्रीमें मनको आत्मा में धारणकरै ५५ पंचइन्द्रियोंसे युक्त जीवकी यदि एक इन्द्रियभी खण्डित होजाय तो बुद्धिभी इसप्रकार स्व- लितहोजाती है जैसे चर्मकी मसकसे जलभिरता है इसवास्ते पहिलेकुछ आजीवकी तरह संकोचयुक्त मन

को धारण करै ५६ योगको जाननेवाला पुरुष श्रोत्र चक्षु  
जिह्वा और घ्राणको रोकके मनमें स्थापन करै ५७ और  
सब कर्मादिक संकल्पोंको दूर करके पांचों इन्द्रियों और  
मनको हृदयमें धारण करै ५८ जब पांचों इन्द्रिय श्रोत्र  
चक्षु जिह्वा घ्राण त्वक् और छठा मन आत्मामें धारण  
होजावे तब योगकी स्थापनाको प्राप्त होके ब्रह्मका प्रकाश  
होता है ५९ और तभी धूमरहित अग्नि सूर्यके प्रकाश  
एवम् आकाशमें विजलीकी तरह आत्मा में प्रकाश  
दिखता है ६० और सब संसारको आत्मासे व्याप्त हु-  
आ देखता है ऐसा देखनेवाला महात्मा तथा सब भूतों  
का हित चाहनेवाला ६१ ब्रह्मासे परिमाण किया हुआ  
कालपर्यन्त सन्देह रहित होके उस ब्रह्मका आचरण  
करता है ६२ एकान्त में स्थित रहके अकेला ही अक्षर  
की समताको प्राप्त हो ६३ मोहसे पान श्रवण दर्शना-  
दिकोंमें प्रवृत्त न रखे और अपराधोंसे रहित शीत उष्ण  
वायु ६४ और सूर्यकृत उपतापको योगसे सहन करै ऐसा  
करनेसे समताद्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है ६५ ऐसे  
जों लोकमें परिचार करै और पर्वतके शिखरपर अथवा  
देवतासे अधिष्ठित वृक्षके नीचे युक्त होके योग करै ६६  
और इन्द्रियोंके समूहको कोष्ठ में रोकके तथा मनको  
रोकके एकान्तमें योगका चिन्तन करै वह सब पापोंको  
जीत लेता है ६७ जिस किसी उपायसे मनको जीतके  
योगको सेवे वही उसका विमलतप है ६८ एकाग्र होके  
वास करनेके लिये शून्यस्थानको देखे और कर्मांमें मन  
को युक्त करै ६९ कोपादिकोंको त्यागके धर्मकी लब्धीमें

युक्त रहै निंदा तथा नमस्कारादिकोंमें सम रहै ७० अर्थात् न तो निन्दामें दुःख करे और न स्तुति में आनन्दमाने और शुभ अशुभ कर्मोंमें भी युक्त न हो सबकाल में सम रहै ७१ लाभ होनेमें आनन्द न हो और अलाभमें चिन्तान करे और सब भूतोंमें सम रहै यही धर्म ईश्वर पर रहै ७२ ऐसे स्वस्थ आत्मावाले सर्वत्र समदर्शि साधुको छः महीनोंमें शब्द ब्रह्म प्राप्त हो जाता है ७३ वेदमार्गमें युक्त होके लोहा पत्थर और सुवर्णको सम जानै और मोह से युक्त वाक्यको उच्चारण न करे ७४ तो मनुष्य ऋषियों तथा श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग से परमगतिको प्राप्त हो जाता है ७५ जो बुद्धिमान् पुराण तथा अजररूप परमात्मा का मनसे बँधी हुई इन्द्रियों से इसलोकमें विचार करते हैं ७६ वे उस ब्रह्म की अनावृत गति अर्थात् जहांसे फिर आगमन न हो सके उसलोकको प्राप्त होते हैं ७७॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराण भाषायां व्यास ऋषिसंवादे सांख्ययोगो

नामद्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः १२२ ॥

### एकसौतेईसका अध्याय ॥

मुनिजनोंने पूछा कि वेदके वचनको करो और कर्मोंको त्यागो यह जो वचन है उसको आप विस्तारसे कहो कि आत्मविद्या से लोग किस दिशाको जाते हैं तथा कर्मोंसे किस दिशाको जाते हैं १ और जब विद्याकर्मके प्रतिकूल वर्तते हैं तब कहां जाते हैं व्यासजी बोले कि हे मुनिशार्दूलो जो तुमने पूछा है सो मैं संक्षेपसे क्षर अक्षर युक्त कर्म तथा विद्याको कहता हूँ २ हे विप्रो कर्म तथा विद्या गहन हैं उत्तम हैं अस्ति ऐसा वचन धर्म कहाता है

जैसेही नास्ति ऐसावचन नास्तिककहाताहै दो और  
 येही दो पन्थाकहाते हैं पर वहांभी वेद प्रतिष्ठितरहते  
 हैं ३ धर्मप्रवृत्ति लक्षणवालाहै तथा अधर्म निवृत्ति ल-  
 क्षणवालाहै ४ कर्मोंसेजीव बँधजाताहै और ब्रह्मविद्या  
 से मुक्तहोजाताहै ५ इसीकारण पारदर्शि यतिजनकर्मों  
 को नहीं करते ६ कर्मोंही से मूर्तिवाला जीव षोडशा-  
 त्मक उत्पन्नहोताहै ७ और ब्रह्मविद्यासे नित्य अव्यक्त  
 परमात्मक भगवान् प्राप्तहोताहै ८ अबुद्धिरंतनर कर्मही  
 की सराहना करतेहैं और उसी करके देहजालमें रमण  
 द्वारा कर्महीकी उपासना करतेहैं ९ जिस धर्म कर्ममेंसे  
 नैपुण्यदर्शि परमबुद्धिको प्राप्तहोतेहैं उस कर्मको वे स-  
 राहतेहैं अर्थात् कप नद्यादिकोंसे होनेवाले स्वर्गादिक  
 की सराहना करतेहैं १० और वे कर्मसे होनेवाले सुख  
 दुःख फलको प्राप्तहोते हैं ११ ब्रह्मविद्याको जो प्राप्त  
 होतेहैं वे शोच नहींकरते और न जीर्णहोतेहैं न वृद्धि  
 को प्राप्तहोते हैं १२ वह अखिल अव्यक्त पर अचल  
 ध्रुव ब्रह्महै जहां मानसकर्म से अव्यक्त मनवाला सुख  
 दुःखों से बध्यमान नहींहोता १३ और सब भूतों में  
 भिन्नता सहित रहताहै हे द्विजो ब्रह्मविद्यामय परपुरुष  
 मैंने कहा १४ हे विप्रो वह पुरुष चन्द्रमाके सूक्ष्मलोक  
 को प्राप्तहोताहै यह ऋषियोंका कथनहै आकाश में  
 चन्द्रमा को देखके वह चलायमान नहींहोता और न  
 चन्द्रलोककी परिक्रमा करताहै १५ १६ दशइन्द्रियां  
 और ग्यारहवां जीव कलाओं के भार से संभृतहुआ  
 कर्म गुणों से युक्त मूर्तिवालाहै १७ और आकाश में

चन्द्रमाकी तरह वहां देवरूपहै उसी की योगसे जीते हुये आत्मावाला क्षेत्रज्ञ जानना चाहिये १८ और वही चैतन्य गुणवाला जीवहै और सब गुणोंकी चेष्टा करता है १९ जो कुछ सप्तभुवनोंमें कल्पित किया जाता है तिससे भी बड़ा है यह क्षेत्रको जाननेवाले कहते हैं २० व्यास जी बोले कि जो कुछ प्रकृतीके विकार हैं वे क्षेत्रज्ञ कहाते हैं और जो इनको नहीं जानते वे तिससे बाहिर हैं २१ वे क्षेत्र मन तथा इन्द्रियों से ऐसे कार्य करते हैं जैसे अच्छे सजे हुये घोड़े पर दृढ़ असवार २२ इन्द्रियों से बड़ा अर्थ है अर्थों से बड़ा मन है मनसे बड़ी बुद्धि है बुद्धिसे बड़ा महान् आत्मा है २३ महत् आत्मा से बड़ा अव्यक्तरूप है अव्यक्त से बड़ा अमृतरूप है और अमृतसे बड़ा कुछ भी नहीं है यह परमगतिवाली दिशा है २४ ऐसे सब भूतों में वह गूढ़ात्मा भगवान् नहीं दीखता पर सूक्ष्मदर्शी पुरुषों को अग्रणी सूक्ष्मबुद्धि से दीखता है २५ पांचो इन्द्रियें और छठे मनको अन्तरात्मा में लीन करके इन्द्रियोंसे चित्तमें चिन्तन करे २६ और विद्यासम्पादित मनको ध्यान करके शान्त करे तब अनीश्वर प्रशान्तात्मा उस अमृतपद को प्राप्त होता है २७ फिर सब इन्द्रियोंके बश आत्मा चलित स्मृतिवाले आत्मा के प्रदान से मृत्युको प्राप्त होता है २८ पर जो विरुद्ध सिद्धसंकल्पोंसे चित्तको सत्वमें युक्त करे तो चित्त सत्वमें स्थितहोके कालको व्यतीत कर देता है २९ चित्त के प्रसादसे यतिपुरुष इसलोकमें होनेवाले शुभाऽशुभ को त्याग देते हैं ३० और प्रसन्न हुये आत्मा में स्थित हो-



के सुख को प्राप्त होते हैं प्रसाद का लक्षण यह है ३१ जैसे स्वप्नमें निद्राका सुख अथवा जैसे वायुरहित स्थानमें प्रकाशमान दीपक कम्पायमान नहीं होता ३२ ऐसे रात्रि के पूर्वा परभाग में आत्मा से आत्मा को युक्त करनेवाला तथा लब्ध हुये आहार और विशुद्धात्मा पुरुष आत्मा में आत्मा को देखताहुआ ३३ सब वेदोंके उस रहस्य को प्राप्त होता है जहांसे फिर जन्म मरण में आगमन नहीं होसक्ता ३४ यह आत्मा को निश्चय करनेवाला शास्त्र पुत्रको शिक्षादेने की तरह शिक्षादेनेवाला है और जैसे सब धर्माख्यान सब प्रत्याख्यान सब बसु हजार अमावास्या समुद्र मथने में अमृत दधि मन्थन से नवीन घृत तथा काष्ठ से अग्नि तैसेही विद्वान् पुरुषोंका ज्ञान मुक्तिका हेतु है ३५ ३७ ब्रह्मचर्यमें युक्त पुरुषों को यह पुत्रानुशासन शास्त्र वाच्य है और शांति रहित दांत अथवा तपस्वी को देना योग्य नहीं ३८ प्यारे पुत्र शिष्य और टहलकरनेवालेको यह शिक्षा देना योग्य है पर निन्दक शठ आज्ञा न करनेवाले ३९ और न्यायशास्त्रसे दग्धहुये तथा चुगलीकरनेवालेको न देना चाहिये ४० श्लाघाकरनेवाले श्लाघनीय तथा शांत और तपस्वीको ४१ यह धर्मरूप तथा अव्यक्त रहस्य देना योग्य है अन्यको नहीं ४२ इस रहस्यशास्त्रका दान रत्न और पूर्णा पृथ्वी के दानोंसे भी अधिक है तत्त्वके जाननेवालेको यही बड़ा मानना योग्य है ४३ आध्यात्मवालोंके वास्ते महर्षियोंने इसे कहा है ४४ और सब वेदान्तों में गाया है हे सत्तमो जो तुमने पूँजा सो मैंने

तुम्हारेलियेकहा ४५ अब और तुम्हारी क्याइच्छाहै सो कहो मुनिजनोंने पूछा कि अध्यात्मविद्याको विस्तारसे फिर हमसे कहो जिसमें अच्छीतरह जानलें ४६। ४९ व्यासजीबोले कि हेविप्रो जोपुरुष यहां अध्यात्मविद्या कोपढ़ते हैं उनका मैं कथनकरताहूँ आलस्यरहितहोके सुनो ५० भूमि जल ज्योति वायु आकाश ये पंचमहा-भूत सब भूतोंमें रहनेवाले हैं ५१ मुनिजनोंने पूछा कि हे तात जिसके अथवा जिसमें आकारदेहनहीं देखता उस में आकार कैसे वर्णन कियाजाताहै ५२ और इन्द्रियोंके गुणकी वहां कैसे उपलक्षणा करलेते हैं सो कहना चाहिये ५३ व्यासजीबोले कि जैसे यह आकारहै सो मैं तुम्हें दिखाताहूँ और इसको तुम अग्रबुद्धिहोके सुनो ५४ शब्द होना सुनना तथा कथन ये तीन आकाश के लक्षण हैं और प्राणचेष्टा और स्पर्श ये तीन वायुकेगुण हैं ५५ हे देवतो यहपञ्चभौतिक इन्द्रियग्राम कहा है वायुकारस स्पर्श है ज्योतिकारूप है आकाश से शब्द होताहै ५६ भूमिसे गन्धहोताहै और मन बुद्धि भूमि और तप ये आपही उत्पन्नहोते हैं ५७ दूसरेगुणों में वर्तमान नहीं होते जैसे पसारेहुये अङ्ग को कछु संकुचित करलेता है ५८ तैसेही ये गुणोंका संकोचनकरलेते हैं ऐसे श्रेष्ठ बुद्धि इन्द्रियों के समूह को प्राप्तहोता है और ऐसेही ऊर्ध्व तथा पाताललोक कहाहै ५९ जो इसकर्तव्यको वर्ते है वह बुद्धि उत्तम कहाती है ६० और दूसरेगुण आपही बुद्धिको प्राप्तहोजाते हैं तब इन्द्रियभी प्राप्त होजाती हैं और ब्रूठा मन ये सब बुद्धिके अभावमें नष्ट-

प्रायरहतेहैं ६१ पञ्चइन्द्रिय छठामन सप्तमी बुद्धि और  
 अष्टमाक्षेत्रज्ञ ये कहे हैं और ये सब नेत्रोंसे देखने के  
 लिये संशयकरते हैं ६२ बुद्धिके निश्चय करने के लिये  
 साक्षीक्षेत्रज्ञ कहा है रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण  
 ये तीन आपसे नहीं होतेहैं ६३ और सब भूतोंमें सम  
 रहते हैं जब तीनों प्रीतियुक्तहोतेहैं तब कुछ आत्मामें  
 दीखते हैं ६४ प्रयतन की तरह युक्तहुआ मनुष्य सत्व  
 गुणको धारणकरता है ६५ जो कोई मनमें संतापयुक्त  
 हो उसे रजोगुण में प्रवृत्तहुआ जानना ६६ और का-  
 या तथा मनमें मोह से युक्तहो तो अतर्कणीय और न  
 जानने योग्य तमोगुण की धारणा जानिये ६७ संहर्ष  
 प्रीति आनन्द स्थापना उष्णता प्रवेश बिनाकारण र-  
 क्षादि स्वयंप्राप्तगुण ६८ अभिमान लोभ मोह क्षमा ये  
 सब रजोगुणके चिह्नहैं और निश्चय करके रजोगुण के  
 कारण हैं ६९ मोह प्रमाद निद्रा और तन्द्रा ये तमो-  
 गुण के चिह्न हैं और येही कारण हैं ७० मनकी प्रस-  
 न्नता बुद्धिका निश्चय और प्रीतियुक्त हृदा ये तीनप्र-  
 कारकी कर्मों की प्रेरणा हैं ७१ इन्द्रियों का पृथग्भान  
 होने से बुद्धि परमआत्मा कहाती है मनुष्य की बुद्धि  
 आत्मासे आत्मावाली है ७२ और वाणी रूप पद के  
 उच्चारण करने से वही बुद्धिमनवाली है ७३ इन्द्रियोंके  
 पृथक्भानसे फिर बुद्धिक्रमणसे सुननेको प्राप्तहोतीहै  
 और आप स्पर्शरूपहोके स्पर्शकरतीहै ७४ वही बुद्धि  
 दृष्टीरूपहोके देखती है जिह्वारूपहोके रसको ग्रहणक-  
 रतीहै ७५ विघ्नरूपहोके विघ्नको करतीहै और इन्द्रिय

रूप होके इन्द्रियों को देखती है मनुष्य में स्थित बुद्धि विध्यभाव से स्थित रहके कभी प्रीतिको प्राप्तहोती है और कभी शोक को प्राप्त होती है ७६। ७७ पर सुख दुःख में कभी मोह को नहीं प्राप्त होती अपने भावों में आपही प्रवृत्त रहती है ७८ जैसे नदियों का पति समुद्र है वैसेही महानूलहरोंवाली बुद्धि सम्पूर्ण इन्द्रियादिकोंके प्रति समुद्ररूपहै ७९ जिससमय यह बुद्धि कुछ प्रार्थनाकरतीहै वहीचेष्टा सब इन्द्रियांकरनेलगती हैं ८० ऐसे समुद्ररूपी बुद्धिको जानो सम्पूर्ण इन्द्रियों में बुद्धि जो कुछ विधान करतीहै वहीहोताहै ८१ और बुद्धिही सबके मनमें सत्व रजो और तमोगुण यथार्थ क्रमसे वर्त्ततीहै ८२ जैसे रथमें चक्रहै तैसेही इन्द्रियादिकोंमें बुद्धि जानना बुद्धिमान् श्रेष्ठमनुष्योंकी बुद्धिसदा दीपकरूप होती है ८३ और यथायोगसे इच्छापूर्वक विचरतेहुयों की बुद्धि स्वभाव में कभी किसी प्रकार से मोहको नहींप्राप्तहोती ८४ कुटिलबुद्धिसे बड़ेहुये मनुष्य नाम गोचर इन्द्रियोंका विचारकरतेहुये और आत्माके विचारसे रहित अनेक तुच्छ कर्मोंसे डूबजाते हैं ८५ और अच्छेमनवाले पुरुषोंकी श्रेष्ठ बुद्धि जब विचारमें युक्तहोतीहै तब आत्मा इसप्रकार प्रकाशमान होताहै जैसे दीपकसे वस्तु ८६ सब मनुष्योंके मार्गमें चलने वाला मनुष्य सम्पूर्ण वस्तुओंको प्रकाशमान देखताहै ८७ जैसे जलमें विचरनेवाला जीव जलमें विचरता-हुआ किसी प्रकारसे नहीं डूबता तैसेही उस महान् ब्रह्ममें यहां जो कर्महोताहै ८८ उसको त्यागके सम्पूर्ण

भूतोंका भूतात्मा ब्रह्मगुण साम्यतासे सत्यआत्माद्वारा गुणोंमें बसताहुआ किसीप्रकार से लेपको नहीं प्राप्त होता ८९ सब कालमें सगुणमें वर्ततेहुये आत्मा को गुणवाला न जाननाचाहिये ९० और सम्पूर्ण गुणोंसे रहित सत्व और सूक्ष्मरूपसे विचरताहुआ अक्षररूप ९१ वह एक आत्मा सम्पूर्ण गुणोंको रचताहै ये सब गुण मायामें युक्तरहतेहैं और आत्मा इनके कर्तव्यमें लीननहींहोता ९२ जैसे शुद्धसुवर्णम रूपकाभान होताहै और जैसे गूलरके फलमें जीवोंका वासहै तैसेही उस ब्रह्ममें सब जीवोंकी स्थिति है ६३ ॥

इतिश्रीआदिब्रह्मपुराणभाषायांत्रयविंशत्यधिकश-

ततमोऽध्यायः १२३ ॥

### एकसौचौबीस का अध्याय ॥

व्यासजीबोले कि वह परमात्माईश्वर सम्पूर्णगुणों को रचताहै और आपक्षेत्रज्ञ अर्थात् अधिष्ठातारूप सम्पूर्णगुणोंके विकारको प्राप्तकरताहुआ उदासीन तथा अनीश्वरकीतरह रहताहै १ इस सम्पूर्णजगत्को वह स्वभावसेयुक्त रचताहै और उनकेगुणोंको रचता है जैसे उनमें स्थित होनेवाले गुणोंसे उनकावस्त्र बुना जाताहै २ और प्रवृत्तहुयेको उसीतरह प्रवृत्तकरदेता है जो इन्द्रियादिकोंके बशमेंनहीं हैं वे निवृत्तकी तरह हैं ३ ऐसेदोनों प्रकारके मनुष्योंमें वह आत्मा इसीविधानसे स्थित रहताहै ४ जीवके अज्ञानका महान् सन्देहरहताहै आदि अंतसेरहित उस आत्माका जोहृदय में बुद्धिसे ५ चिन्तवनकरते हैं वे सुखकोप्राप्तहो सन्देह

से रहितहुये पारहोजाते हैं ६ और जो चंचलरहते हैं और किसी प्रकारसे इन्द्रियादिकोंसे तृप्तनहींहोते एवम् छलमें विचरतेहैं वे उस आत्माको नहींप्राप्तहोते ७ जो शुद्धप्रकारसे केवल आत्माके ज्ञान और अपनीबुद्धिसे सबभूतोंकी गतिको जानते हैं ८ वे उस ब्रह्ममें अपना आवेशकरके उत्तमपदको प्राप्तहोते हैं ९ जन्म को छुटानेवाला ब्रह्मज्ञान परसेभी परायण ब्राह्मण को विशेषकरके धारणकरना चाहिये १० इसको जानके मनुष्य बुध अर्थात् पण्डितहोजाता है ११ श्रेष्ठबुद्धिवाले ज्ञानवान् मनुष्य इस ज्ञानको जानके समस्त भगडों से छूटजाते हैं जैसे मूर्खजनों को महान् भय होता है तैसे विद्वान्पुरुषको नहींहोता १२ विद्वानोंकी श्रेष्ठबुद्धि जो आत्माको पहिचानतीहै वैसे अन्यबुद्धिनहींहै १३ संसारमें निन्दाकरनेवाली बुद्धितो बहुतसे मनुष्योंकी है परन्तु आत्माको जाननेवाली बुद्धि पण्डितजनोंकीही है १४ जो किञ्चित्मात्रभी ज्ञानको प्राप्तहोजाताहै पहिलेकरेहुये कर्मोंको श्रेष्ठकर्मोंसे दग्धकरदेता है १५ और प्रिय तथा अप्रियकर्म की कुछइच्छा नहींरखता वह परमपदको प्राप्तहोताहै १६ मुनिजनोंने कहा कि हे भगवन् जिसधर्मसेपरे धर्म तुम न देखतेहो और जो सम्पूर्णभूतोंमें अतिश्रेष्ठहो उसको आप हमारेलिये कहो १७ व्यासजीबोले कि हे मुनिसत्तमो तुम्हारेलिये मैं पुरातन और ऋषियोंसे स्तुत धर्मको कहताहूँ उस सम्पूर्णधर्मोंसे युक्तधर्मको तुमसुनो १८ बलकरनेवाली इन्द्रियोंको तत्त्वसहित बुद्धिसे बशमेंकरै जैसे अपने

पुत्रोंको पितावशमें करताहै १९ मनसे परमतपवाला ज्ञानी जो इन्द्रियोंको एकाग्रकरताहै वहीसम्पूर्ण धर्मोंसे श्रेष्ठ पर धर्म कहाता है २० पांचो इन्द्रियों और ठठेमनको ब्रह्मविद्यासे जो रोकताहै वह आत्मामेंतृप्त हुआ ज्ञानी कहाताहै २१ और गोचर इन्द्रियोंसे निवृत्तहुआ अपने सकालमें स्थितहोता है वह आत्मासे परमअचल आत्मा को जानता है २२ ऐसे श्रेष्ठबुद्धिवाले जो ब्राह्मणहैं वे उस सर्वात्मा और महान् आत्माको धूमासे रहित प्रकाशमान अग्निकीतरह प्राप्तहोते हैं २३ जैसे फल और पुष्पोंसेयुक्त और महान् शाखाओंवाला महान् वृक्ष नहीं जानताहै किमेरे पुष्पकहां हैं और फलकहां हैं २४ ऐसेही यह जीव रूप आत्माको नहीं जानताहै कि मैं कहां जाऊंगा और कहांहूं इसवास्ते यह ब्रह्मविद्या जरूर जाननी चाहिये २५ पर अभक्त दुष्टब्राह्मण और श्रद्धारहितकोकभी न देनी चाहिये २६

इति श्री आदिब्रह्मपुराणभाषायां सांख्यसंवादे चतुर्विंशत्यधिक

शततमोऽध्यायः १२४ ॥

### एकसौपच्चीसका अध्याय ॥

लोमहर्षणजीबोले कि हेद्विजो इसप्रकार पहिले व्यासमुनिने शुद्ध अठारहदोषोंसे रहित सारतर अर्थात् अत्यन्त सारवाला पवित्र मलरहित नानाशास्त्र सम्बन्धीवाणी तथा शुद्धपदों और शान्तशब्दोंसेयुक्त पूर्ण पक्षकी उक्तिवाले और सिद्धान्तसे युक्त पुराण को यथा न्याय सुनाकरके विश्रामकिया १।३ और वे मुनिवरवेदसंमित आद्यरूप ब्रह्मके कथनकरनेवाले तथा सबबां-

द्वितफलको देनेवाले पुराणको सुनके ४ और आनन्दपूर्वक प्रसन्नहोके बारम्बार आश्चर्ययुक्तहो व्यासजीको सराहने लगे और आनन्दहोके बोले कि ५ हे मुनिश्रेष्ठ आपने श्रुति सम्मित तथा सबप्रकारसे फलको देनेवाले और सब पापोंके हरनेवाले परमपुराण को कहा और सब विद्यास्थानोंमें आपसे कुछ अविदित नहीं है ६।७ हे महाभाग आप सर्वज्ञ और देवताओंमें वृहस्पतिवत् हैं और हम आपको महाबुद्धिवाला ब्राह्मण तथा महामुनि मानते हैं ८ आपने वेदोंके अर्थ भारतमें प्रकट किये हैं और हे महामुने आपके गुणोंको कहनेको यहां कौन समर्थ है ९ आपने चारोंवेद तथा सांख्य व्याकरणादि अध्ययनकरके भारतशास्त्रकिया इसलिये ज्ञानात्मरूप आपको नमस्कार है १० हे व्यास हे विशालबुद्धिवाले हे खिलेहुये कमलकेपत्तों केसे नेत्रोंवाले आपने भारतरूपी तैलसे ज्ञानमयदीपक प्रकाशकिया आपको नमस्कार है ११ आपने अज्ञानरूपी अँधेरेसे युक्त पुरुषके चक्षुओंको ज्ञानरूपी अंजनशलाकासे उन्मीलितकिया इसलिये श्रीगुरुरूप आपको नमस्कार है १२ निदान जैसे वे सब आयेथे तैसेही कृतकृत्यहोके अपने २ आश्रमोंको गये हे मुनिश्रेष्ठो मैंने वह सब तुमसे कहा १३ हे द्विजसत्तमो जो २ तुमने प्रश्नपूछा सो सब व्यासजीकी कृपासे मैंने तुमसे कहा १४ सबपापोंको नाशकरनेवाले इसपुराणको गृहस्थीयति तथा ब्रह्मचारीको सुनके धारणकरना योग्य है १५ धर्मपरवर्णों ब्राह्मणादिकों संहितावालों तथा कल्याणकी इच्छा करनेवालोंको भी यत्नसे यह पु-



राण श्रवणकरनायोग्यहै १६ इसपुराणके श्रवणसे ब्राह्मणविद्याको प्राप्त होताहै क्षत्रियरणमें जयको प्राप्त होताहै वैश्य अक्षयधनको प्राप्तहोताहै और शूद्रजन सुखको प्राप्तहोताहै १७ मनुष्य इसे श्रवणकरके जिस जिस कामनाका ध्यानकरताहै उस २ कामनाको प्राप्त होता है इसमें संशयनहीं १८ यहपापोंको नाशकरनेवाला वैष्णवपुराण सब शास्त्रोंमें श्रेष्ठहै और पुरुषार्थको उपपादन करनेवालाहै १९ यह वेदसम्मित पुराण मैंने तुमसे कहा और इसके सुननेसे दोष तथा पापोंके समूह नाशको प्राप्तहोते हैं २० प्रयाग पुष्कर कुरुक्षेत्र आदिकेव्रत तथा स्नानसे जो फल प्राप्तहोताहै सोइस पुराणके श्रवणसे होताहै २१ इसके हवनसे एकहीवर्षमें फलकी प्राप्तिहोतीहै यह महाब्रह्महै इससे एकबार श्रवणसेही फलकी प्राप्तिहोतीहै २२ माघशुक्लाद्वादशीको यमुनाजलमें स्नानकरके और मथुरामें हरिकोदेखके जो फल प्राप्तहोताहै सो सावधानहोके इसपुराणको कीर्तन करनेसे होताहै २३ हेविप्रो इसपुराणको सुनके जो उसके फलको केशवके अर्पण करते हैं वे मोक्षको पाते हैं और जो किसीफलको देखके कर्मकरते हैं २४ वे उसीफलको प्राप्तहोते हैं जो पढ़ते हैं तथा श्रवणकरते हैं वेभी फलको प्राप्तहोते हैं २५ और जो श्रद्धासहितनित्य वेदसम्मित इसपुराणकोपढ़ते अथवा श्रवणकरते हैं वे हरिके भुवनको प्राप्तहोते हैं २६ जोब्राह्मण श्रद्धासहित पर्वतपर स्थितहोके एकादशी अथवा द्वादशीको इसपुराणको सुनतेहैं वे विष्णुके लोककोप्राप्त

होते हैं २७ इस आयु तथा सुखके देनेवाले व कीर्ति तथा बलबढ़ानेवाले और पुष्टिके देने वाले पुराण को सुनके नरसबमें प्रधानहोजाता है २८ जो विद्वान्पुरुष इसीको श्रेष्ठजानके तथा श्रद्धाकरके त्रिकालपढ़ते हैं वे सबबां-छितफल को प्राप्तहोजाते हैं २९ रोगसे पीड़ित रोगसे छूटजाता है बंधाहुआ पुरुष बन्धनसे छूटजाता है और भयभीत पुरुष भयसे छूटजाता है तथा घोर रूपवाले घोररूपसे छूटजाते हैं ३० जातिका स्मरण विद्या पुत्रा-दिक बुद्धि पशु आदि धारणा तथा धर्म अर्थ काम और मोक्षको पुरुष प्राप्तहोता है ३१ निदान जिसजिस काम-नाका ध्यानकरके कोई यजनकरता है तिसतिस कामना को प्राप्तहोता है इसमें संशय नहीं ३२ जो मनुष्य शुद्ध होके और स्वर्ग तथा मोक्ष के देनेवाले विष्णु तथा लोकगुरुको भक्तिसे नमस्कारकरके इसपुराणको श्रवण करता है वह इसलोकमें सुखोंको भोगके और पापोंको दूरकरके दिव्य सुखकी प्राप्तिवाले स्वर्गलोकमें जाता है ३३ और पीछे हरिके विमलपदको प्राप्तहो प्राकृत गुणोंसे मुक्तहोजाता है ३४ इसकारण विप्रवर तथा धर्म में रत और मुक्तिके मार्गकी इच्छावाले तथा क्षत्रिय जनोंको सबकालमें ३५ वैश्यजनों को दिन प्रतिदिन तथा श्रेष्ठकुलमें होनेवाले शूद्रजनों और धार्मिकपुरुषों को ३६ धर्मार्थ काम मोक्षके देनेवाला यह शास्त्र श्रवण करना योग्य है ३७ यह धर्म में बुद्धि देनेवाला है और परलोकमें गयेहुये उत्तमोंका यह बन्धुरूप है जो अर्थ स्त्रीजनोंमें सेव्यमान तथा निपुण हैं वे इसके प्रभावको

नहीं प्राप्त होते हैं और न स्थिरताको प्राप्त होते हैं ३८  
 धर्मसे मनुष्य राज्य को प्राप्त होते हैं धर्मसेही स्वर्गको  
 प्राप्त होते हैं धर्मसेही आयु तथा कीर्तिको प्राप्त होते हैं  
 और धर्मसेही सब सुखकी प्राप्तिको प्राप्त होते हैं ३९  
 धर्मही मनुष्यका माता पिता है और परलोकमें धर्मही  
 मनुष्य का सखा अर्थात् मित्र है यह श्रेष्ठरहस्य पुराण  
 वेदोंसे सम्मित है इसलिये पापमतिवाले तथा नास्तिक  
 को विशेषकरके यह न देना चाहिये ४० ऐसे परमपुराणे  
 तथा पापोंको नष्ट करनेवाले और धर्मकी वृद्धि करनेवाले  
 पुराणको मैंने कहा और यह परमरहस्य तुमने सुना  
 है मुनिजनो मुझे अब आज्ञादो मैं जाता हूँ ४१ ॥

इति श्री आदिब्रह्मपुराणभाषायां स्वयम्भूक्तपिसंवादे पुराणप्रदत्त  
 नामपञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः १२५ ॥

इति बेरीनिवासिरविदत्त अनुवादित आदिब्रह्मपुराण  
 भाषा समाप्तः ॥

मुन्शी नवलकिशोर (सी, आई, ई) के छापेखाने में छपा  
 माह जनवरी सन् १८९१ ई० ॥

कापी राइट महफूज है वहक इस छापेखानेके ॥

